

NAMAZ KE AHKAAM (GUJARATI)

રસાઈલે અત્તારિયા (હિસ્સા અવલ) 

(હ-ઠઠી.)

નમાઝ કે અહકામ



શૈખે તરીકત, અમીરે અહલે સુન્નત, બાનિયે દા'વતે ઈસ્લામી

હઝરતે અલ્લામા મૌલાના અબૂ બિલાલ

મુહમ્મદ ઇલ્યાસ અત્તાર કાદિરી રઝવી دامت بركاته
العالیه

વુજૂ કા તરીકા
1

વુજૂ ઔર સાઈન્ધ
57

ગુસ્લ કા તરીકા
81

ફેઝાને અઝાન
108

નમાઝ કા તરીકા
137

મુસાફિર કા નમાઝ
233

કઝા નમાઝો કા તરીકા
253

નમાઝે જનાઝા કા તરીકા
278

ફેઝાને જુમુઆ
299

નમાઝે ઈદ કા તરીકા
325

મ-દની વસિયત નામા
336

ફતિહા કા તરીકા
354

مكتبة
الدينه
(مجموعه اسلامي)
SC1286

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ أَمَا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ط

کتاب پڑھنے کی دُعا

अज : शैषे तरीकत, अभीरे अडले सुन्त, भानिये द्वा'वते धस्वामी, उजरेते अलवामा

मौलाना मुहम्मद धव्यास अतार कादिरि २-जवी दाढत बरकतुहुं अल्लिहे

दीनी क्ताब या धस्वामी सबक पढने से पडले जैल में दी दुई
दुआ पढ लीजिये. ओ कुए पढेंगे याद रहेगा. दुआ येड है :

اللَّهُمَّ افْتَحْ عَلَيْنَا حِكْمَتَكَ وَأَنْشُرْ عَلَيْنَا رَحْمَتَكَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

तरजमा : ओ अल्लाह एउ जल ! हम पर धल्लो हिकमत के दरवाजे फोल दे
और हम पर अपनी रहमत नाजिल करमा ! ओ अ-जमत और बुजुर्गी वाले.

(المُسْتَفْرَق ج ١ ص ٣٠ دارالفكر بيروت)

नोट : अव्वल आभिर अेक अेक बार दुइए शरीफ पढ लीजिये.

तालिबे
गमे मदीना
भकीअ व मज्किरत



13 शव्वालुल मुकर्रम, 1428

क्यामत के रोम हसरत

इरमाने मुस्तफ़ा : صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : सब से ज़ियादा हसरत
क्यामत के दिन उस को होगी जिसे दुन्या में धल्लम हासिल करने का
मौकअ मिला मगर उस ने हासिल न किया और उस शअ्स को
होगी जिस ने धल्लम हासिल किया और दूसरों ने तो उस से सुन
कर नइअ उठाया लेकिन उस ने न उठाया (या'नी धस पर अमल न
किया).

(تاريخ دمشق لابن عساکر، ج ٥١ ص ١٣٨ دارالفكر بيروت)

क्यामत के जरीदार मु-तवज्जेह हों

क्ताब की तबाअत में नुमायां जराबी हो या सइहात कम हों या बाधन्दिंग
में आगे पीछे हो गअे हों तो मक-त-बतुल मदीना से रुजूअ इरमाधये.

મજલિસે તરાજિમ (દા'વતે ઈસ્લામી)

યેહ કિતાબ (નમાઝ કે અહકામ)

શૈખે તરીકત, અમીરે અહલે સુન્નત, બાનિયે દા'વતે ઈસ્લામી હઝરતે અલ્લામા મૌલાના અબૂ બિલાલ મુહમ્મદ ઈલ્યાસ અતાર કાદિરી ર-ઝવી ઝિયાઈ رَبِّكَاتَهُمُ الْغَابِي ને ઉર્દૂ ઝબાન મેં તહરીર ફરમાઈ હૈ. મજલિસે તરાજિમ (દા'વતે ઈસ્લામી) ને ઈસ કિતાબ કો ગુજરાતી રસ્મુલ ખત મેં તરતીબ દે કર પેશ કિયા હૈ ઓર મક-ત-બતુલ મદીના સે શાએઅ કરવાયા હૈ.

ઈસ કિતાબ કો ગુજરાતી રસ્મુલ ખત મેં તરતીબ દેતે હુએ દર્જે ઝૈલ મુઆ-મલાત કો પેશે નઝર રખને કી કોશિશ કી ગઈ હૈ :

(1) જહાં જહાં તલફ્ફુઝ કે બિગડને કા અન્દેશા થા વહાં તલફ્ફુઝ કી દુરુસ્ત અદાએગી કે લિયે જુમ્હોં મેં ડેશ (-) ઓર સાકિન હર્ફ કે નીચે ખોડા () લગાને કા એહતિમામ કિયા ગયા હૈ.

(2) ઉર્દૂ મેં લફ્ફ કે બીચ મેં જહાં ઈ સાકિન આતા હૈ ઉસ કી જગહ ગુજરાતી મેં સિંગલ ઈન્વર્ટેડ કોમા (') ઈસ્તિ'માલ કિયા હૈ. મ-સલન مَسْلَمَة (દા'વત, ઈસ્તિ'માલ) વગૈરા.

ઈસ કિતાબ મેં અગર કિસી જગહ કમી બેશી યા ગ-લતી પાએં તો મજલિસે તરાજિમ કો (બ ઝરીઅએ મક્તૂબ, E-mail યા SMS) મુત્તલઅ ફરમા કર સવાબ કમાઈયે.

હુરૂફ કી પહચાન

ફ = ف	પ = پ	બ = ب	ભ = ب	ઝ = ز
સ = س	હ = ه	ટ = ت	થ = ث	ત = ث
ડ = د	ધ = ذ	ર = ر	ઝ = ز	જ = ج
ઠ = ث	ડ = د	ધ = ذ	દ = د	ખ = خ
ઝ = ز	ઠ = ث	ડ = د	ર = ر	ઝ = ز
ઝ = ز	સ = س	શ = ش	સ = س	ઝ = ز
ફ = ف	ગ = غ	ઝ = ز	ઝ = ز	ત = ط
ધ = ذ	ગ = غ	ખ = خ	ક = ك	ક = ق
હ = ه	વ = و	ન = ن	મ = م	લ = ل
ઈ = ع	ઈ = ا	ઝ = ز	ઝ = ز	ચ = ي

રાબિતા : મજલિસે તરાજિમ (દા'વતે ઈસ્લામી)

મક-ત-બતુલ મદીના, સિલેક્ટેડ હાઉસ, અલિફ કી મસ્જિદ કે સામને,

તીન દરવાઝા, અહમદઆબાદ-1, ગુજરાત, ઈન્ડિયા

MO. 9374031409 E-mail : translationmaktabhind@dawateislami.net

વમાઝ કે અહકામ

(દ-નફી)

(રસાઈલે અતારિયા હિસ્સએ અવ્વલ)

અગર આપ અઝ અવ્વલ તા આખિર મુકમ્મલ પઠ લેંગે તો ﷺ આપ કી બે શુમાર ગ-લતિયાં ખુદ બ ખુદ આપ કે સામને આ જાએંગી. ઈસ મજમૂએ મેં શૈખે તરીકત, અમીરે અહલે સુન્નત હઝરતે અલ્લામા મૌલાના અબૂ બિલાલ મુહમ્મદ ઈલ્યાસ અતાર કાદિરી رَمَضَانَ بِرَكَاتِهِمُ الْعَالِيَةِ કે દર્જે ઝૈલ 12 રસાઈલ હેં :

1	વુઝૂ કા તરીકા	સફહા 1
2	વુઝૂ ઔર સાઈન્સ	સફહા 59
3	ગુસ્લ કા તરીકા	સફહા 83
4	ફેઝાને અઝાન	સફહા 111
5	નમાઝ કા તરીકા	સફહા 141
6	મુસાફિર કી નમાઝ	સફહા 221
7	કઝા નમાઝોં કા તરીકા	સફહા 239
8	નમાઝે જનાઝા કા તરીકા	સફહા 265
9	ફેઝાને જુમુઆ	સફહા 285
10	નમાઝે ઈદ કા તરીકા	સફહા 311
11	મ-દની વસિયત નામા	સફહા 321
12	ફાતિહા ઔર ઈસાલે સવાબ કા તરીકા	સફહા 337

नाम किताब :- नमाज के अहकाम (उ-नई)
 मुअल्लिफ :- शैभे तरीकत अभीरे अडले सुन्नत, उजरते
 अल्लामा मौलाना अबू बिलाब मुहम्मद
 ईलयास अत्तार कादिरि र-उवी رحمۃ اللعالمین
 नाशिर :- मक-त-अतुल मदीना, अहमदआबाद -1

मक-त-अतुल मदीना (गुजरात) की मुप्तालिफ़ शाणें

- ❁ मोडासा : सुका बाजार, मोडासा.
- ❁ सूरत : वलियाबाई मस्जिद, प्वाज दाना दरगाह के पास.
- ❁ जामनगर : पांय छाटडी.
- ❁ गांधीधाम : सपना नगर मदीना मस्जिद के पास.
- ❁ धोलका : ताजदारे मदीना मस्जिद के सामने, टावर बाजार.

मक-त-अतुल मदीना (हिन्द) की मुप्तालिफ़ शाणें

- ❁ मुम्बई : 19-20, मुहम्मद अली रोड, मांडवी पोस्ट ऑफिस
के सामने, मुम्बई, (महाराष्ट्र) 02223454429
- ❁ नागपूर : सैफ़ी नगर रोड, गरीब नवाज मस्जिद के सामने,
मोमिन पूरा, नागपूर, (महाराष्ट्र) 09373110621
- ❁ अजमेर : 19/216 इलाहे दारैन मस्जिद के करीब, नल्ला
बाजार, स्टेशन रोड, (राजस्थान) (0145) 2629385
- ❁ डुबली : A.J मुडोल कोम्पलेक्स, A.J मुडोल रोड,
ओल्ड डुबली, (कर्नाटक) 08363244860
- ❁ डैदराबाद : मुगल पूरा, पानी की टंकी, डैदराबाद,
(तेलंगाना) (040) 2 45 72 786
- ❁ कानपूर : मस्जिद मज्दूमे सिमनानी, डिपटी का पडाव,
गुर्बत पार्क, कानपूर (यू.पी.) 09335272252
- ❁ बनारस : अल्लू की मस्जिद के पास, अम्बाशाह की तक्या,
मदन पूरा, बनारस, (यू.पी.) 09369023101

www.dawateislami.net

ईहरीख

उन्वान	संख्या	उन्वान	संख्या
पुजू का तरीका	1	पुजू के 29 मुस्तलहब्बामत	14
दुइद शरीफ की इजीलत	2	पुजू के 16 मकरुडामत	17
उस्माने गनी का ईशके रसूल	2	धूप के गर्म पानी की वजाहत	18
गुनाह जउने की खिकायत	4	मुस्ता'मल पानी का अहम मस्अला	18
पुजू का सवाब नहीं मिलेगा	5	मिट्टी मिले पानी से पुजू डोगा या नहीं	19
सारा बदन पाक हो गया !	5	पान पाने वाले मु-तवज्जेह हों	19
आ पुजू सोने की इजीलत	6	तसव्वुफ का अजीम म-दनी नुस्बा	21
आ पुजू भरने वाला शहीद है	6	जम्म वगैरा से पून निकलने के 5 अहकाम	22
मुसीबतों से खिकायत का नुस्बा	6	सर्दी से आ'जा इट जओं तो.....	23
हर वक्त आ पुजू रहने के सात इजाइल	6	पुजू में भेइंदी और सुरमे का मस्अला	23
दुगना सवाब	7	ईन्जेकशन लगाने से पुजू टूटेगा या नहीं?	24
सर्दी में पुजू करने की खिकायत	7	दुपती आंभ के आंसू	24
पुजू का तरीका (ह-नफी)	8	पाक और नापाक रतूअत	25
पुजू के बये हुअे पानी में 70 बीमारियों से शिक	11	छाला और कुडिया	25
जन्नत के आहों दरवाजे खुल जाते हैं	12	"कै" से पुजू कब टूटता है ?	25
नजर कभी कमजोर न हो	12	हंसने के अहकाम	26
पुजू के आ'दतीन बार सुरअे कद्र पढ़ने के इजाइल	12	क्या सत्र देपने से पुजू टूट जाता है ?	26
पुजू के आ'द पढ़ने की दुआ	12	गुस्ल का पुजू काफी है	27
पुजू के आ'द येह दुआ भी पढ़ लीजिये	13	थूक में पून	27
पुजू के चार इराइज	13	पुजू में शक आने के 5 अहकाम	28
धोने की ता'रीफ	13	सोने से पुजू टूटने न टूटने का बयान	28
पुजू की 14 सुन्नतें	14	पुजूअे अम्बियाअे किराम और नींद मुबारक	30

ઉત્વાન	સફલા	ઉત્વાન	સફલા
મસાજિદ કે વુઝૂખાને	31	બિગૈર ઓપરેશન કે વિલાદત હો ગઈ !	56
ઘર મેં વુઝૂખાના બનવાઈયે	31	વુઝૂખાનએ અત્તાર	58
વુઝૂખાના બનવાને કા તરીકા	32	વુઝૂ ઓર સાઇન્સ	59
વુઝૂખાને કે 9 મ-દની ફૂલ	33	દુરુદ શરીફ કી ફઝીલત	60
જિન કા વુઝૂન રહતા હો ઉન કે લિયે 6 અહકામ	34	વુઝૂ કી હિક્મતેં સુનને કે સબબ કબૂલે ઈસ્લામ	60
સાત મુ-તફરિકાત	37	મગરિબી જર્મની કા સેમીનાર	61
આયત લિખે હુએ કાગઝ કે પિછલે		વુઝૂ ઓર હાઈ બ્લડ પ્રેશર	62
હિસ્સે કે છૂને કા અહમ મસ્મલા	38	વુઝૂ ઓર ફાલિજ	62
બે વુઝૂ કુરઆને મજીદ કો નહીં છૂસકતા	38	મિસ્વાક કા કદ્રદાન	63
વુઝૂ મેં પાની કા ઈસરાફ	39	કુવ્વતે હાફિઝા કે લિયે	64
જારી નહર પર ભી ઈસરાફ	39	મિસ્વાક કે બારે મેં દો અહાદીસે મુબા-રકા	64
આ'લા હઝરત કા ફતવા	40	મુંહ કે છાલે કા ઈલાજ	65
મુફતી અહમદ યાર ખાન કી તફસીર	40	ટૂથ બ્રશ કે નુક્સાનાત	65
ઈસરાફ ન કર	41	ક્યા આપ કો મિસ્વાક કરના આતા હૈ ?	66
ઈસરાફ શૈતાની કામ હૈ	41	મિસ્વાક કે 20 મ-દની ફૂલ	66
જન્નત કા સફેદ મહલ માંગના કેસા ?	41	હાથ ધોને કી હિક્મતેં	69
બુરા ક્રિયા, ઝુલ્મ ક્રિયા	42	કુલ્લી કરને કી હિક્મતેં	69
ઈસરાફ સિર્ફ દો સૂરતોં મેં હી ગુનાહ હૈ	42	નાક મેં પાની ડાલને કી હિક્મતેં	70
અ-મલી તૌર પર વુઝૂ સીખિયે	43	ચેહરા ધોને કી હિક્મતેં	71
મસ્જિદ ઓર મદ્રસે કે પાની કા ઈસરાફ	44	અન્યાપન સે તહફફુઝ	72
ઈસરાફ સે બચને કી 7 તદાબીર	45	કોહનિયાં ધોને કી હિક્મતેં	72
ઈસરાફ સે બચને કે લિયે 14 મ-દની ફૂલ	47	મસ્હ કી હિક્મતેં	73
40 મ-દની ફૂલોં કા ર-ઝવી ગુલદસ્તા	50	પાગલોં કા ડોક્ટર	73
વિલાદત મેં આસાની કા નુસ્ખા	56	પાઉં ધોને કી હિક્મતેં	75

ઉત્ત્વાન	સંક્ર્ષ્ઠા	ઉત્ત્વાન	સંક્ર્ષ્ઠા
વુઝૂ કા બચા હુવા પાની	75	ફવ્વારે કી ઁહતિયાતેં	95
ઈન્સાન ચાંદ પર	76	W.C કા રુખ દુરુસ્ત કીજિયે	95
નૂર કા ખિલોના	77	કબ કબ ગુસ્લ કરના સુન્નત હૈ ?	95
મો'જિઝએ શક્કુલ કમર	78	કબ કબ ગુસ્લ કરના મુસ્તહબ હૈ ?	96
સિર્ફ અલ્લાહ ુક્રુક્રુ કે લિયે	79	એક ગુસ્લ મેં મુખ્તલિફ નિય્તેં	96
તસવ્વુફ કા અઝીમ મ-દની નુસ્ખા	80	બારિશ મેં ગુસ્લ	97
સુન્નત સાઈન્સી તહકીક કી મોહતાજ નહીં	81	તંગ લિબાસ વાલે કી તરફ નઝર કરના કેસા ?	97
ગુસ્લ કા તરીકા		83	નંગે નહાતે વક્ત ખૂબ ઁહતિયાત
દુરૂદ શરીફ કી ફઝીલત	84	ગુસ્લ સે નઝૂલા બઢ જાતા હો તો ?	97
અનોખી સઝા	84	બાલ્ટી સે નહાતે વક્ત ઁહતિયાત	98
ગુસ્લ કા તરીકા	86	બાલ કી ગિરહ	98
ગુસ્લ કે તીન ³ ફરાઈઝ	87	કુરઆને પાક પઢને યા છૂને કે 10 મસાઈલ	98
કુલ્લી કરના	87	બે વુઝૂ દીની કિતાબેં છૂના	100
નાક મેં પાની ચઢાના	88	નાપાકી કી હાલત મેં દુરૂદ શરીફ પઢના	100
તમામ ઝાહિરી બદન પર પાની બહાના	88	ઉંગલી મેં સિયાહી કી તહ જમી હુઈ હોતો ?	101
ગુસ્લ કી 21 ઁહતિયાતેં	88	બચ્ચા કબ બાલિગ હોતા હૈ ?	101
મસ્તૂરાત કે લિયે 6 ઁહતિયાતેં	89	કિતાબેં રખને કી તરતીબ	102
ઝખ્મ કી પઢી	90	અવરાક મેં પુરિયા બાંધના	102
ગુસ્લ ફર્ઝ હોને કે 5 અસ્બાબ	91	મુસલ્લે પર કા'બતુલ્લાહ શરીફ કી તસ્વીર	102
નિકાસ કી ઝરૂરી વઝાહત	91	વસ્વસોં કા એક સબબ	103
5 ઝરૂરી અહકામ	92	તયમ્મુમ કા બયાન	103
મુશત ઝની કા અઝાબ	93	તયમ્મુમ કે ફરાઈઝ	103
બહતે પાની મેં ગુસ્લ કા તરીકા	94	તયમ્મુમ કી 10 સુન્નતેં	103
ફવ્વારા જારી પાની કે હુકમ મેં હૈ	94	તયમ્મુમ કા તરીકા	104

ઉંચાન	સંક્રંડા	ઉંચાન	સંક્રંડા
તયમ્મુમ કે 25 મ-દની ફૂલ	105	મસ્જિદ મેં અઝાન દેના બિલાકે સુન્નત હૈ	126
ફૈઝાને અઝાન	111	સો શહીદોં કા સવાબ કમાઈયે	127
દુરૂદ શરીફ કી ફઝીલત	112	અઝાન સે પહલે દુરૂદ શરીફ પઢિયે	128
સરકાર ને એક બાર અઝાન દી	112	અઝાન કી તૌહીન કે બારે મેં સુવાલ જવાબ	132
આઝાન હૈ યા અઝાન ?	113	عَنْكَ عَلَى الْمَلِكُ کા મઝાક ઉડાના	132
અઝાન કે ફઝાઈલ	113	અઝાન કે મુન્-અસ્લિક કુફિયા કલિમાત કી મિસાલેં	134
કબ્ર મેં કીડે નહીં પડેંગે	113	અઝાન	135
મોતી કે ગુમ્બદ	113	અઝાન કી દુઆ-શકાઅત કી બિશારત	136
ગુઝશ્તા ગુનાહ મુઆફ	113	ઈમાને મુફસ્સલ, ઈમાને મુજમલ	137
શૈતાન 36 મીલ દૂર ભાગ જાતા હૈ	114	શશ કલિમે	137
અઝાન કબૂલિયતે દુઆ કા સબબ હૈ	114	નમાઝ કા તરીકા	141
મુઅઝ્ઝિન કે લિયે ઈસ્તિઝ્ફાર	114	દુરૂદ શરીફ કી ફઝીલત	142
અઝાન વાલે દિન અઝાબ સે અમ્ન	114	કિયામત કા સબ સે પહલા સુવાલ	143
ઘબરાહટ કા ઈલાજ	114	નમાઝી કે લિયે નૂર	143
ગમ દૂર કરને કા નુસ્ખા	115	કિસ કા કિસ કે સાથ હશર હોગા !	144
મહલિયાં ભી ઈસ્તિઝ્ફાર કરતી હૈં	115	શદીદ ઝખ્મી હાલત મેં નમાઝ	145
અઝાન કે જવાબ કી ફઝીલત	115	નમાઝ પર નૂર યા તારીકી કે અસ્બાબ	145
3 કરોડ 24 લાખ નેકિયાં રોઝાના કમાઈયે	116	બુરે ખાતિમે કા એક સબબ	146
અઝાન કા જવાબ દેને વાલા જન્નતી હો ગયા	117	નમાઝ કા ચોર	146
અઝાન વ ઈકામત કે જવાબ કા તરીકા	118	ચોર કી દો કિસ્મેં	147
અઝાન કે 14 મ-દની ફૂલ	120	નમાઝ કા તરીકા (હ-નફી)	148
જવાબે અઝાન કે 9 મ-દની ફૂલ	123	ઈસ્લામી બહનોં કી નમાઝ મેં ચન્દ જગહ ફર્ક હૈ	154
ઈકામત કે 7 મ-દની ફૂલ	125	દોનોં મુન્-તવજજેહ હોં !	155
અઝાન દેને કે 11 મુસ્તહબ મવાકેઅ	126	નમાઝ કી 6 શરાઈત	155

ઉત્ત્વાન	સંક્ર્ષ્ઠા	ઉત્ત્વાન	સંક્ર્ષ્ઠા
દૌરાને નમાઝ મકરૂહ વક્ત દાખલ હો જાએ તો?	158	નમાઝ તોડને વાલી 29 બાતેં	184
નમાઝ કે 7 ફરાઈઝ	160	નમાઝ મેં રોના	185
હુરૂફ કી સહીહ અદાએગી ઝરૂરી હૈ	165	નમાઝ મેં ખાંસના	185
મદ્ર-સતુલ મદીના	167	દૌરાને નમાઝ દેખ કર પઢના	186
કારપેટ કે નુક્સાનાત	169	અ-મલે કસીર કી તારીફ	186
નાપાક કારપેટ પાક કરને કા તરીકા	169	દૌરાને નમાઝ લિબાસ પહનના	187
નમાઝ કે તકરીબન 30 વાજિબાત	171	નમાઝ મેં કુછ નિગલના	187
નમાઝ કી તકરીબન 95 સુન્નતેં	173	દૌરાને નમાઝ કિબ્લે સે ઇન્હિરાફ	188
તકબીરે તહરીમા કી સુન્નતેં	173	નમાઝ મેં સાંપ મારના	188
કિયામ કી સુન્નતેં	174	નમાઝ મેં ખુજાના	188
રુકૂઅ કી સુન્નતેં	175	الله أكبر કહને મેં ગ-લતિયાં	189
કૌમા કી સુન્નતેં	176	નમાઝ કે 32 મકરૂહાતે તહરીમા	189
સજદે કી સુન્નતેં	176	કન્ધોં પર ચાદર લટકાના	189
જલ્સે કી સુન્નતેં	177	તબ્ઈ હાજત કી શિદત	190
દૂસરી રકૂઅત કે લિયે ઉઠને કી સુન્નતેં	177	નમાઝ મેં કંકરિયાં હટાના	190
કા'દા કી સુન્નતેં	177	ઉંગ્લિયાં ચટખાના	191
સલામ ફેરને કી સુન્નતેં	178	કમર પર હાથ રખના	192
સલામ ફેરને કે બા'દ કી સુન્નતેં	179	આસ્માન કી તરફ દેખના	192
સુન્નતે બા'દિથ્યા કી સુન્નતેં	180	નમાઝી કી તરફ દેખના	193
સુન્નતોં કા એક અહમ મરઅલા	180	ગધે જૈસા મુંહ	195
ઇસ્લામી બહનોં કે લિયે 10 સુન્નતેં	181	નમાઝ ઓર તસાવીર	196
નમાઝ કે તકરીબન 14 મુસ્તહબ્બાત	182	નમાઝ કે 33 મકરૂહાતે તન્જીહા	197
ઉમર બિન અબ્દુલ અઝીઝ કા અમલ	183	હાફ આસ્તીન મેં નમાઝ પઢના કૈસા ?	200
ગર્દ આલુદ પેશાની કી ફઝીલત	183	ઝોહર કે આખિરી દો નફલ કે ભી ક્યા કહને	200

ઉત્ત્વાન	સંક્રંષ્ટા	ઉત્ત્વાન	સંક્રંષ્ટા
ઇમામત કા બયાન	201	મુસાફિર કી નમાઝ	221
ઇકતિદા કી 13 શરાઇત	202	દુરુદ શરીફ કી ફઝીલત	222
ઇકમત કે બા'દ ઇમામ સાહિબ એ'લાન કરે	202	શર-ઇ સફર કી મસાફત	224
જમાઅત કા બયાન	203	મુસાફિર કબ હોગા ?	224
તર્કે જમાઅત કે 20 આ'ઝાર	203	આબાદી ખત્મ હોને કા મતલબ	224
કુફ પર ખાતિમે કા ખૌફ	204	ફિનાએ શહર કી તા'રીફ	224
નમાઝે વિત્ર કે 13 મ-દની ફૂલ	205	મુસાફિર બનને કે લિયે શર્ત	225
દુઆએ કુનૂત	206	વતન કી કિસ્મેં	225
સજદએ સહૂવ કા બયાન	207	વતને ઇકામત બાતિલ હોને કી સૂરતેં	226
નિહાયત અહમ મસ્અલા	209	સફર કે દો રાસ્તે	226
હિકાયત	210	મુસાફિર કબ તક મુસાફિર હૈ ?	226
સજદએ સહૂવ કા તરીકા	210	સફર ના જાઇઝ હો તો ?	226
સજદએ સહૂવ કરના ભૂલ જાએ તો...	211	સેઠ ઓર નોકર કા ઇકઠ્ઠા સફર	227
સજદએ તિલાવત ઓર શૈતાન કી શામત	211	કામ હો ગયા તો ચલા જાઊંગા !	227
اِنَّ شَرَّ الْاَشْيَاءِ لِحُكْمِ الْاَمْرِ	211	ઓરત કે સફર કા મસ્અલા	228
સજદએ તિલાવત કે 8 મ-દની ફૂલ	212	ઓરત કા સુસરાલ વ મયકા	228
દૌરાને નમાઝ દૂસરે સે આયતે સજદા સુન લી તો...	213	અરબ મુમાલિક મેં વીઝા પર રહને વાલોં કા મસ્અલા	228
સજદએ તિલાવત કા તરીકા	213	ઝાઈરે મદીના કે લિયે ઝરૂરી મસ્અલા	230
સજદએ શુક કા બયાન	214	ઉમ્રહ કે વીઝા પર હજ કે લિયે રુકના કેસા ?	230
નમાઝી કે આગે સે ગુઝરના સખ્ત ગુનાહ હૈ	214	કસ્ર વાજિબ હૈ	232
નમાઝી કે આગે સે ગુઝરને કે બારે મેં 15 અહકામ	215	કસ્ર કે બદલે ચાર કી નિયત બાંધ લી તો...?	232
સાહિબે મઝાર કી ઇન્ફિરાદી કોશિશ	218	મુસાફિર ઇમામ ઓર મુકીમ મુક્તદી	233
માં ચારપાઈ સે ઉઠ ખડી હુઈ !	219	મુકીમ મુક્તદી ઓર બકિયા દો રફઅતેં	233

उन्वान	संख्या	उन्वान	संख्या
क्या मुसाफिर को सुन्नतें मुआफ़ हैं?	234	जल्द से जल्द कज़ा पढ लीजिये	250
यलती गाडी में नफ़ल पढने के 4 म-दनी क़ूल	234	छुप कर कज़ा पढिये	250
मुसाफिर तीसरी रफ़्तक के लिये		जुमुअतुल वदाअ में कज़ाओ उअ्री	250
पडा हो जाओ तो....?	235	उअ्र त्तर की कज़ा का हिसाब	250
सफ़र में कज़ा नमाओं	236	कज़ा पढने में तरतीब	251
छिड़क़ लुवा देने का अज़ाब	237	कज़ाओ उअ्री का तरीका (ह-नफी)	251
कज़ा नमाओं का तरीका	239	नमाओ कस्र की कज़ा	252
दुर्ब शरीफ़ की फ़जीलत	240	जमानओ ईरतिदाद की नमाओं	252
जहन्नम की भौंफ़नाक वादी	241	बन्धे की पैदाईश के वक्त नमाज़	252
पहाड गरमी से पिघल जाओ	241	मरीज़ को नमाज़ कब मुआफ़ है ?	253
सर कुयलने की सज़ा	241	उअ्र त्तर की नमाओं दोबारा पढना	253
हज़ारों बरस के अज़ाब का हकदार	242	कज़ा का लफ़्ज़ कलना लुल गया तो ?	253
कब्र में आग के शो'ले	243	कज़ा नमाओं नवाफ़िल की अदाओगी से बेहतर	253
अगर नमाज़ पढना लुल जाओ तो...?	243	इज्ज व अस्र के बा'द नवाफ़िल नहीं पढ सकते	254
ईत्तिफ़ाक़न आंभ न लुली तो...?	244	जोड़र की चार सुन्नतें रल जाओ तो क्या करे ?	254
मजबूरी में अदा का सवाब मिलेगा या नहीं ?	244	इज्ज की सुन्नतें रल जाओ तो क्या करे ?	255
रात के आभिरी हिससे में सोना कैसा ?	245	क्या मगरिब का वक्त थोडा सा छोटा है ?	255
रात देर तक जागना	245	तरावील की कज़ा का क्या हुक्म है ?	256
अदा, कज़ा और वाजिबुल ईआदा की तारीफ़	246	नमाज़ का फ़िदया	256
तौबा के तीन रुक़न हैं	247	मर्दूमा के फ़िदये का अेक मस्अला	258
सोते को नमाज़ के लिये जगाना वाजिब है	247	सादाते किराम को नमाज़ का फ़िदया नहीं दे सकते	259
इज्ज का वक्त हो गया उठो !	247	100 कोओं का लीला	259
छिकायत	248	कान छेदने का रवाज कब से हुवा ?	260
हुक़ूक़ आम्मा के अेहसास की छिकायत	249	गाय के गोशत का तोहफ़ा	261

ઉત્વાન	સંક્રાં	ઉત્વાન	સંક્રાં
ઝકાત કા શર-ઈ હીલા	262	ના બાલિગા લડકી કે જનાઝે કી દુઆ	275
ફકીર કી તા'રીફ	263	જૂતે પર ખડે હો કર જનાઝા પઢના	275
મિસ્કીન કી તા'રીફ	263	ગાઈબાના નમાઝે જનાઝા નહીં હો સકતી	276
નમાઝે જનાઝા કા તરીકા	265	ચન્દ જનાઝાં કી ઈકઢી નમાઝ કા તરીકા	276
દુરૂદ શરીફ કી ફઝીલત	266	જનાઝે મેં કિતની સકેં હોં ?	276
વલી કે જનાઝે મેં શિકત કી બ-ર-કત	266	જનાઝે કી પૂરી જમાઅત ન મિલે તો ?	276
અકીદત મન્દોં કી ભી મઞિફરત	267	પાગલ યા ખુદકુશી વાલે કા જનાઝા	277
કફન ચોર	268	મુદા બચ્ચે કે અહકામ	277
તમામ શુ-રકાએ જનાઝા કી બખ્શિશ	269	જનાઝે કો કન્ધા દેને કા સવાબ	277
કબ્ર મેં પહલા તોહફા	269	જનાઝે કો કન્ધા દેને કા તરીકા	278
જન્તી કા જનાઝા	270	બચ્ચે કા જનાઝા ઉઠાને કા તરીકા	278
જનાઝે કા સાથ દેને કા સવાબ	270	નમાઝે જનાઝા કે બા'દ વાપસી કે મસાઈલ	278
ઉહુદ પહાડ જિતના સવાબ	270	ક્યા શોહર બીવી કે જનાઝે કો કન્ધા	
નમાઝે જનાઝા બાઈસે ઈબ્રત હૈ	271	દે સકતા હૈ ?	279
મય્થિત કો નહલાને વગૈરા કી ફઝીલત	271	મુરતદ કી નમાઝે જનાઝા કા હુકમે શર-ઈ	279
જનાઝા દેખ કર પઢને કા વિદ	271	જનાઝે કે મુ-તઅલિક પાંચ મ-દની ફૂલ	281
સરકાર رضى الله تعالى عنه وسلم نه सब से		“ફુલાં મેરી નમાઝ પઢાએ” ઐસી	
પહલા જનાઝા કિસ કા પઢા ?	272	વસિયત કા હુકમ	281
નમાઝે જનાઝા ફરોં કિફાયા હૈ	272	ઈમામ મય્થિત કે સીને કી સીધ મેં ખડા હો	282
નમાઝે જનાઝા મેં દો રુકન ઔર તીન સુન્નતેં હેં	273	નમાઝે જનાઝા પઢે ભિગૈર દફના દિયા તો ?	282
નમાઝે જનાઝા કા તરીકા (હ-નફી)	273	મકાન મેં દબે હુએ કી નમાઝે જનાઝા	282
બાલિગ મર્દ વ ઔરત કે જનાઝે કી દુઆ	274	નમાઝે જનાઝા મેં તા'દાદ બઢાને કે લિયે તાખીર	283
ના બાલિગ લડકે કે જનાઝે કી દુઆ	274	બાલિગ કી નમાઝે જનાઝા સે કબલ યેહ ઔલાન કીજિયે	283

उन्वान	संख्या	उन्वान	संख्या
इंजाने जुमुआ	285	हर जुमुआ को 1 करोड 44 लाख	
जुमुआ को दुइदुद शरीफ पढने की इज्जिलत	286	जल्नम से आजाद	296
आका صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ने पलला		अजाबे कब्र से मडकूज	296
जुमुआ कब अदा इरमाया ?	287	जुमुआ ता जुमुआ गुनाहों की मुआफ़ी	297
जुमुआ के मा'ना	288	200 साल की इबादत का सवाब	297
सरकार صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ने कुल कितने		मईम वालिदैन को हर जुमुआ	
जुमुआ अदा इरमाये ?	288	आ'माल पेश होते हैं	298
दिल पर मोहर	289	जुमुआ के पांच भुसूसी आ'माल	298
जुमुआ के इमामे की इज्जिलत	289	जन्नत वाजिब हो गई	298
शिक्षा दायिल होती है	289	सिर्फ जुमुआ का रोजा न रभिये	299
दस दिन तक बलाओं से छिड़कात	290	दस हजार बरस के रोजों का सवाब	299
रिज्क में तंगी का अेक सबब	290	जुमुआ का रोजा कब मकडूह है ?	299
किरिश्ते भुश नसीबों के नाम लिखते हैं	290	जुमुआ को मां बाप की कब्र पर छाजिरी का सवाब	300
पलली सदी में जुमुआ का जज्बा	291	कब्रे वालिदैन पर "यासीन" पढने की इज्जिलत	300
गरीबों का उज	292	तीन हजार मज्किरतें	301
जुमुआ के लिये जल्दी निकलना उज है	292	जुमुआ को यासीन पढने वाले की मज्किरत छोगी	301
उज व उम्रुह का सवाब	293	रुहें जम्भ होती हैं	301
सब दिनों का सरदार	293	"सू-रतुल कडूफ़" की इज्जिलत	302
जानवरों का भौके कियामत	294	दोनों? जुमुआ के दरमियान नूर	302
हुआ कबूल होती है	294	का'बे तक नूर	302
असर व मगारिब के दरमियान हूंडो	294	"سُورَةُ الْكَافُرَاتِ" की इज्जिलत	303
साहिबे बहारे शरीअत का इशाद	295	सत्तर हजार किरिश्तों का इस्तिफ़ार	303
कबूलियत की घडी कौन सी ?	295	सारे गुनाह मुआफ़	303
छिकायत	295	नमाजे जुमुआ के भा'द	304

ઉંવાન	સંક્રા	ઉંવાન	સંક્રા
મજલિસે ઇલ્મ મેં શિર્કત	304	ઈદ કી જમાઅત ન મિલી તો ક્યા કરે ?	316
જુમુઆ ફર્જ હોને કી 11 શારાઈત	305	ઈદ કે ખુલ્બે કે અહકામ	316
જુમુઆ કી સુન્નતેં	305	ઈદ કે 20 આદાબ	317
ગુસ્લે જુમુઆ કા વક્ત	306	બકર ઈદ કા એક મુસ્તહબ	319
ગુસ્લે જુમુઆ સુન્નતે ગૈર મુઅક્કદા હૈ	306	તકબીરે તશરીક કે 8 મદની ફૂલ	319
ખુલ્બે મેં કરીબ રહને કી ફઝીલત	306	મ-દની વસિયત નામા	321
તો જુમુઆ કા સવાબ નહીં મિલેગા	307	દુરૂદ શરીફ કી ફઝીલત	322
યુપચાપ ખુલ્બા સુનના ફર્જ હૈ	307	કફન દફન કા તરીકા	332
ખુલ્બા સુનને વાલા દુરૂદ શરીફ નહીં પઢ સકતા	307	મર્દ કા મસ્નૂન કફન	332
ખુલ્બાએ નિકાહ સુનના વાજિબ હૈ	307	ઔરત કા મસ્નૂન કફન	332
પહલી અઝાન હોતે હી કારોબાર ભી ના જાઈઝ	308	કફન કી તફસીલ	332
ખુલ્બે કે 7 મ-દની ફૂલ	308	ગુસ્લે મયિત કા તરીકા	333
જુમુઆ કી ઇમામત કા અહમ મસ્અલા	309	મર્દ કો કફન પહનાને કા તરીકા	334
નમાઝે ઈદ કા તરીકા	311	ઔરત કો કફન પહનાને કા તરીકા	334
દુરૂદ શરીફ કી ફઝીલત	312	બા'દ નમાઝે જનાઝા તદફીન	335
દિલ ઝિન્દા રહેગા	312	ફાતિહા ઔર ઈસાલે સવાબ કા તરીકા	337
જન્નત વાજિબ હો જાતી હૈ	312	મહૂમ રિશ્તેદાર કો ખ્વાબ મેં દેખને કા તરીકા	338
નમાઝે ઈદ કે લિયે જાને સે કબ્લ કી સુન્નત	313	મકબૂલ હજ કા સવાબ	340
નમાઝે ઈદ કે લિયે આને જાને કી સુન્નત	313	દસ હજ કા સવાબ	341
નમાઝે ઈદ કા તરીકા	313	વાલિદૈન કી તરફ સે ખૈરાત	341
નમાઝે ઈદ કિસ પર વાજિબ હૈ ?	314	રોઝી મેં બે બ-ર-કતી કી વજહ	341
ઈદ કા ખુલ્બા સુન્નત હૈ	315	જુમુઆ કો ઝિયારતે કબ્ર કી ફઝીલત	342
નમાઝે ઈદ કા વક્ત	315	કફન ફટ ગએ !	342
ઈદ કી અધૂરી જમાઅત મિલી તો ?	315	ઈસાલે સવાબ કે ફઝાઈલ	343

उन्वान	संख्या	उन्वान	संख्या
दुआओं की ब-र-कत	343	उम्मे सा'द (رضي الله تعالى عنها) के लिये कूआं	348
ईसाले सवाब का ईन्तिज़ार !	343	गौसे पाक का बकरा कडना कैसा ?	348
इहें धरों पर आ कर ईसाले सवाब		ईसाले सवाब के 19 म-दनी इल	348
का मुता-लबा करती हें	344	ईसाले सवाब का तरीका	355
दूसरों के लिये दुआअे मग्किरत		ईसाले सवाब का मुरव्वजा तरीका	356
करने की इज़ीलत	345	आ'ला उजरत رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ का	
अरबों नेकियां कमाने का आसान		इतिहा का तरीका	360
नुस्खा मिल गया !	345	ईसाले सवाब के लिये दुआ का तरीका	361
नूरानी लिबास	346	भाने की दा'वत की अहम अेइतियात	363
नूरानी तबाक	346	मज़ार पर छाज़िरी का तरीका	363
मुर्दा की ता'दाद के बराबर अज़	347		
सब कब्र वालों को सिफ़ारिशी बनाने का अमल	347		
सूरअे ईज्वास के ईसाले सवाब			
की डिकायत	347		

बोल में हलके तोल में भारी

इरमाने मुस्तफ़ा صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ है : दो कलिमे अल्लाह
 كَلِمَاتٍ को प्यारे, ज़बान पर उलके और भीजाने अमल में भारी हें,
 वोह येह हें :

سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ، سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ،

(بخاری حدیث، 4513)

فُفَل مَدِي نِي ه

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ

قِي ع

पुछू ठा वरीठा (ह-नई)

ईस रिसाले में....

गुनाह उडने की डिकायत

नजर कल्मी कमजोर न हो

ईन्जेक्शन लगाने से पुछू टूटेगा या नहीं ?

मुसीबतों से डिफाजत का नुस्खा

पान खाने वाले मुतवज्जेह हों

वरक उलटिये....

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ
 أَمَا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

वुजू का तरीका (उ-नई)

येह रिसाला अल्लव ता आभिर पूरा पढिये, कवी ईम्कान
 हें के आप की कई ग-लतियां आप के सामने आ जाअें.

दुइए शरीफ़ की इमीलत

सरकारे दो आलम, नूरे मुजस्सम, शाहे बनी आदम, रसूले
 मुहूतशम صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ का इरमाने मुअज़्ज़म है : “जिस ने दिन
 और रात में मेरी तरफ़ शौक व महबूबत की वजह से तीन तीन मर्तबा दुइदे
 पाक पढा अद्लाह एज़ व ज़ पर उक है के वोह उस के उस दिन और उस रात के
 गुनाह बपश दे.” (الْمُعْجَمُ الْكَبِيرُ لِلطَّبْرَانِيِّ ج ١ ص ٣٦٢ حديث ٩٢٨)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

उस्माने गनी रَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ का घश्के रसूल

उउरते सय्यिदुना उस्माने गनी رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ ने अेक बार अेक
 मकाम पर पडोंय कर पानी मंगवाया और वुजू किया फिर यकायक
 मुस्फुराने और रु-इका से इरमाने लगे : जानते हो मैं क्यूं मुस्फुराया ?

इरमाने मुस्तफ़ा صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : जिस ने मुज पर अक बार दुइदे पाक पढा अल्लाह उंस पर दस रइमतें बेजता है. (स्)

इरिर भुद डी ँस सुवाल का जवाब देते हुअे इरमाया : में ने देभा सरकारे नामदार صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ने वुजू इरमाया था और बा'दे इरागत मुस्कराअे थे और सडलबअे किराम عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان से इरमाया था : जानते डो में क्यूं मुस्कराया ? इरिर भीठे भीठे मुस्तफ़ा صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآलِهِ وَسَلَّمَ ने भुद डी इरमाया : “जब आदमी वुजू करता है तो येडरा धोने से येडरे के और डाय धोने से डायों के और सर का मसूड करने से सर के और पाँड धोने से पाँड के गुनाड जड जाते हैं.” (مُسْنَدُ إِمَامِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ ج ١ ص ١٣٠ احديث ٤١٥)

वुजू कर के भन्डां हुअे शाडे उस्मां कडा : क्यूं तबस्सुम लला कर रडा हूँ ? जवाबे सुवालें भुपातब दिया इरिर किसी की अदा को अदा कर रडा हूँ

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ عَلَى مُحَمَّدٍ

भीठे भीठे ँस्वामी ल्माँयो ! देभा आप ने ? सडलबअे किराम

सरकारे भैरुल अनाम صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ की डर डर अदा और डर डर सुन्नत को दीवाना वार अपनाते थे. नीज ँस रिवायत से गुनाड धोने का नुस्भा ली मा'लूम डो गया. वुजू में कुल्ली करने से भुंड के, नाक में पानी डाल कर साइ करने से नाक के, येडरा धोने से पलकों समेत सारे येडरे के, डाय धोने से डाय के साथ साथ नाभुनों के नीचे के, सर (और कानों) का मसूड करने से सर के साथ साथ कानों के और पाँड धोने से पाँड के साथ साथ पाँड के नाभुनों के नीचे के गुनाड ली जड जाते हैं.

करमाने मुस्तकी : صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : ओ शप्स मुज पर दुइदे पाक पढना भूल गया वोड जन्त का रास्ता भूल गया. (طرائق)

गुनाह ङडने की हिकायत

الْحَمْدُ لِلَّهِ عَزَّوَجَلَّ घुठू करने वाले के गुनाह ङडते हैं, इस जिम्न में एक इमान अफ़रोज हिकायत नकल करते हुअे उतरते अल्लामा अब्दुल वल्हाब शा'रानी قَدَسَ سِرُّهُ التُّورَانِي इरमाते हैं : एक मर्तबा सय्यिहुना इमामे आ'उम अबू हनीफ़ा رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ जामेअ मस्जिद कूफ़ा के घुठूभाने में तशरीफ़ ले गअे तो अक नौ जवान को घुठू बनाते हुअे देषा, उस से घुठू (में इस्ति'माल शुदा पानी) के कतरे टपक रहे थे. आप ने इशाद इरमाया : अै बेटे ! मां बाप की ना इरमानी से तौबा कर ले. उस ने इौरन अर्ज़ की : मैं ने तौबा की. अक और शप्स के घुठू (में इस्ति'माल डोने वाले पानी) के कतरे टपकते देषे, आप رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ ने उस शप्स से इशाद इरमाया : अै मेरे भाई ! तू जिना से तौबा कर ले. उस ने अर्ज़ की : मैं ने तौबा की. अक और शप्स के घुठू के कतरात टपकते देषे तो उसे इरमाया : शराब नोशी और गाने बाजे सुनने से तौबा कर ले. उस ने अर्ज़ की : मैं ने तौबा की. सय्यिहुना इमामे आ'उम अबू हनीफ़ा رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ पर कश्फ़ के बाईस यूंके लोगो के उयूब जाहिर डो जाते थे लिहाजा आप رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ ने बारगाडे षुदा वन्दी عَزَّوَجَلَّ में इस कश्फ़ के खत्म डो जाने की दुआ मांगी : अल्लाह عَزَّوَجَلَّ ने दुआ कभूल इरमा ली जिस से आप رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ को घुठू करने वालों के गुनाह ङडते नजर आना बन्द डो गअे.

(البيزات الكبير ج ١ ص ١٣٠)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

ફરમાને મુસ્તફા : ﺣﺴﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺍﻟﻪ ﻭﺳﻠﻢ । ﺟﯿﺲ ﻛﻪ ﭘﺎﺳ ﻣﻪﺭﺍ ﺟﯿﻚ ﺧﯘﺑﺎ ﺍﻭﺭ ﺍﻭﺱ ﻧﻪ ﻣﯘﺝ ﭘﺮ ﺩﯗﺭﺩﻩ ﭘﺎﻙ ﻧ ﭘﺎﺩﺍ । ﺗﻠﻜﯿﻚ ﻭﺍﻟﻪ ﺑﻪﺩ ﺑﻬﺘ ﺧﻮ ﮔﻴﺎ । (ﻭﻧﻮ)

घुजू का सवाब नहीं मिलेगा

आ'माल का दारो मदार नियतों पर है : अगर किसी अमल में अखीरि नियत न हो तो उस का सवाब नहीं मिलता. येही हाल घुजू का भी है, युनान्घे दा'वते ईस्लामी के ईशाअती ईदारे मक-त-अतुल मदीना की मत्बूआ 1250 सङ्घात पर मुशतमिल किताब, “अदारे शरीअत मुपर्जल जिल्द अव्वल” सङ्घा 292 पर है : घुजू पर सवाब पाने के लिये हुक्मे ईलाही अजल लाने की नियत से घुजू करना जरूर है वरना घुजू हो जायेगा सवाब न पायेगा. आ'ला इजरत ﺭﺣﻤﺘﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺍﻟﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺋﯿﻤﺎ ﻧﯿﻲ : ﻏﻮﺝﻮﻝ ﻣﻪﻥ ﻧﯿﻲﺗ ﻧ ﻛﺮﻧﻪ ﻛﻲ ﺍﺍﺩﺓ ﺗﻪ ﮔﯘﻧﻠﮕﺎﺭ ﺧﻮﮔﺎ, ﺋﯿﺲ ﻣﻪﻥ ﻧﯿﻲﺗ ﺳﯘﻧﻨﺘﻪ ﻣﯘﺍﻛﻜﺪﺍ ﺧﻪ. (ﯿﺘﺎﻭﺍ २-ﺍﻭﻳﻴﺎ ﻣﯘﭘﺮﺟﻞ, ﺟﯿ. 4, ﺳ. 616)

सारा बदन पाक हो गया !

दो हदीसों का फुलासा है : जिस ने **بِسْمِ اللَّهِ** कह कर घुजू किया उस का सर से पाँउ तक सारा जिस्म पाक हो गया और जिस ने बिगैर **بِسْمِ اللَّهِ** कहे घुजू किया उस का उतना ही बदन पाक होगा जितने पर पानी गुजरा.

(ﺳﯘﻧﻦ ﺩﺍﺭﻗﯘﻧﻲ ﺟ १ ﺍﺳ १०१०१-१०१०२)

इजरते सय्यिदुना अबू हुरैरा **رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ** से रिवायत है के सरकारे मदीना, सुल्ताने आ करीना, करारे कल्बो सीना, ईज गन्जना, साहिबे मुअत्तर पसीना, आईसे नुजूले सकीना **سَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** ने ईशाई फरमाया : “अै अबू हुरैरा **رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ** जब तुम घुजू करो तो **اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** कहे लिया करो जब तक तुम्हारा घुजू आकी रहेगा उस वक्त तक तुम्हारे इरिश्ते (या'नी किरामन कातिबीन) तुम्हारे लिये नेकियां लिखते रहेंगे.”

(ﺍﻟﺌﻔﻪﺝ ﻣﻠﻠﻄﺒﺮﺍﻧﻲ ﺟ १ ﺍﺳ २३ ﺣﺪﯨﺚ १८१)

करमाने मुस्तफ़ा: صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : जिस ने मुज पर दस मरतबा सुब्द और दस मरतबा शाम हुइदे पाक पढा (उसे कियामत के दिन मेरी शफ़ाअत मिलेगी. (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ))

बा वुमू सोने की इमीलत

इदीसे पाक में है : बा वुमू सोने वाला रोज़ा रफ़ कर ईबादत करने वाले की तरह है. (كَتَبَ الْقَسْبَالُ ج ٩ ص ١٢٣ حدیث ٢٠٩٩٤)

बा वुमू मरने वाला शहीद है

मदीने के ताजदार صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ने उजरते सय्यिदुना अनस रَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ से फ़रमाया : बेटा ! अगर तुम हमेशा बा वुमू रहने की इस्तिताअत रफ़ो तो औसा ही करो क्यूंके म-लकुल मौत जिस बन्दे की इह डालते वुमू में कब्ज़ करता है उस के लिये शहादत लिफ़ दी जाती है. (شُعَبُ الْإِيمَانِ ج ٣ ص ٢٩ حدیث ٢٧٨٣) मेरे आका आ'ला उजरत ईमाम अहमद रज़ा फ़ान رَحْمَةُ الرَّحْمَنِ عَلَيْهِ ف़रमाते हैं : हमेशा बा वुमू रहना मुस्तहब है.

मुसीबतों से हिफ़ाजत का नुस्खा

अल्लाह عَزَّوَجَلَّ ने उजरते सय्यिदुना मूसा कलीमुल्लाह عَلَيْهِ السَّلَام से फ़रमाया : “अै मूसा ! अगर बे वुमू होने की सूरत में तुजे कोई मुसीबत पछोये तो फ़ुद अपने आप को मलामत करना.” (شُعَبُ الْإِيمَانِ ج ٣ ص ٢٩ رقم ٢٧٨٢) “इतावा र-जविय्या” में है : हमेशा बा वुमू रहना ईस्लाम की सुन्नत है. (इतावा र-जविय्या मुभर्रज, जि. 1, स. 702)

“अहमद रज़ा” के सात हुइइ की निस्बत से

हर वक़्त बा वुमू रहने के सात इमाघल

मेरे आका ईमामे अहले सुन्नत ईमाम अहमद रज़ा फ़ान رَحْمَةُ الرَّحْمَنِ عَلَيْهِ

इरमाने मुस्तक़ा صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : जिस के पास मेरा जिक्र हुआ और उस ने मुझ पर दुइद शरीक़ न पढा उस ने जफ़ा की. (عمارة)

इरमाते हैं : आ'ज आरिफ़ीन (رَحْمَتُهُمُ اللَّهُ الْمُبِين) ने इरमाया : ज़े उमेशा आ वुजू रहे अल्लाह तआला उस को सात इज़ीलतों से मुशर्रफ़ इरमाये :
 ﴿1﴾ मलाअेका उस की सोहबत में रज्बत करें ﴿2﴾ कलम उस की नेकियां लिखता रहे ﴿3﴾ उस के आ'ज तस्बीह करें ﴿4﴾ उस से तकबीरे उला झीत न हो ﴿5﴾ जब सोअे अल्लाह तआला कुछ इरिशते त्मेजे के जिन्नो ईन्स के शर से उस की डिफ़ाजत करें ﴿6﴾ सकराते मौत उस पर आसान हो ﴿7﴾ जब तक आ वुजू हो अमाने ईलाही में रहे.

(अज्ज, स. 702, 703)

दुगना सवाब

यकीनन सर्दी, थकन या नजला, जुकाम, दर्द सर और बीमारी में वुजू करना दुश्वार होता है मगर इर त्बी कोई अैसे वक्त वुजू करे जब के वुजू करना दुश्वार हो तो उस को ब हुकमे उदीस दुगना सवाब मिलेगा.

(الْمُعْجَمُ الْأَوْسَطُ لِلطَّبْرَانِيِّ ج ٤ ص ١٠٦ حدیث ٥٣٦٦)

सर्दी में वुजू करने की हिक्कायत

उजरते उस्माने गनी رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ने अपने गुलाम, हुमरान से वुजू के लिये पानी मांगा और सर्दी की रात में बाहर जाना चाहते थे हुमरान कहते हैं : मैं पानी लाया, उन्हीं ने मुंह हाथ धोअे तो मैं ने कहा : अल्लाह आप को किफ़ायत करे रात तो बहुत ठन्डी है. इस पर इरमाया के : मैं ने रसूलुल्लाह صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ से सुना है के “जो बन्दा वुजूअे कामिल करता है अल्लाह तआला उस के अगले पिछले गुनाह बप्श देता है.”

(مسندو بزار ج ٢ ص ٧٥ حدیث ٤٢٢)

करमाने मुस्तहब। عَلَى اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : जो मुज पर रोजे जुमुआ दुरुद शरीफ पढेगा में कियामत के दिन उस की शफाअत करेगा। (अबुअल)

घुठू का तरीका (ह-नई)

का'बतुल्लाह शरीफ की तरफ मुंह कर के गिंथी जगह बैठना मुस्तहब है। घुठू के लिये नियत करना सुन्नत है, नियत न हो तब भी घुठू हो जायेगा मगर सवाब नहीं मिलेगा। नियत दिल के धरादे को कइते हैं, दिल में नियत होते हुए ज़बान से भी कइ लेना अज़जल है लिहाज़ा ज़बान से इस तरह नियत कीजिये के मैं हुकूमे ईलाही بِسْمِ اللَّهِ कइ लीजिये के येह भी सुन्नत है। बल्के بِسْمِ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ कइ लीजिये के जब तक बा घुठू रहेंगे फिरिश्ते नेकियां लिखते रहेंगे।¹ अब दोनों हाथ तीन तीन बार पछोंयों तक धोईये, (नल बन्द कर के) दोनों हाथों की उंगलियों का पिलाल भी कीजिये। कम अज कम तीन तीन बार दाअें बाअें ओपर नीचे के दांतों में भिस्वाक कीजिये और हर बार भिस्वाक को धो लीजिये। हुज्जतुल ईस्लाम हज़रते सय्यिदुना ईमाम मुहम्मद बिन मुहम्मद बिन मुहम्मद गज़ाली عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ تَوَالِي फ़रमाते हैं : “भिस्वाक करते वक्त नमाज़ में कुरआने मज्हद की किराअत और जिकुल्लाह عَزَّ وَجَلَّ के लिये मुंह पाक करने की नियत करनी चाइये।”² अब सीधे हाथ के तीन युल्लू पानी से (हर बार नल बन्द कर के) इस तरह तीन कुद्लियां कीजिये के हर बार मुंह के हर पुर्जे पर (हल्क के कनारे तक) पानी बह जाये, अगर रोजा न हो तो गर-गरा भी कर लीजिये। फिर सीधे ही हाथ के तीन युल्लू (अब हर बार आधा युल्लू पानी काई है) से (हर बार

1 إحياء العلوم ج 1 ص 182

2 التَّعَمُّمُ الصَّغِيرُ لِلطَّبْرَانِيِّ ج 1 ص 73 حديث 186

करमाने मुस्तङ्क: على الله تعالى عليه والى وسلم: मुज पर दुरेदे पाक की कसरत करो भेशक येह तुम्हारे विधे तहारत है. (अ-यु)

नल बन्द कर के) तीन बार नाक में नर्म गोशत तक पानी यढाईये और अगर रोजा न हो तो नाक की जड तक पानी पढोंयाईये, अब (नल बन्द कर के) उलटे हाथ से नाक साफ़ कर लीजिये और छोटी उंगली नाक के सूराभों में डालिये. तीन बार सारा येहरा इस तरह धोईये के जहां से आदतन सर के बाल उगना शुइअ छोते हैं वहां से ले कर ठोडी के नीचे तक और अक कान की लौ से दूसरे कान की लौ तक डर जगह पानी बह जाअे. अगर दाढी है और अहराम बांधे हुअे नहीं हैं तो (नल बन्द करने के बा'द) इस तरह भिलाव कीजिये के उंग्लियों को गले की तरफ़ से दाभिल कर के सामने की तरफ़ निकालिये फिर पहले सीधा हाथ उंग्लियों के सिरे से धोना शुइअ कर के कोहनियों समेत तीन बार धोईये. इसी तरह फिर उलटा हाथ धो लीजिये. दोनों हाथ आधे बाजू तक धोना मुस्तहब है. अकसर लोग युद्वू में पानी ले कर पढोंये से तीन बार छोड देते हैं के कोहनी तक बहता यवा जाता है इस तरह करने से कोहनी और कलाई की करवटों पर पानी न पढोंयने का अन्देशा है लिहाजा बयान कर्दा तरीके पर हाथ धोईये. अब युद्वू त्बर कर कोहनी तक पानी बहाने की हाजत नहीं बल्के (बिगैर इजजते सहीहा अैसा करना) येह पानी का इसराफ़ है. अब (नल बन्द कर के) सर का मसह इस तरह कीजिये के दोनों अंगूठों और कलिमे की उंग्लियों को छोड कर दोनों हाथ की तीन तीन उंग्लियों के सिरे अक दूसरे से भिला लीजिये और पेशानी के बाल या ખाल पर रખ कर भीयते हुअे गुदी तक इस तरह ले जाईये के हथेलियां सर से जुदा रहें, फिर गुदी से

करमाने मुस्तहब। صلى الله تعالى عليه وآله وسلم : तुम जहां भी हो मुज पर दुइद पढे के तुम्हारा दुइद मुज तक पढींयता है. (ط. 1)

हथेलियां भींयते हुअे पेशानी तक ले आँये,¹ कलिमे की उँग्लियां और अंगूठे ईस दौरान सर पर बिडकुल मस नहीं होने याहिअें, फिर कलिमे की उँग्लियों से कानों की अन्हड़नी सत्ह का और अंगूठों से कानों की बाहरी सत्ह का मसूह कीजिये और छुँग्लियां (या'नी छोटी उँग्लियां) कानों के सूराभों में दाखिल कीजिये और उँग्लियों की पुशत से गरदन के पिछले हिस्से का मसूह कीजिये. भा'ज लोग गले का और धुले हुअे हाथों की कोहनियों और कलाईयों का मसूह करते हैं येह सुन्नत नहीं है. सर का मसूह करने से कबल टोंटी अख़री तरह बन्ह करने की आदत बना लीजिये बिला वजह नल खुला छोड देना या अधूरा बन्ह करना, के पानी टपक कर जाअेअे होता रहे ईसराफ़ व गुनाह है. पडले सीधा फिर उलटा पाँउ हर बार उँग्लियों से शुइअ कर के टप्नों के उीपर तक बल्के मुस्तहब है के आधी पिंडली तक तीन तीन बार धो लीजिये. दोनों पाँउ की उँग्लियों का बिलाल करना सुन्नत है. (बिलाल के दौरान नल बन्ह रभिये) ईस का मुस्तहब तरीका येह है के उलटे हाथ की छुँग्लिया से सीधे पाँउ की छुँग्लिया का बिलाल शुइअ कर के अंगूठे पर अत्म कीजिये और उलटे ही हाथ की छुँग्लिया से उलटे पाँउ के अंगूठे से शुइअ कर के छुँग्लिया पर अत्म कर लीजिये. (आम्मअे कुतुब)

¹ : सर पर मसूह का अेक तरीका येह भी तहरीर है ईस में बिल खुसूस ईस्लामी बहनों के लिये ज़ियादा आसानी है युनान्चे लिभा है : मसूहे सर में अदाअे सुन्नत को येह भी काई है के उँग्लियां सर के अगले हिस्से पर रभे और हथेलियां सर की करवटों पर और हाथ जमा कर गुद्दी तक भींयता ले जाअे. (इतावा र-अविय्या मुभर्रज, जि. 4, स. 621)

करमाने मुस्तफ़। صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : जिस ने मुज पर दस भरतबा दुरेदे पाक पढा अल्लाह उरुज उस पर सो रहमते नाज़िल करमाता है. (طبرانی)

हुज्जतुल ईस्लाम उजरते सय्यिदुना ईमाम मुहम्मद बिन मुहम्मद बिन मुहम्मद गजाली عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْوَالِيَّ करमाते हैं : हर उजूव धोते वक्त येह उम्मीद करता रहे के मेरे ईस उजूव के गुनाह निकल रहे हैं.

(احیة العلوم ج ۱ ص ۱۸۳ مُلَخَّصًا)

घुजू के बये हुअे पानी में 70 बीमारियों से शिफ़ा

ढोटे वगैरा से घुजू करने के बा'द बया हुवा पानी षडे डो कर पीने में शिफ़ा है युनान्ये मेरे आका आ'ला उजरत, ईमामे अहले सुन्नत, मौलाना शाह ईमाम अहमद रज़ा पान عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمَنِ “इतावा र-उविख्या” मुभर्रज जिल्द 4 सफ़हा 575 ता 576 पर करमाते हैं : बकिय्यअे घुजू (या'नी घुजू के बये हुअे पानी) के लिये शरअन अ-उ-मतो अेहतिराम है और नबी صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ से साबित, के हुज़ूर ने घुजू करमा कर बकिय्या आब (या'नी बये हुअे पानी) को षडे डो कर नोश करमाया और अेक हदीस में रिवायत किया गया के ईस का पीना सत्तर भरज से शिफ़ा है. तो वोह ईन उमूर में आबे जमजम से मुशा-अहत रपता है अैसे पानी से ईस्तिन्ज मुनासिब नहीँ. “तन्वीर” के आदाबे घुजू में है : “घुजू के बा'द घुजू का पसमान्दा (या'नी बया हुवा पानी) किब्ला रुष षडे डो कर पिये.” अल्लामा अब्दुल गनी नाबुलुसी عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى करमाते हैं : मैं ने तजरिबा किया है के जब मैं बीमार होता हूं तो घुजू के बकिय्या पानी से शिफ़ा हासिल डो जाती है. नबिय्ये सादिक صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ के

करमाने मुस्तक। عَلَى اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالْوَسْمُ : जिस के पास मेरा जिक्र हो और वोह मुज पर दुइद शरीफ न पढे तो वोह लोगों में से कन्जूस तरीन शप्स है. (अत्रिब)

ईस सहीह तिब्बे न-भवी में पाओ जाने वाले ईशदि गिरामी पर ओ'तिमाद करते हुओ मैं ने येह तरीका ईप्तिचार किया है.

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ

जन्नत के आठों दरवाजे खुल जाते हैं

उहीसे पाक में है : जिस ने अच्छी तरह घुड़ू किया और फिर आस्मान की तरफ निगाह उठाई और कलिमओे शहादत पढा उस के लिये जन्नत के आठों दरवाजे खोल दिये जाते हैं जिस से याहे अन्दर दाखिल हो.

(सन्त दारमी ज १ व ११६ हदीथ ११६)

नजर कभी कमजोर न हो

जो घुड़ू के बाद आस्मान की तरफ देख कर सूरो **إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ** पढ लिया करे **إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ** उस की नजर कभी कमजोर न होगी.

(मसाईलुल कुरआन, स. 291)

घुड़ू के बाद तीन बार सूरो कद्र पढने के इत्ताफल

उहीसे मुबारक में है : जो घुड़ू के बाद ओक मर्तबा सू-रतुल कद्र पढे तो वोह सिद्दीकीन में से है और जो दो मर्तबा पढे तो शु-उदा में शुमार किया जाओ और जो तीन मर्तबा पढेगा तो अद्लाह **عَزَّوَجَلَّ** मैदाने महशर में उसे अपने अम्बिया के साथ रभेगा.

(कतुअल फतल ज १ व ३२, रकम १००, २१०, अलुवुयु ललफतलु ललसुवुवु ज १ व १०२)

घुड़ू के बाद पढने की दुआ (अव्वल व आभिर दुइद शरीफ)

जो घुड़ू करने के बाद येह कलिमात पढे :

करमाने मुस्तक। عَلَى النَّعَالِ عَلَيْهِ وَالْوَسْمُ: उस शप्स की नाक पाक आवुद हो जिस के पास मेरा जिक्र हो और वोह मुज पर दुइदे पाक न पड़े. (५८)

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ तरजमा : औ अल्लाह ! तू पाक है और तेरे दिये
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ،
أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ-
 ही तमाम भूबियां हैं में गवाही देता हूं के तेरे सिवा कोई मा'बूद नहीं, मैं तुज से बप्शिश याहता हूं और तेरी बारगाह में तौबा करता हूं.

तो उस पर मोहर लगा कर अर्श के नीचे रफ दिया जायेगा और कियामत के दिन उस पढने वाले को दे दिया जायेगा. (شُعَبُ الْإِيمَانِ ३ ص २१ رقم २१०६)

घुठू के बा'द येह दुआ भी पढ लीजिये (अव्वल व आबिर दुइद शरीफ़)

اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ तरजमा : औ अल्लाह ! मुझे कसरत
وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ-
 से तौबा करने वालों में बना दे और मुझे पाकीजा रहने वालों में शामिल कर दे.

(तरीफ़ी ज १ व २१ हदियथ ००)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

लफ़्फ़ा "अल्लाह" के चार दुइद की
निरमत से घुठू के चार इराफ़फ़ा

☉ येहरा धोना ☉ कोहनियों समेत दोनों हाथ धोना ☉ यौथाई सर का मसह करना ☉ टप्नों समेत दोनों पाँउ धोना.

(عالمگیری ج ۱ ص ۴۰۳, 288, जि. 1, स. 288)

धोने की ता'रीफ़

किसी उज़्व धोने के येह मा'ना हैं के उस उज़्व के हर हिस्से पर कम अज़ कम दो कतरे पानी बह जाये. सिर्फ़ भीग जाने या पानी को तेल की तरह चुपड लेने या अेक कतरा बह जाने को धोना नहीं कहेंगे न ईस तरह घुठू या गुस्ल अदा होगा.

(इतावा र-जविय्या मुभर्रज, जि. 1, स. 218, बहारे शरीअत, जि. 1, स. 288)

करमाने मुस्तकी علی اللہ تعالیٰ غیبہ و اللہ وسلم : जिस ने मुज पर रोजे जुमुआ दो सो बार दुरदे पाक पढा उस के दो सो साल के गुनाह मुआक होंगे. (अल-अल)

“करम या रब्बल आ-लमीन” के चौदह दुरइ की निरबत से घुजू की 14 सुन्नतें

“घुजू का तरीका” (ह-नकी) में आ’ज सुन्नतों और मुस्तहब्बात का बयान हो चुका है इस की मजीद वजाहत मुला-हजा इरमाईये :

✽ निर्यत करना ✽ **بِسْمِ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ** पढना. अगर घुजू से कबल **بِسْمِ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ** कड लें तो जब तक आ घुजू रहेंगे इरिश्ते नेकियां लिखते रहेंगे ✽ दोनों हाथ पड़ोंयों तक तीन बार धोना ✽ तीन बार भिस्वाक करना ✽ तीन युल्बू से तीन बार कुल्ली करना ✽ रोजा न हो तो गर-गरा करना ✽ तीन युल्बू से तीन बार नाक में पानी बढाना ✽ दाढी हो तो (ओहराम में न होने की सूरत में) उस का भिलाव करना ✽ हाथ और ✽ पाँउ की उंग्लियों का भिलाव करना ✽ पूरे सर का ओक ही बार मस्ह करना ✽ कानों का मस्ह करना ✽ इराईज में तरतीब काईम रचना (या’नी इर्ज आ’जा में पहले मुंड इर हाथ कोहनियों समेत धोना, इर सर का मस्ह करना और इर पाँउ धोना) और ✽ पै दर पै घुजू करना या’नी ओक उज्व सूभने न पाओ, के दूसरा उज्व धो लेना.

(बहारे शरीअत, जि. 1, स. 293, 294 मुलम्भसन)

“या रसूलल्लाह तेरे दर की इजाओं को सलाम” के उन्तीस दुरइ की निरबत से घुजू के 29 मुस्तहब्बात

✽ डिब्ला इ ✽ उंथी जगड ✽ बैठना ✽ पानी बडाते वक्त आ’जा पर हाथ इरना ✽ इत्मीनान से घुजू करना ✽ आ’जाओ घुजू

करमाने मुस्तक़ा: صلى الله تعالى عليه و آله وسلم: मुज़ पर दुड़दु शरीफ़ पढो अल्लाह عزّوجلّ तुम पर रहमत भेजेगा. (ابن عمر)

पर पहले पानी युपड लेना षुसूसन सर्दियों में ❀ वुजू करने में बिगैर ज़रूरत किसी से मदद न लेना ❀ सीधे हाथ से कुल्ली करना ❀ सीधे हाथ से नाक में पानी बढाना ❀ उलटे हाथ से नाक साफ़ करना ❀ उलटे हाथ की छुंग्लिया नाक में डालना ❀ उंग्लियों की पुश्त से गरदन की पुश्त का मसूह करना ❀ कानों का मसूह करते वक्त लीगी हुई छुंग्लिया (या'नी छोटी उंग्लियां) कानों के सूराभों में दबाविल करना ❀ अंगूठी को ह-र-कत देना जब के ढीली हो और येह यकीन हो के इस के नीचे पानी बह गया है, अगर सप्त हो तो ह-र-कत दे कर अंगूठी के नीचे पानी बहाना इर्ज़ है ❀ मा'जूरे शर-ई (इस के तफ़सीली अहकाम इसी रिस्ाले के सफ़हा 34 ता 37 पर मुला-हज़ा इरमा लीजिये) न हो तो नमाज़ का वक्त शुद्ध होने से पहले ही वुजू कर लेना ❀ जो कामिल तौर पर वुजू करता है या'नी जिस की कोई जगह पानी बहने से न रह जाती हो उस का कूओं (या'नी नाक की तरफ़ आंभों के दानों कोने) टप्नों, अेरियों, तत्वों, कूंयों (या'नी अेरियों के उपर मोटे पड़े) धाईयों (या'नी उंग्लियों के दरमियान वाली जगहों) और कोहनियों का षुसूसियत के साथ षयाल रभना और बे षयाली करने वालों के लिये तो इर्ज़ है के इन जगहों का षास षयाल रभे के अकसर देषा गया है के येह जगहें षुशक रह जाती हैं और येह बे षयाली ही का नतीजा है ऐसी बे षयाली हराम है और षयाल रभना इर्ज़ ❀ वुजू का लोटा उलटी तरफ़ रभिये अगर तशत या पतीली वगैरा से वुजू करें तो सीधी जानिब रभिये ❀ येहरा धोते वक्त पेशानी

करमाने मुस्तफ़ा : على الله تعالى عليه و الله وسلم : मुज पर कसरत से दुरुद पाक पढे बेशक तुम्हारा मुज पर दुरुद पाक पढना तुम्हारे गुनाहों के लिये मङ्किरत है. (मस्ने)

पर इस तरह झैला कर पानी डालना के ठीपर का कुछ हिस्सा भी धुल जाये * येहरे और * हाथ पाँउ की रोशनी वसीअ करना या'नी जितनी जगह पानी बहाना इर्ज है उस के अतराफ़ में कुछ बहाना म-सलन हाथ कोहनी से ठीपर आधे बाजू तक और पाँउ टप्नों से ठीपर आधी पिंडली तक धोना * दोनों हाथों से मुंड धोना * हाथ पाँउ धोने में उंगलियों से शुरुअ करना * हर उजूव धोने के बा'द उस पर हाथ डैर कर भूँदें टपका देना ताके बदन या कपडे पर न टपकें फुसूसन जब के मस्जिद में जाना हो, के इर्शे मस्जिद पर वुजू के पानी के कतरे गिराना मक़रुहे तहरीमी है * हर उजूव के धोते वक्त और मस्ह करते वक्त निय्यते वुजू का हाज़िर रहना * इब्तिदा में **الله** के साथ साथ दुरुद शरीफ़ और कलिमअे शहादत पढ लेना * आ'जाअे वुजू बिला ज़रत न पोंछिये अगर पोंछना हो तब भी बिला ज़रत बिल्कुल फुशक न कीजिये कुछ तरी बाकी रबिये के बरोजे डियामत नेकियों के पलडे में रभी जाओगी * वुजू के बा'द हाथ न जटके के शैतान का पंग्पा है * बा'दे वुजू मियानी (या'नी पाजमे का वोह हिस्सा जो पेशाब गाल के करीब होता है) पर पानी छिडकना. (पानी छिडकते वक्त मियानी को कुरते के दामन में छुपाओ रबना मुनासिब है नीज वुजू करते वक्त भी बटेके हर वक्त परदे में पर्दा करते हुओ मियानी को कुरते के दामन या यादर वगैरा के जरीअे छुपाओ रबना हया के करीब है) * अगर मक़रुह वक्त न हो तो दो रकअत नइल अदा करना जिसे तहिय्यतुल वुजू कहते हैं. (बहारे शरीअत, जि. 1, स. 293, 300)

करमाने मुस्तफ़ा : حَسْبُكَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ : श्री मुज़ पर ओक दुइद शरीफ़ पढता है अल्लाह उस के लिये ओक कीरात अजब लिफता है और कीरात उहुद पहाड जितना है. (मुराज)

“काश ! कामिल घुज़ू नसीब हो” के सोलह हुइइ की निस्बत से घुज़ू के 16 मक़इहात

❁ घुज़ू के लिये नापाक जगह पर बैठना ❁ नापाक जगह घुज़ू का पानी गिराना ❁ आ'ज़ाअे घुज़ू से लोटे वगैरा में कतरे टपकाना (मुंह धोते वक्त तरे हुअे युल्लू में उमूमन येहरे से पानी के कतरे गिरते हैं एस का ખयाल रખिये) ❁ किण्वे की तरइ थूक या बलगम डालना या कुल्ली करना ❁ बे उइरत दुन्या की भात करना ❁ जियादा पानी खर्य करना (सदरुशशरीअह मुइती मुहम्मद अमजद अली आ'ज़मी عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْقَوِي अहारे शरीअत मुखर्रज खिलद अव्वल सइहा 302 ता 303 पर इरमाते हैं : नाक में पानी डालते वक्त आधा युल्लू काई है तो अब पूरा युल्लू लेना एसराइ है) ❁ एतना कम पानी खर्य करना के सुन्नत अदा न हो (टोंटी न एतनी जियादा खोलें के पानी डालत से जियादा गिरे न एतनी कम खोलें के सुन्नत भी अदा न हो बलके मु-तवस्सित हो) ❁ मुंह पर पानी मारना ❁ मुंह पर पानी डालते वक्त इंकना ❁ ओक हाथ से मुंह धोना के रिफ़ाज व हुनूद का शिआर है ❁ गले का मस्ह करना ❁ उलटे हाथ से कुल्ली करना या नाक में पानी खढाना ❁ सीधे हाथ से नाक साइ करना ❁ तीन जदीद पानियों से तीन बार सर का मस्ह करना ❁ धूप के गर्म पानी से घुज़ू करना ❁ होंट या आंभें जोर से बन्द करना और अगर कुछ सूखा रह गया तो घुज़ू डी न डोगा. घुज़ू की डर सुन्नत का तर्क मक़इह है एसी तरह डर मक़इह का तर्क सुन्नत.

(अहारे शरीअत, खि. 1, स. 300, 301)

करमाने मुस्तफ़ा عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ : जिस ने किताब में मुज पर दुरुदे पाक लिखा तो जब तक मेरा नाम उस में रहेगा फिरिश्ते उस के लिये ईस्तिफ़ार करते रहेंगे. (अ. 1)

धूप के गर्म पानी की वज़ाहत

सदरुशशरीअह, बदरुत्तरीकह उजरते अल्लामा मौलाना मुफ़्ती मुहम्मद अमजद अली आ'उमी عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْقَوِي मक-त-अतुल मदीना की मत्बूआ बहारे शरीअत मुभर्रज्ज जिल्द अवल्ल सफ़हा 301 के हाशिये पर लिखते हैं : “जो पानी धूप से गर्म हो गया उस से वुजू करना मुत्लकन मकर्रह नहीं बल्के इस में यन्द कुयूद हैं, जिन का जिक्र पानी के बाब में आयेगा और इस से वुजू की कराहत तन्ज़ीही है तहरीमी नहीं.” पानी के बाब में सफ़हा 334 पर लिखते हैं : “जो पानी गर्म मुल्क में गर्म मौसिम में सोने यांटी के सिवा किसी और घात के बरतन में धूप में गर्म हो गया, तो जब तक गर्म है उस से वुजू और गुस्ल न याहिये, न उस को पीना याहिये बल्के बदन को किसी तरह पछोंयना न याहिये, यहां तक के अगर उस से कपडा भीग जाये तो जब तक ठन्डा न हो ले उस के पहनने से बयें के उस पानी के ईस्ति'माल में अन्देशअे बरस (या'नी बदन पर सफ़ेद दाग का अन्देशा) है, फिर भी अगर वुजू या गुस्ल कर लिया तो हो जायेगा.” (बहारे शरीअत, जि. 1, स. 301, 334)

मुस्ता'मल पानी का अहम मस्यला

अगर बे वुजू शप्स का हाथ या उंगली का पोरा या नाभुन या बदन का कोई टुकडा जो वुजू में धोया जाता हो ज़ान बूज़ कर या भूल कर दह दर दह (10x10) से कम पानी (भ-सलन पानी से भरी हुई बालटी या लोटे वगैरा) में पड जाये तो पानी मुस्ता'मल (या'नी ईस्ति'माल शुदा) हो गया और अब वुजू और गुस्ल के लाईक न रहा. ईसी तरह जिस

करमाने मुस्तक़ा: حَسْبُكَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالسَّلَامُ : जिस ने मुठ पर अक बार दुइदे पाक पढा अल्लाह उस पर दस रइमतें बेजता है. (स्ल)

पर गुस्ल इर्ज हो उस के जिस्म का कोई बे धुला हुवा हिस्सा पानी से छू जाये तो वोह पानी वुठू और गुस्ल के काम का न रइ। हां अगर धुला हाथ या धुले हुअे बदन का कोई हिस्सा पड जाये तो हरज नहीं। (बहारे शरीअत, जि. 1, स. 333) (मुस्ता'मल पानी और वुठू व गुस्ल के तइसीली अहकाम सीअने के लिये बहारे शरीअत हिस्सा 2 का मुता-लआ इरमाइये)

मिट्टी मिले पानी से वुठू होगा या नहीं

❁ पानी में रैत कीयड मिल जाये तो जब तक रकीक (या'नी पानी पतला) रहे उस से वुठू जाईज है। अकूल (आ'ला इजरत عَلَيْهِ وَالسَّلَامُ) इरमाते हैं: "में कइता हूं" मगर बिवा जइरत कीयड मिले हुअे (पानी) से वुठू करना मन्अ है, के मुस्ला या'नी सूरत बिगाडना है और येह शर-अन इराम है (इतावा र-जविय्या मुअर्रज, जि. 4, स. 650) (मा'लूम हुवा मुंड पर ईस तरइ मिट्टी मलना के सूरत बिगड जाये या मुंड काला करना जैसा के बा'ज अवकात योर का कोअेले वगैरा से मुंड काला कर देते हैं येह इराम है कइदन काइर का ली मुस्ला करना या'नी येहरा बिगाडना जाईज नहीं)

❁ जिस पानी में कोई बइबूदार चीज मिल जाये उस से वुठू मकइइ है फुसूसन अगर उस की बइबू नमाज में बाकी रहे, के (ईस से नमाज) मकइइ तइरीमी होगी। (अैजन, स. 650)

पान आने वाले मु-तवज्जेह हों

मेरे आका आ'ला इजरत, ईमामे अइले सुन्नत, वलिय्ये ने'मत, अजीमुल अ-र-कत, अजीमुल मर्तअत, परवानअे शम्अे रिसालत, मुजदिदे टीनो मिल्लत, हांमिये सुन्नत, माहिये बिद्अत, आदिमे शरीअत, पीरे

करमाने मुस्तक़ा صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : जो शपस मुज़ पर दुरेदे पाक पढना भूल गया वोह जन्त का रास्ता भूल गया. (جران)

तरीकत, बाईसे ज़ैरो ब-र-कत, उज़रते अल्लामा मौलाना अलहाज अल
 हाकिम अल कारी शाह ईमाम अहमद रज़ा पान عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمَنِ करमाते
 हैं : पानों के कसरत से आटी प्यूसून जब के दांतों में इजा (गेप) हो
 तजरिबे से जानते हैं छालिया के बारीक रेजे और पान के बहुत छोटे
 छोटे टुकड़े इस तरह मुंह के अतराफ़ व अकनाफ़ में जा गीर होते हैं
 (या'नी मुंह के कोनों और दांतों के प्वायों में घुस जाते हैं) के तीन बल्के कभी
 दस बारह कुद्लियां भी उन के तस्फ़ियअे ताम (या'नी मुकम्मल सफ़ाई)
 को काई नहीं होती, न ज़िलाव उन्हें निकाल सकता है न मिसवाक,
 सिवा कुद्लियों के, के पानी मनाफ़िज (या'नी सूराभों) में दाख़िल होता
 और ज़ुम्बिशें देने (या'नी छिलाने) से जमे हुअे बारीक ज़रों को ब
 तदरीज छुड़ा छुड़ा कर लाता है, इस की भी कोई तल्दीद (हद बन्दी)
 नहीं हो सकती और येह कामिल तस्फ़िया (या'नी मुकम्मल सफ़ाई) भी
 बहुत मुअक्कद (या'नी इस की सप्त ताकीद) है मु-तअदद अहादीस में
 ईशाद हुवा है के : “जब बन्दा नमाज़ को पड़ा होता है फ़िरिश्ता उस के मुंह
 पर अपना मुंह रखता है येह जो पढता है इस के मुंह से निकल कर फ़िरिश्ते के
 मुंह में जाता है उस वक्त अगर पाने की कोई शै उस के दांतों में होती है
 मलाअेका को उस से अैसी सप्त ईजा होती है के और शै से नहीं होती.”

हुज़ूरे अकरम, नूरे मुजस्सम, शाहे बनी आदम, रसूले मुह्तशम
 صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ने इरमाया : जब तुम में से कोई रात को नमाज़ के
 लिये पड़ा हो तो याहिये के मिसवाक कर ले क्यूंके जब वोह अपनी नमाज़ में
 किराअत करता है तो फ़िरिश्ता अपना मुंह इस के मुंह पर रख लेता है और जो

करमाने मुस्तफ़ा : حَسْبِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : जिस के पास मेरा जिक्र हुआ और उस ने मुझ पर दृढ़ता पाक न पढा तहकीक वोह बढ भप्त हो गया. (उंन)

शीज ईस के मुंह से निकलती है वोह फिरिश्ते के मुंह में दाखिल हो जाती है.¹ और “त-बरानी ने कबीर” में हजरते सय्यिदुना अबू अय्यूब अन्सारी से रिवायत की है के दोनों फिरिश्तों पर ईस से जियादा कोई शीज गिरां नहीं के वोह अपने साथी को नमाज पढता देखे और उस के दांतों में जाने के रेजे ईसे हो.

(الْمُعْجَمُ الْكَبِيرُ ج ٤ ص ١٧٧ حديث ٤٠٦١) , इतावा र-अविथ्या मुभर्रज, जि. 1, स. 624, 625)

तसव्वुह का अजीम म-दनी नुस्खा

हुज्जतुल ईस्लाम हजरते सय्यिदुना ईमाम अबू लामिद मुहम्मद बिन मुहम्मद बिन मुहम्मद गजाली عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْوَالِيَّ फ़रमाते हैं : वुजू से फ़रागत के बा'द जब आप नमाज की तरफ़ मु-तवज्जह हो उस वक्त येह तसव्वुर कीजिये के जिन जाहिरि आ'जा पर लोगों की नजर पडती है वोह तो ब जाहिर ताहिर (या'नी पाक) हो चुके मगर दिल को पाक किये बिगैर बारगाहे ईलाही عَزَّ وَجَلَّ में मुनाज्जत करना हया के पिलाफ़ है क्यूंके अस्लाह عَزَّ وَجَلَّ दिलों को त्मी देखने वाला है. मजीद फ़रमाते हैं : जाहिरि वुजू कर लेने वाले को येह बात याद रभनी याहिये के दिल की तहारत (या'नी सफ़ाई) तौबा करने और गुनाहों को छोडने और उम्हा अप्लाक अपनाने से होती है. ज़ो शप्स दिल को गुनाहों की आलू-दगियों से पाक नहीं करता इकत जाहिरि तहारत (या'नी सफ़ाई) और ज़ैबो जीनत पर ईक्तिफ़ा करता है उस की मिसाल उस शप्स की सी है ज़ो बादशाह को मद्दुअि करता है और अपने घर को

مدینہ
لے شُعْبُ الْإِيمَان ج ٢ ص ٣٨١ رقم ٢١١٧

करमाने मुस्तफ़ा: جس اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم : जिस ने मुज़ पर अेक बार दुइडे पाक पढा अल्लाह उस पर दस रहमतें बेजता है. (ط)

बाहर से पून यमकाता है और रंगो रोगन करता है मगर मकान के अन्दरनी डिस्से की सफ़ाई पर कोई तवज्जोह नहीं देता. अब औसी सूरत में जब बादशाह उस के मकान के अन्दर आ कर गन्दगियां देभेगा तो वोह नाराज होगा या राजी येह हर जी शुठिर भुद समज सकता है.

(أخية العلوم ج 1 ص 180 ملخصاً)

“सफ़ कर” के पांय हुइइ की निस्बत से उम्भ वगैरा से पून निकलने के 5 अहकाम

❁ पून, पीप या जर्द पानी कहीं से निकल कर बहा और उस के बहने में औसी जगह पड़ोयने की सलाहियत थी जिस जगह का वुजू या गुस्ल में धोना इर्ज है तो वुजू जाता रहा. (बहारे शरीअत, जि. 1, स. 304) ❁ पून अगर यमका या उम्भरा और बहा नहीं जैसे सूई की नोक या याकू का कनारा लग जाता है और पून उम्भर या यमक जाता है या भिलाल किया या भिस्वाक की या उंगली से दांत मांजे या दांत से कोई चीज म-सलन सेब वगैरा काटा उस पर पून का असर जाहिर हुवा या नाक में उंगली डाली इस पर पून की सुर्भी आ गई मगर वोह पून बहने के काबिल न था वुजू नहीं टूटा. (अज़न) ❁ अगर बहा मगर बह कर औसी जगह नहीं आया जिस का गुस्ल या वुजू में धोना इर्ज हो म-सलन आंभ में दाना था और टूट कर अन्दर ही डैल गया बाहर नहीं निकला या पीप या पून कान के सूराभों के अन्दर ही रहा बाहर न निकला तो इन सूरतों में वुजू न टूटा (अज़न, स. 27) ❁ उम्भ भेशक बडा है

करमाने मुस्तका : حلى الله تعالى عليه و آله وسلم : श्री शम्स मुज पर दुरेदे पाक पढना भूल गया वोह जन्तन का रास्ता भूल गया. (طرائق)

रतूबत यमक रही है मगर जब तक बहेगी नहीं घुठू नहीं टूटेगा. (अैजन) ❁ जम्म का भून बार बार पोंछते रहे, के बहने की नौबत न आई तो गौर कर लीजिये के अगर छतना भून पोंछ लिया है के अगर न पोंछते तो बह जाता तो घुठू टूट गया, नहीं तो नहीं.

(अैजन)

सर्दी से आ'जा इट जायें तो.....

सर्दी वगैरा से आ'जा इट गये धो सके धोये, ठन्डा पानी नुक्सान करे तो गर्म पानी अगर कर सकता हो करना वाजिब, अगर गर्म से भी नुक्सान हो तो मसह करे, अगर मसह भी नुक्सान दे तो उस पर जो पट्टी बंधी या दवा का जिमाद (या'नी लेप) है उस पर पानी बहाये, येह भी जरूर (या'नी नुक्सान) दे तो उस पट्टी या जिमाद (या'नी लेप, PESTE) पूरे पर मसह करे इस से (भी) नुक्सान हो तो छोड दे, मुआफ़ है. (इतावा र-अविय्या मुपर्ज्जा, जि. 4, स. 620)

घुठू में मेहंटी और सुरमे का मस्यला

❁ औरत के हाथ पाउं पर मेहंटी का जिर्म लगा रह गया और भबर न हुई तो घुठू व गुस्ल हो जायेगा. हां जब छितिलाअ हो छुडा कर वहां पानी बहा दे. (इतावा र-अविय्या मुपर्ज्जा, जि. 4, स. 613)

❁ सुरमा आंभ के कूमे (या'नी आंभ के कोने) या पलक में रह गया और छितिलाअ न हुई ज़ाहिरन हरज नहीं और बा'दे नमाज कूमे (आंभ के कोने) में मडसूस हुवा तो अस्लन भाक (या'नी बिडकुल अन्देशा) नहीं. (मतलब येह के नमाज हो गई)

(अैजन)

करमाने मुस्तफ़। حَسْبُكَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : जिस के पास मेरा जिक्र हुआ और उस ने मुझ पर दुर्रदे पाक न पढा तहकीक वोह बढ भक्त हो गया. (उंग)

घन्जेकशन लगाने से घुड़ू टूटेगा या नहीं ?

☉ गोश्त में घन्जेकशन लगाने में सिर्फ़ इसी सूरत में घुड़ू टूटेगा जब के बहने की भिकदार में पून निकले ☉ जब के नस का घन्जेकशन लगा कर पहले पून उीपर की तरफ़ भीयते हैं जो के बहने की भिकदार में होता है लिहाजा घुड़ू टूट जाता है ☉ इसी तरह ग्लूकोज वगैरा की ड्रिप नस में लगवाने से घुड़ू टूट जायेगा क्यूंके बहने की भिकदार में पून निकल कर नलकी में आ जाता है. हां बहने की भिकदार में पून नलकी में न आये तो घुड़ू नहीं टूटेगा ☉ सिरिंज के जरीये टेस्ट करने के लिये पून निकालने से घुड़ू टूट जाता है क्यूंके येह बहने की भिकदार में होता है इसी लिये येह पून पेशाब की तरह नापाक भी होता है, पून से त्परी हुँ शीशी जेब में रभ कर नमाज पढी, न हुँ नीज पून या पेशाब की शीशी अगर्ये अखी तरह बन्द हो मस्जिद के अन्दर भी नहीं ला सकते, लायेगे तो गुनहगार होंगे.

दुपती आंभ के आंसू

☉ आंभ की बीमारी के सबब जो आंसू बहा वोह नापाक है और घुड़ू भी तोड देगा. (बहारे शरीअत, जि. 1, स. 310) अइसोस ! अकसर लोग इस मस्अले से ना वाकिफ़ होते हैं और दुपती आंभ से ब वजहे मरज बहने वाले आंसू को और आंसूओं की मानिन्द समज कर आस्तीन या कुरते के दामन वगैरा से पोंछ कर कपडे नापाक कर डालते हैं ☉ नाबीना की आंभ से जो रतूबत ब वजहे मरज निकलती है वोह नापाक है और इस से घुड़ू भी टूट जाता है. (मापूज अज बहारे शरीअत, जि. 1, स. 306)

करमाने मुस्तफ़ा : صلى الله تعالى عليه و آله وسلم : जिस ने मुज़ पर दस भरतबा सुभद और दस भरतबा शाम दुइदें पाक पढा (उसे क़ियामत के दिन मेरी शफ़ाअत मिलेगी. (अ. 1, 2))

पाक और नापाक रतूअत

☉ जो रतूअत ईन्सानी बदन से निकले और वुज़ू न तोड़े वोह नापाक नहीं. म-सलन भून या पीप बह कर न निकले या थोड़ी क़ै, के मुंह भर न हो पाक है. (बहारे शरीअत, जि. 1, स. 309)

छाला और कुडिया

☉ छाला नोय डाला अगर उस का पानी बह गया तो वुज़ू टूट गया वरना नहीं. (अैज़न, स. 305) ☉ कुडिया बिल्कुल अख़ी हो गई उस की मुर्दा भाल बाकी है जिस में ठीपर मुंह और अन्दर भला है अगर उस में पानी भर गया और दबा कर निकाला तो न वुज़ू जाअे न वोह पानी नापाक. हां अगर उस के अन्दर कुछ तरी भून वगैरा की बाकी है तो वुज़ू भी ज़ता रहेगा और वोह पानी भी नापाक है. (इतावा र-जविख्या मुभर्रज़, जि. 1, स. 355, 356) ☉ पारिश या कुडियों में अगर बहने वाली रतूअत न हो सिर्फ़ थिपक हो और कपडा उस से बार बार छू कर याहे कितना ही सन ज़ाअे पाक है. (बहारे शरीअत, जि. 1, स. 310) ☉ नाक साफ़ की उस में से जमा हुवा भून निकला वुज़ू न टूटा, अन्सब (या'नी ज़ियादा मुनासिब) येह है के वुज़ू करे.

(इतावा र-जविख्या मुभर्रज़, जि. 1, स. 281)

कै से वुड़ू कब टूटता है ?

☉ मुंह भर कै खाने, पानी या सफ़रा (या'नी पीले रंग का कडवा पानी) की वुड़ू तोड देती है. जो कै तकल्लुफ़ के बिगैर न रोकी जा सके उसे मुंह भर कहते हैं. मुंह भर कै पेशाब की तरह नापाक होती है ईस के

फ़रमाने मुस्तफ़ि: صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: जिस के पास मेरा जिक्र हुआ और उस ने मुझ पर दुर्इद शरीफ़ न पढा उस ने जफ़ा की. (عبدالرزاق)

छींटों से अपने कपडे और बदन को बयाना ज़रूरी है.

(माफ़ूज़ अज़ बहारे शरीअत, जि. 1, स. 306, 390 वगैरा)

हंसने के अहकाम

﴿1﴾ रुकूअ व सुजूद वाली नमाज़ में बालिग ने कड़कड़ा लगा दिया या'नी धतनी आवाज़ से हंसा के आस पास वालों ने सुना तो वुज़ू भी गया और नमाज़ भी गध, अगर धतनी आवाज़ से हंसा के सिर्फ़ धुद सुना तो नमाज़ गध वुज़ू बाकी है, मुस्कुराने से न नमाज़ ज़ाओगी न वुज़ू. मुस्कुराने में आवाज़ बिदकुल नहीं डोती सिर्फ़ दंत ज़ाहिर डोते हैं (مراقى الفلاح ص १६) ﴿2﴾ बालिग ने नमाज़े जनाज़ा में कड़कड़ा लगाया तो नमाज़ टूट गध वुज़ू बाकी है. (أَيْضًا) ﴿3﴾ नमाज़ के धलावा कड़कड़ा लगाने से वुज़ू नहीं ज़ता मगर दोबारा कर लेना मुस्तहब है. (صلى الله تعالى عليه وآله وسلم) हमारे भीठे भीठे आका (مراقى الفلاح ص १०) कभी भी कड़कड़ा नहीं लगाया लिहाज़ा हमें भी कोशिश करनी याहिये के येड सुन्नत भी जिन्दा डो और डम जोर जोर से न हंसें. फ़रमाने मुस्तफ़ि: يَا'نِي أَلْفَهْقَهُ وَمِنَ الشَّيْطَانِ وَالتَّبَسُّمِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى: صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: कड़कड़ा शैतान की तरफ़ से है और मुस्कुराना अल्लाह ज़ंज की तरफ़ से है.

(الْمُعْجَمُ الصَّغِيرُ لِلطَّبْرَانِيِّ ج २ ص १०६)

क्या सत्र देभने से वुज़ू टूट ज़ता है ?

अवाम में मशहूर है के घुटना या सत्र धुलने या अपना या पराया सत्र देभने से वुज़ू टूट ज़ता है येड बिदकुल गलत है. डं वुज़ू के आदाब से है के नाफ़ से ले कर दोनों घुटनों समेत सभ सत्र धुपा डो

करमाने मुस्तक। على الله تعالى عليه وآله وسلم : जो मुज़ पर रोजे जुमुआ दुरुद शरीफ़ पढ़ेगा मैं कियामत के दिन उस की शक्रात करूँगा. (क़ुरआन)

बल्के इस्तिन्ज़ा के बा'द फ़ौरन ही घुड़ा लेना या छिये के बिगैर ज़रत सत्र जुला रचना मन्अ और दूसरों के सामने सत्र षोलना हराम है.

(बहारे शरीअत, जि. 1, स. 309)

गुस्ल का घुड़ू काड़ी है

गुस्ल के लिये जो घुड़ू किया था वोही काड़ी है ज्वाह बरहना नहाओं. अब गुस्ल के बा'द दोबारा घुड़ू करना ज़रूरी नहीं बल्के अगर घुड़ू न ली किया हो तो गुस्ल कर लेने से आ'जाअे घुड़ू पर ली पानी बह जाता है लिहाजा घुड़ू ली हो गया, कपडे तब्दील करने से ली घुड़ू नहीं जाता.

थूक में जून

﴿1﴾ मुंह से जून निकला अगर थूक पर गालिब है तो घुड़ू टूट जाअेगा वरना नहीं, ग-लबे की शनाप्त येह है के अगर थूक का रंग सुर्भ हो जाअे तो जून गालिब समजा जाअेगा और घुड़ू टूट जाअेगा येह सुर्भ थूक नापाक ली है. अगर थूक जर्द (या'नी पीला) हो तो जून पर थूक गालिब माना जाअेगा लिहाजा न घुड़ू टूटेगा न येह जर्द थूक नापाक.

(बहारे शरीअत, जि. 1, स. 305)

﴿2﴾ मुंह से इतना जून निकला के थूक सुर्भ हो गया और लोटे या गिलास से मुंह लगा कर कुल्ली के लिये पानी लिया तो लोटा गिलास और कुल पानी नजिस हो गया लिहाजा अैसे मौकअ पर युल्लू में पानी ले कर अेहतियात से कुल्ली कीजिये और येह ली अेहतियात इरमाइये के छींटे उड कर आप के कपडों वगैरा पर न पडें.

करमाने मुस्तक। على الله تعالى عليه والبر وسلم : मुज पर दुरेदे पाक की कसरत करो भेशक येह तुम्हारे विधे तहारत है.
(अबुल)

घुड़ू में शक आने के 5 अहकाम

❁ अगर दौराने घुड़ू किसी उज्व के धोने में शक वाकेअ हो और अगर येह जिन्दगी का पहला वाकिया है तो इस को धो लीजिये और अगर अक्सर शक पडा करता है तो इस की तरफ़ तवज्जोह न दीजिये. इसी तरह अगर बा'दे घुड़ू भी शक पडे तो इस का कुछ भयाल मत कीजिये. (बहारे शरीअत, जि. 1, स. 310) ❁ आप भा घुड़ू थे अब शक आने लगा के पता नहीं घुड़ू है या नहीं, ऐसी सूरत में आप भा घुड़ू हें क्यूंके सिर्फ़ शक से घुड़ू नहीं टूटता. (अज्ज, स. 311) ❁ वस्वसे की सूरत में अहतियातन घुड़ू करना अहतियात नहीं इत्तिबाअे शैतान है (अज्ज) ❁ यकीनन आप उस वक्त तक भा घुड़ू हें जब तक घुड़ू टूटने का ऐसा यकीन न हो जाअे के कसम भा सकें ❁ कोई उज्व धोने से रह गया है मगर येह याद नहीं कौन सा उज्व था तो बायां (या'नी उलटा) पाउं धो लीजिये.

(नज़्मख्तार १ स ३१०)

सोने से घुड़ू टूटने न टूटने का बयान

नीद से घुड़ू टूटने की दो शर्ते हें : **❶** दोनों सुरीन अख्ठी तरह जमे हुअे न हों **❷** ऐसी डालत पर सोया ज़ो गाड़िल हो कर सोने में रुकावट न हो. जब दोनों शर्ते जम्अ हों या'नी सुरीन भी अख्ठी तरह जमे हुअे न हों नीज ऐसी डालत में सोया हो ज़ो गाड़िल हो कर सोने में रुकावट न हो तो ऐसी नीद से घुड़ू टूट जाता है. अगर अक शर्त पाई जाअे और दूसरी न पाई जाअे तो घुड़ू नहीं टूटेगा.

करमाने मुस्तफ़ा على الله تعالى عليه والبر وسلم : तुम जहां भी हो मुज पर दुरुद पढ़ो के तुम्हारा दुरुद मुज तक पढ़ोयता है. (ط. ۱)

सोने के वोह दस अन्दाज़ जिन से घुजू नहीं टूटता : **﴿1﴾** इस तरह बैठना के दोनों सुरीन जमीन पर हों और दोनों पाँउ अेक तरफ़ झैलाअे हों. (कुरसी, रेल और बस की सीट पर बैठने का भी येही हुक्म है) **﴿2﴾** इस तरह बैठना के दोनों सुरीन जमीन पर हों और पिंडलियों को दोनों हाथों के हलके में ले ले ज्वाह हाथ जमीन वगैरा पर या सर घुटनों पर रख ले **﴿3﴾** यार जानू या'नी पालती (चोकड़ी) मार कर बैठे ज्वाह जमीन या तप्त या यारपाँउ वगैरा पर हो **﴿4﴾** दो जानू सीधा बैठा हो **﴿5﴾** घोडे या ज्यर वगैरा पर जीन रख कर सुवार हो **﴿6﴾** नंगी पीठ पर सुवार हो मगर जानवर यढाँ पर यढ रहा हो या रास्ता हमवार हो **﴿7﴾** तक्ये से टेक लगा कर इस तरह बैठा हो के सुरीन जमे हुअे हों अगर्चे तक्या हटाने से येह गिर पडे **﴿8﴾** षडा हो **﴿9﴾** रुकूअ की हालत में हो **﴿10﴾** सुन्नत के मुताबिक जिस तरह मर्द सजदा करता है इस तरह सजदा करे के पेट रानों और बाजू पहलूओं से जुदा हों मजकूर सूरते नमाज में वाकेअ हों या एलावा नमाज, घुजू नहीं टूटेगा और नमाज भी इंसिद न होगी अगर्चे कस्दन सोअे, अलबत्ता जे रुकन बिल्कुल सोते हुअे अदा किया उस का एआदा (या'नी दोबारा अदा करना) जरूरी है और जागते हुअे शुइअ किया फिर नींद आ गँ तो जे हिससा जागते अदा किया वोह अदा हो गया बकिथ्या अदा करना होगा.

सोने के वोह दस अन्दाज़ जिन से घुजू टूट जाता है : **﴿1﴾** उकडूं या'नी पाँउ के तल्वों के बल इस तरह बैठा हो के दोनों घुटने षडे रहें **﴿2﴾** चित या'नी पीठ के बल लैटा हो **﴿3﴾** पट या'नी पेट के बल लैटा हो

करमाने मुस्तक़ा: عَلَى النَّعَالِ عَلَيْهِ وَاللَّيْسُ : जिस ने मुज पर दस भरतभा दुइदे पाक पढा अल्लाह एउंज उस पर सो रइमते नाजिल करमाता है. (ज़रान)

﴿4﴾ दाई या बाई करवट लैटा हो ﴿5﴾ अक कोहनी पर टेक लगा कर सो जाअे ﴿6﴾ बैठ कर ईस तरह सोया के अक करवट जुका हो जिस की वजह से अक या दोनों सुरीन उठे हुअे हों ﴿7﴾ नंगी पीठ पर सुवार हो और जानवर पस्ती (या'नी नियान) की जानिब उतर रहा हो ﴿8﴾ पेट रानों पर रभ कर दो जानू ईस तरह बैठे सोया के दोनों सुरीन जमे न रहें ﴿9﴾ यार जानू या'नी योकडी मार कर ईस तरह बैठे के सर रानों या पिंडलियों पर रभा हो ﴿10﴾ जिस तरह औरत सज्दा करती है ईस तरह सज्दे के अन्दाज पर सोया के पेट रानों और बाजू पडलूओं से मिले हुअे हों या क्लाईयां बिछी हुई हों. मजकूरा सूरते नमाज में वाकेअ हों या नमाज के ईलावा वुजू टूट जाअेगा. इर अगर ईन सूरतों में कस्दन सोया तो नमाज फ़ासिद हो गई और बिदा कस्द सोया तो वुजू टूट जाअेगा मगर नमाज बाकी है. भा'दे वुजू (मप्सूस शराईत के साथ) बकिय्या नमाज उसी जगह से पढ सकता है जहां नींद आई थी. शराईत न मा'लूम हों तो नअे सिरे से पढ ले. (मापूअ अज इतावा र-अविय्या मुभर्रज, जि. 1, स. 365 ता 367)

घुड़ूअे अम्बियाअे किराम عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ और नींद मुबारक

अम्बिया عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ का वुजू सोने से नहीँ जाता. इअेदा :

अम्बिया عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ की आंभें सोती हैं दिल् कल्मी नहीँ सोता

☀ भा'ज नवाकिले वुजू (या'नी भा'ज वुजू तोडने वाली थीजें) अम्बिया عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالसَّلَام के लिये यूं नाकिले वुजू (वुजू टूटने का सभब) नहीँ, के ईन का वुकूअ (या'नी वाकेअ होना) ही उन से मुहाल (या'नी ना मुम्किन) है जैसे जुनून (या'नी पागल पन) या नमाज में कइकडा ☀ गशी (या'नी

करमाने मुस्तक: على الله تعالى غيبه والله وسلم: जिस के पास मेरा जिक्र हो और वोह मुज पर दुरुद शरीफ न पढे तो वोह लोगों में से कन्जूस तरीन शप्स है. (ज़िबती)

बेहोशी) भी अभिभया عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ के जिस्मे जाहिर पर तारी हो सकती है, दिल मुबारक इस हालत में भी बेदार व ખबरदार रहता.

(इतावा र-जविय्या मुपर्ज्ज, जि. 4, स. 740)

मसाजिद के घुड़ूभाने

मिस्वाक करने से आ'ज अवकात दांतों में भून आ जाता है और थूक भी सुर्भ होने की वजह से नापाक हो जाता है मगर अफ़सोस, के अेहतियात नहीं की जाती. मसाजिद के घुड़ूभाने भी अक्सर कम गहरे होते हैं जिस की वजह से सुर्भ थूक वाली कुल्ली के छींटे कपड़ों या बदन पर पडते हैं, नीज घर के हम्माम के पुप्ता इर्श पर घुड़ू करते वक्त इस से भी ज़ियादा छींटे पडते हैं.

घर में घुड़ूभाना बनवाधये

आज कल बेसीन (हाथ घोने की कूंडी) पर ખडे ખडे घुड़ू करने का रवाज है जो के भिलाई मुस्तहब है. अफ़सोस ! लोग असाईशों ભरी बडी बडी कोठियां तो बनाते हैं मगर इस में घुड़ूभाना नहीं बनवाते ! सुन्नतों का दर्द रખने वाले इस्लामी भाईयों की भिदमतों में म-दनी इत्तिज है के हो सके तो अपने मकान में कम अज कम अेक टोंटी का घुड़ूभाना ज़रूर बनवाधये. इस में येह अेहतियात ज़रूर रभिये के टोंटी की धार बराडे रास्त इर्श पर गिरने के बज्जअे ढलवान पर गिरे वरना दांतों में भून वगैरा आने की सूरत में बदन या लिबास पर छींटे उडने का मस्अला रहेगा अगर आप मोहतात घुड़ूभाना बनवाना चाहते हैं तो इसी रिसाले के पीछे दिये हुअे नकशे से रहनुमाई हासिल

करमाने मुस्तक। على الله تعالى عليه والرسلم : उस शप्स की नाक पाक आवुद छो जिस के पास मेरा जिंक छो और वोद मुज पर दुइडे पाक न पडे. (r6)

कीजिये. ● उब्ल्यूसी (W.C.) में पानी से धस्तिन्जा करने की सूरत में उमूमन दोनों पाउं के टप्नों की तरफ़ छीटे आते हैं लिहाजा इरागत के बा'द अेलतियातन पाउं के येह डिस्से धो लेने याडिअं.

घुगूभाना बनवाने का तरीका

अेक नल के धरेलू वुजूभाने की कुल मसाहत या'नी लम्बाई साढे बियालीस धन्य और चौडाई पौने उन्यास धन्य, उंचाई जमीन से पौने चौदह धन्य, इस के उीपर मजीद साढे सात धन्य उंची निशस्त गाह (SEAT) जिस का अर्ज (या'नी चौडाई) साढे बत्तीस धन्य और लम्बाई अेक सिरे से दूसरे सिरे तक या'नी जीने की मानिन्द, इस निशस्त गाह और सामने की दीवार का दरभियानी इासिला 25 धन्य, आगे की तरफ़ इस तरह ढलवान (slope) बनवाधये के नाली साढे सात धन्य से जियादा न हो, पाउं रभने की जगह कदम की लम्बाई से मा'मूली सी जियादा म-सलन कुल सवा ग्यारह धन्य हो, और इस सारी जगह का अगला डिस्सा साढे चार धन्य भुर-दरा रभिये ताके रगउ कर पाउं का मैल (भुसूसन सर्दियों में) छुडाया जा सके. L (अेल) या u (यू) साप्त का "भिकसयर नल" नाली की जमीन से 32 धन्य उीपर हो, नल की तरकीब इस तरह रभिये के पानी की धार ढलवान (slope) पर गिरे और आप के लिये दांतों के भून वगैरा नजासत से बयना आसान हो. इस्बे जरूरत तरभीम कर के मसाजिद में भी धसी तरकीब से वुजूभाना बनवाया जा सकता है.

नोट : अगर टाईलज लगवानी हों तो कम अज कम ढलवान में सईद

કરમાને મુસ્તફા ﷺ : على الله تعالى عليه و الله وسلم : जिस ने मुझ पर रोजे जुमुआ दो सो बार दुरुदे पाक पढा उस के दो सो साल के गुनाह मुआफ़ होंगे. (अहमद)

રંગ કી લગવાઈયે તાકે મિસ્વાક કરને મેં અગર દાંતોં સે ખૂન આતા હો તો થૂક વગૈરા મેં નઝર આ જાએ.

“યા રસૂલે ખુદા” કે નવ હુરુફ કી નિસ્બત સે વુઝૂખાને કે 9 મ-દની ફૂલ

- ❶ મુસ્કિન હો તો ઈસી રિસાલે કે પીછે દિયે હુએ નક્શે સે રહનુમાઈ હાસિલ કર કે અપને ઘર મેં વુઝૂખાના બનવાઈયે.
- ❷ (મિ'માર કે દલાઈલ સુને બિગૈર) દિયે હુએ નક્શે કે મુતાબિક બને હુએ ઘરેલૂ વુઝૂખાને કે બાલાઈ (યા'ની પાઉ રખને વાલે) ફર્શ કી ઢલવાન (slope) દો ઈન્ય રખિયે.
- ❸ અગર એક સે ઝિયાદા નલ લગવાને હોં તો દો નલોં કે દરમિયાન 25 ઈન્ય કા ફાસિલા રખિયે.
- ❹ વુઝૂખાને કી ટોંટી મેં હસ્બે ઝરૂરત કપડા યા પ્લાસ્ટિક કી નિપલ લગા લીજિયે.
- ❺ અગર પાઈપ દીવાર કે બાહર સે લગવાએં તો નિશસ્ત ગાહ ઝરૂરતન એક યા દો ઈન્ય મઝીદ દૂર કર લીજિયે.
- ❻ બેહતર યેહ હૈ કે કચ્ચા કામ કરવા કર એકઆધ બાર ઉસ પર બૈઠ કર યા વુઝૂ કર કે અચ્છી તરહ દેખ લેને કે બા'દ પુખ્તા કરવાઈયે.
- ❼ વુઝૂખાને યા હમ્મામ વગૈરા કે ફર્શ પર ટાઈલ્સ લગવાને હોં તો ખુર-દરે (Slip Resistance Tiles) લગવાઈયે તાકે ફિસલને કા ખતરા કમ હો જાએ.
- ❽ પાઉ રખને કી જગહ કા સિરા (યા'ની કનારા) ઔર ઈસ કી ઢલાન કે

करमाने मुस्तका: حلى الله تعالى عليهم و الله وسلم: मुज़ पर दुइद शरीक पढो अल्लाह उरुजु तुम पर रहमत भेजेगा. (अनसरी)

कम अज़ कम द्यो द्यो ँन्य हिससे पर टाईल न ह्यो बलके वोड हिससा सीमेन्ट से पुर-दरा और गोल बनवाईये ताके जइरतन पाई रगड कर मैल छुडाय़ा ज़ सके.

﴿9﴾ बावर्यी पाना, गुस्ल पाना, बैतुल खला का इर्श, पुला सेइन्, छत, मस्जिद का वुजूपाना और जहां जहां पानी बलाने की जइरत पडती है उन मकामात के इर्श की ढलवान (slope) मि'मार ज्यो बताये उस से बिला जिजक उेढ गुना (म-सलन वोड द्यो ँन्य कहे तो आप तीन ँन्य) रखवाईये. मि'मार तो येही कहेगा के आप इिक मत कीजिये अेक कतरा ली पानी नहीं रुकेगा अगर आप उस की बातों में आ गये तो ह्यो सकता है ढलवान बराबर न बने लिहाज़ा उस की बात पर अे'तिमाद नहीं करेंगे तो **إِنْ كُنْتُمْ لَا تَجِدُونَ مَاءً فَامْسُوا بِرِجْلَيْكُمْ** ँस का इअेदा आप पुद ही देष लेंगे क्युंके मुशा-हदा येही है के अकसर इर्श वगैरा पर जगह जगह पानी पडा रह जाता है.

जिन का वुड़ू न रहता ह्यो उन के लिये 6 अहकाम

﴿1﴾ कतरा आने, पीछे से रीह पारिज ह्योने, ज़भ्म बलने, दुपती आंष से ब वजहे मरज़ आंसू बलने, कान, नाइ, पिस्तान से पानी निकलने, इंडे या नासूर से रतूबत बलने और दस्त आने से वुजू टूट जाता है. अगर किसी को ँस तरह का मरज़ मुसल्लल ज़री रहे और शुइअ से आबिर तक पूरा अेक वक्त गुजर गया के वुजू के साथ नमाजे इर्ज अदा न कर सका वोड शर-अन मा'जूर है, अेक वुजू से उस वक्त में जितनी नमाजें याहे पढे. ँस का वुजू उस मरज़ से नहीं टूटेगा. (बहारे शरीअत, जि. 1, स. 385, ००३, **رَدُّ الْمُحْتَارِ** 1/385) ँस मस्अले को मजीद

करमाने मुस्तक़ा: على الله تعالى عليه و الله وسلم : मुज पर कसरत से दुरदं पाक पढो बेशक तुम्हारा मुज पर दुरदं पाक पढना तुम्हारे गुनाहों के लिये मज़ि़रत है. (भास्म)

आसान लफ़्ज़ों में समजाने की कोशिश करता हूँ. इस किस्म के मरीज और मरीजा अपने मा'ज़ूरे शर-ई होने न होने की जांच इस तरह करें के कोई सी भी दो इर्ज़ नमाज़ों के दरमियानी वक्त में कोशिश करें के घुड़ू कर के तदारत के साथ कम अज कम इर्ज़ रकअतें अदा की जा सकें. पूरे वक्त के दौरान बार बार कोशिश के बा घुड़ू अगर इतनी मोहलत नहीं मिल पाती, वोह इस तरह, के कभी तो दौराने घुड़ू ही उज़ूर लाहिक हो जाता है और कभी घुड़ू मुकम्मल कर लेने के बा'द नमाज़ अदा करते हुअे, हत्ता के आबिरी वक्त आ गया तो अब उन्हें इजाज़त है के घुड़ू कर के नमाज़ अदा करें नमाज़ हो जाओगी, अब याहे दौराने अदाईगिये नमाज़, बीमारी के बाईस नजासत बदन से पारिज ही क्यूं न हो रही हो. हु-कलाअे किराम رَحْمَتُهُمُ اللهُ السَّلَامُ इरमाते हैं : किसी शप्स की नकसीर इट गई या उस का ज़भ्म बह निकला तो वोह आबिरी वक्त का इन्तिज़ार करे अगर पून मुन्कतअ न हो (बलके मुसव्सल या वक़्के वक़्के से जारी रहे) तो वक्त निकलने से पहले घुड़ू कर के नमाज़ अदा करे.

(الْبَحْرُ الرَّاقِعُ ج ١ ص ٣٧٤-٣٧٥)

﴿2﴾ इर्ज़ नमाज़ का वक्त जाने से मा'ज़ूर का घुड़ू टूट जाता है जैसे किसी ने अस्स के वक्त घुड़ू किया था तो सूरज गुड़ब होते ही घुड़ू जाता रहा और अगर किसी ने आइताब निकलने के बा'द घुड़ू किया तो जब तक जोड़ूर का वक्त खत्म न हो घुड़ू न जाओगा के अभी तक किसी इर्ज़ नमाज़ का वक्त नहीं गया. इर्ज़ नमाज़ का वक्त जाते ही मा'ज़ूर का घुड़ू जाता रहता है और येह हुकम उस सूरत में होगा जब मा'ज़ूर का उज़ूर

करमाने मुस्तफ़। عسى الله تعالى عليه والله وسع : श्री मुज पर ओक दुबुद शरीफ़ पढता है अल्लाह عزوجل उस के लिये ओक कीरात अज्र लिखता है और कीरात उहुद पहाड जितना है. (सुवुरात)

दौराने घुड़ू या भा'द घुड़ू जाहिर हो, अगर औसा न हो और दूसरा कोई हदस (या'नी घुड़ू तोडने वाला मुआ-मला) भी लाहिक न हो तो इर्ज़ नमाज का वक्त जाने से घुड़ू नहीं टूटेगा.

(बहारे शरीअत, जि. 1, स. 386, ०००ص ١٤٠٠)

﴿3﴾ जब उज़र साबित हो गया तो जब तक नमाज के ओक पूरे वक्त में ओक बार भी वोह यीज पाई जाये मा'ज़ूर ही रहेगा. म-सलन किसी को सारा वक्त कतरा आता रहा और इतनी मोहलत ही न मिली के घुड़ू कर के इर्ज़ अदा कर ले तो मा'ज़ूर हो गया. अब दूसरे अवकात में इतना मौकअ मिल जाता है के घुड़ू कर के नमाज पढ ले मगर ओकआध हफ़आ कतरा आ जाता है तो अब भी मा'ज़ूर है. हां अगर पूरा ओक वक्त औसा गुजर गया के ओक बार भी कतरा न आया तो मा'ज़ूर न रहा फिर जब कभी पहली हालत आई (या'नी सारा वक्त मुसल्लम मरज हुवा) तो फिर मा'ज़ूर हो गया. (बहारे शरीअत, जि. 1, स. 385)

﴿4﴾ मा'ज़ूर का घुड़ू उस यीज से नहीं जाता जिस के सबभ मा'ज़ूर है हां अगर दूसरी कोई यीज घुड़ू तोडने वाली पाई गई तो घुड़ू जाता रहा म-सलन जिस को रीह पारिज होने का मरज है कतरा निकलने से उस का घुड़ू टूट जायेगा. और जिस को कतरे का मरज है उस का रीह पारिज होने से घुड़ू जाता रहेगा. (अैज़न, स. 586)

﴿5﴾ मा'ज़ूर ने किसी हदस (या'नी घुड़ू तोडने वाले अमल) के भा'द घुड़ू किया और घुड़ू करते वक्त वोह यीज नहीं है जिस के सबभ मा'ज़ूर है फिर घुड़ू के भा'द वोह उज़र वाली यीज पाई गई तो घुड़ू टूट गया (येह

करमाने मुस्तफ़ा: على الله تعالى عليه والبرّ ستم : जिस ने क़िताब में मुज़ पर दुइदें पाक लिखा तो जब तक मेरा नाम उस में रहेगा क़िरिशते उस के लिये ईस्तिफ़ार करते रहेंगे. (अ. ५)

हुकूम ईस सूरत में होग़ा जब मा'ज़ूर ने अपने उज़ूर के बज़ाअे क़िसी दूसरे सबब की वजह से वुज़ू किया हो अगर अपने उज़ूर की वजह से वुज़ू किया तो बा'द वुज़ू उज़ूर पाअे जाने की सूरत में वुज़ू न टूटेगा) म-सलन जिस को कतरा आता था उस की रीह पारिज हुई और उस ने वुज़ू किया और वुज़ू करते वक्त कतरा बन्द था और वुज़ू करने के बा'द कतरा आया तो वुज़ू टूट गया. हां अगर वुज़ू के दरमियान कतरा ज़ारी था तो न गया.

(बहारे शरीअत, जि. 1, स. 387, ००५, ००५, ००५)

﴿6﴾ मा'ज़ूर को अैसा उज़ूर हो के जिस के सबब कपडे नापाक हो जाते हैं तो अगर अेक दिरहम से ज़ियादा नापाक हो गअे और जानता है के ईतना मौकअ है के ईसे धो कर पाक कपडों से नमाज़ पढ लूंगा तो पाक कर के नमाज़ पढना इर्ज़ है और अगर जानता है के नमाज़ पढते पढते क़िर उतना ही नापाक हो जाअेगा तो अब धोना ज़रूरी नहीं. ईसी से पढे अगरे मुसल्ला भी आलूदा हो जाअे तब भी उस की नमाज़ हो जाअेगी.

(बहारे शरीअत, जि. 1, स. 387)

(मा'ज़ूर के वुज़ू के तफ़सीली मसाल्ल इतावा २-जविय्या मुभर्रज जिल्द 4 सफ़हा 367 ता 375, बहारे शरीअत जिल्द 1 सफ़हा 385 ता 387 से मा'लूम कर लीजिये)

सात मु-तफ़रिफ़ात

﴿1﴾ पेशाब, पाभाना, मनी, कीडा या पथरी मर्द या औरत के आगे या पीछे से निकलें तो वुज़ू ज़ाता रहेगा. (१) (عالمگیری ج 1 ص 1) ﴿2﴾ मर्द या औरत के पीछे से मा'मूली सी हवा भी पारिज हुई वुज़ू टूट गया. मर्द या औरत के आगे से हवा पारिज हुई वुज़ू नहीं टूटेगा. (अ. ५, बहारे

कुरमाने मुस्तफ़ा: **عَنِ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالسَّلَامُ** : जिस ने मुज़ पर अेक बार दु़रुदे पाक पढा अदलाह उस पर दस रहमतेँ बेजता है. (س)।

शरीअत, जि. 1, स. 304) ﴿3﴾ बेडोश डो ज़ाने से वुज़ू टूट ज़ता है. (عالمگیری ج 1 ص 12) ﴿4﴾ आ'ज़ लोग कडते हैं के षिन्ज़ीर का नाम लेने से वुज़ू टूट ज़ता है येड गलत है ﴿5﴾ दौराने वुज़ू अगार रीड षारिज डो या क़िसी सभब से वुज़ू टूट ज़अे तो नअे सिरे से वुज़ू कर लीजिये पडले धुले हुअे आ'ज़ा बे धुले डो गअे. (भापूज़ अज़ इतावा र-जविख्या मुषर्रज़, जि. 1, स. 255) ﴿6﴾ कुरआने पाक या उस की क़िसी आयत को या क़िसी भी ज़बान में कुरआने पाक का तरजमा डो उस को बे वुज़ू छूना डराम है (अडारे शरीअत, जि. 1, स. 326, 327 वगैरा) ﴿7﴾ आयत को बे छूअे देष कर या ज़बानी बे वुज़ू पढने में डरज नडीं.

आयत लिषे हुअे काग़ा के पिछले हिस्से के छूने का अहम मस्यला

क़िताब या अष्बार में जिस जगड आयत लिषी है षास उस जगड को बिला वुज़ू डाय लगाना ज़ाईज नडीं उसी तरङ्ग डाय लगया जिस तरङ्ग आयत लिषी है ष्वाड उस की पुशत पर (या'नी लिषी हुई आयत के अैन पीछे) दोनों ना ज़ाईज हैं (आयत या उस के अैन पिछले हिस्से के छेलावा), आकी वरक के छूने में डरज नडीं, पढना बे वुज़ू ज़ाईज है. नडाने की ड़ाजत डो तो (पढना भी) डराम है. وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ

(इतावा र-जविख्या मुषर्रज़, जि. 4, स. 366)

बे वुड़ू कुरआने मजुद को कहीं से भी नहीं छू सकता

बे वुड़ू आयत को छूना तो षुद डी डराम है अगर्ये आयत क़िसी और क़िताब में लिषी डो मगर कुरआने मजुद के साद़ा ड़ाशिया

करमाने मुस्तक। صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : जो शप्स मुज पर दुरेदे पाक पढना भूल गया वोह जन्त का रास्ता भूल गया. (طرائق)

बल्के पुष्टो बल्के योली (या'नी जो कपडा या यमडा गत्ते के साथ थिपका या सिला हो उस) का भी धूना हराम है हां “जुजदान” में हो तो जुजदान को हाथ लगा सकता है. बे वुजू अपने सीने से भी मुस्हफ़ शरीफ़ को मस नहीं कर (या'नी धू नहीं) सकता. बे वुजू की गरदन पर लम्बी यादर का अेक कोना पडा हुवा है और वोह उस के दूसरे कोने को हाथ पर रख कर मुस्हफ़ शरीफ़ धूना याहे अगर यादर ँतनी लम्बी है के उस शप्स के उठने बैठने से दूसरे गोशे (या'नी कोने) तक उ-र-कत न पडोयेगी तो ज़ाँज है वरना नहीं. (इतावा र-जविय्या मुपर्ज्जा, जि. 4, स. 724, 725)

घुजू में पानी का घसराफ़

आज कल अक्सर लोग वुजू में तेज नल भोल कर बे तडाशा पानी बडाते हैं, उता के बा'ज तो वुजूभाने पर आते ही नल भोल देते हैं, ँस के बा'द आस्तीन यढाते हैं, उतनी देर तक مَاءُ اللهِ ﷻ पानी जाअेअ होता रहता है, ँसी तरह मस्ह के दौरान अक्सरिय्यत नल भुला छोड देती है ! हम सब को अद्लाह عَزَّ وَجَلَّ से डर कर ँसराफ़ से बयना याडिये, कियामत के रोज़ ज़र्रे ज़र्रे और कतरे कतरे का हिसाब होगा. ँसराफ़ की मजम्मत में यार अडादीसे मुबा-रका सुनिये और भौके भुदा वन्दी عَزَّ وَجَلَّ से लरजिये :

﴿1﴾ जारी नहर पर भी घसराफ़

अद्लाह عَزَّ وَجَلَّ के प्यारे रसूल, रसूले मकबूल, सय्यिदह आभिना صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ के गुलशन के मडक्ते कूल उतरते सय्यिदुना सा'द عَنَّا اللهُ تَعَالَى पर गुजरे तो वोह वुजू कर रहे थे. ँशार्द

फरमाने मुस्तफ़ि: حَسْبِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : जिस के पास मेरा जिक्र हुआ और उस ने मुझ पर दृष्टि पाक न पढा। तहकीक वोह बढ भक्त हो गया. (उंन)

फरमाया : येह ईसराफ़ कैसा ? अर्ज की : क्या वुजू में भी ईसराफ़ है ?

फरमाया : “हां अगर्ये तुम ज़ारी नहूर पर हो.”

(سُنَنِ ابْنِ مَاجَه (ص ٢٠٤ حَدِيث ٤٢٠)

आ'ला हज़रत رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ كِ इतवा

मेरे आका आ'ला हज़रत, ईमामे अहले सुन्नत رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ

ईस हदीसे पाक के तहूत फरमाते हैं : हदीस ने नहरे ज़ारी में भी ईसराफ़ साबित फरमाया और ईसराफ़ शर-अ में मज़मूम ही हो कर आया है. आयते करीमा :

وَلَا تُسْرِفُوا ۗ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ (तर-ज-मअे कऱुल ईमान : बेशक बे
السَّرْفِينَ ﴿٣٧﴾ (پ ٤٨ الانعام: ٤١) ज़ा भरयूने वाले उसे पसन्द नही.)

मुत्वक है तो येह ईसराफ़ भी मज़मूम व मन्मूअ ही होग़ा बढके भुद ईसराफ़ फ़िल वुजू में भी सीगअे नहूय वारिद और नहूय हकीकतन मुफ़ीदे तहरीम. (या'नी वुजू में ईसराफ़ की नहूय (मुमा-न-अत) का हुकम आया है और हकीकत में मुमा-न-अत का हुकम हराम होने का फ़ाअेदा देता है)

(इतावा र-जविय्या मुभर्रज़ा, ज़ि. 1, स. 731)

मुफ़ती अहमद यार जान رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ كِ तहसीर

मुफ़सिरे शहीर हज़रते मुफ़ती अहमद यार जान رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ

आ'ला हज़रत رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ के इतवा में पेश कर्दा सू-रतुल अन्आम की आयते करीमा नम्बर 141 के तहूत बे ज़ा भर्य (या'नी ईसराफ़) की तहसील बयान करते हुअे रकम तराज हैं : “ना ज़ा'ज जगह पर भर्य करना भी बे ज़ा भर्य है और सारा माल भैरात कर के बाल बर्यो को

करमाने मुस्तफ़ा: حَسْبِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالهِ وَسَلَّمَ : जिस ने मुज़ पर अेक बार दुइदे पाक पढा अल्लाह उस पर दस रहमतेँ बेजता है. (س)

इकीर बना देना भी बे ज़ा पर्य है, जइरत से ज़ियादा पर्य भी बे ज़ा पर्य है इसी लिये आ'ज़ाअे वुज़ू को (बिला इज्जते शर-ई) यार बार धोना इसराफ़ माना गया है." (नूरुल ईरफ़ान, स. 232)

﴿2﴾ घसराइ न कर

इजरते सय्यिदुना अब्दुल्लाह बिन उमर رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا से रिवायत है : अल्लाह के मडबूअ, दानाअे गुयूअ, मुनज़्जहुन अनिल उयूअ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالهِ وَسَلَّمَ ने अेक शअ्स को वुज़ू करते देभा, इरमाया : इसराइ न कर इसराइ न कर. (سَنَنِ ابْنِ مَاجَه ج ١ ص ٢٠٤ حدیث ٤٢٤)

﴿3﴾ घसराइ शैतानी काम है

इजरते सय्यिदुना अनस رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ से रिवायत है : वुज़ू में अहुत सा पानी अडाने में कुइ अैर (मलाइ) नहीँ और वोअ काम शैतान की तरफ़ से है. (كُنُزُ الْعُقَال ج ٩ ص ٤٤٤ حدیث ٢١٢٠٠)

﴿4﴾ जन्नत का सइेद महल मांगना कैसा ?

इजरते सय्यिदुना अब्दुल्लाह इब्ने मुगइइल رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ने अपने अेदे को इस तरअ दुआ मांगते सुना, के इलाही ! عَزَّ وَجَلَّ ! मैं तुअ से जन्नत का दाइनी (या'नी सीधी) तरफ़ वाला सइेद महल मांगता हूँ. तो इरमाया के अै मेरे अय्ये ! अल्लाह عَزَّ وَجَلَّ से जन्नत मांगो और दोअअ से उस की पनाअ मांगो. मैं ने रसूलुल्लाह صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالهِ وَسَلَّمَ को इरमाते सुना के इस उम्मत में वोअ कौम अोगी ज़े वुज़ू और दुआ में अद से तजवुअ किया करेगी. (سَنَنِ ابوداؤد ج ١ ص ٦٨ حدیث ٩٦)

करमाने मुस्तक़ा صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : जो शप्स मुज़ पर दुरेदे पाक पढना भूल गया वोड जन्तत का रास्ता भूल गया. (طرائق)

मुफ़सिरे शहीर उकीमुल उम्मत उजरते मुफ़ती अहमद यार पान عَلَيْهِ رَحْمَةُ الْحَنَّانِ इस उदीसे पाक के तइत इरमाते हैं : दुआ में तजवुज़ (या'नी उद से बढना) तो येड है के औसी बात का तअय्युन किया जअे जिस की उररत नहीं जैसे उन के साखिब अडे ने किया. इरदौस (जो के सभ से आ'ला जन्तत है उस का) मांगना बहुत बेहतर है के इस में शप्सी तअय्युन (या'नी अपनी तरफ़ मुकरर करना) नहीं नौँ तकरुर (नौअ या'नी किस्म मुकरर करना) है इस का हुक्म दिया गया है.

(मिरआतुल मनाज्जल, जि. 1, स. 293)

बुरा किया, गुल्म किया

अक आ'राबी ने भिदमते अकदस हुज़ूर सय्यिदे आलम صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ में डाजिर डो कर वुज़ू के बारे में पूछा : हुज़ूरे अकदस صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ने उन्हें वुज़ू कर के दिभाया जिस में डर उज़्व तीन तीन बार धोया इर इरमाया : वुज़ू इस तरड है, तो जो इस से अरुड करे या कम करे उस ने बुरा किया और गुल्म किया.

(سُنَنِ نَسَائِي ص ۳۱ حديث ۱۴۰)

घसराइ सिर्फ़ दो सूरतों में ही गुनाह है

भेरे आका आ'ला उजरत इमाम अहमद रजा पान عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمَنِ लिखते हैं : येड वरुड इस सूरत में है के जब येड अे'तिकाद रपते हुअे जियादा करे के जियादा करना ही सुन्नत है. और अगर तस्वीस (या'नी तीन बार धोने) को सुन्नत माना और वुज़ू पर वुज़ू के इरादे या शक के वक्त इत्मीनाने कलब के लिये या तबरीद (या'नी

करमाने मुस्तक़ा صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: जिस के पास मेरा जिक्र हुआ और उस ने मुझ पर दुइद शरीक़ न पढा उस ने जफ़ा की. (عبدالرزاق)

ठन्डक के हुसूल) या तन्जीफ़ (या'नी सफ़ाई) के लिये ज़ियादा किया या किसी हाजत की वजह से कमी की तो कोई हरज नहीं. सिर्फ़ दो सूरातों में 'सराफ़ ना ज़ा'ज व गुनाह होता है अक़ येह के किसी गुनाह में सर्फ़ व 'स्ति'माल करें, दूसरे बेकार महुज़ माल जाअेअ करें. वुजू व गुस्ल में तीन बार से ज़ा'द पानी डालना जब के ग-रजे सहीह (या'नी ज़ा'ज मक़सद) से हो हरगिज़ 'सराफ़ नहीं, के ज़ा'ज गरज में 'अर्य करना न 'फ़ुद मा'सियत (या'नी ना इरमानी) है न बेकार 'ज़ाअत (या'नी जाअेअ करना). (इतावा र-अविय्या जि. 1, ज़ुज : ५, स. 940 ता 942)

अ-मली तौर पर वुजू सीबिये

भीठे भीठे 'स्लामी भा'यों ! 'स हदीसे पाक से मा'लूम हुआ के सिबाने के लिये 'फ़ुद अ-मली तौर पर वुजू कर के दूसरे को दिबाना सरकारे मदीना صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ से साबित है. मुबद्लिगीन को याहिये के 'स हदीसे पाक पर अमल करते हुअे बिगैर 'सराफ़ के सिर्फ़ हस्बे ज़रत पानी बहा कर तीन तीन बार आ'ज़ा धो कर वुजू कर के 'स्लामी भा'यों को दिबाअें. बिवा ज़रते शर-ई कोई उजूव यार बार न धुले 'स का अयाल रफ़ा ज़ाअे, फिर ज़ो ब 'शुशी अपनी 'स्लाल करवाना याहे वोह भी वुजू कर के मुबद्लिग को दिबाअे और अपनी ग-लतियां दूर करवाअे. दा'वते 'स्लामी के सुन्नतों की तरबियत के म-दनी काफ़िलों में आशिकाने रसूल की सोहबत में येह म-दनी काम अह्सन तरीके पर हो सकता है. दुरुस्त वुजू करना ज़र ज़र ज़र सीप लीजिये. सिर्फ़ अक़आध बार वुजू का तरीका पढ लेने से सहीह मा'नों में वुजू करना

करमाने मुस्तफा صلى الله تعالى عليه وآله وسلم : जो मुज पर रोजे जुमुआ दुरुद शरीफ पढेगा मैं कियामत के दिन उस की शफाअत करेगा. (क़ुरआन)

आ ज़ाओ येह बहुत मुश्किल है, बार बार मश्क करनी होगी. वुजू सीपने के लिये दा'वते इस्लामी के इशाअती इदारे मक-त-अतुल मदीना की ज़ारी कर्दा V.C.D अनाम : "वुजू का तरीका" देपना इन्तिहाई मुफ़ीद है.

मस्जिद और मद्रसे के पानी का घरराफ़

मस्जिद व मद्रसे वगैरा के वुजूपाने का पानी "वक्फ़" के हुकूम में होता है. इस पानी और अपने घर के पानी के अहकाम में फ़र्क़ होता है. जो लोग मस्जिद के वुजूपाने पर बे दर्दी के साथ पानी बहाते हैं बल्के वुजू में बिला ज़रूरत इकत ग़लत या ज़हलत के सबब तीन से जाईद मर्तबा आ'जा धोते हैं वोह इस मुबारक इतवे पर ખૂબ गौर इरमाओं, ખૌફે ખુદા جَزَاءُ سے लरज़ें और तौबा करें. युनान्ये मेरे आका आ'ला उजरत, इमामे अहले सुन्नत, वलिये ने'मत, अजीमुल अ-र-कत, अजीमुल मर्तबत, परवानये शम्मे रिसालत, मुजदिदे दीनो मिल्लत, डामिये सुन्नत, माडिये बिद्अत, आलिमे शरीअत, पीरे तरीकत, बाईसे ખેरो अ-र-कत, उजरते अल्लामा मौलाना अलहाज अल डार्किज अल कारी शाह इमाम अहमद रज़ा ખાન عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰنِ इरमाते हैं : अगर वक्फ़ पानी से वुजू किया तो ज़ियादा अर्घ्य करना बिल इत्तिफ़ाक़ डराम है क्यूंके इस में ज़ियादा अर्घ्य करने की इज्जत नहीं दी गई और मदारिस का पानी इसी किस्म का होता है जो के सिर्फ़ उन ही लोगों के लिये वक्फ़ होता है जो शर-ई वुजू करते हैं. (इतावा र-जविय्या मुअर्रज़ा, ज़ि. 1, स. 658)

मीठे मीठे इस्लामी भाईयो ! जो अपने आप को इसरफ़ से नहीं बचा पाता उसे यादिये के मम्लूका (या'नी अपनी मिल्कियत के)

करमाने मुस्तफ़ा: عَلَى اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : मुज़ पर हुज़दे पाक की कसरत करो बेशक येह तुम्हारे लिये तदारत है. (अ. 1)

म-सलन अपने घर के पानी से घुजू करे. **إِسْ** का येह मतलब नहीं के जाती पानी के **إِس**राफ़ की ખुली छूट है बल्के घर में ખૂब मश्क कर के शर-ई घुजू सीખ ले ताके मस्जिद के पानी का **إِس**राफ़ कर के हुराम का मुर-तक़िब न हो.

“अहमद रज़ा” के सात हुज़्ज़ की निरबत से आ'ला हज़रत की तरफ़ से घसराफ़ से बयने की 7 तदाबीर

- ❶ **आ'ज़** लोग युल्लू लेने में पानी अैसा डालते हैं के उबल जाता है डालां के जो गिरा बेकार गया **إِس** से अेडतियात खाडिये.
- ❷ **उर** युल्लू भरा होना ज़रूरी नहीं बल्के जिस काम के लिये लें उस का अन्दाज़ा रभें म-सलन **नाक** में नर्म बांसे (या'नी नर्म हड्डी) तक पानी यढाने को पूरा युल्लू क़्या ज़रूर निस्फ़ (या'नी आधा) भी काफ़ी है बल्के भरा युल्लू कुल्ली के लिये भी दरकार नहीं.
- ❸ **लोटे** की टोंटी मु-तवस्सित मो'तदिल (या'नी दरमियानी) खाडिये के न अैसी तंग के पानी ब-दर (या'नी दर में) दे न इराખ (या'नी कुशादा) के ड़ाजत से ज़ियादा गिराअे, **إِس** का इर्क यूं मा'लूम हो सकता है के कटोरों में पानी ले कर घुजू कीजिये तो बहुत ખर्य ड़ोगा यूंही इराખ (या'नी कुशादा) टोंटी से बडाना ज़ियादा ખर्य का बा'इस है. अगर लोटा अैसा (या'नी कुशादा टोंटी वाला) हो तो अेडतियात करे पूरी धार न गिराअे बल्के बारीक. (नल ખोलने में भी इन्हीं बातों का ખयाल रभिये)
- ❹ **आ'ज़ा** धोने से पडले उन पर लीगा ड़ाथ इैर ले, के पानी जल्द दौडता है और थोडा (पानी), बहुत (से पानी) का काम देता है, ખुसूसन

करमाने मुस्तफ़ा : صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : तुम जहाँ भी हो मुज़ पर दुरुद पढ़ो के तुम्हारा दुरुद मुज़ तक पहुँचता है. (طرائق)

मौसिमे सरमा (या'नी सर्दियों) में इस की ज़ियादा हाज़त है के आ'ज़ा में फुशकी होती है और बहती धार भीय में जगह ज़ाली छोड़ देती है जैसा के मुशा-हदा (या'नी देभी ज़ाली बात) है.

﴿5﴾ कलाईयों पर बाल हों तो तरश्वा (या'नी कटवा) दें के उन का छोना पानी ज़ियादा याहता है और मूंडने से बाल सप्त हो जाते हैं और तराश्ना मशीन से बेहतर, के फूँ साफ़ कर देती है और सब से अह्सन व अहज़ल नूरा (अक तरह का बाल सफ़ा पाउडर) है के इन आ'ज़ा में येही सुन्नत से साबित. युनान्घे

رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا وَرَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهَا وَآلِهِ وَسَلَّمَ : रसूलुल्लाह जब नूरा का इस्ति'माल फरमाते तो सत्रे मुकदस पर अपने दस्ते मुबारक से लगाते और बाकी ब-दने मुनव्वर पर अज़वाजे मुतह़हरात लगा देतीं.

(ابن ماجه 4/ص 226 حديث 3701)

और ऐसा न करें तो धोने से पहले पानी से फूँ त्रिगो लें के सब बाल बिछ जायें वरना ञडे बाल की जड में पानी गुज़र गया और नोक से न बहा तो पुजू न होगा.

﴿6﴾ दस्त व पा (हाथ व पाँउ) पर अगर लोटे से धार डालें तो नाफुनों से कोहनियों या (पाँउ के) गट्टों के ठिपर (या'नी टप्नों) तक अलल इत्तिसाल (या'नी मुसव्सल) उतारें के अक बार में हर जगह पर अक ही बार गिरे, पानी जब के गिर रहा है और हाथ की रवानी (हिलजुल) में देर होगी तो अक जगह पर मुकरर (या'नी बार बार) गिरेगा. (और इस तरह इसराफ़ की सूरत पैदा हो सकती है)

करमाने मुस्तफ़ा: على الله تعالى عليه والله وسلم: जिस ने मुज पर दस भरतबा दुइदे पाक पढा अल्लाह उरुज उस पर सो रहमते नाजिल करमाता है. (प्राण)

﴿7﴾ बा'ज लोग यूँ करते हैं के नापुन से कोहनी तक या (पाँउ के) गट्टे तक बहाते लाअे फिर दोबारा सेहबारा के लिये जो नापुन की तरफ़ ले गअे तो हाथ न रोक बल्के धार जारी रभी अैसा न करें, के तस्लीस के धवज (या'नी तीन बार के बजअे) पांच बार हो जअेगा बल्के हर बार कोहनी या (पाँउ के) गट्टे तक ला कर धार रोक लें और रुका हुवा हाथ नापुनों तक ले जा कर वहां से फिर धजरा (पानी जारी) करें, के सुन्नत येही है के नापुन से कोहनियों या गट्टों (टप्नों) तक पानी बहे न धस का अकस. (या'नी उलट. मतलब येह के कोहनी या गट्टे से नापुनों की तरफ़ पानी बहाते हुअे ले जाना सुन्नत नहीं)

कौले जामेअ येह है के सलीके से काम लें. धमामे शाफ़े धि رحمة الله تعالى عليه ने क्या पूब करमाया : “सलीके से उठाओ तो थोडा ली काफ़ी हो जाता है और बढ सलीकगी पर तो बहुत (सा) ली किकायत नहीं करता.” (अज धफ़ादाते इतावा र-जविया मुभर्रज, जि. 1, स. 765, 770)

“या रज धसराफ़ से बया” के गौदह हुइइ की गिरबत से धसराफ़ से बयने के लिये 14 म-दनी झूल

﴿1﴾ आज तक जितना ली ना जधज धसराफ़ किया है, उस से तौबा कर के आयिन्दा बयने की लरपूर कोशिश शुइअ कीजिये.

﴿2﴾ गौरो किक कीजिये के अैसी सूरत मु-तअय्यन (या'नी मुकर्रर) हो जअे के वुजू और गुस्ल ली सुन्नत के मुताबिक हो और पानी ली कम से कम भर्य हो. अपने आप को उराधये, के कियामत में अेक अेक जर्रे और कतरे कतरे का हिसाब होना है. अल्लाह तबा-र-क व तआला पारह

करमाने मुस्तक़। عَلَى اللَّهِ تَعَالَى غَيْرُهُ وَاللَّهُ سَلِيمٌ : जिस के पास मेरा जिक्र हो और वोह मुज पर दुरुद शरीफ़ न पड़े तो वोह लोगों में से कन्जूस तरीन शप्स है. (ज़िब्रिया)

30 सू-रतुज़िज़लज़ल आयत नम्बर 7 और 8 में ईशाद़ि फ़रमाता है :

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا
يَرَهُ ۗ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ
شَرًّا يَرَهُ ۗ

तर-ज-मअे कन्जुल ईमान : तो जो अेक
जरा तर ललाई करे उसे देभेगा और जो
अेक जरा तर बुराई करे उसे देभेगा.

﴿3﴾ वुजू करते वक्त नल अेहतियात से ढोलिये, दौराने वुजू मुस्किना सूरत में अेक हाथ नल के दस्ते पर रभिये और ज़रत पूरी होने पर बार बार नल बन्द करते रहिये.

﴿4﴾ नल के मुकाबले में लोटे से वुजू करने में पानी कम भर्य होता है जिस से मुस्किन हो वोह लोटे से वुजू करे, अगर नल के बिगैर गुजारा नही तो मुस्किना सूरत में येह ली किया जा सकता है के जिन जिन आ'जा में आसानी हो वोह लोटे से धो ले. नल से वुजू करना ज़रत है, अस किसी तरह ली ईसराफ़ से बचने की सूरत निकालनी चाहिये.

﴿5﴾ मिस्वाक, कुल्ली, गर-गरा, नाक की सफ़ाई, दाढी और हाथ पाँउ की उंग्लियों का बिलाल और मस्ह करते वक्त अेक ली कतरा न टपकता हो यूं अख़ी तरह नल बन्द करने की आदत बनाईये.

﴿6﴾ बिल ढुसूस सर्दियों में वुजू या गुस्ल करने नीज बरतन और कपडे वगैरा धोने के लिये गर्भ पानी के हुसूल की खातिर नल ढोल कर पाईप में जम्भ शुदा ठन्डा पानी यूं ही बहा देने के बजाअे किसी बरतन में पहले निकाल लेने की तरकीब बनाईये.

﴿7﴾ हाथ या मुंड धोने के लिये साबुन का जाग बनाने में ली पानी अेहतियात से भर्य कीजिये. म-सलन हाथ धोने के लिये युल्लू में पानी

करमाने मुस्तफ़ा: على الله تعالى عليه وسلم: उस शप्स की नाक पाक आवुद हो जिस के पास मेरा जिक्र हो और वोह मुज पर दुइदे पाक न पड़े. (रिब)

के थोड़े कतरे डाल कर साबुन ले कर जाग बनाया जा सकता है अगर पड़ले से साबुन हाथ में ले कर पानी डालेंगे तो पानी ज़ियादा भर्य हो सकता है.

﴿8﴾ **ईस्ति'माल** के बा'द औसी साबुन दानी में साबुन रभिये जिस में पानी बिल्कुल न हो, पानी में रभ देने से साबुन धुल कर जायेगा. हाथ धोने के बेसीन के कनारों पर भी साबुन न रभा जाये, के पानी की वजह से जल्दी धुल जाता है.

﴿9﴾ **पी** युकने के बा'द गिलास में बया हुवा पानी फ़ेंक देने के बजाये दूसरे को पिला दीजिये या किसी और ईस्ति'माल में लीजिये.

﴿10﴾ **इल**, कपडे, भरतन और इर्श बलके याय का कप या अक यम्मय भी धोते वक्त नीज़ नल भोल कर इस कदर ज़ियादा गैर ज़रूरी पानी बछाने का आज कल रवाज है के हुस्सास और दिल जले आदमी से देखा नहीं जाता !!! औ काश !

शायद के उतर जाये तेरे दिल में मेरी बात

﴿11﴾ अक्सर मस्जिदों, घरों, दफ़्तरों, दुकानों वगैरा में प्वाह म प्वाह दिन रात बत्तियां जलती A.C. और पंभे चलते रहते हैं, ज़रूरत पूरी हो जाने के बा'द बत्तियां, पंभे और A.C. और कम्प्यूटर वगैरा बन्द कर देने की आदत बनाईये, हम सभी को हिसाबे आभिरत से उरना और हर मुआ-मले में ईसराफ़ से बचते रहना चाहिये.

﴿12﴾ **ईस्तिन्हा** खाने में लोटा ईस्ति'माल कीजिये के इव्वारे से तहारत करने में पानी भी ज़ियादा भर्य होता है और पाँउ भी अक्सर आलूदा

करमाने मुस्तक़ा : على الله تعالى عليه و الله وسلم : जिस ने मुज पर रोजे जुमुआ दो सो बार दुइदें पाक पढा उस के दो सो साल के गुनाह मुआफ़ होंगे. (अल-अल)

हो जाते हैं. हर अक को यादिये के हर बार पेशाब करने के बा'द अक लोटा पानी ले कर W.C. के कनारों पर थोडा सा बहाअे फिर कदरे ठीपर से (मगर छींटों से बचते हुअे) बडे सूराभ में डाल दिया करे **اِنَّ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ** बहबू और जरासीम की अफ़्जाईश में कमी होगी. “इलश टेंक” से सफ़ाई में पानी बहुत ज़ियादा सर्फ़ होता है.

﴿13﴾ नल से कतरे टपकते रहते हों तो फ़ौरन इस का हल निकालिये वरना पानी ज़ाअेअ होता रहेगा. बसा अवकात मसाजिद व मदारिस के नल टपकते रहते हैं मगर कोई पूछने वाला नहीं होता ! धन्तिजामिया को अपनी जिम्मादारी समजते हुअे अपनी आभिरत की बेहतरी के लिये फ़ौरन कोई तरकीब करनी यादिये.

﴿14﴾ **पाना** पाने, चाय या कोई मशरूब पीने, इल काटने वगैरा मुआ-मलात में भूब अेहतियात इरमाईये ताके हर दाना, हर गिजाई ज़र्रा और हर कतरा ईस्ति'माल हो जाअे.

40 म-दनी कूलों का र-जवी गुलदस्ता

(तमाम म-दनी कूल इतावा र-जविय्या मुपर्जज जिल्द 4 के आभिर में दिये हुअे “इवाईदे जलीला” सफ़हा 613 ता 746 से लिये गअे हैं)

☉ वुजू में आंभें जोर से न बन्द करे मगर वुजू हो जाअेगा
 ☉ अगर लब (या'नी डोंट) भूब जोर से बन्द कर के वुजू किया और कुल्ली न की वुजू न होगी ☉ वुजू का पानी रोजे कियामत नेकियों के पल्ले में रखा जाअेगा. (मगर याद रहे ! ज़रत से ज़ियादा पानी गिराना ईसराफ़ है) ☉ मिस्वाक मौजूद हो तो उंगली से दांत मांजना अदाअे सुन्नत व

करमाने मुस्तका: صلى الله تعالى عليهم و آله وسلم: मुज पर दुइद शरीक पढो अल्लाह عزوجل तुम पर रहमत भेजेगा. (अबुसूद)

हुसूले सवाब के लिये काफ़ी नहीं, हां भिस्वाक न हो तो उंगली या भर-भरा (या'नी धुर-दरा) कपडा अदाअे सुन्नत कर देगा और औरतों के लिये भिस्वाक मौजूद हो जब भी भिस्सी काफ़ी है ❀ अंगूठी ढीली हो तो वुजू में उसे फिरा कर पानी डालना सुन्नत है और तंग हो, के बे जुम्बिश दिये पानी न पड़ोये तो इर्ज. येही हुकम वाली (या'नी कान के जेवर) वगैरा का है ❀ आ'जा का मल मल कर धोना वुजू और गुस्ल दोनों में सुन्नत है ❀ आ'जाअे वुजू धोने में हदे शर-ई से ईतनी भईई तहरीर (या'नी हर तरफ़ से मा'भूली सा) बढाना जिस से हदे शर-ई तक ईस्तीआब (या'नी मुकम्मल होने) में शुबा न रहे वाजिब है ❀ वुजू में कुल्ली या नाक में पानी डालने का तर्क मक़रुह है और ईस की आदत डाले तो गुनहगार होगा. येह मस्अला वोह लोग भूब याद रभे जो कुद्लियां औसी नहीं करते के हक तक हर चीज को धोअे और वोह के पानी जिन की नाक को (इकत) छू जाता है सूँघ कर डिपर नहीं यढाते येह सब लोग गुनहगार हैं और गुस्ल में तो औसा न हो तो सिरे से न गुस्ल होगा न नमाज ❀ वुजू में हर उज़्व का पूरा तीन बार धोना सुन्नते मुअक़द है, तर्क की आदत से गुनहगार होगा ❀ वुजू में जल्दी न आडिये बढे दरंग (या'नी ईत्मीनान) व ओहतियात के साथ करे. अवाम में जो मशहूर है के “वुजू जवानों का सा, नमाज बूढ़ों की सी” येह वुजू के बारे में गलत है ❀ मुंह धोने में न गालों पर डाले न नाक पर न जोर से पेशानी पर, येह सब अइआल जुह्दाल (या'नी ज़हिलों) के हैं बढे बा आडिस्तगी बालाअे पेशानी (या'नी पेशानी के

करमाने मुस्तक। على الله تعالى عليه و الله وسلم : मुज पर कसरत से दुइटे पाक पढे बेशक तुम्हारा मुज पर दुइटे पाक पढना तुम्हारे गुनाहों के लिये मज्किरत है. (मस्जिद)

उपर) से डाले के ढोडी से नीचे तक बहता आये ❀ गुजू में मुंड से गिरता हुवा पानी म-सलन क्लाई पर लिया और (क्लाई पर) बहा लिया (या'नी मुंड घोने में मुंड से गिरने वाले पानी से हाथ की क्लाई नहीं धो सकते के) इस से गुजू न होगी और गुस्ल में (मुआ-मला जुदा है) म-सलन सर का पानी पाँउ तक जहां जहां गुजरेगा पाक करता जायेगा वहां नये पानी की जरूरत नहीं ❀ आदमी गुजू करने बैठा फिर किसी मानेअ (या'नी रुकावट) के सबब तमाम (या'नी मुकम्मल) न कर सका तो जितने अफ़्आल किये उन पर सवाब पायेगा अगर्चे गुजू न हुवा ❀ जिस ने झुट्टा ही कस्र (या'नी धरादा) किया के आधा गुजू करेगा वोह इन अफ़्आल पर सवाब न पायेगा, यूँही जो गुजू करने बैठा और बिला उज़र नाकिस (या'नी अधूरा) छोड दिया वोह भी जितने अफ़्आल बजा लाया उन पर मुस्तलिके सवाब न होना याहिये ❀ अगर सर पर भींड (या'नी बारिश) की बूँटें धतनी गिरीं की यहारुम (या'नी यौथाई) सर भीग गया मस्ह हो गया अगर्चे इस शप्स ने हाथ लगाया न कस्र (या'नी न निव्यत व धरादा) किया ❀ ओस (या'नी शबनम) में सर बरहना (या'नी नंगे सर) बैठा और उस से यहारुम सर के कदर भीग गया मस्ह हो गया ❀ धतने गर्म या धतने सर्द पानी से गुजू मक़्इल है जो बदन पर अच्छी तरह न डाला जाये, तकमीले सुन्नत न करने दे, और अगर कोई इर्ज पूरा करने से मानेअ (या'नी रुकावट) हुवा तो गुजू ही न होगी ❀ पानी बेकार सई (या'नी षर्य) करना या ईंक देना **हुराम** है. (अपने या दूसरे के पीने के आ'द गिलास या जग का बया हुवा पानी ज्वाह म ज्वाह

करमाने मुस्ताफ़। حَسْبُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالسَّلَامُ : श्री मुज़ पर ओक दुबुद शरीक़ पढता है अल्लाह उस के लिये ओक कीरात अज्र लिफता है और कीरात उहुद पहाड जितना है. (सुलतान)

इंके देने वाले तौबा करें और आयिन्दा ईस से बयें) ❀ नाफ़ से जई पानी बह कर निकले वुज़ू ज़ाता रहे ❀ भून या पीप आंभ में बहा मगर आंभ से बाहर न गया तो वुज़ू न ज़ायेगा उसे कपडे से पोंछ कर पानी में डाल दें तो (पानी) नापाक न होगा ❀ ज़म्भ पर पट्टी बंधी है उस में भून वगैरा लग गया अगर ईस काबिल था के बन्दिश न होती तो बह ज़ाता तो वुज़ू गया वरना नहीं, न पट्टी नापाक ❀ कतरा उतर आया या भून वगैरा ज़कर (या'नी उज़्वे तनासुल) के अन्दर बहा जब तक उस के सूराभ से बाहर न आये वुज़ू न ज़ायेगा और पेशाब का सिर्फ़ सूराभ के मुंह पर यमकना (वुज़ू तोडने के लिये) काफ़ी है ❀ ना बालिग न कभी बे वुज़ू हो न ज़नुब (या'नी बे गुस्ला). ईन्हें (या'नी ना बालिगान को) वुज़ू व गुस्ल का हुकम आदत डालने और आदाब सिफ़ाने के लिये है वरना किसी हदस (या'नी वुज़ू तोडने वाले अमल) से ईन का वुज़ू नहीं ज़ाता न जिमाअ से ईन पर गुस्ल इर्ज़ हो ❀ बा वुज़ू ने मां बाप के कपडे या उन के भाने के लिये इल या मस्जिद का इर्श सवाब के लिये धोया पानी मुस्ता'मल न होगा अगर्ये येह अइआल कुरबत (या'नी रिज़ाअे ईलाही) के हैं ❀ ना बालिग का पाक हाथ या बदन का कोई ज़ुज़ अगर्ये बे वुज़ू हो पानी में डालने से काबिले वुज़ू रहेगा ❀ बदन सुथरा रभना, मैल दूर करना, शर-अ में मतलूब है के ईस्लाम की बिना (या'नी बुन्याद) सुथराई (या'नी पाकीज़गी व सफ़ाई) पर है. ईस निय्यत से बा वुज़ू ने बदन धोया तो कुरबत (या'नी कारे सवाब) बेशक है मगर पानी मुस्ता'मल न हुवा ❀ मुस्ता'मल पानी पाक है ईस से कपडा धो सकते हैं

करमाने मुस्ताफ़। عَلَى اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالْوَسْمُ : जिस ने क़िताब में मुज़ पर दुरुददे पाक लिखा तो जब तक मेरा नाम उस में रहेगा फिरिश्ते उस के लिये ईस्तिफ़कार करते रहेंगे. (अ. ५)

मगर ईस से घुज़ू नहीं हो सकता और ईस का पीना या ईस से आटा गूंधना मक़रूहे (तन्ज़ीही) है ❀ पराया पानी बे ईजाज़त ले गया अगर्ये ज़बर दस्ती या युरा कर उस से घुज़ू हो जाये मगर हराम है. अलबत्ता किसी के मम्बूक (या'नी मिल्कियत के) कूंअें से उस की मुमा-न-अत पर भी पानी लर लिया उस का ईस्ति'माल जाईज है ❀ जिस पानी में माअे मुस्ता'मल की धार पड़ोयी या वाजेह कतरे गिरे उस से घुज़ू न करना बेहतर ❀ ज़डे में घुज़ू करने से सर्दी बहुत मा'लूम होगी ईस की तकलीफ़ होगी मगर किसी मरज़ का अन्देशा नहीं तो तयम्मुम की ईजाज़त नहीं ❀ शैतान के थूक और कूक से नमाज़ में कतरे और रीह का शुबा हो जाता है, हुकूम है के जब तक अैसा यकीन न हो जिस पर कसम आ सके ईस (वस्वसे) पर लिहाज़ न करे, शैतान कहे के तेरा घुज़ू जाता रहा तो दिल में जवाब दे ले के ખબીस तू जूटा है और अपनी नमाज़ में मशगूल रहे ❀ मस्जिद को हर घिन की यीज़ से बयाना वाजिब है अगर्ये पाक हो जैसे लुआबे दहन (मुंह की राल, थूक, बलगम) आबे बीनी (म-सलन रीठ या नाक से नज़ले का बहने वाला पानी) आबे घुज़ू ❀ तम्बीह : बा'ज लोग, के घुज़ू के बा'द अपने मुंह और हाथों से पानी पोंछ कर मस्जिद में हाथ जाउते हैं (येह) मद्ज़ज़ हराम और ना जाईज है. ❀ पानी में पेशाब करना मुत्लकन मक़रूह है अगर्ये दरिया में हो ❀ जहां कोई नजासत पडी हो तिलावत मक़रूह है ❀ पानी जाअेअ करना हराम है ❀ माल जाअेअ करना हराम है ❀ जमज़म शरीफ़ से गुस्ल व घुज़ू बिना कराहत जाईज है (और पेशाब वगैरा कर के) ढेले

करमाने मुस्तफ़ा : صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : जिस ने मुज पर अक बार दुइदे पाक पढा अल्लाह उस पर दस रलमते बेजता है. (स्)

(से पुशक कर लेने) के आ'द (आभे जमजम से) ईस्तिन्ना मक़्दुह और नजासत घोना (म-सलन पेशाब के आ'द टिशू पेपर वगैरा से सुभाअे बिगैर) गुनाह ❁ (वोह) ईसराफ़, के (जो) ना जाईज व गुनाह है (वोह) सिर्फ़ (ईन) दो सूरतों में डोता है, अक येह के किसी गुनाह में सर्फ़ (या'नी पर्य) व ईस्ति'माल करें, दूसरे बेकार मइज़ माल जाअेअ करें ❁ गुस्ले मय्यित सिभाने के लिये मुई को नहलाया और उसे गुस्ल देने की नियत न की वोह भी पाक डो गया और जिन्दों पर से भी इर्ज़ उतर गया के ई'ल बिल कस्द काई है, डं बे नियत सवाब न मिलेगा.

या रब्बे मुस्तफ़ा ! عَزَّ وَجَلَّ ! डमें ईसराफ़ से बयते हुअे शर-ई वुजू के साथ डर वक्त आ वुजू रलना नसीब करमा.

أَمِينِ بِجَاهِ النَّبِيِّ الْأَمِينِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

आ वुग्गू मरने वाला शहीद है

करमाने मुस्तफ़ा : صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : अगर तुम डमेशा आ वुजू रलने की ईस्तिताअत रभो तो अेसा डी करो क्यूंके म-लकुल मौत जिस बन्दे की डह डालते वुजू में कज़ करता है उस के लिये शडादत लिख डी जाती है. (شُعَبُ الْإِيمَانِ ج ٣ ص ٢٩ حديث ٢٧٨٣)

गमे मदीना, बकीअ, मडि़रत और बे डि़साब जन्नतुल क़िरदीस में आका के पडोस का तालिब



5 जुव डि़ज्जतिल डराम 1435 सि.डि. 01-10-2014

करमाने मुस्तक। على الله تعالى غيبه و الله وسلم : जो शप्स मुज पर दुइदे पाक पढना भूल गया वोह जन्त का रास्ता भूल गया. (طرائق)

विलादत में आसानी का नुस्खा (मरयम बीबी का झूल)

मरयम बीबी का झूल¹ दई जेह (बख्ये की विलादत का दई) शुइअ छोने पर किसी खुले बरतन या डिब्बे में पानी में डाल दिया जाये तो जैसे जैसे तर होता जायेगा येह खिलता जायेगा और अल्लाहु रब्बुल ईज्जत की ईनायत से मरयम बीबी के झूल की ब-र-कत से बख्ये की विलादत में आसानी होती है.

जिगैर ओपरेशन विलादत हो गइ (मरयम बीबी के झूल का झअेदा)

दा'वते ईस्लामी के जामिअतुल मदीना के अेक मुइरिस म-दनी ईस्लामी भाई का बयान है के मेरे दूसरे बख्ये की विलादत का दिन था, मेरे बख्यों की अम्मी अस्पताल के मख्सूस कमरे (लेबर रूम) में जा चुकी थीं, कुछ ही देर बाद मुझे म-दनी मुन्ने की विलादत की खुश खबरी मिली. अस्पताल की ईन्तिजार गाल में अेक शप्स से मुलाकात हुई तो उस ने बातों बातों में मरयम बीबी के झूल का जिक् किया तो मेरे दरयाइत करने पर उस ने बताया के अगर दई जेह (बख्ये की विलादत का दई) शुइअ छोने पर ईस सूबे झूल को किसी खुले बरतन या डिब्बे में पानी में डाल दिया जाये तो जैसे जैसे तर होता जायेगा येह खिलता जायेगा और ईस का झअेदा येह होता है के बख्ये की विलादत में आसानी होती है. इर कमोबेश दो साल के बाद जब तीसरे बख्ये की विलादत का मरहला आया तो लेडी डॉक्टर ने मेरे बख्यों की


1 : ईसे "मरयम बूटी" और "मरयम का पन्जा" भी कहते हैं, पन्जे की शकल खुशक डालत में होती है. पन्सारी (दिसी दवाओं) की दुकान से मिलना मुम्किन है मक्के मदीने में मकामी औरतें और बख्ये जमीन पर रज कर यीजें बेयते हैं और उन के पास भी मिल सकता है, ईस की खासियत और ब-र-कत से वाकिफ आशिकाने रसूल वहां से तबर्कन वतन लाते और दूसरों को तोइइतन पेश करते हैं. जिस को दें उस को ईस्ति'माल का तरीका समजाना जरूरी है. कम पुराना हो तो जि्यादा बेहतर है.

करमाने मुस्तक। حَسْبُكَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : जिस के पास मेरा जिक्र हुआ और उस ने मुझ पर दृष्टि पाक न पढा तहकीक वोह बह भन्त हो गया. (उंज)


अम्मी को जेहनी तौर पर ओपरेशन के जरीअे विलादत के लिये तय्यार रहने का कडा, मुजे मरयम बीबी के झूल का जयाल आया तो मैं ने पन्सारी (दिसी दवाओं) की दुकान से मरयम बूटी हासिल कर ली और जब वक्ते विलादत करीब आया तो उसे पानी में डाल दिया, अद्लाह तआला के करम से बिगैर ओपरेशन म-दनी मुन्नी की विलादत हो गई. अेक अर्से बा'द यौथे बय्ये पर ली डोकटर ने ओपरेशन कन्फर्म कर दिया लेकिन मैं ने दीगर अवराहो वजाईफ (जे मक-त-बतुल मदीना की मल्बूआ किताब “घरेलू एलाज” में मौजूद हैं) के साथ साथ मरयम बूटी का ली इस्ति'माल किया, यूं अेक बार झिर बिगैर ओपरेशन म-दनी मुन्नी की विलादत हो गई. इस के कमोबेश दो साल बा'द जब पांचवें बय्ये की विलादत मु-तवक्कअ थी तो हम ने अपने घर के करीबी अस्पताल में रुजूअ किया, वहां ली डोकटर ने मेडीकल रिपोर्ट्स और अपने तजरिबे की रोशनी में ओपरेशन का ली कडा, मैं ने कोशिश कर के रकम का ली इन्तिजाम रखा और अवराहो वजाईफ के साथ साथ वक्ते विलादत करीब होने पर मरयम बूटी ली जुले मुंड वाले डिब्बे में पानी में डाल दी, डोकटर ने बिगैर ओपरेशन विलादत के लिये काझी कोशिश के बा'द ओपरेशन के लिये रकम जम्अ करवाने का बोला के अब ओपरेशन के एलावा यारा नहीं और ओपरेशन का इन्तिजाम शुजूअ कर दिया, रकम बैंक में थी मैं अस्पताल के करीबी अेटीअेम मशीन से रकम निकाल लाया और काउन्टर पर जम्अ करवा दी, लेकिन ओपरेशन से पहले ली अद्लाह جُزُّوْجُ की अता से तन्दुरुस्त व तुवाना म-दनी मुन्ना पैदा होने की जुश जबररी मिल गई. मरयम बूटी के इस्ति'माल का मैं ने यार या पांच इस्लामी भाईयों को मश्वरा दिया उन में से कई अेक को डोकटर ने ओपरेशन का बोल रखा था, اَللّٰهُمَّ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ उन के यहां ली बिगैर ओपरेशन विलादतें हो गई.

पुष्पानअे अतार (المساجد)

उपर से पुष्पाने का नकशा



सीधी तरफ से पुष्पाने का नकशा



मक-त-जतुल मदीना®

दा'वते धरलामी

इंजाने मदीना, श्री कोनिया जगीचे के सामने, मिराजपूर, अहमदयाबाद-1. गुजरात, धन्डिया
Mo.091 93271 68200 E-mail : maktabahmedabad@gmail.com www.dawateislami.net



વુઝૂ ઓર સાઈબ્સ

ઈસ રિસાલે મેં મુલા-હઝા ફરમાઈયે....

વુઝૂ ઓર હાઈ બલ પ્રેશર

કુવ્વતે હાફિઝા કે લિયે

મુંહ કે છાલે

ટૂથ બ્રશ કે નુક્સાનાત

અન્ધાપન સે તહફકુઝ

બાતિની વુઝૂ

વરક ઉલટિયે....

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ
 مَا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

घुठू और साधन्स¹

सिर्फ 23 सईडत पर मधनी येड बयान मुकम्मल पठ लीजिये
 आप घुठू के बारे में डेरत अंगेज मा'लूमात से
 मालामाल डोंगे.

दुइटे पाक की इगीलत

अद्लाड के मडबूब, दानाअे गुयूब, मुनज़्जुडुन अनिल उयूब
 عَزَّ وَجَلَّ का इरमाने अ-उमत निशान है : "अद्लाड
 की भातिर आपस में मडबूबत रबने वाले जब बाडम (या'नी आपस में) मिलें
 और मुसा-इडा करें (या'नी डाय मिलाअें) और नबी صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ
 पर दुइटे पाक पढ़ें तो उन के जुदा डोने से पडले पडले दोनों² के अगले पिछले
 गुनाड बपश डिये जाते हैं."

(مُسْنَدُ أَبِي يَعْقُبَ ج 3 ص 90 حديث 2901)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

घुठू की हिंकरतें सुनने के सडड डबूले इस्लाम

अेक साडिब का बयान है : मैं ने डेडिजयम में यूनीवर्सिटी के
 अेक गैर मुस्लिम Student (तालिडे इल्म) को इस्लाम की दा'वत दी.

1 : येड बयान अमीरे अडले सुन्नत لَدِينِنَا ने तडलीगे कुरआनो सुन्नत की
 आलमगीर गैर सियासी तडरीक दा'वते इस्लामी के त-लबा के दो² रोजा इजतिमाअ
 (मुडरमुल डराम 1421 सि.डि./06-04-2000) नवाब शाड पाकिस्तान में इरमाया. जइरी
 तरमीम के साथ तडरीरन डाजिरे बिदमत है. - मजलिसे मक-त-बतुल मदीना

करमाने मुस्तफ़ा: حَسْبُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالصَّلَاةُ وَالصَّلَامُ : जिस ने मुज्ज पर अेक बार दुवुदे पाक पढा अल्लाह उस पर दस रडमते बेजता है. (س)

उस ने सुवाल किया, वुजू में क्या क्या साधन्सी लिक्मतें हैं ? मैं ला जवाब डो गया. उस डो अेक आलिम डे पास ले गया लेकिन उन डो ल्मी डस डी मा'लूमात न थीं. यहां तक डे साधन्सी मा'लूमात रडने वाले अेक शप्स ने उस डो वुजू डी काई लूबियां अताई मगर गरदन डे मसूड डी लिक्मत अताने से वोल ल्मी कासिर रड. वोल गैर मुस्लिम नौ जवान यला गया. कुड असे डे बा'द आया और कडने लगा : डमारे प्रोफ़ेसर ने डौराने लेक्यर अताया : “अगर गरदन डी पुशत और अतराई पर रोजाना पानी डे यन्द कतरे लगा डिये जाअें तो रीढ डी डडी और डराम मज्ज डी डराबी से पैदा डोने वाले अमराज से तडकडुज डसिल डो जाता है.” येड सुन कर वुजू में गरदन डे मसूड डी लिक्मत मेरी समज में आ गई लिडडज में मुसल्मान डोना याडता हूं और वोल मुसल्मान डो गया.

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

मगरिबी जर्मनी का सेमीनार

मगरिबी ममालिक में मायूसी (या'नी Depression) का मरज तरक्की पर है, डिमाग डेल डो रहे हैं, पागल डानों डी ता'दाड में डजाई डोता जा रड है. नडिसयाती अमराज डे माडिरीन डे यहां मरीजों का तांता अंधा रडता है. मगरिबी जर्मनी डे डिप्लोमा डोडर अेक पाकिस्तानी डिजियो थेरापिस्ट का कडना है : मगरिबी जर्मनी में अेक सेमीनार हुवा जिस का मौजूअ था : “मायूसी (Depression) का डलाज अडवियात डे डलावा और डिन डिन तरीकों से मुडिन है ” अेक डोक्टर ने

करमाने मुस्तक़ा: عَلَى اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : जो शपस मुज्रू पर दुरुदे पाक पढना भूल गया वोह जन्त का रास्ता भूल गया. (طبرانی)

अपने मकाले में येह हैरत अंगेज ठन्किशाफ़ किया के में ने डिप्रेशन के यन्ट मरीजों के रोजाना पांच⁵ बार मुंड धुलाये कुछ अर्से बा'द उन की बीमारी कम हो गयी. फिर जैसे ही मरीजों के दूसरे ग्रूप के रोजाना पांच⁵ बार हाथ, मुंड और पाँउ धुलवाये तो मरज में बहुत ठंफ़ाका हो गया (या'नी कमी आ गयी). येही डॉक्टर अपने मकाले के आभिर में ऐ'तिराफ़ करता है : मुसल्मानों में मायूसी का मरज कम पाया जाता है क्यूंके वोह दिन में कर्ष मर्तबा हाथ, मुंड और पाँउ धोते (या'नी वुज्रू करते) हैं.

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

वुज्रू और हाथ ब्लाड प्रेशर

ऐक हार्ट स्पेश्यालिस्ट का बडे वुसूक (या'नी ऐ'तिमाद) के साथ कहना है : हाथ ब्लाड प्रेशर के मरीज को वुज्रू करवाओ फिर उस का ब्लाड प्रेशर येक करो लाजिमन कम होगा. ऐक मुसल्मान माहिरे नफ़िसयात का कौल है : “नफ़िसयाती अमराज का बेडतरिन ठंलाज वुज्रू है.” मगरिबी माहिरीन नफ़िसयाती मरीजों को वुज्रू की तरह रोजाना कर्ष बार बदन पर पानी लगवाते हैं.

वुज्रू और झलिज

वुज्रू में जो तरतीब वार आ'जा धोये जाते हैं येह भी डिक्मत से ખाली नहीं. पहले हाथ पानी में डालने से जिस्म का आ'साबी निजाम मुत्तलअ हो जाता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता येहरे और हिमाग की रगों की तरफ़ ईस के अ-सरात पड़ोयते हैं. वुज्रू में पहले हाथ धोने फिर कुल्ली करने फिर नाक में पानी डालने फिर येहरा और

करमाने मुस्तफ़ा : حَسْبُكَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : जिस के पास मेरा जिक्र हुआ और उस ने मुज पर दृढ़ पाक न पढा तहकीक वोह बढ भक्त हो गया. (उंग)

दीगर आ'जा धोने की तरतीब इलिज की रोकथाम के लिये मुफ़ीद है. अगर येहरा धोने और मस्ह करने से आगाज किया जाये तो बदन कई बीमारियों में मुभ्तला हो सकता है !

मिस्वाक का इद्रदान

भीठे भीठे इस्लामी भाईयो ! वुजू में मु-तअदद सुन्नतें हैं और हर सुन्नत मफ़्जने हिकमत है. मिस्वाक ही को ले लीजिये ! बय्या बय्या ज्ञानता है के वुजू में मिस्वाक करना सुन्नत है और इस सुन्नत की ब-र-कतों का क्या कहना ! अेक ब्योपारी का कहना है : स्वीजर लेन्ड में अेक नौ मुस्लिम से मेरी मुलाकात हुई, उस को मैं ने तोइतइन मिस्वाक पेश की, उस ने फुश हो कर उसे लिया और यूम कर आंफों से लगाया और अेक दम उस की आंफों से आंसू छलक पडे, उस ने जेब से अेक रुमाल निकाला उस की तह फोली तो उस में से तकरीबन दो² इन्च का छोटा सा मिस्वाक का टुकडा भरआमद हुवा. कहने लगा : मेरी इस्लाम आ-वरी के वक्त मुसल्मानों ने मुजे येह तोहइा दिया था. मैं बहुत संभाल संभाल कर इस को इस्ति'माल कर रहा था येह अत्म होने को था लिहाजा मुजे तश्वीश थी के अल्लाह ﷻ ने करम इरमाया और आप ने मुजे मिस्वाक इनायत इरमा दी. फिर उस ने बताया के अेक अर्से से मैं दांतों और मसूठों की तकलीफ से दो यार था. हमारे यहां के डेन्टिस्ट से इन का इलाज बन नहीं पड रहा था. मैं ने इस मिस्वाक का इस्ति'माल शुइअ किया थोडे ही दिनों में मुजे इइाका (इआेदा) हो गया. मैं डॉक्टर के पास गया तो वोह हैरान रह गया और पूछने

करमाने मुस्तफ़ा صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : जिस ने मुज पर दस भरतबा सुभद और दस भरतबा शाम दुइदे पाक पढा (उसे क्रियामत के दिन मेरी शक्राअत मिलेगी. (المؤمنون))

लगा, मेरी दवा से धतनी जल्दी तुम्हारा भरज दूर नहीं हो सकता, सोयो कोई और वजह होगी. मैं ने जब जेहन पर जोर दिया तो भयाल आया के मैं मुसल्मान हो युका हूं और येह सारी ब-र-कत भिस्वाक ही की है. जब मैं ने डॉक्टर को भिस्वाक दिभाई तो वोह हैरत से देभता ही रह गया.

صَلُّوْا عَلَيَّ الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيَّ مُحَمَّدٌ

कुव्वते हाकिमा के लिये

भीठे भीठे ईस्लामी भाईयो ! भिस्वाक में बे शुमार दीनी व दुन्यवी इवाइए हें. ईस में मु-तअदद कीभियावी अजजा हें जो दांतों को डर तरह की बीमारी से बघाते हें. डाशिया तहतावी में है : “भिस्वाक से कुव्वते हाकिमा बढती, दई सर दूर होता और सर की रगों को सुकून मिलता है, ईस से बलगम दूर, नजर तेज, मे'दा दुरुस्त और भाना उज्म होता है, अकल बढती, बय्यों की पैदाईश में ईजाफा होता, बुढापा देर में आता और पीठ मज्भूत होती है.” (حاشية الطحطاوى على مراقي الفلاح ص ٦٩)

भिस्वाक के बारे में दो अहादीसे मुजा-रका

﴿1﴾ जब सरकारे मदीना صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ अपने मुबारक घर में दाभिल होते तो सब से पहले भिस्वाक करते (مسلم ص ١٥٢ حدیث ٢٠٣) ﴿2﴾ जब सरकारे नामदार صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ नींद से बेदार होते तो भिस्वाक करते.

(ابوداؤد ج ١ ص ٥٤ حدیث ٥٧)

करमाने मुस्तक। على الله تعالى غيبه و الله وسلم: जिस के पास मेरा जिंक हुआ और उस ने मुज पर दुइद शरीक न पढा उस ने जका की. (عمران: 20)

मुंह के छाले का इलाज

अतिब्बा (या'नी डॉक्टरों) का कहना है : “बा'ज अवकात गरमी और मे'दे की तेजाबिख्यत से मुंह में छाले पड जाते हैं और एस मरज से पास डिस्म के जरासीम मुंह में फैल जाते हैं, एस के इलाज के लिये मुंह में ताजा मिस्वाक मलें और एस का लुआब कुछ देर तक मुंह के अन्दर फिराते रहें. एस तरह कई मरीज ठीक हो चुके हैं.”

तूथ ब्रश के गुकसानात

माहिरीन की तहकीक के मुताबिक “80 ईसद अमराज मे'दे (पेट) और दांतों की भराबी से पैदा होते हैं.” उभूमन दांतों की सफाई का जयाल न रहने की वजह से मसूढ़ों में तरह तरह के जरासीम परवरिश पाते फिर मे'दे में जाते और तरह तरह के अमराज का सबब बनते हैं. याद रहे ! “तूथ ब्रश” मिस्वाक का ने'मल बढल नहीं. बल्के माहिरीन ने अे'तिराइ किया है : ﴿1﴾ जब ब्रश अेक बार इस्ति'माल कर लिया जाता है तो उस में जरासीम की तह जम जाती है पानी से धुलने पर भी वोह जरासीम नहीं जाते बल्के वही नशवो नमा पाते रहते हैं ﴿2﴾ ब्रश के बाईस दांतों की उपरी कुदरती यमकीली तह उतर जाती है ﴿3﴾ ब्रश के इस्ति'माल से मसूढ़े आहिस्ता आहिस्ता अपनी जगह छोडते जाते हैं जिस से दांतों और मसूढ़ों के दरमियान जला (GAP) पैदा हो जाता है और उस में गिजा के जर्गत इंसते, सडते और जरासीम अपना घर बनाते हैं इस से दीगर बीमारियों के इलावा आंघों के तरह तरह के अमराज भी जनम लेते हैं, इस से नजर कमजोर हो जाती है बल्के बा'ज अवकात आदमी अन्धा हो जाता है.

करमाने मुस्तफ़ा: عَلَى اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: जो मुज्रू पर रोज़े जुमुआ दुरुद शरीक़ पढ़ेगा मैं कियामत के दिन उस की शफ़ाअत करूँगा. (अबुअल)

क्या आप को मिस्वाक करना आता है ?

डो सकता है आप के दिल में ये लज्जत आये के मैं तो बरसों से मिस्वाक 'इस्ति'माल करता हूँ मगर मेरे तो दांत और पेट दोनों ही खराब हैं ! मेरे भोले भाले 'इस्लामी भाई ! 'इस में मिस्वाक का नहीं आप का अपना कुसूर है. मैं (सगे मदीना ग़ुफ़ु'ए) 'इस नतीजे पर पड़ोया हूँ के आज शायद लाजों में से कोई अक़्बाध ही ऐसा डो जो सही ल उखूलों के मुताबिक़ मिस्वाक 'इस्ति'माल करता डो, लम लो ग अक़सर जल्दी जल्दी दांतों पर मिस्वाक मल कर वुज्रू कर के यल पडते हैं या'नी यं कलिये के लम मिस्वाक नहीं बलके "रस्मे मिस्वाक" अदा करते हैं !

"मिस्वाक करना सुन्नते मुजा-रका है" के बीस हुर्रुफ़ की निखत से मिस्वाक के 20 म-दनी हूल

❁ डो इरामीने मुस्तफ़ा: عَلَى اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: डो² रकअत मिस्वाक कर के पढना बिगैर मिस्वाक की 70 रकअतों से अफ़जल है (अल-तरगीब व-तरहीब ज १ व १०२ हदित १८) ❁ मिस्वाक का 'इस्ति'माल अपने लिये लाजिम कर लो क्यूंके ये ल मुंल की सफ़ाई और रब तआला की रिजा का सबल है (मुसुनदु आम अहमद बिन हबल ज २ व ४३८ हदित ०८१९) ❁ लउरते सय्यिदुना 'इब्ने अब्बास रَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا से रिवायत है के मिस्वाक में दस जूबियां हैं : मुंल साफ़ करती, मसूढे को मजबूत बनाती है, बीनाई बढाती, बलगम दूर करती है, मुंल की बढभू अत्म करती, सुन्नत के मुवाफ़िक़ है, इरिशते खुश डोते हैं, रब राजी डोता है, नेकी बढाती और मे'दा दुरुस्त करती है (जَمْعُ الْجَوَامِعِ لِلْسُّيُوطِيِّ ج ०५ व २६९ हदित १६८१७)

करमाने मुस्तफ़ा عَلَى اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالْوَسْمُ : मुजु पर दुरदे पाक की कसरत करो बेशक ये छ तुम्हारे विषे तछारत है।
(अबु-यूसुफ़)

शाफ़े ई عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْقَوِي हैं : यार⁴ यीजें अकल बढाती हैं : कुजूल बातों से परहेज, मिस्वाक का इस्ति'माल, सु-लछा या'नी नेक लोगों की सोलभत और अपने इल्म पर अमल करना (حياة الحيوان للدميري ج 2 ص 166) ❀ डिकायत : छजरते सख्खिदुना अब्दुल वल्छाब शा'रानी قُدَسَ سِرُّهُ النَّوْرَانِي नकल करते हैं : अेक बार छजरते सख्खिदुना अबू बक शिब्ली बगदादी عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْهَادِي को पुजु के वक्त मिस्वाक की छजरत छुई, तलाश की मगर न मिली, लिछाछा अेक दीनार (या'नी अेक सोने की अशरफ़ी) में मिस्वाक षरीद कर इस्ति'माल करमाई. बा'ज लोगों ने कछा : ये छ तो आप ने बछुत ज़ियादह षर्य कर डलल ! कहीं इतनी मडंगी भी मिस्वाक ली ज़ती है ? करमाया : बेशक ये छ दून्या और इस की तमाम यीजें अद्ललल عَزَّ وَجَلَّ के नछदीक मख्छर के पर बरलबर भी हैसिख्यत नहीं रषतीं, अगर बरोजे डियामत अद्ललल عَزَّ وَجَلَّ ने मुजु से ये छ पूछ लिया तो कया जवलब दूंगा के : “तूने मेरे ष्यारे डबीब की सुन्नत (मिस्वाक) क्युं तर्क की ? मैं ने तुजे जे मल्लो दौलत दियल थल उस की छकीकत तो (मेरे नछदीक) मख्छर के पर बरलबर भी नहीं थी, तो आषिर अैसी छकीर दौलत इतनी अजीम सुन्नत (मिस्वाक) छलसिल करने पर क्युं षर्य नहीं की ?” (مُلَخَّصُ اَزْ لَوَاقِعِ الْاَنْوَارِ ص 38) ❀ दल'वते इस्लामी के इशललती इदारे मक-त-बतुल मदीनल की मत्बूआ बछारे शरीअत ज़िलद अव्वल सईछल 288 पर सदरुशशरीअल, बदरुत्तरीकल, छजरते अद्लललमल मौललनल मुइती मुडम्मद अमजद अली आ'जमी عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْقَوِي लिषते हैं, मशलइबे डिरलम करमाते हैं : जे शष्स मिस्वाक कल आदी छे मरते वक्त उसे कलिमल पढनल नसीब छोगल और जे अइयून षलतल छे

करमाने मुस्तफ़ा : عَلَى اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : तुम जहाँ भी हो मुज पर दुर्रद पढे के तुम्हारा दुर्रद मुज तक पढोयता है. (طرائق)

मरते वक्त उसे कलिमा नसीब न होगा ❀ मिस्वाक पीलू या जैतून या नीम वगैरा कडवी लकड़ी की हो ❀ मिस्वाक की मोटाई छुंग्लिया या'नी छोटी उंगली के बराबर हो ❀ मिस्वाक अेक बाविशत से ज़ियादा लम्बी न हो वरना उस पर शैतान बैठता है ❀ इस के रेशे नर्म हों, के सप्त रेशे दांतों और मसूढ़ों के दरमियान ખલા (Gap) का बाईस बनते हैं ❀ मिस्वाक ताजा हो तो ખૂબ (या'नी बेहतर) वरना इस का अेक सिरा कुछ ढेर पानी के गिलास में भिगो कर नर्म कर लीजिये ❀ मुनासिब है के इस के रेशे रोजाना काटते रहिये के रेशे उस वक्त तक कारआमद रहते हैं जब तक उन में तल्बी बाकी रहे ❀ दांतों की चौडाई में मिस्वाक कीजिये ❀ जब भी मिस्वाक करनी हो कम अज कम तीन बार कीजिये ❀ हर बार धो लीजिये ❀ मिस्वाक सीधे हाथ में इस तरह लीजिये के छुंग्लिया या'नी छोटी उंगली उस के नीचे और बीच की तीन उंग्लियां ठीपर और अंगूठा सिरे पर हो ❀ पहले सीधी तरफ़ के ठीपर के दांतों पर फिर उलटी तरफ़ के ठीपर के दांतों पर फिर सीधी तरफ़ नीचे फिर उलटी तरफ़ नीचे मिस्वाक कीजिये ❀ मुट्टी बांध कर मिस्वाक करने से बवासीर हो जाने का अन्देशा है ❀ मिस्वाक वुजू की सुन्नते कब्लिया है अलबत्ता सुन्नते मुअक्कदा उसी वक्त है जब के मुंड में बढभू हो (माખूज अज इतावा र-जविख्या, जि. 1, स. 623) ❀ मिस्वाक जब ना काबिले ईस्ति'माल हो ज़ाए तो केंक मत दीजिये के येह आलअे अदाअे सुन्नत है, किसी जगह अेहतियात से रખ दीजिये या ढङ्गन कर दीजिये या पथ्थर वगैरा वज़्न बांध कर समुन्दर में डुबो दीजिये. (तर्फ़सीली मा'लूमात के विये मक-त-बतुल मदीना की मत्बूआ बहारे शरीअत जिहद अव्वल सफ़हा 294 ता 295 का मुता-लआ इरमा लीजिये)

करमाने मुस्तफ़। على الله تعالى عليه وآله وسلم : जिस ने मुज पर दस भरतभा दुरेदे पाक पढा अल्लाह عزوجل उस पर सो रडमते नाज़िल करमाता है. (अब्रार)

हाथ धोने की हिकमतें

वुजू में सब से पहले हाथ धोये जाते हैं इस की हिकमतें मुला-हजा हों : मुप्तविफ़ यीजों में हाथ डालते रहने से हाथों में मुप्तविफ़ कीमियावी अजजा और जरासीम लग जाते हैं अगर सारा दिन न धोये जायें तो जल्द ही हाथ धन जिल्दी अमराज में मुप्तला हो सकते हैं :

«1» हाथों के गरमी दाने «2» जिल्दी सोज़िश या'नी पाल की सूजन «3» अेज़ीमा «4» इङ्दी¹ की भीमारियां «5» जिल्द की रंगत तब्दील हो जाना वगैरा. जब हम हाथ धोते हैं तो उग्लियों के पोरों से शुआयें (Rays) निकल कर अेक अेसा हल्का बनाती हैं जिस से हमारा अन्दरूनी बर्की निजाम मु-तडर्रिक हो जाता है और अेक हद तक बर्की रौ हमारे हाथों में सिमट आती है जिस से हमारे हाथों में हुस्न पैदा हो जाता है.

कुल्ली करने की हिकमतें

पहले हाथ धो लिये जाते हैं जिस से वोह जरासीम से पाक हो जाते हैं वरना येह कुल्ली के जरीअे मुंड में और फिर पेट में जा कर मु-तअदद अमराज का बाईस बन सकते हैं. हवा के जरीअे ला ता'दाद मोहलिक जरासीम नीज गिजा के अजजा हमारे मुंड और दांतों में लुआब के साथ चिपक जाते हैं. युनान्ये वुजू में मिस्वाक और कुल्लियों के जरीअे मुंड की बेहतरीन सफ़ाई हो जाती है. अगर मुंड को साफ़ न किया जाये तो धन अमराज का पतरा पैदा हो जाता है : «1» अेज़ज (Aids), के इस की इब्तिदाई अलामात में मुंड का पकना भी शामिल है. अेज़ज का ता हाल डोक्टर इलाज दरयाफ़्त नहीं कर पाये इस भरज

دينه

1 : वोह जरासीम जे किसी चीज पर काई की तरह जम जाते हैं.

करमाने मुस्तक। على الله تعالى عليه و الله وسلم : जिस के पास मेरा जिक्र हो और वोह मुज पर दुइद शरीक न पढे तो वोह लोगों में से कन्जूस तरीन शप्स है. (त्रिस)

में बदन का मुदा-इ-अती निजाम नाकारा हो जाता है, इस में अमराज का मुकाबला करने की कुव्वत नहीं रहती और मरीज धुल धुल कर मर जाता है ﴿2﴾ मुंछ के कनारों का इटना ﴿3﴾ मुंछ और छोटों की दादकूबा (Moniliasis) ﴿4﴾ मुंछ में इइंटी की बीमारियां और छाले वगैरा. नीज रोजा न हो तो कुल्ली के साथ गर-गरा करना भी सुन्नत है. और पाबन्दी के साथ गर-गरे करने वाला क्वे (Tonsil) बढने और गले के बहुत सारे अमराज उता के गले के केन्सर से मडकूज रहता है.

नाक में पानी डालने की हिक्मतें

इइंओं को ऐसी उवा दरकार होती है जो जरासीम, धूमं और गर्दों गुबार से पाक हो और उस में 80 ईसद रतूबत (या'नी तरी) हो ऐसी उवा इराहम करने के लिये अल्हाड ۞ ۞ ने उमें नाक की ने'मत से नवाजा है. उवा को मरतूब या'नी नम बनाने के लिये नाक रोजाना तकर्रीबन थौथाई गेलन नमी पैदा करती है. सफ़ाई और दीगर सप्त काम नथनों के बाल सर अन्जाम देते हैं. नाक के अन्दर अेक जुर्द बीनी (Microscopic) जाडू है. इस जाडू में गैर म-र-ई या'नी नजर न आने वाले इअें छोते हैं जो उवा के जरीअे दाखिल होने वाले जरासीम को उलाक कर देते हैं. नीज इन गैर म-र-ई इअों के जिम्मे अेक और दिइाई निजाम भी है जिसे इंग्रेजी में lysozyme (लैसोजाईम) कहते हैं, नाक इस के जरीअे से आंभों को Infection (या'नी जरासीम) से मडकूज रहती है. ۞ ۞ ! बुजू करने वाला नाक में पानी यढाता है जिस से जिस्म के इस अहम तरीन आवे नाक की सफ़ाई हो जाती है और पानी के अन्दर काम करने वाली बर्की रौ से नाक के अन्दरूनी गैर

करमाने मुस्तक। على الله تعالى عليه وسلم : उस शप्स की नाक पाक आवुद हो जिस के पास मेरा जिक्र हो और वोह मुज पर दुइडे पाक न पडे. (१६)

म-र-ई रुओं की कारकईगी को तक्वियत मिलती है और मुसल्मान वुजू की ब-र-कत से नाक के बे शुमार पेचीदा अमराज से मडकूज हो जाता है. दाईमी नजूला और नाक के जम्म के मरीजों के लिये नाक का गुस्ल (या'नी वुजू की तरह नाक में पानी यढाना) बेउद मुईद है.

येहरा धोने की हिक्मतें

आज कल इजाओं में धूअें वगैरा की आलू-दगियां बढती जा रही हैं, मुप्तविई कीमियावी मादे सीसा वगैरा मैल कुयैल की शकल में आंभों और येहरे वगैरा पर जमता रहता है, अगर येहरा न धोया जाओ तो येहरे और आंभें कई अमराज से दो यार हो जाअें. अेक यूरोपियन डोक्टर ने अेक मकाला लिखा जिस का नाम था. : आंभ, पानी, सिड्डत (Eye, Water, Health) ईस में उस ने ईस बात पर जोर दिया के “अपनी आंभों को दिन में कई बार धोते रहो वरना तुम्हें अतरनाक बीमारियों से दो यार होना पडेगा.” येहरा धोने से मुंड पर क्रील नहीं निकलते या कम निकलते हैं. माहिरीने दुस्न व सिड्डत ईस बात पर मुत्तईक हैं के हर तरह के Cream और Lotion वगैरा येहरे पर दाग छोडते हैं, येहरे को भूब सूरत बनाने के लिये येहरे को कई बार धोना लाजिमी है. “अमेरीकन काउन्सिल फोर ब्यूटी” की सरकई मिम्बर “बेयर” ने क्या भूब ईन्किशाई किया है कडती है : “मुसल्मानों को किसी किस्म के कीमियावी लोशन की हाजत नहीं वुजू से ईन का येहरा धुल कर कई बीमारियों से मडकूज हो जाता है.” मडकमअे माहोवियात के माहिरीन का कडना है : “येहरे की अेलज्ज से बयने के लिये ईस को बार बार धोना याडिये.” الْحَمْدُ لِلَّهِ عَزَّوَجَلَّ ! अैसा सिई वुजू के जरीअे ही मुफ्किन है. الْحَمْدُ لِلَّهِ عَزَّوَجَلَّ ! वुजू में येहरा धोने से अेलज्ज से येहरे की डिफाजत होती,

करमाने मुस्तफा صلى الله تعالى عليه و آله وسلم : जिस ने मुज पर रोजे जुमुआ दो सो बार दुरद पैक पढा उस के दो सो साल के गुनाह मुआफ होंगे. (अल-अमाल)

ईस का मसाज हो जाता, पून का दौरान येहरे की तरफ रवां हो जाता, मैल कुयैल भी उतर जाता और येहरे का हुस्न होबाला हो जाता है.

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

अन्धा पन से तहफ़्फुज

भीठे भीठे ईस्लामी भाईयो ! आंभों की अेक बीमारी है जिस में ईस की रतूबते अस्लिथ्या या'नी अस्ली तरी कम या अत्म हो जाती और मरीज आहिस्ता आहिस्ता अन्धा हो जाता है. तिब्बी उसूल के मुताबिक अगर भंवों को वक्तन इ वक्तन तर किया जाता रहे तो ईस भौइनाक मरज से तहफ़्फुज हासिल हो सकता है. اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ ! वुजू करने वाला मुंड धोता है और ईस तरह उस की भंवें तर छोती रहती हैं. आशिकाने रसूल की दाढी भी वुजू में धुलती है और ईस में भी ખૂબ डिक्मते हैं, डोक्टर प्रोफ़ेसर जयोर्ज अेल कहता है : “मुंड धोने से दाढी में उलजे हुअे जरासीम बह जाते हैं, जउ तक पानी पछोंयने से बालों की जउं मजभूत छोती हैं, दाढी के खिलाल से जूओं का अतरा दूर छोता है, दाढी में पानी की तरी के ठहराव से गरदन के पछों, थाईराईड ग्लैंड और गले के अमराज से डिङाजत छोती है.”

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

कोहनियां धोने की हिक्मतें

कोहनी पर तीन³ बडी रगें हैं जिन का तअद्लुक दिल, जिगर और दिमाग से है और जिस्म का येह डिस्सा उमूमन ढका रहता है अगर ईस को पानी और उवा न लगे तो मु-तअदद दिमागी और आ'साबी अमराज पैदा हो सकते हैं. वुजू में कोहनियों समेत हाथ धोने

करमाने मुस्तक। عَلَى اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : मुज्र पर दुइद शरीफ़ पढो अल्लाह عزوجل तुम पर रहमत भेजेगा. (अबुसुयूब)

से दिल, जिगर और दिमाग को तक्वियत पड़ोयती है और इस तरह वोह इन के अमराज से मडकूज रहेंगे. मजीद येह के कोहनियों समेत हाथ धोने से सीने के अन्दर ज़पीरा शुद्ध रोशनियों से बराहे रास्त इन्सान का तअद्लुक काईम हो जाता है और रोशनियों का हुजूम अक बहाव की शकल इप्तिवार कर लेता है, इस अमल से हाथों के अ-जलात या'नी कलपुर्जे मजीद ताकत वर हो जाते हैं.

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيَّ مُحَمَّدٍ

मस्ह की हिक्मतें

सर और गरदन के दरमियान “उब्बुल वरीद” या'नी शहरग वाकेअ है इस का तअद्लुक रीढ की हडी और हराम मज्ज और जिस्म के तमाम तर जोड़ों से है. जब वुज्र करने वाला गरदन का मस्ह करता है तो हाथों के जरीअे बर्की रौ निकल कर शहरग में ज़पीरा हो जाती है और रीढ की हडी से होती हुई जिस्म के तमाम आ'साबी निजाम में झैल जाती है और इस से आ'साबी निजाम को तुवानाई हासिल होती है.

पागलों का डोक्टर

अक साहिब का बयान है : मैं फ़ान्स में अक जगह वुज्र कर रहा था, अक शप्स षडा बडे गौर से मुजे देખता रहा ! जब मैं फ़ारिग हुवा तो उस ने मुज से पूछा : आप कौन और कहां के वतनी हैं ? मैं ने जवाब दिया : मैं पाकिस्तानी मुसल्मान हूं. पूछा : पाकिस्तान में कितने

करमाने मुस्तक। على الله تعالى عليه و الله وسلم : मुज पर कसरत से दुरदे पाक पढे बेशक तुम्हारा मुज पर दुरदे पाक पढना तुम्हारे गुनाहों के लिये मज्किरत है. (भाग 1)

पागल जाने हैं ? इस अजबो गरीब सुवाल पर मैं योंका मगर मैं ने कल दिया : दो बार होंगे. पूछा : अभी तुम ने क्या किया ? मैं ने कहा : बुजू. कलने लगा : क्या रोजाना करते हो ? मैं ने कहा : हां, बल्के पांच वक्त. वोह बडा हैरान हुवा और बोला : मैं Mental Hospital में सर्जन हूँ और पागल पन के अस्बाब की तहकीक मेरा मशगला है, मेरी तहकीक येह है के दिमाग से सारे बदन में सिग्नल जाते हैं और आ'जा काम करते हैं, हमारा दिमाग हर वक्त Fluid (माओअ) के अन्दर Float¹ कर रहा है. इस लिये हम भागदौड करते हैं और दिमाग को कुछ नहीं छोटा अगर वोह कोई Rigid (सप्त) शै छोती तो अब तक टूट चुकी छोती. दिमाग से चन्द भारीक रगें (Conductor) (भूसिल या'नी पड़ोयाने वाली) बन कर हमारी गरदन की पुश्त से सारे जिस्म को जाती हैं. अगर बाल बहुत बढा दिये जायें और गरदन की पुश्त को भुश्क रखा जाये तो इन रगों या'नी (Conductor) में भुश्की पैदा हो जाने का खतरा पडा हो जाता है और बारहा औसा भी होता है के इन्सान का दिमाग काम करना छोड देता है और वोह पागल हो जाता है लिहाजा मैं ने सोचा के गरदन की पुश्त को दिन में दो बार बार उरर तर किया जाये. अभी मैं ने देखा के हाथ मुंड धोने के साथ साथ गरदन के पीछे भी आप ने कुछ किया है, वाकेई आप लोग पागल नहीं हो सकते. मजीद येह के मसूड करने से लू लगने और गरदन तोड भुजार से

1 : या'नी तैरना.

करमाने मुस्तक़। صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : श्री मुज पर ओक दुइद शरीफ़ पढता है अदवाह وَعَزَّ وَجَلَّ उस के लिये ओक कीरात अज्ज लिफता है और कीरात उहुद पहाड जितना है. (عبراني)

भी बयत छोती है.

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ

पाँ धोने की हिक्मते

पाँ सभ से ज़ियादा धूल आलूद छोते हैं. पहले पहल infection (या'नी जरासीम) पाँ की उंगलियों के दरमियानी छिस्से से शुइअ होता है. वुजू में पाँ धोने से गर्दों गुबार और जरासीम बह जाते हैं और बचे भुये जरासीम पाँ की उंगलियों के फिलाल से निकल जाते हैं. बिहाजा वुजू में सुन्नत के मुताबिक पाँ धोने से नींद की कमी, दिमागी भुशकी, घबराहट और मायूसी (Depression) जैसे परेशान कुन अमराज दूर छोते हैं.

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ

वुजू का बया हुवा पानी

आ'ला उजरत رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ इरमाते हैं : हुजूर ने वुजू इरमा कर बया हुवा पानी भउे छो कर नोश इरमाया और ओक उदीस में रिवायत किया गया के ईस का पानी 70 मरज से शिफ़ा है (इतावा र-अविथ्या, जि. 4, स. 575) हु-कहाअे किराम رَحْمَتُهُمُ اللهُ السَّلَام इरमाते हैं : “किसी बरतन या लोटे से वुजू किया छो तो उस का बया हुवा पानी क़िब्ला इ भउे छो कर पीना मुस्तहब है.” (تبيين الحقائق ج 1 ص 44) वुजू का बया हुवा पानी पीने के बारे में ओक मुसल्मान डॉक्टर का कलना है : ﴿1﴾ ईस का पहला असर मसाने पर पडता, पेशाब की रुकावट दूर छोती और भूब भुल कर पेशाब आता है

करऱने मुस्तफ़ऱ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : जिस ने कितऱब में मुज पर दुऱदे पऱक लिपऱ तऱ जऱब तऱक मेरऱ नऱम उस में रडेगऱ किरिशते उस के लिये ँस्तिऱकर करते रहेंगे. (ऱऱऱ)

﴿2﴾ ँस से नऱ जऱऱज शऱवत से ऱलऱसी ढऱसिल ढऱती है ﴿3﴾ जिगर, मे'दऱ और मसऱने की गरमी दूर ढऱती है.

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيبِ ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

धन्सऱन यऱंढ पर

मीठे मीठे ँस्लऱमी लऱऱयो ! वुजू और सऱऱधन्स कऱ मऱुजूअ यल रऱऱ थऱ, ऱऱज कल सऱऱधन्सी तऱकऱकऱत की तरफ़ ऱऱ'ज लऱगऱं कऱ जिऱऱदऱ रुजऱन ढऱतऱ है ऱल्के कऱऱ ऱैसे लऱी अऱरऱद ँस मुऱऱऱ-शरे में पऱऱे जऱते हैं जऱे ँऱ्रेज मुऱकिकिनी और सऱऱधन्स दऱनऱं से कऱऱी मरऱिऱ ढऱते हैं, ऱैसऱं की ऱिदमत में अऱऱ है के ऱऱत सऱरे ढकऱऱक ऱैसे हैं जिऱन की तलऱश में सऱऱधन्स दऱन ऱऱज सर टकरऱ रहे हैं और मेरे मीठे मीठे ऱऱकऱ मककी म-दनी मुस्तफ़ऱ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ँन कऱे पऱले ढी ऱयऱन ऱरमऱ युके हैं. देऱिये ! ऱपने दऱ'वे के मुतऱऱिऱक सऱऱधन्स दऱन ऱऱऱ यऱंढ पर पऱऱंये हैं मगर मेरे प्यऱरे प्यऱरे ऱऱकऱ मदीने वऱले मुस्तफ़ऱ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ येऱ अल्फ़ऱज लिऱते वक़्त (यऱ'नी मुऱर्रमुल ढरऱम 1434 ढि.) तकरऱऱन 1434 सऱल पऱले सऱरे मे'रऱज में यऱंढ से लऱी वरऱऱल वरऱ (यऱ'नी दूर से दूर) तशरीफ़ ले जऱ युके हैं. मेरे ऱऱकऱ ऱऱ'लऱ ढऱरत صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ के ँर्स शरीफ़ के मऱुकऱ पर दऱरुल ँलूम अम्जदिय्यऱ ऱऱलमगीर रऱड ऱऱऱुल मदीनऱ करऱयी में मुन्ऱक़िद ढऱने वऱले ऱेक मुशऱऱरे में शिऱक़त कऱ मऱुकऱ मिला जिस में ढदऱऱके ऱऱशिश शरीफ़ से येऱ "मिस्रऱे तरऱऱ" रऱऱ गयऱ थऱ :

करमाने मुस्तफ़ा صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : जिस ने मुज पर एक बार दुरदे पाक पढा अल्लाह उस पर दस रकमतें भेजता है. (स्ल)

सर वोडी सर ज़े तेरे कदमों पे कुरबान गया

हजरते सदरुशरीअत, अदरुतरीकत, मुसन्निफ़े अहारे शरीअत, अलीफ़े आ'ला हजरत, मौलाना मुफ़्ती मुहम्मद अमजद अली आ'जमी साहिब عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْقَوِي के शहजादे मुफ़्स्सिरे कुरआन हजरते अल्लामा अब्दुल मुस्तफ़ा अज़हरी عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْقَوِي ने उस मुशाफ़रे में अपना ज़े कलाम पेश किया था उस का अेक शे'र मुला-हजा डो :

कहते हैं सतह पे यांद की हन्सान गया अर्शे आ'जम से वरा तयबा का सुल्तान गया

या'नी कडा ज़ा रडा है के अब हन्सान यांद पर पड़ोय गया है !

सय पूछो तो यांद अहुत डी करीब है, मेरे भीठे मदीने के अ-जमत वाले सुल्तान, शहन्शाहे जमीनो आस्मान, रकमते आ-लमिय्यान, सरदारे दो² जहान صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ मे'राज की रात यांद को पीछे छोडते हुअे अर्शे आ'जम से भी अहुत डीपर तशरीफ़ ले गअे.

अर्श की अकल हंग है यर्भ में आस्मान है ज़ने मुराद अब क़िधर डअे तेरा मकान है

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب ! صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْ مُحَمَّدٍ

नूर का फिलोना

भीठे भीठे हस्लामी भाईयो ! रडा यांद, जिस पर साहन्स दान अब पड़ोयने का दा'वा कर रडा है वोड यांद तो मेरे प्यारे आका عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْقَوِي के ताबेअे करमान है. युनाअे “दलाईलुनुबुव्वह” में है : सुल्ताने दो² जहान صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ के ययाजान हजरते सय्यिदुना अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُمَا करमाते हैं,

करमाने मुस्तक़ा صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : जो शअ्स मुज पर दुरेदे पाक पढना भूल गया वोह जन्नत का रास्ता भूल गया. (برهان)

मैं ने बारगाडे रिसालत में अर्ज की : या रसूलद्लाह صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ! मैं ने आप (के बयपन शरीफ़ में आप) में औसी बात देधी जो आप की नुबुव्वत पर दलावत करती थी और मेरे इमान लाने के अस्बाब में से येह भी अेक सबब था. युनान्घे मैं ने देभा के आप صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ गहवारे (या'नी पिंघोरे) में लैटे हुअे यांद से बातें कर रहे थे और जिस तरफ़ आप صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآलِهِ وَسَلَّمَ उंगली से इशारा इरमाते यांद उसी तरफ़ डो जाता था. सरकारे नामदार صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآलِهِ وَسَلَّمَ ने इरमाया : “मैं उस से बातें करता था और वोह मुज से बातें करता था और मुजे रोने से बहलाता था और मैं उस के गिरने की आवाज सुनता था जब के वोह अर्शे इलाही عَزَّ وَجَلَّ के नीचे सजदे में गिरता था.” (دلائل النبوة للبيهقي ج ٢ ص ٤١)

आ'ला उजरत صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ इरमाते हैं :

यांद जुक जाता जिधर उंगली उठाले मइद में क्या डी यलता था इशारों पर भिवोना नूर का अेक मइब्बत वाले ने कडा है :

भेवते थे यांद से बयपन में आका इस लिये येह सरापा नूर थे वोह था भिवोना नूर का

मो'जिअे शकुल कभर

“बुभारी शरीफ़” में है : कुफ़ारे मक्का ने सरकारे मदीना صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ की भिदमते बा ब-र-कत में मो'जिअा दिभाने का मुता-लबा किया तो आप صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ने उन्हें यांद के दो² टुकडे कर के दिभा दिये. (بخاری ج ٢ ص ٧٩ حديث ٣٨٦٨) अद्लाह तबा-र-क व तआला पारह 27, सू-रतुल कभर की पडली और दूसरी² आयत में

करमाने मुस्तक। صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : जिस के पास मेरा जिक्र हुआ और उस ने मुझ पर दुर्दे पाक न पढा तहकीक वोह बढ भक्त हो गया. (उंन)

ईशाद करमाता है :

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَاُنشَقَّ
الْقَمَرُ ۝۱ وَاِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرَضُوا
وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُّسْتَبِرٌ ۝۲

तर-ज-मअे क-जुल ईमान : अल्लाह के नाम से शुद्ध जो बहुत मेहरबान रहमत वाला. पास आई कियामत और शक हो गया यांद और अगर देभें कोई निशानी तो मुंछ ईरते और कलते हैं येह तो जादू है यला आता.

मुइस्सिरे शहीर उकीमुल उम्मत उजरते मुइती अहमद यार पान عَلَيْهِ رَحْمَةُ الْخَنَانِ ईस डिस्सअे आयत (तर-ज-मअे क-जुल ईमान : और शक हो गया यांद) के तह्त ईरमाते हैं : ईस आयत में हुजूर (صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) के अेक अडे मो'जिअे शककुल कभर (या'नी यांद के दो² टुकडे हो जाने) का जिक्र है. (नूरुल ईरफान, स. 843)

ईशारे से यांद थीर दिया, छुपे हुअे पुर को ईरे लिया

गअे हुअे दिन को अस्र किया, येह ताभो तुवां तुम्हारे लिये

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

सिई अल्लाह के लिये

मीठे मीठे ईस्लामी भाईयो ! पुगू के तिब्नी इवाईद सुन कर आप भुश तो हो गअे होंगे मगर अर्ज करता यलूं के सारे का सारा इन्ने तिभ जन्नियात पर मब्नी है. साईन्सी तहकीकात भी हत्मी (या'नी इाईनल) नहीं होतीं, बढलती रहती हैं. हां अल्लाह व

करमाने मुस्तफ़ा: حَسْبِيَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالهِ وَاسْتَمَّ : जिस ने मुज पर एक बार दुरदे पाक पढा अल्लाह उस पर दस रकमतें बेजता है. (س)

रसूल ﷺ के अहकामात अटल हें वोह नहीं बदलेंगे. उमें सुन्नतों पर अमल तिब्बी इवाँइद पाने के लिये नहीं सिर्फ व सिर्फ रिजाअे इलाही ﷺ की खातिर करना याहिये, लिहाजा इस लिये वुजू करना के मेरा ब्लाउ प्रेशर नॉर्मल हो जाये या मैं ताजा दम हो जाउंगी या डाअेटिंग के लिये रोजा रचना ताके भूक के इवाँइद हासिल हों. सफ़रे मदीना इस लिये करना के आबो हवा भी तब्दील हो जायेगी और घर और कारोबारी जन्जट से भी कुछ दिन सुकून मिलेगा. या दीनी मुता-लआ इस लिये करना के मेरा टाईम पास हो जायेगा. इस तरह की निश्चयतों से आ'माल बजा लाने वालों को सवाब नहीं मिलेगा. अगर हम अमल अल्लाह ﷺ को ખुश करने के लिये करेंगे तो सवाब भी मिलेगा और जिम्नन इस के इवाँइद भी हासिल हो जायेंगे. लिहाजा जाहिरि और बातिनी आदाब को मल्दूज रખते हुअे वुजू भी उमें अल्लाह ﷺ की रिजा ही के लिये करना याहिये.

तसव्वुफ़ का अमीम म-दनी नुस्खा

हुज्जतुल इस्लाम इमाम मुहम्मद बिन मुहम्मद बिन मुहम्मद गजाली رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ इरमाते हें : वुजू से इरागत के बा'द जब आप नमाज की तरफ़ मु-तवज्जेह हों उस वक्त येह तसव्वुर कीजिये के जिन जाहिरि आ'जा पर लोगों की नजर पडती है वोह तो ब जाहिर ताहिर (या'नी पाक) हो चुके मगर दिल को पाक किये बिगैर बारगाहे

करमाने मुस्तफ़ा صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : जो शप्स मुज पर दुरेदे पाक पढना भूल गया वोड जन्त का रास्ता भूल गया. (طبرانی)

ईलाही عَزَّ وَجَلَّ में मुनाज्जत करना हया के भिलाफ़ है क्यूंके अल्लाह عَزَّ وَجَلَّ दिलों को भी देभने वाला है. मजीद इरमाते हैं : जाहिरि वुज्र कर लेने वाले को येह बात याद रभनी याहिये के दिल की तहारत (या'नी सफ़ाई) तौबा करने और गुनाह को छोडने और उम्हा अफ्लाक अपनाने से छोती है. जो शप्स दिल को गुनाहों की आलू-दगियों से पाक नहीं करता इकत जाहिरि तहारत (या'नी सफ़ाई) और जैबो जीनत पर इक्तिफ़ा करता है उस की मिसाल उस शप्स की सी है जो बादशाह को मद्गी करता है और अपने घर को बाहर से ખૂब यमकाता है और रंगो रोगन करता है मगर मकान के अन्दरूनी डिस्से की सफ़ाई पर कोई तवज्जोह नहीं देता, अब औसी सूरत में जब बादशाह उस के मकान के अन्दर आ कर गन्दगियां देभेगा तो वोड नाराज होग़ा या राजी येह दर जी शुडिर ખुद समज सकता है.

(أَخْبَاهُ الْقَلُوبُ ج ۱ ص ۱۸۰ مُتَخَصًّا)

सुन्नत साधन्सी तहकीक की मोहताज नहीं

मीठे मीठे ईस्लामी भाईयो ! याद रभिये ! मेरे आका صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ की सुन्नत साधन्सी तहकीक की मोहताज नहीं और हमारा मक्सूद इत्तिबाअे साधन्स नहीं इत्तिबाअे सुन्नत है, मुजे कइने दीजिये के जब यूरोपियन माहिरिन बरस्डा बरस की अरक रेजी के बा'द नतीजे का दरीया फोलते हैं तो उन्हें सामने मुस्कुराती नूर बरसाती सुन्नते मुस-त-इवी صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ही नजर आती है ! दुन्या में लाभ सैरो सियाहत कीजिये, जितना याहे औशो इशरत

करमाने मुस्तफ़ा صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : जिस के पास मेरा जिक्र हुआ और उस ने मुझ पर दुःखे पाक न पढा तलकीक वोड भट भाप्त हो गया. (उंन)

कीजिये, मगर आप के दिल को लकीकी राहत मुयस्सर नहीं आयेगी, सुकूने कलब सिर्फो सिर्फ यादें भुदा عَزَّوَجَلَّ में मिलेगा. दिल का येन एशके सरवरे कौनैन صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ही में लासिल होगा. दुन्या व आभिरत की राहतें साधन्सी आलात T.V., VCR और internet के रू भरू नहीं एत्तिभाये सुन्नत में ही नसीब होंगी. अगर आप वाकेई दोनों² जहां की लवाएयां याहते हैं तो नमाजों और सुन्नतों को मजबूती से थाम लीजिये और एन्हें सीभने के लिये दा'वते एस्लामी के म-दनी काइलों में सफ़र अपना मा'मूल बना लीजिये. हर एस्लामी भाई निख्यत करे के में जिन्दगी में कम अज कम अक बार यक मुश्त 12 माह, हर 12 माह में 30 दिन और हर माह 3 दिन सुन्नतों की तरबिख्यत के म-दनी काइले में सफ़र किया करूंगा, إِنَّ شَاءَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ.

तेरी सुन्नतों पे खल कर मेरी रूह जब निकल कर खले तू गले लगाना म-दनी मदीने वाले

صَلُّوا عَلَيَّ الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيَّ مُحَمَّدٍ



गमे मदीना, लकीअ,
मज्फिरत और बे
हिसाब जन्तुल
फिरदौस में आका
के पदोस का तालिब



21 मुहरमुल हराम 1434 सि.हि.
6-12-2012

گُسل کی قریبا

(۸-نہی)

اس ریسالہ میں....

مُسلوے پر کا'بتولواہ کی تہویر...

انوپھی سجا...

تہمبوم کا تہیکا....

باریش میں گُسل...

مُشت جانی کا اجاہ...

ہرک اولتہیہ....

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ
أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

गुस्ल का तरीका (उ-नफी)

येह रिसाला (25 सफ़्हात) मुकम्मल पढ लीजिये, कवी ईम्कान हे
के कई ग-लतियां आप के सामने आ जायें.

दुइए शरीफ़ की इमीलत

सरकारे मदीना, सुल्ताने आ करीना, करारे कल्भो सीना,
ईज गन्जना, साहिबे मुअत्तर पसीना क् صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ का
ईशादि रहमत बुन्याद है : मुज पर दुइदे पाक की कसरत करो बेशक येह
तुम्हारे लिये तदारत है. (مُسْنَدُ أَبِي يَغْلَى ج ٥ ص ٤٥٨ حديث ٦٣٨٣)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

अनोपी सजा

उजरते सय्यिदुना जुनैदे बगदादी عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْهَادِي इरमाते हैं :
ईब्नुल कुरैबी عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْفَرِي कइते हैं : अेक बार मुजे अेइतिलाम डो
गया. मैं ने ईरादा किया ईसी वक्त गुस्ल कर लूं. थूके सप्त सई की
रात थी नईस ने सुस्ती की और मशवरा दिया : “अम्बी काई रात बाकी
है ईतनी जल्दी ली क्या है ! सुब्ह ईल्मीनान से गुस्ल कर लेना.” मैं ने
कौरन नईस को अनोपी सजा देने के लिये कसम पाई के ईसी वक्त
कपडों समेत नहाउंगे और नहाने के बा’द कपडे नियोडूंगा ली नही
और ईन को अपने बदन ही पर भुशक कइंगा. युनान्हे मैं ने अैसा ही

करमाने मुस्तङ्ग। حَسْبُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهُ وَسْئَمُ : जिस ने मुज पर एक बार दुरुदे पाक पढा अल्लाह उंस पर दस रहमतें भेजता है. (स्)

क्रिया, वाकेई ज़ो अल्लाह उंज के काम में ढील करे औसे सरकश नफ़्स की येही सज़ा है. (किमियाँ सَعَادَات ج २ ص १९२)

अल्लाह उंज की उन पर रहमत हो और उन के सदके हमारी मग़्दिरत हो.

أَمِينِ بِجَاهِ النَّبِيِّ الْأَمِينِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

निहंग' व अज़्दहा मारा अगर्थे शरे नर मारा

बडे मूजी को मारा नफ़से अम्मारा को गर मारा

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيبِ ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

मीठे मीठे ईस्लामी भाईयो ! देखा आप ने ! हमारे अस्लाइके

किराम رَحْمَتُهُمُ اللَّهُ السَّلَام अपने नफ़्स की यालों को नाकाम बनाने के लिये कैसी कैसी मशक़तें ज़ेवते थे. ईस से वोड ईस्लामी भाई दर्स हासिल करें ज़ो रात को अेडतिलांम हो जाने की सूरत में आभिरत की भौंफ़नाक शर्म को लुला कर मद्ज़ घर वालों से शरमा कर या गुस्ल के मुआ-मले में सुस्ती कर के, नमाज़े इज की जमाअत जाअेअ बलके مَعَادَ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ नमाज़ तक कज़ा कर डालते हैं ! जब कभी गुस्ल इर्ज़ हो जाअे तो नमाज़ का वक्त आ जाने पर इरन गुस्ल कर लेना याहिये. हदीसे पाक में आता है : इरिशते उस घर में द्वाभिल नहीं होते जिस में तस्वीर और कुत्ता और जुनुब (या'नी जिस पर जिमाअ या अेडतिलांम या शह्वत के साथ मनी पारिज होने की वजह से गुस्ल इर्ज़ हो गया) हो.

(अबुदाउद ज १ व १०९ हदीथ २२७)

۱

1 : मगर मध

करमाने मुस्तक़ी: عَلَى الشَّيْءِ مُؤَلَّغًا عَلَيْهِ وَاللَّهُ سَلَّمَ: जो शय्स मुज़ पर दुरुदे पाक पढ़ना भूल गया वोइ जन्त का रास्ता भूल गया. (طرائف)

गुस्ल का तरीका (इ-नफी)

बिगैर ज़बान छिलाअे दिल में इस तरह नित्यत कीजिये के मैं पाकी छसिल करने के लिये गुस्ल करता हूं. पहले दोनों² हाथ पहुंयों तक तीन³ तीन³ बार धोईये, फिर इस्तिन्जे की जगह धोईये ज्वाह नजसत हो या न हो, फिर जिस्म पर अगर कहीं नजसत हो तो उस को दूर कीजिये फिर नमाज़ का सा वुजू कीजिये मगर पाँउं न धोईये, हां अगर यौकी वगैरा पर गुस्ल कर रहे हैं तो पाँउं भी धो लीजिये, फिर बदन पर तेल की तरह पानी चुपड लीजिये, फुसूसन सर्दियों में (इस दौरान साबुन भी लगा सकते हैं) फिर तीन³ बार सीधे कन्धे पर पानी बछाईये, फिर तीन³ बार उलटे कन्धे पर, फिर सर पर और तमाम बदन पर तीन³ बार, फिर गुस्ल की जगह से अलग हो जाईये, अगर वुजू करने में पाँउं नहीं धोअे थे तो अब धो लीजिये. नहाने में किब्ला रुख न हो, तमाम बदन पर हाथ ફेर कर मल कर नछाईये. ऐसी जगह नहाना याछिये जहां किसी की नजर न पड़े अगर येह मुम्किन न हो तो मर्द अपना सित्र (नाफ़ से ले कर दोनों² घुटनों समेत) किसी मोटे कपडे से छुपा ले, मोटा कपडा न हो तो हस्बे ज़रूरत दो² या तीन³ कपडे लपेट ले क्यूंके बारीक कपडा छोगा तो पानी से बदन पर थिपक जाअेगा और **لَا يَحِلُّ لِمَرَأَةٍ أَنْ تَمَسَّ بِلَحْيَةِ رَجُلٍ** घुटनों या रानों वगैरा की रंगत आछिर छोगी. औरत को तो और भी ज़ियादा अेहतियात की छजत है. दौराने गुस्ल किसी किस्म की गुफ्त-गू मत कीजिये, कोई दुआ भी न पढिये, नहाने के आ'द तोलिये वगैरा से बदन पोंछने में हरज नहीं. नहाने के आ'द ફौरन कपडे पहन लीजिये. अगर मक़रुह वक्त न हो तो

करमाने मुस्तक। حلى الله تعالى عليه وآله وسلم : जिस के पास मेरा जिक्र हुआ और उस ने मुझ पर दृष्टे पाक न पढा तहकीक वोह बढ भन्त हो गया. (فتح)

दो² रकूअत नफ़ल अदा करना मुस्तहब है.

(عالمگیری ج 1 ص 16, माभूज अज बहारे शरीअत, जि. 1, स. 319 वगैरा)

गुस्ल के तीनउ इराधत

﴿1﴾ कुल्ली करना ﴿2﴾ नाक में पानी बढाना ﴿3﴾ तमाम ज़ाहिर बदन पर पानी बढाना.

(فتاوى عالمگیری ج 1 ص 13)

﴿1﴾ कुल्ली करना

मुंह में थोडा सा पानी ले कर पय कर के डाल देने का नाम कुल्ली नहीं बल्के मुंह के हर पुर्जे, गोशे, छोट से छटक की जड तक हर जगह पानी बढ जाये. इसी तरह दाढों के पीछे गालों की तह में, दांतों की षिडकियों और जड़ों और ज़बान की हर करवट पर बल्के छटक के कनारे तक पानी बढे. रोज़ा न हो तो गरगरा भी कर लीजिये के सुन्नत है. दांतों में छालिया के दाने या ओटी के रेशे वगैरा हों तो उन को छुडाना जरूरी है. हां अगर छुडाने में जरर (या'नी नुक्सान) का अन्देशा हो तो मुआफ़ है, गुस्ल से कबल दांतों में रेशे वगैरा महसूस न हुअे और रह गअे नमाज भी पढ ली बा'द को मा'लूम होने पर छुडा कर पानी बढाना इर्ज है, पढले ज़े नमाज पढी थी वोह हो गई. ज़े छिलता दांत मसाले से जमाया गया या तार से बांधा गया और तार या मसाले के नीचे पानी न पड्यता हो तो मुआफ़ है. (बहारे शरीअत, जि. 1, स. 316, इतावा र-जविय्या मुअर्रज़, जि. 1, स. 439, 440) जिस तरह की अेक कुल्ली गुस्ल के लिये इर्ज है इसी तरह की तीन³ कुल्लियां वुजू के लिये सुन्नत हैं.

करमाने मुस्तफ़ा : صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : जिस ने मुज़ पर दस भरतबा सुबह और दस भरतबा शाम दुइदुं पाक पढा (उसे क़ियामत के दिन मेरी शक़ाअत मिलेगी. (سورة البقرة))

﴿2﴾ नाक में पानी यटाना

जल्दी जल्दी नाक की नोक पर पानी लगा लेने से काम नहीं चलेगा बल्के जहां तक नर्म जगह है या'नी सप्त उड़ी के शुइअ तक धुलना लाज़िमी है. और येह यूं हो सकेगा के पानी को सूंघ कर ठीपर भींचिये. येह भयाल रभिये के बाल बराबर ली जगह धुलने से न रह जाअे वरना गुस्ल न होगा. नाक के अन्दर अगर रींठ सूभ गई है तो उस का छुडाना इर्ज़ है, नीळ नाक के बालों का धोना ली इर्ज़ है.

(अैज़न, अैज़न, स. 442, 443)

﴿3﴾ तमाम ञाहिरी बदन पर पानी बहाना

सर के बालों से ले कर पाँउं के तल्वों तक जिस्म के हर पुर्जे और हर हर रोंगटे पर पानी बह ज़ना ज़री है, जिस्म की भा'ज जगहें अैसी हें के अगर अेडतियात न की तो वोह सूभी रह जाअेंगी और गुस्ल न होगा. (बहारे शरीअत, जि. 1, स. 317)

“صَلَّى اللهُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ” के छक्कीस हुइइ की निस्बत से मर्द व औरत दोनों के लिये
गुस्ल की 21 अेहतियातें

✽ अगर मर्द के सर के बाल गुंधे हुअे हों तो उन्हें ञोल कर जउ से नोक तक पानी बहाना इर्ज़ है और ✽ औरत पर सिर्ई जउ तर कर लेना ज़री है ञोलना ज़री नहीं. हां अगर योटी ईतनी सप्त गुंधी हुई हो के बे ञोले जउं तर न होंगी तो ञोलना ज़री है ✽ अगर कानों में बाली या नाक में नथ का छेद (सूराभ) हो और वोह बन्द न हो तो उस

करमाने मुस्तक़ा: عَلَى اللَّهِ تَعَالَى غُفِيرٌ وَعَلَى اللَّهِ وَاسْتِغْفِرُكَ: जिसके पास मेरा जिक्र हुआ और उसने मुझे पर दुरुद शरीफ़ न पढा उसने जफ़ा की. (عمارة)

में पानी बहाना इर्ज़ है। वुजू में सिर्फ़ नाक के नथ के छेद में और गुस्ल में अगर कान और नाक दोनों में छेद हों तो दोनों में पानी बहाएँ * तंबों, मूंछों और दाढ़ी के हर बाल का जड़ से नोक तक और धन के नीचे की भाल का धोना जरूरी है * कान का हर पुर्जा और धस के सूराम्भ का मुंह धोएँ * कानों के पीछे के बाल हटा कर पानी बहाएँ * ठोड़ी और गले का जोड़, के मुंह उठाएँ बिगैर न धुलेगा * हाथों को अच्छी तरह उठा कर बगलें धोएँ * बाजू का हर पहलू धोएँ * पीठ का हर ऊर्ध्व धोएँ * पेट की बल्लें उठा कर धोएँ * नाफ़ में भी पानी डालें अगर पानी बहने में शक हो तो नाफ़ में उंगली डाल कर धोएँ * जिस्म का हर रोंगटा जड़ से नोक तक धोएँ * रान और पेडू (नाफ़ से नीचे के हिस्से) का जोड़ धोएँ * जब बैठ कर नहाएँ तो रान और पिंडली के जोड़ पर भी पानी बहाना याद रखें * दोनों सुरीन के मिलने की जगह का भयाल रखें, भुसूसन जब भडे हो कर नहाएँ * रानों की गोलाई और * पिंडलियों की करवटों पर पानी बहाएँ * ऊकर व उन्स-ययैन (या'नी झेतों) की नियली सत्ह जोड़ तक और * उन्स-ययैन के नीचे की जगह जड़ तक धोएँ * जिस का भतना न हुवा, वोह अगर भाल यढ सकती हो तो यढा कर धोएँ और भाल के अन्दर पानी यढाएँ।

(मुलभभस अज बहारे शरीअत, जि. 1, स. 317, 318)

भस्तूरात के लिये 6 अहतियातें

«1» ढलकी हुई पिस्तान को उठा कर पानी बहाएँ «2» पिस्तान और पेट के जोड़ की लकीर धोएँ «3» इर्ज़े भारिज (या'नी औरत की शर्मगाह के

करमाने मुस्तहब। على الله تعالى عليه والله أعلم : जो मुज पर रोजे जुमुआ दुरुद शरीफ पढेगा में कियामत के दिन उस की शफाअत कड़ेगा. (क़ुरआन)

बाहर के हिस्से) का हर गोशा हर टुकड़ा उपर नीचे भूष अहतियात से धोअें ﴿4﴾ इर्जे दाभिल (या'नी शर्मगाह के अन्दरनी हिस्से) में उंगली डाल कर धोना इर्ज नहीं मुस्तहब है ﴿5﴾ अगर हैज या निकास से शरिग हो कर गुस्ल करें तो किसी पुराने कपडे से इर्जे दाभिल के अन्दर से भून का असर साफ़ कर लेना मुस्तहब है (बहारे शरीअत, जि. 1, स. 318) ﴿6﴾ अगर नेल पोलिश नाभुनों पर लगी छुई है तो उस का भी छुडाना इर्ज है वरना गुस्ल नहीं होगा, हां मेहंटी के रंग में हरज नहीं.

जम्म की पट्टी

जम्म पर पट्टी वगैरा बांधी हो और उसे ञोलने में नुक्सान या हरज हो तो पट्टी पर ही मस्ह कर लेना काफ़ी है नीज किसी जगह मरज या दई की वजह से पानी बहाना नुक्सान देह हो तो उस पूरे उजूव पर मस्ह कर लीजिये. पट्टी ज़रत से जियादा जगह को घेरे हुअे नहीं होनी याहिये वरना मस्ह काफ़ी न होगा. अगर ज़रत से जियादा जगह घेरे बिगैर पट्टी बांधना मुम्किन न हो म-सलन बाजू पर जम्म है मगर पट्टी बाजूओं की गोलाई में बांधी है जिस के सबब बाजू का अख़ा हिस्सा भी पट्टी के अन्दर छुपा हुवा है, तो अगर ञोलना मुम्किन हो तो ञोल कर उस हिस्से को धोना इर्ज है. अगर ना मुम्किन है या ञोलना तो मुम्किन है मगर इर वैसी न बांध सकेगा और यूं जम्म वगैरा को नुक्सान पड़ोयने का अन्देशा है तो सारी पट्टी पर मस्ह कर लेना काफ़ी है, बदन का वोह अख़ा हिस्सा भी धोने से मुआफ़ हो जायेगा.

(औज़न, स. 318)

करमाने मुस्तफ़ा: على الله تعالى عليه و آله وسلم: मुज पर दुरदे पाक की कसरत करो बेशक येह तुम्हारे लिये तछारत है.
(अ-यूसी)

गुस्ल इर्ज होने के 5 अस्बाब

«1» मनी का अपनी जगह से शह्वत के साथ जुदा हो कर उजूव से निकलना «2» अहतिवाम या'नी सोते में मनी का निकल जाना «3» शर्मगाह में हश्फा (सुपारी) दाखिल हो जाना ज्वाह शह्वत हो या न हो, धन्जाल हो या न हो, दोनों पर गुस्ल इर्ज है «4» डैज से फ़ारिग होना «5» निफ़ास (या'नी बय्या जनने पर जो पून आता है उस) से फ़ारिग होना.
(बछारे शरीअत, जि. 1, स. 321 ता 324)

निफ़ास की मर्री वजाहत

अक्सर औरतों में येह मशहूर है के बय्या जनने के बा'द औरत यालीस⁴⁰ दिन तक लाजिमी तौर पर नापाक रहती है येह बात बिदकुल गलत है. निफ़ास की तफ़सील मुला-हजा हो. बय्या पैदा होने के बा'द जो पून आता है उस को निफ़ास कहते हैं इस की ज़ियादा से ज़ियादा मुदत यालीस⁴⁰ दिन है या'नी अगर यालीस⁴⁰ दिन के बा'द भी बन्द न हो तो मरज है. लिहाजा यालीस⁴⁰ दिन पूरे होते ही गुस्ल कर ले और यालीस⁴⁰ दिन से पहले बन्द हो जाये ज्वाह बय्ये की विवाहत के बा'द अेक मिनट ही में बन्द हो जाये तो जिस वक्त भी बन्द हो गुस्ल कर ले और नमाज व रोज़ा शुरुअ हो गये. अगर यालीस⁴⁰ दिन के अन्दर अन्दर दोबारा पून आ गया तो शुरुअे विवाहत से ख़त्मे पून तक सब दिन निफ़ास ही के शुमार होंगे. म-सलन विवाहत के बा'द दो² मिनट तक पून आ कर बन्द हो गया और औरत गुस्ल कर के नमाज रोज़ा वगैरा करती रही, यालीस⁴⁰ दिन पूरे होने में इकत दो² मिनट बाकी थे के इर

करमाने मुस्तकी علی اللہ تعالیٰ غیبہ و البوستم : तुम जहां भी हो मुज पर दुरद पढे के तुम्हारा दुरद मुज तक पढीयता है. (طرائق)

पून आ गया तो सारा यिल्ला या'नी मुकम्मल यालीस⁴⁰ दिन निफ़ास के ठहरेंगे. जो भी नमाज़ें पढीं या रोज़े रभे सभ बेकार गअे, यहां तक के अगर ँस दौरान इर्ज़ व वाजिब नमाज़ें या रोज़े कज़ा किये थे तो वोह भी इर से अदा करे.

(मापूज़ अज़ इतावा र-जविय्या मुभर्रज, जि. 4, स. 354, 356)

5 ढर्री अहकाम

❶ मनी शइ्वत के साथ अपनी जगह से जुदा न हुँद बल्के भोज उठाने या बुलन्दी से गिरने या इजला पारिज करने के लिये जोर लगाने की सूरत में पारिज हुँद तो गुस्ल इर्ज़ नहीँ. वुजू बहर डाल टूट जाअेगा ❷ अगर मनी पतली पड गइँ और पेशाब के वक्त या वैसे ही बिला शइ्वत ँस के कतरे निकल आअे गुस्ल इर्ज़ न हुँवा वुजू टूट जाअेगा ❸ अगर अेडतिलाम डोना याद है मगर उस का कोँ असर कपडे वगैरा पर नहीँ तो गुस्ल इर्ज़ नहीँ ❹ नमाज़ में शइ्वत थी और मनी उतरती हुँद मा'लूम हुँद मगर बाहर निकलने से कबल ही नमाज़ पूरी कर ली अब पारिज हुँद तो नमाज़ डो गइँ मगर अब गुस्ल इर्ज़ डो गया. (बहारे शरीअत, जि. 1, स. 321 ता 322) ❺ अपने डार्थों से मादा पारिज करने से गुस्ल इर्ज़ डो जाता है. येड गुनाड का काम है. डदीसे पाक में अैसा करने वाले को मलुिन कडा गया है. (अली अिन बशरान ज २ व ५ رقم ६७७ حاشیة الطُّحطاوی علی مرقی الفلاح ११)

अैसा करने से मर्दाना कमजोरी पैदा डोती है और बारडा देभा गया है के बिल आपिर आदमी शादी के लाँक नहीँ रहता.

करमाने मुस्तङ्क: عَلَى اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : जिस ने मुज पर दस भरतभा दुवदे पाक पढा अद्लाह عَزَّوَجَلَّ उस पर सो रडमते नाजिल करमाता है. (طبرانی)

मुश्त जनी का अजाब

मेरे आका आ'ला हजरत, एमामे अहले सुन्नत मौलाना शाह अहमद रजा पान عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰن की षिदमत में अर्ज किया गया : ओक शप्स मजलूक (या'नी मुश्त जनी करने वाला) है वोह एस ई'ल से नहीं मानता है, हर यन्द उस को समजाया है, आप तहरीर फरमाओं, एस का क्या हशर होगा और उस को क्या हुआ पढना याहिये जिस से उस की आदत छूट जाये ?

ईशादे आ'ला हजरत : वोह गुनहगार है¹, आसी है, एसरार के सबब मुर-तकिबे कबीरा है, फासिक है, हशर में अैसों की (या'नी मुश्त जनी करने वालों की) हथेलियां गाबन (या'नी हामिला) उठेंगी जिस से मजमअे आ'जम में उन के रुस्वाएँ होगी अगर तौबा न करें, और अद्लाह عَزَّوَجَلَّ मुआफ़ फरमाता है जिसे याहे और अजाब फरमाता है जिसे याहे. उसे याहिये के लाडौल शरीफ़ की कसरत करे और जब शैतान एस ह-र-कत की तरफ़ बुलाये तो झैरन दिल से मु-तवज्जुह ब भुदा عَزَّوَجَلَّ हो कर लाडौल पढे. नमाजे पन्जगाना की पाबन्दी करे. नमाजे सुब्ह के बा'द बिला नागा सू-रतुल ईप्लास शरीफ़ का विर्द रभे. وَاللَّهُ تَعَالَى عَلَّمَ (इतावा र-अविया, जि. 22, स. 244)

(श-ज-रअे अत्तारिय्या सफ़हा 16 पर है : हर सुब्ह सू-रतुल ईप्लास ग्यारह

ادینه
1 : जबक के होशरुबा नुक्सानात की तफ़सीली मा'लूमात के लिये सगे मदीना غَفَى عَنَّهُ का रिसाला “कौमे लूत की तबाह कारियां” पढ लीजिये.

करमाने मुस्तक। على الله تعالى غفره واليه وسلم: जिस के पास मेरा जिक्र हो और वोह मुज पर दुइद शरीफ न पढे तो वोह लोगों में से कन्जूस तरीन शप्स है. (अल-अरबा)

बार पढे अगर शैतान मअ लशकर के कोशिश करे के इस से गुनाह कराये न करा सके जब तक के येह भुद न करे)

बहते पानी में गुस्ल का तरीका

अगर बहते पानी म-सलन दरिया, या नहर में नहाया तो थोड़ी देर उस में रुकने से तीन³ बार धोने, तरतीब और पुजू येह सब सुन्नतें अदा हो गईं. इस की भी जरूरत नहीं के आ'जा को तीन³ बार ह-र-कत दे. अगर तालाब वगैरा ठहरे पानी में नहाया तो आ'जा को तीन³ बार ह-र-कत देने या जगह बदलने से तस्वीस या'नी तीन³ बार धोने की सुन्नत अदा हो जायेगी. बरसात में (या नल या इव्वारे के नीचे) जडा होना बहते पानी में भरे होने के हुकम में है. बहते पानी में पुजू किया तो वोही थोड़ी देर उस में उजूव को रहने देना और ठहरे पानी में ह-र-कत देना तीन³ बार धोने के काईम मकाम है. (बहारे शरीअत, जि. 1, स. 320) पुजू और गुस्ल की इन तमाम सूरतों में कुल्ली करना और नाक में पानी बढाना होगा.

इव्वारा जरी पानी के हुकम में है

इतावा अहले सुन्नत (गैर मत्बूआ) में है : इव्वारे (या नल) के नीचे गुस्ल करना जरी पानी में गुस्ल करने के हुकम में है लिहाजा इस के नीचे गुस्ल करते हुअे पुजू और गुस्ल करते वक्त की मुद्दत तक ठहरा तो तस्वीस की सुन्नत अदा हो जायेगी. युनान्चे “दुर्रे मुफ्तार” में है : अगर जरी पानी या भरे डौज या बारिश में पुजू और गुस्ल करने के वक्त की मुद्दत तक ठहरा तो उस ने पूरी सुन्नत अदा की. (दुम्मुख्तार 1/320) याद रहे ! गुस्ल या पुजू में कुल्ली करना और नाक में पानी बढाना है.

करमाने मुस्तक: على الله تعالى عليه و آله وسلم: उस शप्स की नाक पाक आवुद हो जिस के पास मेरा जिक्र हो और वोह मुज पर दुइडे पाक न पडे. (१७)

इव्वारे की ओहतियातें

अगर आप के हम्माम में इव्वारा (SHOWER) हो तो उसे अच्छी तरह देख लीजिये के उस की तरफ मुंड कर के नंगे नहाने में मुंड या पीठ डिब्ले शरीफ की तरफ तो नहीं हो रही. इस्तिन्जाहाने में भी इसी तरह ओहतियात इरमाइये डिब्ले की तरफ मुंड या पीठ होने का मा'ना येह है के 45 द-रजे के आविये के अन्दर अन्दर हो. लिहाजा येह ओहतियात भी जरूरी है के 45 डिग्री के आविये (अंगल ANGLE) के बाहर हो. इस मस्अले से अक्सर लोग ना वाकिफ हैं.

W.C. का रुખ दुरुस्त कीजिये

मेहरबानी इरमा कर अपने घर वगैरा के उब्ल्यू.सी (W.C.) और इव्वारे का रुख अगर गलत हो तो उस की इस्लाह इरमा लीजिये जियादा ओहतियात इस में है के W.C. डिब्ले से 90 के द-रजे पर या'नी नमाज पढने में सलाम इरने के रुख कर दीजिये. मि'मार उभूमन ता'मीराती सहूलत और ખૂब सूरती का लिहाज करते हैं आदाबे डिब्ला की परवाह नहीं करते. मुसल्मानों को मकान की गैर वाजिबी बेहतरी के बजाये आभिरत की लकीकी बेहतरी पर नजर रक्नी याहिये.

कुछ नेकियां कमा ले जव्ह आभिरत बना ले

भाई नहीं बरोसा हें कोई जिन्दगी का

कम कम गुस्ल करना सुन्नत है

जुमुआ, इदुल फ़ित्र, अकर इद, अ-रफे के दिन (या'नी 9 जुल डिज्जतिल हराम) और ओहराम बांधते वक्त नहाना सुन्नत है.

(فتاوى عالمگیری ج 1 ص 16)

करमाने मुस्तफा صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : जिस ने मुज पर रोजे जुमुआ दो सो बार दुरुद पाक पढा उस के दो सो साल के गुनाह मुआफ होंगे. (अल-अमाल)

कब कब गुस्ल करना मुस्तहब है

«1» वुकूफे अ-रफात «2» वुकूफे मुज्दलिका «3» हाजिरिये हरम «4» हाजिरिये सरकारे आ'जम صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ «5» तवाफ «6» दुभूले मिना «7» जमरों पर कंकरियां मारने के लिये तीनों³ दिन «8» शबे बराअत «9» शबे कद्र «10» अ-रफे की रात «11» मजलिसे मीलाह शरीफ «12» हीगर मजलिसे भैर के लिये «13» मुर्दा नहलाने के बा'द «14» मजून (या'नी पागल) को जुनून (पागल पन) जाने के बा'द «15» गशी से धंकाके के बा'द «16» नशा जाते रहने के बा'द «17» गुनाह से तौबा करने «18» नअे कपडे पहनने के लिये «19» सफर से आने वाले के लिये «20» इस्तिहाजा का पून बन्द होने के बा'द «21» नमाजे कुसूफ व भुसूफ «22» नमाजे इस्तिस्का के लिये «23» पौफ व तारीकी और सप्त आंधी के लिये «24» बदन पर नजासत लगी और येह मा'लूम न हुवा के किस जगह लगी है.

(बहारे शरीअत, जि. 1, स. 324, 325, ३६३-३६१ اص 1 دُرْمُخْتَارُ وَرَدُّ الْمُخْتَارِ ج 1 ص 324, 325, 363-361)

अेक गुस्ल में मुप्तलिफ़ निय्यतें

जिस पर यन्द गुस्ल हों सब की निय्यत से अेक गुस्ल कर लिया, सब अदा हो गअे सब का सवाब मिलेगा. जुनुब ने जुमुआ या इद के दिन गुस्ले जनाबत किया और जुमुआ और इद वगैरा की निय्यत त्नी कर ली सब अदा हो गअे, अगर उसी गुस्ल से जुमुआ और इद की नमाज अदा कर ले.

(मापूज अज बहारे शरीअत, जि. 1, स. 325)

करमाने मुस्तकी صلى الله تعالى عليه و آله وسلم : मुज पर दुइद शरीक पढो अल्लाह عز و جل तुम पर रहमत भेजेगा. (अनसु)

बारिश में गुस्ल

लोगों के सामने सित्र भोल कर नहाना हराम है. (इतावा र-अविथ्या मुभर्रज, जि. 3, स. 306) बारिश वगैरा में भी नहाओं तो पाजामा या शलवार के उपर मजीद रंगीन मोटी यादर लपेट लीजिये ताके पाजामा पानी से थिपक भी जाये तो रानों वगैरा की रंगत जाहिर न हो.

तंग लिबास वाले की तरफ नजर करना कैसा ?

लिबास तंग हो या जोर से हवा चली या बारिश या साहिले समुन्दर या नहर वगैरा में अगर्चे मोटे कपडे में नहाओ और कपडा इस तरह थिपक जाये के सित्र के किसी कामिल उज्व म-सलन रान की मुकम्मल गोलाई की हैअत (उत्मार) जाहिर हो जाये औसी सूरत में उस (मप्सूस) उज्व की तरफ दूसरे को नजर करने की इजाजत नहीं. येही हुकम तंग लिबास वाले के सित्र के उतरे हुओ उज्वे कामिल की तरफ नजर करने का है.

नंगे नहाते वक्त भूज ओहतियात

हम्माम में तन्हा नंगे नहाओं या औसा पाजामा पहन कर नहाओं के उस के थिपक जाने से रानों वगैरा की रंगत जाहिर हो सकती है तो औसी सूरत में डिब्ले की तरफ मुंह या पीठ मत कीजिये.

गुस्ल से नग्ला बढ जाता हो तो ?

जुकाम या आशोबे यश्म वगैरा हो और येह गुमाने सहीह हो के सर से नहाने में मरज बढ जाओगा या दीगर अमराज पैदा हो

करमाने मुस्तक़ा : عَلَى اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهُ وَسْئَلُهُ : मुज़ पर कसरत से दुड़दुड़ पाक पढो बेशक तुम्हारा मुज़ पर दुड़दुड़ पाक पढना तुम्हारे गुनाहों के लिये मज़िहरत है. (भा.सु. 1)

जाओगे तो कुल्ली कीजिये, नाक में पानी बढाईये और गरदन से नछाईये. और सर के हर हिस्से पर भीगा हुआ हाथ ड़ेर लीजिये गुस्ल हो जायेगा. बा'दे सिद्धत सर धो डालिये पूरा गुस्ल नअे सिरे से करना ज़रूरी नहीं. (भापूज़ अज़ बहारे शरीअत, जि. 1, स. 318)

बाट्टी से नहाते वक़्त अहतियात

अगर बाट्टी के ज़रीअे गुस्ल करें तो अहतियातन उसे तिपाई (STOOL) वगैरा पर रख लीजिये ताके बाट्टी में छींटें न आअें. नीज़ गुस्ल में 'इस्ति'माल करने का भग भी इर्श पर न रखिये.

बाल की गिरह

बाल में गिरह पड जाअे तो गुस्ल में उसे ञोल कर पानी बढाना ज़रूरी नहीं. (अैज़न)

“कुरआन मुकदस है” के दस¹⁰ दुड़दुड़ की निरबत से नापाकी की हालत में कुरआने पाक पढने या छूने के 10 मसाखल

«1» जिस पर गुस्ल इर्ज़ हो उस को मस्जिद में जाना, तवाइ़ करना, कुरआने पाक छूना, बे छूअे ज़बानी पढना, किसी आयत का लिखना, आयत का ता'वीज़ लिखना (लिखना उस सूरत में हराम है जिस में कागज़ का छूना पाया जाअे, अगर कागज़ को न छूअे तो लिखना जाईज है) (गैर मत्बूआ इतावा अहले सुन्नत) अैसा ता'वीज़ छूना, अैसी अंगूठी छूना या पहनना जिस पर आयत या दुड़दुड़ मुक़तआत लिखे हों हराम है. (बहारे शरीअत, जि. 1, स. 326) (भोमजमे वाले या प्लास्टिक में लपेट कर कपडे या यमडे वगैरा में सिले हुअे ता'वीज़ को पहनने या छूने में मुज़ा-यका नहीं)

करमाने मुस्तक़ा : حَسْبُ الْمَاءِ شَرْيْطًا عَلَيْهِ وَاللَّهُ سَمِيمٌ : श्री मुज़ पर ओक दुबुद शरीक़ पढता है अल्लाह عُذْرُوهُ उस के लिये ओक कीरात अजब लिफता है और कीरात उहुद पछाड जितना है. (एबुआज़)

﴿2﴾ अगर कुरआने पाक जुज़दान में हो तो बे वुजू या बे गुस्ल जुज़दान पर हाथ लगाने में हरज नहीं। (बहारे शरीअत, जि. 1, स. 326)

﴿3﴾ ઈसी तरह किसी जैसे कपडे या रुमाल वगैरा से कुरआने पाक पकडना ज़ाईज़ है जो न अपने ताबेअ हो न कुरआने पाक के. (अैज़न)

﴿4﴾ कुरते की आस्तीन, दुपट्टे के आंयल से यहाँ तक के यादर का ओक कोना ઈस के कन्धे पर है तो यादर के दूसरे कोने से कुरआने पाक को छूना हराम है के येह सब चीज़ें ઈस (छूने वाले) के ताबेअ हैं.

(अैज़न)

﴿5﴾ कुरआने पाक की आयत हुआ की निय्यत से या तबर्कु के लिये म-सलन بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ या अदाअे शुक्र के लिये الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ या किसी मुसल्मान की मौत या किसी किस्म के नुकसान की ખबर पर اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رٰجِعُونَ या सना की निय्यत से पूरी सू-रतुल इतिहा या आ-यतुल कुर्सी या सू-रतुल उशर की आभिरी तीन आयात पढ़ें और ઈन सब सू-रतों में कुरआन पढने की निय्यत न हो तो कोई हरज नहीं.

(अैज़न)

﴿6﴾ तीनों कुल बिલા लइज़े कुल બ निय्यते सना पढ सकते हैं. लइज़े कुल के साथ सना की निय्यत से भी नहीं पढ सकते क्यूंके ઈस सू-रत में ઈન का कुरआन હોना મુ-તअय्यन है, निय्यत को कुछ દખલ नहीं.

(अैज़न)

﴿7﴾ बे वुजू को कुरआन शरीफ़ या किसी आयत का छूना हराम है.

करमाने मुस्तक़ा: عَلَى اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالْوَسْمُ : जिसने किताब में मुज़ पर दुइद पाक लिखा तो जब तक मेरा नाम उस में रहेगा फिरिश्ते उस के लिये ईस्तिफ़ार करते रहेंगे. (अ. 1)

भिगैर छूअे ज़बानी या टैफ़ कर पढने में मुज़ा-यका नहीं .

(बहारे शरीअत, ज़ि. 1, स. 326)

«8» जिस बरतन या कटोरे पर सूरह या आयते कुरआनी लिखी हो बे वुज़ू और बे गुस्ल को उस का छूना हराम है. (अैज़न, स. 327)

«9» ईस का ईस्ति'माल सब के लिये मक़्हल है. हां फ़ास ब नित्यते शिफ़ा उस में पानी वगैरा डाल कर पीने में हरज नहीं.

«10» कुरआने पाक का तरजमा फ़ारसी या उर्दू या किसी दूसरी ज़बान में हो उस को भी पढने या छूने में कुरआने पाक ही का सा हुक़म है.

(अैज़न)

बे वुज़ू दीनी किताबें छूना

बे वुज़ू या वोह जिस पर गुस्ल इर्ज़ हो उन को फ़िक्क, तफ़सीर व हदीस की किताबों का छूना मक़्हल है. और अगर इन को किसी कपडे से छुवा अगर्ये ईस को पढने या ओढे छुअे हो तो मुज़ा-यका नहीं. मगर आयते कुरआनी या उस के तरजमे पर इन किताबों में भी हाथ रफ़ना हराम है. (अैज़न)

बे वुज़ू ईस्लामी किताबें पढने वाले बलके अफ़्बारात व रसाईल छूने वाले भी अेहतियात फ़रमाया करें के उमूमन इन में आयात व तरजमे शामिल होते हैं.

नापाकी की हालत में दुइद शरीफ़ पढना

जिन पर गुस्ल इर्ज़ हो उन को दुइद शरीफ़ और दुआओं पढने

करमाने मुस्तक। حَسْبُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالسَّلَامُ : जिस ने मुज पर अेक बार दुइडे पाक पढा अल्लाह उस पर दस रहमतें बेजता है. (س)

में हरज नहीं मगर बेहतर येह है के वुजू या कुल्ली कर के पढें. (अहारे शरीअत, जि. 1, स. 327) अजान का जवाब देना उन को ज़ाईज है.

(عالمگیری ج ۱ ص ۳۸)

इंगली में सियाही (INK) की तह जमी हुई हो तो ?

पकाने वाले के नाभुन में आटा, लिपने वाले के नाभुन वगैरा पर सियाही (INK) का जिर्म, आम लोगों के लिये मक़्भी, मख़्दर की भीट लगी हुई रह गई और तवज्जोह न रही तो गुस्ल हो जायेगा. हां मा'लूम हो जाने के बा'द जुदा करना और उस जगह का धोना ज़रूरी है पहले जो नमाज पढी वोह हो गई. (अहारे शरीअत, जि. 1, स. 319)

बस्या कब बालिग होता है ?

लडका बारह¹² साल और लडकी नव⁹ बरस से कम उम्र तक हरगिज बालिग व बालिगा न होंगे और लडका लडकी दोनों (छिजरी सिन के अे'तिबार से) 15 बरस की कामिल उम्र में ज़रूर शरअन बालिग व बालिगा हैं, अगर्ये आसारे बुलूग (या'नी बालिग होने की अलामतें) ज़ाहिर न हों. एन उम्रों के अन्दर अगर आसार पाये जायें, या'नी प्वाह लडके प्वाह लडकी को सोते प्वाह जागते में एनजाल हो (या'नी मनी निकले)... या... लडकी को हैज आये... या... जिमाअ से लडका (डिसी लडकी को) छामिला कर दे... या... (जिमाअ की वजह से) लडकी को हम्ब रह जाये तो यकीनन बालिग व बालिगा हैं. और अगर आसार न हों, मगर वोह पुद्द कहे के हम बालिग व बालिगा हैं और ज़ाहिर हाल उन के कौल की तकज़ीब न करता (या'नी सुटलाता न) हो तो भी बालिग व बालिगा

करमाने मुस्तक़ा : حَسْبِيَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ : जो शप्स मुज पर दुरेदे पाक पढना भूल गया वोह जन्त का रास्ता भूल गया. (ज़िज़)

समझे जायेंगे और तमाम अहकाम बुलूग के निज़ाज़ पायेंगे और (लउके के) दाढी मूँछ निकलना या लउकी के पिस्तान (या'नी छाती) में उत्मार पैदा होना कुछ मो'तबर नहीं। (इतावा २-जविय्या, जि. 19, स. 630)

किताबें रचने की तरतीब

- «1» कुरआने पाक सब किताबों के ठीपर रचिये फिर तफ़सीर फिर हदीस फिर किंकह फिर दीगर इस्लामी किताबें। (बहारे शरीअत, जि. 1, स. 327)
- «2» किताब पर कोई दूसरी चीज़ यहाँ तक के कलम भी मत रचिये बल्के जिस सन्दूक में किताब हो उस पर भी कोई चीज़ न रचिये। (अज़न, स. 328)

अवराक में पुडिया बांधना

- «1» मसा'इल या दीनियात के अवराक में पुडिया बांधना, जिस दस्तर प्वान या बिछोने पर अशआर वगैरा कुछ तहरीर हो उन का इस्ति'माल मन्अ है। (बहारे शरीअत, जि. 1, स. 328)
- «2» हर ज़बान के लुइके तहज़ुज़ का अदब करना याहिये। (तफ़सीली मा'लूमात के लिये इँजाने सुन्नत के बाब "इँजाने बिस्मिल्लाह" सफ़हा 113 से सफ़हा 123 का मुता-लआ इरमा लीजिये)
- «3» मुसल्ले के कोने में उमूमन कम्पनी के नाम की गिट सिलाई की हुई होती है उस को निकाल दिया करें।

मुसल्ले पर का'बतुल्लाह शरीफ़ की तस्वीर

अैसे मुसल्ले जिन पर का'बतुल्लाह शरीफ़ या गुम्बदे ખજરા बना हुवा हो उन को नमाज़ में इस्ति'माल करने से मुकदस शबीह पर

करमाने मुस्तकी عَنِ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : जिस के पास मेरा जिक्र हुआ और उस ने मुझ पर दृष्टे पाक न पढा तहकीक वोह बढे बप्त हो गया. (उःन)

पाउं या घुटना पडने का ईम्कान रहता है लिहाजा नमाज में जैसे मुसल्ले का ईस्ति'माल करना मुनासिब नहीं. (इतावा अहले सुन्त)

वस्वसों का अेक सबब

गुस्ल खाने में पेशाब करने से वस्वसे पैदा होते हैं. हजरते सय्यिदुना अब्दुल्लाह बिन मुगफ़्फ़ल عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ से रिवायत है के रसूले करीम, रउिफ़्फ़रहीम عَلَيْهِ أَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ ने इस से मन्अ इरमाया के कोई शप्स गुस्ल खाने में पेशाब करे और इरमाया : बेशक उमूमन इस से वस्वसे पैदा होते हैं. (سَنَنِ ابُو دَاوُدَ ج ١ ص ٤٤٤ حَدِيث ٢٧)

तयम्मुम का बयान

तयम्मुम के इराधत

तयम्मुम में तीन³ इर्ज हैं : ﴿1﴾ निथ्यत ﴿2﴾ सारे मुंह पर हाथ इरना ﴿3﴾ कोहनियों समेत दोनों² हाथों का मस्ह करना.

(बहारे शरीअत, जि. 1, स. 353, 355)

“तयम्मुम बीज लो” के दस¹⁰ हुइइ की निरबत से तयम्मुम की 10 सुन्नते

﴿1﴾ बिस्मिल्लाह शरीफ़ कहना ﴿2﴾ हाथों को जमीन पर मारना ﴿3﴾ जमीन पर हाथ मार कर लौट देना (या'नी आगे बढ़ाना और पीछे लाना) ﴿4﴾ उंग्लियां खुली हुई रखना ﴿5﴾ हाथों को जाड लेना या'नी अेक हाथ के अंगूठे की जड को दूसरे हाथ के अंगूठे की जड पर मारना मगर येह अेहतियात रहे के तावी की आवाज पैदा न हो ﴿6﴾ पडले

करमाने मुस्तक़ा عنس الله تعالى عليه وآله وسلم : जिस ने मुज पर एक बार दुरदे पाक पढा अल्लाह उस पर दस रकमतें बेजता है. (स)

मुंह फिर हाथों का मस्ह करना ﴿7﴾ दोनों का मस्ह पै दर पै होना ﴿8﴾ पहले सीधे फिर उलटे हाथ का मस्ह करना ﴿9﴾ दाढ़ी का बिलाव करना ﴿10﴾ उंगलियों का बिलाव करना जबके गुबार पड़ोय गया हो. अगर गुबार न पड़ोया हो म-सलन पथर वगैरा किसी ऐसी चीज पर हाथ मारा जिस पर गुबार न हो तो बिलाव इर्ज है बिलाव के लिये दोबारा जमीन पर हाथ मारना जरूरी नहीं. (बहारे शरीअत, जि. 1, स. 356)

तयम्मुम का तरीका (उ-नई)

तयम्मुम की निखत कीजिये (निखत दिल के धराटे का नाम है, जवान से ली कल लें तो बेहतर है. म-सलन यूं कहिये : बे वुजूह या बे गुस्ली या दोनों से पाकी हासिल करने और नमाज ज़ाईज होने के लिये तयम्मुम करता हूं) बिस्मिल्लाह पढ कर दोनों हाथों की उंगलियां कुशादा कर के किसी ऐसी पाक चीज पर जो जमीन की किस्म (म-सलन पथर, यूना, धंट, दीवार, मिट्टी वगैरा) से हो मार कर लौट लीजिये (या'नी आगे बढ़ाईये और पीछे लाईये). और अगर जियादा गर्द लग जाये तो जाड लीजिये और उस से सारे मुंह का इस तरह मस्ह कीजिये के कोई हिस्सा रह न जाये अगर बाल बराबर ली कोई जगह रह गई तो तयम्मुम न होगा. फिर दूसरी बार इसी तरह हाथ जमीन पर मार कर दोनों² हाथों का नापुनों से ले कर कोहलियों समेत मस्ह कीजिये, इस का बेहतर तरीका येह है के उलटे हाथ के अंगूठे के धलावा यार⁴ उंगलियों का पेट सीधे हाथ की पुश्त पर रखिये और उंगलियों के सिरों से कोहलियों तक ले जाईये और फिर

करमाने मुस्तकاً : حَسْبُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : जो शप्स मुज पर दुरेदे पाक पढना भूल गया वोड जन्त का रास्ता भूल गया. (طرائق)

वहां से उलटे ही हाथ की हथेली से सीधे हाथ के पेट को मस करते हुये गिट्टे तक लाईये और उलटे अंगूठे के पेट से सीधे अंगूठे की पुश्त का मसू कीजिये. इसी तरह सीधे हाथ से उलटे हाथ का मसू कीजिये. और अगर एक दम पूरी हथेली और उंगलियों से मसू कर लिया तब भी तयम्मुम हो गया याहे कोहनी से उंगलियों की तरफ लाये या उंगलियों से कोहनी की तरफ ले गये मगर सुन्नत के खिलाफ हुवा. तयम्मुम में सर और पाँउ का मसू नहीं है.

(मुलपस अज बहारे शरीअत, जि. 1, स. 353, 354, 356 वगैरा)

“मेरे आ’ला हजरत की परखीसर्वी शरीह”

के परखीस हुरफ़ की निस्बत से तयम्मुम के 25 म-दनी सूल

* जो यीज आग से जल कर राख छोती है न पिघलती है न नर्म छोती है वोड जमीन की जिन्स (या’नी डिस्म) से है उस से तयम्मुम जाँउ है. रैता, यूना, सुरमा, गन्धक, पथर (मार्बल), जबर जद, कीरोजा, अकीक वगैरा जवाहिर से तयम्मुम जाँउ है याहे उन पर गुबार हो या न हो. (बहारे शरीअत, जि. 1, स. 357, २०१ص ١٤ البحرُ الرَّاقِقُ)

* पक्की ईंट, यीनी या मिट्टी के बरतन से तयम्मुम जाँउ है. हां अगर उन पर किसी औसी यीज का जिर्म (या’नी जिस्म या तह) हो जो जिन्से जमीन से नहीं म-सलन कांय का जिर्म हो तो तयम्मुम जाँउ नहीं. (बहारे शरीअत, जि. 1, स. 358) उमूमन यीनी के बरतन पर कांय की तह यढी छोती है इस से तयम्मुम नहीं हो सकता.

करमाने मुस्तफ़। عسى الله تعالى عليه وآله وسلم : जिस के पास मेरा जिक्र हुआ और उस ने मुझ पर दृढ़दे पाक न पड़ा तबकीक वोह बढ भप्त हो गया. (उंग)

* जिस मिट्टी, पथर वगैरा से तयम्मुम किया जाये उस का पाक होना जरूरी है या'नी न उस पर किसी नजासत का असर हो न येह हो के सिर्फ़ पुशक होने से नजासत का असर जाता रहा हो. (अैज़न, स. 357) जमीन, दीवार और वोह गर्द जो जमीन पर पड़ी रहती है अगर नापाक हो जाये फिर धूप या हवा से सूख जाये और नजासत का असर खत्म हो जाये तो पाक है और उस पर नमाज जाँज है मगर उस से तयम्मुम नहीं हो सकता.

* येह वडूम, के कत्मी नजिस हुँह होगी हुजूल है इस का अे'तिबार नहीं. (अैज़न, स. 357)

* अगर किसी लकड़ी, कपडे, या दरी वगैरा पर र्तनी गर्द है के हाथ मारने से उंग्लियों का निशान बन जाये तो उस से तयम्मुम जाँज है. (अैज़न, स. 359)

* यूना, मिट्टी या र्तों की दीवार ज्वाह घर की हो या मस्जिद की उस से तयम्मुम जाँज है. मगर उस पर ओरल पेन्ट, प्लास्टिक पेन्ट और मेट झिनिश या वोह पेपर वगैरा कोई ऐसी चीज नहीं होनी याहिये जो जिन्से जमीन के र्हावा हो, दीवार पर मारल हो तो कोई हरज नहीं.

* जिस का वुजू न हो या नहाने की हाजत हो और पानी पर कुदरत न हो वोह वुजू और गुस्ल की जगह तयम्मुम करे.

(बहारे शरीअत, जि. 1, स. 346)

करमाने मुस्तफ़ा : على الله تعالى عليه و الله وسلم : जिस ने मुज पर दस भरतबा सुबह और दस भरतबा शाम दुइडे पाक पढा
(उसे क्रियामत के दिन मेरी शक्राअत मिलेगी. (عَنْ عَبْدِ اللَّهِ))

❖ ऐसी भीमारी, के वुजू या गुस्ल से उस के बढ जाने या ढेर में अस्था होने का सहीह अन्देशा हो या जुद अपना तजरिबा हो के जब भी वुजू या गुस्ल क्रिया भीमारी बढ गई या यूं के कोई मुसल्मान अस्था काबिल तबीअ जो आखिरी तौर पर इंसिक न हो वोह कड दे के पानी नुक्सान करेगा. तो इन सूरतों में तयम्मुम कर सकते हैं.

(अैज्जन्, ६६२, ६६१) (رَدُّ الْمُحْتَارِ ج 1 ص 347)

❖ अगर सर से नडाने में पानी नुक्सान करता हो तो गले से नडाओं और पूरे सर का मस्ह करें. (बडारे शरीअत, जि. 1, स. 347)

❖ जडां यारों तरफ़ अेक अेक मील तक पानी का पता न हो वडां भी तयम्मुम कर सकते हैं. (अैज्जन्)

❖ अगर ँतना आबे जमजम शरीफ़ पास है जो वुजू के लिये काफ़ी है तो तयम्मुम ज़र्ज नडीं. (अैज्जन्)

❖ ँतनी सर्दी हो के नडाने से भर जाने या भीमार हो जाने का कवी अन्देशा है और नडाने के बा'द सर्दी से बयने का कोई सामान भी न हो तो तयम्मुम ज़र्ज है. (अैज्जन्, स. 348)

❖ कैदी को कैदबाने वाले वुजू न करने दें तो तयम्मुम कर के नमाज पढ ले बा'द में ँआदा करे और अगर वोह दुश्मन या कैदबाने वाले नमाज भी न पढने दें तो ँशारे से पढे और बा'द में ँआदा करे.

(अैज्जन्, स. 349)

❖ अगर येह गुमान है के पानी तलाश करने में काइला नज़रों से

करमाने मुस्तकी عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : जिस के पास मेरा जिक्र हुआ और उस ने मुझ पर दुरुद शरीक न पढा उस ने जफा की. (عبدالعزیز)

गाईब हो जायेगा तो तयम्मुम जाईज है. (औज़न, स. 350)

* मस्जिद में सो रहा था के गुस्ल इर्ज हो गया तो जहां था वहीं इरन तयम्मुम कर ले येही अहवत (या'नी अहतियात के जियादा करीब) है.

(मापूज अज इतावा र-अविय्या मुबर्रज, जि. 3, स. 479) इरि बाहर निकल आये ताभीर करना हराम है. (बहारे शरीअत, जि. 1, स. 352)

* वक्त इतना तंग हो गया के वुजू या गुस्ल करेगा तो नमाज कजा हो जायेगी तो तयम्मुम कर के नमाज पढ ले इरि वुजू या गुस्ल कर के नमाज का इआदा करना लाजिम है.

(मापूज अज इतावा र-अविय्या मुबर्रज, जि. 3, स. 307)

* औरत हैज व निफ़ास से पाक हो गई और पानी पर कादिर नहीं तो तयम्मुम करे. (बहारे शरीअत, जि. 1, स. 352)

* अगर कोई ऐसी जगह है जहां न पानी मिलता है न ही तयम्मुम के लिये पाक मिट्टी तो उसे याहिये के वक्ते नमाज में नमाज की सी सूरत बनाये या'नी तमाम ह-रकाते नमाज बिला निय्यते नमाज बजा लाये. (बहारे शरीअत, जि. 1, स. 353) मगर पाक पानी या मिट्टी पर कादिर होने पर वुजू या तयम्मुम कर के नमाज पढनी होगी.

* वुजू और गुस्ल दोनों के तयम्मुम का अेक ही तरीका है. (जुवहेरु स. १८)

* जिस पर गुस्ल इर्ज है उस के लिये येह जरूरी नहीं के वुजू और गुस्ल दोनों के लिये दो तयम्मुम करे बल्के अेक ही में दोनों के लियत कर

करमाने मुस्तक़। على الله تعالى عليه وآله وسلم : जो मुज़ पर रोज़े जुमुआ दुरुद शरीफ़ पढ़ेगा मैं कियामत के दिन उस की शफ़ाअत करूँगा. (क़रआमाल)

ले दोनों² हो जायेंगे और अगर सिर्फ़ गुस्ल या पुजू की नियत की जब भी काफ़ी है. (बहारे शरीअत, ज़ि. 1, स. 354)

✽ जिन चीज़ों से पुजू टूट जाता है या गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है उन से तयम्मुम भी टूट जाता है और पानी पर कादिर होने से भी तयम्मुम टूट जाता है. (अैज़न, स. 360)

✽ औरत ने अगर नाक में झूल वगैरा पहने हों तो निकाल ले वरना झूल की जगह मस्ह नहीं हो सकेगा. (अैज़न, स. 355)

✽ डोंटों का वोह छिस्सा जो आदतन मुंह बन्द होने की हालत में टिपाई देता है इस पर मस्ह होना ज़रूरी है अगर मुंह पर हाथ ड़ैरते वक्त किसी ने डोंटों को जोर से दबा लिया के कुछ छिस्सा मस्ह होने से रह गया तो तयम्मुम नहीं होगा. इसी तरह जोर से आंभें बन्द कर लीं जब भी न होगा. (अैज़न)

✽ अंगूठी, घड़ी वगैरा पहने हों तो उतार कर उन के नीचे हाथ ड़ैरना फ़र्ज़ है. इस्लामी बहनों भी यूडियां वगैरा हटा कर उन के नीचे मस्ह करें. तयम्मुम की ओहतियातें पुजू से बढ कर हें. (अैज़न)

✽ बीमार या बे हस्तो पा भुद तयम्मुम नहीं कर सकता तो कोई दूसरा करवा दे इस में तयम्मुम करवाने वाले की नियत का अे'तिबार नहीं, जिस को तयम्मुम करवाया जा रहा है उस को नियत करनी होगी.

(अैज़न, स. 354 २६ ص ۱ عالمگیری ج ۱)

म-दनी भश्वरा : पुजू के अहकाम सीखने के लिये मक-त-अतुल मदीना का

करमाने मुस्तफ़ा صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : मुज पर दुरेदे पाक की कसरत करो बेशक ये छ तुम्हारे लिये तछारत है.
(अ-बु-यूसुफ़)

मत्बूआ “वुजू का तरीका” और नमाज सीखने के लिये रिसाला “नमाज का तरीका” का मुता-लआ मुईद है.

या रब्बे मुस्तफ़ा ! छमें बार बार गुस्ल के मसाईल पढने, समजने और दूसरों को समजाने और सुन्नत के मुताबिक गुस्ल करने की तौफ़ीक अता इरमा.

أَمِينِ بِجَاةِ النَّبِيِّ الْأَمِينِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

गमे मदीना, बकीअ,
मस्जिद और बे
छिसाब जन्नतुल
किरदीस में आका
के पओस का ताविष



4 रबीउल आभिर 1432 सि.छि.

ईमाने अमान

ઇસ રિસાલે મેં....

કબ્ર મેં કીડે નહીં પરંગે

અઝાન કા જવાબ દેને કા તરીકા

સો શહીદોં કા સવાબ કમાઈયે

ઈમાને મુફ્સલ, ઈમાને મુજમલ, છ⁶ કલિમે

મછલિયાં ઈસ્તિઝ્કાર કરતી હેં

૩ કરોડ ૨૪ લાખ નેકિયાં કમાઈયે

અઝાન કા જવાબ દેને વાલા જન્મતી હો ગયા

વરક ઉલટિયે....

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ
 اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

इंऱऱने अऱऱऱन

डड 3 करोड 24 लऱड नेकियां रोऱऱऱनऱ कुडऱघडे

डेड रिसऱलऱ (29 सइडऱत) अडवल तऱ आडिर डूरऱ डडिडे,
 कवी ँडकऱन डे के आड की कइ ग-लतियां सऱडने आ ञऱं.

दुऱुद शरीक की इऱीलत

सरकऱरे डडिऱनऱ, सुलतऱने डऱ करीनऱ, करऱरे कलडुु सीनऱ, इंऱऱ
 गऱऱऱनऱ, सऱडिडे डुअततर डसीनऱ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ कऱ ँशऱडि
 रडडत डुनुडऱद डै : ञिस ने कुऱऱऱने डऱक डडऱ, रड तऱऱलऱ की डडुड की
 और नडी (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) डर दुऱुद शरीक डडऱ नीऱऱ अडने
 रड डुऱुड से डडिऱरत तलड की तऱ उस ने डलऱऱड कुु अडनी ञगड से
 तलऱश कर डिया. (شُعَبُ الْاِيْمَانِ ج ٢ ص ٣٧٣ حديث ٢٠٨٤)

صَلُّوْا عَلٰى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

सरकऱर صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ने अेक डऱर अऱऱऱन डी

नडियाडे अकरड صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ने सइर डें अेक डऱर
 अऱऱऱन डी थी और कडिडऱते शडऱदत डुु कडे : اَشْهَدُ اَنْنِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ (डें
 गवऱडी देतऱ डुु के डें अललऱड कऱ रसूल डुु).

(تَحْفَةُ الْمُحْتَاجِ، ج ١ ص ٢٠٩، 375، 5، ञि. 5، स. 375, 209)

करमाने मुस्तफ़ा صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : जिस ने मुज पर एक बार दुरुदे पाक पढा अल्लाह उस पर दस रकमतें बेजता है. (स्)

आमान है या अमान ?

बा'ज लोग "आमान" कहते हैं येह गलत तलफ़्हुज है. आमान जम्अ है "उजुन" की और उजुन के मा'ना हैं : कान. दुरुस्त तलफ़्हुज अमान है. अमान के लुगवी मा'ना हैं : जबरदार करना.

"इमाने अमान" के नव दुरुफ़ की निरबत से आमान के इताधल पर मुश्तमिल 9 अहादीसे मुस्तफ़ा صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

﴿1﴾ कब्र में कीडे नहीं पड़ेंगे

सवाब की आतिर अमान देने वाला उस शहीद की मानिन्द है जो पून में लिथडा हुवा है और जब मरेगा कब्र में उस के जिस्म में कीडे नहीं पड़ेंगे.

(الْمَنْعَمُ الْكَبِيرُ لِلطَّبْرَانِي ج 12 ص 322 حديث 13004)

﴿2﴾ मोती के गुम्बद

में जन्नत में गया, उस में मोती के गुम्बद देभे उस की आक मुश्क की है. पूछा : औ जिब्रिहल ! येह किस के वासिते हैं ? अर्ज की : आप صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ की उम्मत के मुअज्जिजनों और एमामों के लिये.

(الْجَامِعُ الصَّغِيرُ لِلشَّيْطُو ص 200 حديث 4179)

﴿3﴾ गुमश्ता गुनाह मुआफ़

जिस ने पांथों नमाजों की अमान एमान की बिना पर न निर्यते सवाब कही उस के जो गुनाह पडले हुअे हैं मुआफ़ हो जाअेंगे और जो एमान की बिना पर सवाब के लिये अपने साथियों की पांथ नमाजों में एमामत करे उस के गुनाह जो पडले हुअे हैं मुआफ़ कर दिये जाअेंगे.

(الْسَّنَنُ الْكَبْرَى لِلْبَيْهَقِي ج 1 ص 636 حديث 2039)

करमाने मुस्तक़ा عَلَى اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : ओ शप्स मुज़ पर दुरेदे पाक पढ़ना भूल गया वोड़ जन्त का रास्ता भूल गया. (طرائق)

﴿4﴾ शैतान 36 मील दूर भाग जाता है

“शैतान जब नमाज़ के लिये अज़ान सुनता है भागता हुआ रौंदा पछोंच जाता है.” रावी इरमाते हैं : रौंदा मदीनअे मुनव्वरह से 36 मील दूर है. (مسلم ص २०६ حديث २८८ مُلَخَّصًا)

﴿5﴾ अज़ान कबूलियते हुआ का सबब है

जब अज़ान देने वाला अज़ान देता है आस्मान के दरवाजे खोल दिये जाते हैं और हुआ कबूल होती है. (الْمُسْتَدْرَكُ لِلْحَاكِمِ ج २ ص २६३ حديث ६८१)

﴿6﴾ मुअज़्ज़िन के लिये धस्तिग़्ज़ार

मुअज़्ज़िन की आवाज़ जहां तक पछोंचती है, उस के लिये मग्ज़िरत कर दी जाती है और हर तरफ़ प्रशक जिस ने उस की आवाज़ सुनी उस के लिये धस्तिग़्ज़ार करती है. (مُسْنَدُ إِمَامِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ ج २ ص ५०० حديث १२१)

﴿7﴾ अज़ान वाले दिन अज़ाब से अमन

जिस बस्ती में अज़ान दी जाये, अल्लाह ज़ंजल अपने अज़ाब से उस दिन उसे अमन देता है. (الْمُعْجَمُ الْكَبِيرُ لِلطَّبْرَانِيِّ ج १ ص २०७ حديث ७६१)

﴿8﴾ घबराहट का धलाव

जब आदम (عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام) जन्त से हिन्दूस्तान में उतरे उन्हें घबराहट हुई तो जिब्रिहल (عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام) ने उतर कर अज़ान दी. (حِلْيَةُ الْأَوْلِيَاءِ ج ५ ص १२३ حديث १०११)

फ़रमाने मुस्तफ़ी : صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : जिस के पास मेरा जिक्र हुआ और उस ने मुझ पर दृष्टि पाक न पढा तलकीक़ वोह बढ भन्त हो गया. (ḥ)

9 गम दूर करने का नुस्खा

अै अली ! में तुझे गमगीन पाता हूं अपने किसी घर वाले से कल, के तेरे कान में अजान कहे, अजान गम व परेशानी की दाइअ है. (جامع الحديث للسيوطي ج 10 ص 339 حديث 6017) येह रिवायत नकल करने के आ'द आ'ला उजरत عَلَيْهِ تَعَالَى "इतावा र-जविय्या शरीफ़" जिल्द 5 सङ्खला 668 पर फ़रमाते हैं : मौला अली (كَرَّمَ اللهُ تَعَالَى وَجْهَهُ الْكَرِيمَ) और मौला अली तक जिस कदर ँस उदीस के रावी हैं सभ ने फ़रमाया : (لم نه ँसे तजरिबा किया तो अैसा ही पाया).

(مِرْقَاةُ الْمَفَاتِيحِ ج 2 ص 331، جَامِعُ الْحَدِيثِ ج 10 ص 339 حديث 6017)

मछलियां भी छस्तिग़्फ़ार करती हैं

मन्कूल है : अजान देने वालों के लिये हर चीज मग़्फ़िरत की द्वा करती है यहां तक के दरिया में मछलियां भी. मुअज़्ज़िन जिस वक्त अजान कलता है इरिशते भी द्वाहराते जाते हैं और जब इरिग हो जाता है तो इरिशते कियामत तक उस के लिये मग़्फ़िरत की द्वा करते हैं. जो मुअज़्ज़िनी की डालत में भर जाता है उसे अजाबे क़ब्र नहीं डोता और मुअज़्ज़िन नज़्ज़ की सप्तियों से बय जाता है. क़ब्र की सप्तती और तंगी से भी मामून (या'नी मडङ्ग) रहता है.

(मुलम्भस अज तफ़सीरे सूरअे यूसुफ़ (मुतर्जम), स. 21)

अजान के जवाब की इज़ीलत

मदीने के ताजदार صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ने अेक बार फ़रमाया : अै औरतो ! जब तुम बिलाल को अजान व ँकामत कलते सुनो तो जिस तरड

फरमाने मुस्तफा ﷺ : जिस ने मुज पर दस मरतबा सुबह और दस मरतबा शाम दुइदें पाक पढा (उसे कियामत के दिन मेरी शफाअत मिलेगी. (हृ. अ. १००))

वोड कइता है तुम भी कइो के अद्लाह ﷻ तुम्हारे लिये हर कलिमे के बढवे
 अेक लाभ नेकियां लिभेगा और अेक हज्जर द-रज्जत बुलन्द फरमायेगा और
 अेक हज्जर गुनाह मिटायेगा. भवातीन ने येह सुन कर अर्ज की : येह तो
 औरतों के लिये है मर्दों के लिये क्या है ? फरमाया : मर्दों के लिये दुगना.

(तारिख यमशुक लायन एसलरुज ०००० ००००)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

3 करोड 24 लाभ नेकियां रोजाना कमाधये

भीठे भीठे ईस्लामी भाईयो ! अद्लाह ﷻ की रहमत पर
 कुरबान ! उस ने हमारे लिये नेकियां कमाना, अपने द-रज्जत बढवाना
 और गुनाह बपशवाना किस कदर आसान फरमा दिया है मगर
 अफसोस ! ईतनी आसानियों के बा वुजूद भी हम गफलत का शिकार
 रहते हैं. पेश कर्दा हदीसे मुबारक में जवाबे अजान व ईकामत की ज़े
 इजीलत बयान हुई है उस की तफसील मुला-हज्ज फरमाईये :

“الله أكبر الله أكبر” येह दो कलिमात हैं, ईस तरह पूरी अजान
 में कुल 15 कलिमात हैं. अगर कोई ईस्लामी बहन अेक अजान का
 जवाब दे या'नी मुअज़्ज़न साहिब ज़े कइते ज़अें ईस्लामी बहन
 भी दोहराती ज़अे तो उस को 15 लाभ नेकियां मिलेंगी, 15 हज्जर
 द-रज्जत बुलन्द होंगे और 15 हज्जर गुनाह मुआफ़ होंगे और ईस्लामी
 भाईयों के लिये येह सब दुगना है. इज्ज की अजान में दो मर्तबा
 الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ التَّوَمِّ भी है तो यूं इज्ज की अजान में 17 कलिमात हो

करमाने मुस्तक़ा صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : जिस के पास मेरा जिक्र हुआ और उस ने मुझ पर दुःख शरीक़ न पढा उस ने जफ़ा की. (عمران: १)

गअे और ईस तरह इज की अजान के जवाब में 17 लाफ़ नेकियां, 17 हजार ह-रजात की बुलन्दी और 17 हजार गुनाहों की मुआफ़ी मिली और ईस्लामी भाईयों के लिये दुगना. ईकामत में दो मर्तबा **قَدَّامَتِ الصَّلَاةِ** भी है यूँ ईकामत में भी 17 कलिमात हुअे तो ईकामत के जवाब का सवाब भी इज की अजान के जवाब जितना हुआ. अल हसिल अगर कोई ईस्लामी बहन अहतिमाम के साथ रोजाना पांयों नमाजों की अजानों और पांयों ईकामतों का जवाब देने में काम्याब हो जाअे तो उसे रोजाना अक़ करोड़ बासठ लाफ़ नेकियां मिलेंगी, अक़ लाफ़ बासठ हजार ह-रजात बुलन्द् होंगे और अक़ लाफ़ बासठ हजार गुनाह मुआफ़ होंगे और ईस्लामी भाई को दुगना या'नी 3 करोड़ 24 लाफ़ नेकियां मिलेंगी, 3 लाफ़ 24 हजार ह-रजात बुलन्द् होंगे और 3 लाफ़ 24 हजार गुनाह मुआफ़ होंगे.

अजान का जवाब देने वाला जन्नती हो गया

हज़रते सय्यिदुना अबू हुरैरा رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ इरमाते हैं के अक़ साहिब जिन का ब ज़ाहिर कोई बहूत बडा नेक अमल न था, वोह इत हो गअे तो रसूलुल्लाह صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ने सहाबअे किराम عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان की मौजू-दगी में (गैब की खबर देते हुअे ईशाद) इरमाया : क्या तुम्हें मा'लूम है के अल्लाह तआला ने उसे जन्नत में दाखिल कर दिया है. ईस पर लोग मु-तअजिजब हुअे क्यूंके ब ज़ाहिर उन का कोई बडा अमल न था. युनान्थे अक़

करमाने मुस्तफ़ा: عَلَى اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهُ وَسَلَّمَ: जो मुज पर रोजे जुमुआ दुरुद शरीफ़ पढ़ेगा मैं कियामत के दिन उस की शफ़ाअत करूँगा. (क़ुरआन)

सलाही रَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا उन के घर गये और उन की बेवा عَنْهَا رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا से पूछा के उन का कोई भास अमल हमें बताईये, तो उन्होंने ने जवाब दिया : और तो कोई भास बडा अमल मुजे मा'लूम नहीं, सिर्फ़ ईतना जानती हूँ के दिन डो या रात, जब भी वोड अजान सुनते तो जवाब उर देते थे. (تاريخ دمشق لابن عساکر ج ٤٠ ص ٤١٢، ٤١٣ مُلَخَّصًا) عزّ وجلّ की उन पर रहमत डो और उन के सदके हमारी मग़्फ़िरत डो.

أَمِينٍ بِجَاهِ النَّبِيِّ الْأَمِينِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

गु-नडे गदा का हिसाब क्या वोड अगर्ये लाप से हें सिवा

मगर औ अहुव तरे अइव का तो हिसाब हें न शुमार हें

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

अजान व फ़कामत के जवाब का तरीका

मुअज़्ज़िन साहिब को याहिये के अजान के कलिमात ठहर ठहर कर कहे. اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ (यूँ दो कलिमात हें मगर) दोनों मिल कर (बिगैर सकता किये अक साथ पढ़ने के अतिबार से) अक कलिमा हें, दोनों के भा'द सकता करे (या'नी युप डो जामे) और सक्ते की भिकदार येड है के जवाब देने वाला जवाब दे ले, सक्ते का तर्क मकरुड है और अैसी अजान का ईआदा (या'नी लौटाना) मुस्तलब है. (تَرْمِضَةُ وَرَدُّ الْمُحْتَارِ ج ٢ ص ٦٦) जवाब देने वाले को याहिये के जब मुअज़्ज़िन साहिब اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ कह कर सकता करे या'नी आमोश डो उस वक्त

करडऱने डुसुतकरऱ: صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: डुऱन डर दुरदुदे डऱक की कसरत करु डेशक डेड तुडुडऱरे डऱडे तडऱरत डे. (ऱडऱडऱ)

कडे. ँसी तरड दऱगर कडऱडऱत कऱ ञवऱड दे.

ञड डुअऱऱऱऱन डडडऱ डऱर **أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ** कडे डेड कडे :

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ (तरञडऱ : आड डर दुरदुद डु डऱ रसूलडुडऱड (صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ)

ञड दुडऱरऱ कडे, डेड कडे :

قَرَّةُ عَيْنِي بِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ (डऱ रसूलडुडऱड ! आड से डेरी आंणुुुं की ङऱक डे)

ऱर डर डऱर अंगूठुुं के नऱणुन आंणुुुं से लगऱ डे, आणुडर डें कडे :

اللَّهُمَّ مَتِّعْنِي بِالسَّمْعِ وَالْبَصَرِ (ऱ अडुडऱड ! डेरी सुनने ऱर डेडने की कुडुडत से डुऱे नकरअ अतऱ करडऱ) (رَدُّ الْمُحْتَارِ ج ٢ ص ٨٤)

حَتَّى عَلَى الْفَلَاحِ ऱर **حَتَّى عَلَى الصَّلَاةِ** के ञवऱड डें (डऱरुुं डऱर)

لِأَحْوَالٍ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ कडे ऱर डेडतर डेड डे के दुडनुुुं कडे (डऱ'नी डुअऱऱऱऱन ने ञु कडऱ वुड डऱ कडे ऱर लऱडुडुड डऱ) डडके डऱऱऱद डेड डऱ डऱलऱ डे :

مَا شَاءَ اللَّهُ كَانَ وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ (तरञडऱ : ञु अडुडऱड डे डऱडऱ डे डऱडऱ न डुडऱ) (دُرِّمُخْتَارِ وَرَدُّ الْمُحْتَارِ ج ٢ ص ٨٢, عऱलडुडऱरऱ ड ١ ص ٥٧)

के ञवऱड डें कडे :

وَبِرَّتٍ وَبِالْحَقِّ نَطَقْتُ (तरञडऱ : तु सडुडऱ ऱर नेकुकऱर डे ऱर तुने डक कडऱ डे) (دُرِّمُخْتَارِ وَرَدُّ الْمُحْتَارِ ج ٢ ص ٨٣)

डकऱडत कऱ ञवऱड डुसुतडड डे. ँस कऱ ञवऱड डऱ ँसी तरड

करमाने मुस्तफ़ी عَلَى اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : तुम जहाँ भी हो मुज पर दुर्रद पढे के तुम्हारा दुर्रद मुज तक पढोयता है. (طرائق)

है इर्क एतना है के **قَدَامَتِ الصَّلَاةُ** के जवाब में कहे :

**أَقَامَهَا اللَّهُ وَأَدَامَهَا مَا دَامَتِ
السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ**

(तरजमा : अल्लाह एस को
कायम रभे जब तक आस्मान और
जमीन हें) (عالمگیری ج ۱ ص ۵۷)

“साडे या रसूलल्लाह” के यौदह दुर्रद की निस्बत से अजान के 14 म-दनी इल

☀ पांयों इर्क नमाजें एन में जुमुआ ली शामिल है जब जमाअते
उला के साथ मस्जिद में वक्त पर अदा की जअें तो उन के लिये अजान
सुन्नते मुअक्कदा है और एस का हुक्म भिस्ले वाजिब है के अगर
अजान न कही गई तो वहां के तमाम लोग गुनहगार होंगे.

(बहारे शरीअत, जि. 1, स. 464)

☀ अगर कोई शप्स शहर के अन्दर घर में नमाज पढे तो वहां की
मस्जिद की अजान उस के लिये काई है मगर अजान कल लेना मुस्तहब
है. (رَدُّ الْمُحْتَار ج ۲ ص ۶۲-۷۸)

☀ अगर कोई शप्स शहर के बाहर या गाँव, भाग या भेत वगैरा में
है और वोह जगह करीब है तो गाँव या शहर की अजान काई है इर
ली अजान कल लेना बेहततर है और जो करीब न हो तो काई नहीं.
करीब की हद येह है के यहाँ की अजान की आवाज वहाँ पढोयती हो.

(عالمگیری ج ۱ ص ۵۴)

☀ मुसाइर ने अजान व एकामत दोनों न कही या एकामत न कही तो

करमाने मुस्तफ़ा: **عَلَى اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** जिस ने मुज पर दस मरतबा दुर्रुदे पाक पढा अल्लाह एउंजल उस पर सो रहमते नाज़िल करमाता है. (अज़ान)

मक़रुह है और अगर सिर्फ़ ईकामत क़ह ली तो कराहत नहीं मगर बेहततर येह है के अजान ली क़ह ले. याहे तन्हा हो या ईस के दीगर हमराही वही मौजूद हों.

(बहारे शरीअत, जि. 1, स. 471, ४८२) **دُرْمُخْتَارٌ وَرَدُّ الْاُخْتَارِ ج २ ص ४८**

❁ वक्त शुरुअ होने के बा'द अजान क़हिये अगर वक्त से पहले क़ह दी या वक्त से पहले शुरुअ की और दौराने अजान वक्त आ गया दोनों सूरतों में अजान दोबारा क़हिये (الهداية ج १ ص ६०) **مُؤَخَّرٌ** साहिबान को याहिये के वोह नक़शअे निजामुल अवकात देभते रहा करें. कहीं कहीं **مُؤَخَّرٌ** साहिबान वक्त से पहले ही अजान शुरुअ कर देते हैं. ईमाम साहिबान और ईन्तिजामिया की बिदमत में ली म-दनी ईत्तिज़ा है के वोह ली ईस मस्अले पर नज़र रभें.

❁ **जवातीन** अपनी नमाज़ अदा पढती हों या कज़ा ईस में ईन के लिये अजान व ईकामत क़हना मक़रुह है. **دُرْمُخْتَارِ ج २ ص ७२**

❁ औरतों को जमाअत से नमाज़ अदा करना, ना ज़ाईज है.

(अज़ाने शरीअत, जि. 1, स. 584) **ايضاً ص ३१७**

❁ समज़दार बय्या ली अजान दे सकता है. **دُرْمُخْتَارِ ج २ ص ७०**

❁ बे वुजू की अजान सहीह है मगर बे वुजू का अजान क़हना मक़रुह है. (बहारे शरीअत, जि. 1, स. 466, ६६) **مَرَامِي الْفَلَاحِ ص ६६**

❁ **धुन्सा**, फ़ासिक अगर्ये आलिम ही हो, नशे वाला, पागल, बे गुस्ला और ना समज़ बय्ये की अजान मक़रुह है. ईन सब की अजान

करमाने मुस्तहब: على الله تعالى وعنه واليه وسلم: जिस के पास मेरा जिक्र हो और वोह मुज पर दुरुद शरीफ न पढे तो वोह लोगों में से क्यूस तरीन शप्स है. (अल-अजान)

का ईआदा किया जाये. (अहारे शरीअत, जि. 1, स. 466, १०२व२) (दुम्खतार ज२)

✽ अगर मुअज्जिन ही ईमाम भी हो तो बेहतर है.

(दुम्खतार ज२ ८८)

✽ मस्जिद के बाहर किब्ला रु खडे हो कर, कानों में उंग्लियां डाल कर बुलन्द आवाज से अजान कही जाये मगर ताकत से जियादा आवाज बुलन्द करना मक़ूह है. (अहारे शरीअत, जि. 1, स. 468, 469, ००व२) (अल-अजान) अजान में उंग्लियां कान में रखना मस्नून व मुस्तहब है मगर हिलाना और घुमाना ह-र-कते कुज़ूल है.

(इतावा र-अविय्या, जि. 5, स. 373)

✽ **حَتَّىٰ عَلَى الْفَلَاحِ** उलटी तरफ़ मुंह कर के कहे और **حَتَّىٰ عَلَى الصَّلَاةِ** सीधी तरफ़ मुंह कर के कहे और अजान नमाज के लिये न हो म-सलन अख्ये के कान में कही. येह फिरना इकत मुंह का है सारे अदन से न फिरे.

(दुम्खतार ज२ ११६) अहारे शरीअत, जि. 1, स. 469) आ'ज मुअज्जिन "सलाह" और "इलाह" पर पड़ोयने पर नजाकत के साथ दाअें आअें येहरे को थोडा सा हिला देते हैं, येह तरीका गलत है. दुरुस्त अन्दाज येह है के पहले अख्शी तरह दाअें आअें येहरा कर लिया जाये ईस के आ'द लफ़्ज "अय्य" कहने की इब्तिदा हो.

✽ इज की अजान में **حَتَّىٰ عَلَى الْفَلَاحِ** के आ'द **خَيْرٌ مِنَ التَّوْمِ** कहना मुस्तहब है. (दुम्खतार ज२ ११७) अगर न कहा जाय भी अजान हो जायेगी.

(कानूने शरीअत, स. 89)

फ़रमाने मुस्तफ़ा ﷺ: عَلَى اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالرَّسْمُ: उस शप्स की नाक पाक आवुद हो जिस के पास मेरा जिक्र हो और वो ह मुज पर दुइदे पाक न पड़े. (१८)

“अजाने भिलाली” के नव हुइइ की निरुभत से जवाबे अजान के 9 म-दनी इल

❁ अजाने नमाज के इलावा दीगर अजानों का जवाब भी दिया जायेगा म-सलन बय्या पैदा होते वक्त की अजान. (رَبُّ الْمَحْضَرِّ ۲/ص ۸۲) मेरे आका आ'ला इजरत इमाम अहमद रजा भान عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰن फ़रमाते हैं : जब बय्या पैदा हो इरन सीधे कान में अजान भाओं (उलटे) में तकभीर कहे के भ-लले शैतान व उम्मुस्सिब्यान से बये. (इतावा र-उविय्या, जि. 24, स. 452) “मल्हूजाते आ'ला इजरत” सइहा 417 ता 418 पर है : “(सअ) बहुत ખબીસ બલા હૈ ઓર ઈસી કો ઉમ્મુસ્સિબ્યાન કહતે હૈં અગર બચ્ચોં કો હો, વરના સઅ (મિર્ગી).”

❁ મુક્તદિયોં કો ખુત્બે કી અજાન કા જવાબ હરગિજ ન દેના ચાહિયે યેહી અહ્વત (યા'ની એહતિયાત સે કરીબ) હૈ. હાં અગર યેહ જવાબે અજાન યા (દો ખુત્બોં કે દરમિયાન) દુઆ, અગર દિલ સે કરે, ઝબાન સે તલફ્ફુજ (યા'ની અલ્ફાજ અદા કરના) અસ્લન (યા'ની બિલ્કુલ) ન હો તો કોઈ હરજ નહીં. ઓર ઈમમ યા'ની ખતીબ અગર ઝબાન સે ભી જવાબે અજાન દે યા દુઆ કરે બિલા શુબા જાઈજ હૈ.

(इतावा र-उविय्या मुभर्रज, जि. 8, स. 300, 301)

❁ अजान सुनने वाले के लिये अजान का जवाब देने का हुकूम है. (बहारे शरीअत, जि. 1, स. 472) જુનુબ (યા'ની જિસે જિમાઅ યા એહતિલામ કી વજહ સે ગુસ્લ કી હાજત હો) ભી અજાન કા જવાબ દે. અલબત્તા હૈજ

करमाने मुस्तक़ा : على الله تعالى عليه و اله وسلم : जिस ने मुज पर रोजे जुमुआ दो सो बार दुरदं पाक पढा उस के दो सो साल के गुनाह मुआक होंगे. (अल-अमाल)

व निःश्वस वाली औरत, भुत्बा सुनने वाले, नमाजे जनाजा पढने वाले, जिमाअ में मशगूल या ज़े कजाअे छाजत में हों उन पर जवाब नहीं। (दُرْمُخْتَار ج २ ص ८१)

✽ जब अजान हो तो उतनी देर के लिये सलाम व कलाम और जवाबे सलाम और तमाम काम मौकूफ़ कर दीजिये यहाँ तक के तिलावत भी, अजान को गौर से सुनिये और जवाब दीजिये. इकामत में भी इसी तरह कीजिये.

(अहारे शरीअत, जि. 1, स. 473, ०५ مَلَخَصًا ص १८१ عالمگیری ج १ ص १८१)

✽ अजान के दौरान यलना, फिरना, भरतन, गिलास वगैरा कोई सी चीज़ उठाना, षाना वगैरा रषना, छोटे बच्चों से खेलना, इशारों में गुफ़्त-गू करना वगैरा सब कुछ मौकूफ़ कर देना ही मुनासिब है.

✽ ज़े अजान के वक्त आतों में मशगूल रहे उस का مَعَادَاللّٰهُ आतिमा भुरा डोने का षौफ़ है. (अहारे शरीअत, जि. 1, स. 473)

✽ रास्ते पर यल रहा था के अजान की आवाज आई तो (बेहतर येह है के) उतनी देर षडा हो ज़अे (युपचाप) सुने और जवाब दे. (अल-अमाल, ०५ ص १८१) हं दौराने अजान मस्जिद या वुजूषाने की तरफ़ यलने और वुजू करने में कोई हरज नहीं इस दौरान ज़बान से जवाब भी देते रहिये.

✽ अजान के दौरान इस्तिज़ा-षाने ज़ाना बेहतर नहीं क्यूंके वहां अजान का जवाब न दे सकेगा और येह बहुत बडे सवाब से महरुमी

करमाने मुस्तक़ा: صلى الله تعالى عليه و آله وسلم: मुज़ा पर हुज़ूद शरीफ़ पढो अल्लाह عزّوجلّ तुम पर रहमत भेजेगा. (अबुसुयूब)

है, अलबत्ता शदीद हाज़त हो या ज़माअत ज़ाने का अन्देशा हो तो यला ज़ाओ.

✽ अगर यन्द अज़ानें सुने तो ईस पर पहली ही का जवाब है और बेहतर येह है के सब का जवाब दे. (दुम्खतार वरुदुलमुह्तार ज २ व ८२), बहारे शरीअत, जि. 1, स. 473) अगर ब वक्ते अज़ान जवाब न दिया तो अगर ज़ियादा देर न गुज़री हो तो जवाब दे ले. (दुम्खतार ज २ व ८३)

“या मुस्तहज़ा” के सात हुज़ूफ़ की निस्बत से घकामत के 7 म-दनी कूल

✽ घकामत मस्जिद में इमाम के अैन पीछे षडे हो कर कलना बेहतर है अगर अैन पीछे मौकअ न मिले तो सीधी तरफ़ मुनासिब है.

(माभूज़ अज़ इतावा र-जविय्या मुभर्रज, जि. 5, स. 372)

✽ घकामत अज़ान से भी ज़ियादा ताकीदी सुन्नत है. (दुम्खतार ज २ व ६८)

✽ घकामत का जवाब देना मुस्तहब है. (बहारे शरीअत, जि. 1, स. 473)

✽ घकामत के कलिमात जल्द जल्द कहें और दरमियान में सक्ता मत कीजिये. (अैज़ान, स. 470)

✽ घकामत में भी **حَتَّى عَلَى الْفَلَاحِ** और **حَتَّى عَلَى الصَّلَاةِ** में (सफ़हा 11 पर बयान कर्दा तरीके के मुताबिक) दाओं बाओं मुंड फेरिये. (दुम्खतार ज २ व ६६)

✽ घकामत उसी का हक है जिस ने अज़ान कही है, अज़ान देने वाले की इज़ाज़त से दूसरा कह सकता है अगर बिगौर इज़ाज़त कही और मुअज़्ज़िन (या'नी जिस ने अज़ान दी थी उस) को ना गवार हो तो मक़रूह

करमाने मुस्तहब : على الله تعالى عليه و الله وسلم मुज पर कसरत से दुरदे पाक पढे बेशक तुम्हारा मुज पर दुरदे पाक पढना तुम्हारे गुनाहों के लिये मज्किरत है. (भास्त्र)

है.

(عالمگیری ج ۱ ص ۵۴)

❁ **ईकामत** के वक्त कोई शप्स आया तो उसे षडे हो कर ईन्तिजार करना मक़रुह है बल्के बैठ जाओ ईसी तरह जो लोग मस्जिद में मौजूद हैं वोह भी बैठ रहें और उस वक्त षडे हों जब **مُكَبِّر** **حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ** पर पड़ोंये येही हुकम ईमाम के लिये है.

(ایضاً ص ۵۷, अडारे शरीअत, जि. 1, स. 471)

“मेरे गौसो आ’उम” के ग्यारह हुइइ की निस्बत से अमान देने के 11 मुस्तहब मवाडेअ

❁1❁ अय्ये ❁2❁ मगभूम ❁3❁ मिर्गी वाले ❁4❁ गलब नाक और अद मिजाज आदमी और ❁5❁ अद मिजाज जानवर के कान में ❁6❁ लडाई की शिदत के वक्त ❁7❁ आतश ज-दगी (आग लगने) के वक्त ❁8❁ मय्यित दफ्न करने के आ’द ❁9❁ जिन्न की सरकशी के वक्त (म-सलन किसी पर जिन्न सुवार हो) ❁10❁ जंगल में रास्ता भूल जाअें और कोई अताने वाला न हो उस वक्त. (अडारे शरीअत, जि. 1, स. 466, **رَدُّ الْمُسْتَحْتَرِجِ** ص 12) नीज ❁11❁ वबा के जमाने में भी अमान देना मुस्तहब है. (अडारे शरीअत, जि. 1, स. 466, इतावा र-अविय्या मुपर्ज, जि. 5, स. 370)

मस्जिद में अमान देना पिलाइ सुन्नत है

आज कल अक्सर मस्जिद के अन्दर ही अमान देने का रवाज पड गया है जो के पिलाइ सुन्नत है. “आलमगीरी” वगैरा में है अमान पारिजे मस्जिद में कही जाओ मस्जिद में अमान न कहे.

फ़रमाने मुस्तफ़ा: صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: जिस ने क़िताब में मुज पर दुरुद पाक लिखा तो जब तक मेरा नाम उस में रहेगा फिरिश्ते उस के लिये ईस्तिफ़ार करते रहेंगे. (अबु)।

याहिये के अपने शहर या कम अज कम अपनी अपनी मसाजिद में (पांयों नमाजों की अजान और जुमुआ की अजाने सानी मस्जिद के बाहर देने की) इस सुन्नत को जिन्दा करें और सो सो शहीदों का सवाब लें. रसूलुल्लाह صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ का फ़रमान है: “जो इसादे उम्मत के वक्त मेरी सुन्नत को मजबूत थामे उसे सो शहीदों का सवाब मिले.” (अहमद ११८, इतावा २-जविय्या, जि. ५, स. ४०३) इस मस्अले की तफ़सील के लिये इतावा २-जविय्या मुभर्रज्ज जिल्द ५ “बाबुल अजाने वल ईकामल” का मुता-लआ फ़रमाईये.

अजान से पहले येह दुरुदे पाक पटिये

अजान व ईकामत से कबल بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ पढ कर दुरुदो सलाम के येह सीगे पढ लीजिये :

الصلوة والسلام عليك يا رسول الله وَعَلَىٰ اٰلِكَ وَاَصْحَابِكَ يَا حَبِیْبَ اللّٰهِ
الصلوة والسلام عليك يا نبی اللّٰهِ وَعَلَىٰ اٰلِكَ وَاَصْحَابِكَ يَا نُوْرَ اللّٰهِ

फ़िर दुरुदो सलाम और अजान में इस्ल (या'नी गेप) करने के लिये येह अ'लान कीजिये: “अजान का अेडतिराम करते हुअे गुफ़्त-गू और कामकाज रोक कर अजान का जवाब दीजिये और ढेरों नेकियां कमाईये.” इस के आ'द अजान दीजिये. दुरुदो सलाम और ईकामत के दरमियान मस्जिद में येह अ'लान कीजिये: “अे'तिकाइ की नियत कर लीजिये, मोबाईल फ़ोन हो तो बन्द कर दीजिये.” अजान व ईकामत से

करमाने मुस्तफ़ा صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : जिस ने मुज पर अेक बार दुरद पक पढा अल्लाह उंस पर दस रदमतें भेजता है. (स्ल)

कबल तस्मिया और दुरदो सलाम के मप्सूस सीगों की म-दनी इस्तिजा इंस शौक में कर रहा हूँ के इंस तरह मेरे लिये भी कुछ सवाबे जारिय्या का सामान हो जाये और इस्ल (या'नी गेप रभने) का मशवरा इतावा र-जविय्या के इंजान से पेश किया है. युनान्ये अेक इस्तिफ़ता के जवाब में इमामे अहले सुन्नत صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ इरमाते हैं : “दुरद शरीफ़ कबले इकामत पढने में हरज नहीं मगर इकामत से इस्ल (या'नी फ़ासिला या अला-ह-दगी) याहिये या दुरद शरीफ़ की आवाज, आवाजे इकामत से औसी जुदा (म-सलन दुरद शरीफ़ की आवाज इकामत की ब निस्बत कुछ पस्त) हो, के इम्तियाज रहे और अवाम को दुरद शरीफ़ जुज्मे इकामत (या'नी इकामत का डिस्सा) न मा'लूम हो.”

(इतावा र-जविय्या मुभर्रज, जि. 5, स. 386)

वस्वसा : सरकारे मदीना صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ की उयाते जाहिरि और दौरे फु-लफ़ाये राशिदीन عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان में अजान से पहले दुरद शरीफ़ नहीं पढा जाता था लिहाजा औसा करना बुरी बिद्अत और गुनाह है. (مَعَادُ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ)

जवाबे वस्वसा : अगर येह काईदा तस्लीम कर लिया जाये के जो काम उस दौरे में नहीं होता था वोह अब करना बुरी बिद्अत और गुनाह है तो फिर ई जमाना निजाम दरहम बरहम हो जायेगा. बे शुमार मिसालों में से इकत 12 मिसालें पेश करता हूँ के येह काम उस मुबारक दौरे में नहीं थे और अब इन को सब ने अपनाया हुवा है :

करमाने मुस्तक़ा صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : जो शअ्स मुज पर दुरेदे पाक पढना भूल गया वोह जन्नत का रास्ता भूल गया. (طبرانی)

﴿1﴾ कुरआने पाक पर नुक्ते और अे'राब हज्जज्ज बिन यूसुफ़ ने 95 सि.हि. में लगवाये ﴿2﴾ ईसी ने अत्मे आयात पर अलामात के तौर पर नुक्ते लगवाये ﴿3﴾ कुरआने पाक की छपाई ﴿4﴾ मस्जिद के वस्त में ईमाम के अडे रहने के लिये ताक नुमा मेहराब पहले न थी वलीद मरवानी के दौर में हजरते सय्यिदुना उमर बिन अब्दुल अजीज़ اَللّٰهُ اَلْحَفِيْظُ ने ईजाद की. आज कोई मस्जिद ईस से जाली नहीं ﴿5﴾ 9⁰ कलिमे ﴿6﴾ ईल्मे सई व नह्व ﴿7﴾ ईल्मे हदीस और अहादीस की अकसाम ﴿8﴾ दर्से निजामी ﴿9﴾ शरीअत व तरीकत के यार सिक्सिले ﴿10﴾ जभान से नमाज़ की नियत ﴿11﴾ हवाई जहाज़ के जरीअे सईरे हज्ज ﴿12﴾ जदीद साईन्सी हथियारों के जरीअे जिहाद. येह सारे काम उस मुबारक दौर में नहीं थे लेकिन अब ईन्हें कोई गुनाह नहीं कहता तो आपिर अजान व ईकामत से पहले भीठे भीठे आका صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ पर दुरेदो सलाम पढना ही क्यूं जुरी बिद्अत और गुनाह हो गया ! याद रभिये किसी मुआ-मले में अ-दमे जवाज़ की हलील न होना जुद हलीले जवाज़ है. यकीनन, यकीनन, यकीनन हर वोह नई यीज़ जिस को शरीअत ने मन्अ नहीं किया वोह बिद्अते ह-सना और मुबाह या'नी अख़ी बिद्अत और ज़ाईज़ है और येह अम्ने मुसल्लम है के अजान से पहले दुरेद शरीफ़ पढने को किसी भी हदीस में मन्अ नहीं किया गया लिहाज़ा मन्अ न होना जुद अ जुद "ईजाज़त" बन गया और अख़ी अख़ी बातें ईस्लाम में ईजाद करने

करमाने मुस्तक़ा : حَسْبِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالهِ وَسَلَّمَ जिसके पास मेरा जिक्र हुआ और उसने मुझ पर दृष्टि पाक न पढा। तलक़ीक़ वोह बह बह्त हो गया. (उरुन)

की तो फुद मदीने के ताजवर, नबियों के सरवर, हुजूरे अन्वर
 صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالهِ وَسَلَّمَ ने तरगीब ईशदि फ़रमाई है और “मुस्लिम” के
 बाब “किताबुल ईल्म” में सुल्ताने हो जहां صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالهِ وَسَلَّمَ का
 येह फ़रमाने ईजाजत निशान मौजूद है :

مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَعَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ عَمِلَ
 بِهَا وَلَا يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِمْ شَيْءٌ -

जिस शप्स ने मुस्लिमानों में कोई नेक तरीका
 जारी किया और उसके बाद उस तरीके पर
 अमल किया गया तो उस तरीके पर अमल
 करने वालों का अज्ज भी उस (या'नी जारी करने

(صحيح مسلم ص ٤٣٧ حديث ١٠١٧) वाले) के नामअे आ'माल में लिफा ज़अेगा
 और अमल करने वालों के अज्ज में कमी नहीं
 होगी.

मतलब येह के ज़ो ईस्लाम में अख़ा तरीका जारी करे वोह अडे
 सवाब का हकदार है तो बिला शुबा जिस फुश नसीब ने अज़ान व
 ईकामत से कब्ल दृष्टो सलाम का रवाज डाला है वोह भी सवाबे
 ज़ारिय्या का मुस्तहिक है, कियामत तक ज़ो मुसल्मान ईस तरीके पर
 अमल करते रहेंगे उन को भी सवाब मिलेगा और जारी करने वाले को
 भी मिलता रहेगा और दोनों के सवाब में कोई कमी नहीं होगी.

हो सकता है किसी के जेहून में येह वस्वसा आअे के हदीसे
 पाक में है : كُلُّ بَدْعَةٍ ضَالَّةٌ وَكُلُّ ضَالَّةٍ فِي النَّارِ या'नी हर बिदअत
 (नई बात) गुमराही है और हर गुमराही जहन्नम में (ले जाने वाली)

करमाने मुस्तफ़ा: صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : जिस ने मुज पर अक बार दुरदे पाक पढा अल्लाह उस पर दस रकमते भेजता है. (स्)

है. (صَحِيحُ ابْنِ خُرَيْبَةَ ج ٣ ص ٤٣ احديث ١٧٨٠) है ?
 इस का जवाब येह है के हदीसे पाक हक है. यहां बिद्अत से मुराद बिद्अते सय्यिअह या'नी बुरी बिद्अत है और यकीनन हर वोह बिद्अत बुरी है जो किसी सुन्नत के खिलाफ़ या सुन्नत को मिटाने वाली हो. युनान्ये हजरते सय्यिदुना शैख अब्दुल हक मुहदिस देहलवी इरमाते हैं : जो बिद्अत उसूल और क्वायदे सुन्नत के मुवाफ़िक और उस के मुताबिक़ क़ियास की छुई है (या'नी शरीअत व सुन्नत से नहीं टकराती) उस को बिद्अते ह-सना कहते हैं और जो इस के खिलाफ़ हो वोह बिद्अत गुमराही कहलाती है. (أَشْفَةُ الْمَعَات ج ١ ص ١٣٠)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

अब ईमान की छिफ़ात के लिये कुढते छुअे दा'वते ईस्लामी के ईशाअती ईदारे मक-त-भतुल मदीना की मत्बूआ 692 सफ़हात पर मुशतमिल क़िताब, “कुइय्या क़लिमात के बारे में सुवाल जवाब” सफ़हा 359 ता 362 का मजमून मुला-हज़ा इरमाईये :

अमान की तौहीन के बारे में सुवाल जवाब

सुवाल : अमान की तौहीन करना कैसा ?

जवाब : अमान शआईरे ईस्लाम में से है. किसी भी शिआरे ईस्लाम की तौहीन कुफ़ है.

حَتَّى عَلَى الصَّلَاةِ का मज़क़ उदाना

सुवाल : अमान में حَتَّى عَلَى الصَّلَاةِ (या'नी आओ नमाज की तरफ़) या

करमाने मुस्तक़ा حَسْبِيَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ओ शअस मुज पर दुइटे पाक पढना भूल गया वोह जन्नत का रास्ता भूल गया. (طبرانی)

حَتَّى عَلَى الْفَلَاحِ (या'नी आओ ललाई की तरफ़) सुन कर मजाक में येह कहना कैसा के : “आओ सिनेमा घर की तरफ़ वरना टिकटें ખत्म हो जाअंगी !”

जवाब : कुई है. क्यूंके مَعَاذَ اللهِ येह अजान का मजाक उडाना हुवा. मेरे आका आ'ला हजरत, ईमामे अहले सुन्नत, मौलाना शाह ईमाम अहमद रजा पान عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰن की बिदमते बा अ-र-कत में सुवाल हुवा : जनाब का क्या ईशाद है ईस मस्जले में के जैद ने मुअज्जिने मस्जिद की अजान के साथ तमस्पुर् (या'नी मजाक) किया या'नी लइज حَتَّى عَلَى الصَّلَاةِ सुन कर यूं मुजुडका (या'नी मजाक) उडाया : “लथ्या लठ यला.” आया जैद के लिये हुकमे ईरतिदाद व सुकूते निकाल साबित हुवा या नहीं ? और जैद का निकाल टूटा या नहीं ? ॲ। अल जवाब : अजान से ईस्तिइजा (या'नी मजाक करना) अइर कुई है अगर अजान ही से उस ने ईस्तिइजा (या'नी मजाक) किया तो बिला शुबा काइर हो गया, उस की औरत उस के निकाल से निकल गई, येह अगर इर मुसल्मान हो और औरत उस से निकाल करे उस वक्त वती (या'नी हम-बिस्तरी) हलाल होगी वरना जिना. और औरत अगर बिला ईस्लाम व निकाल उस से कुरबत पर राजी हो वोह भी जानिया है. और अगर अजान से ईस्तिइजा (या'नी मजाक उडाना) मकसूद न था बल्के पास उस मुअज्जिने से अ-ई वजह (या'नी ईस वजह से) के वोह गलत पढता है ईस्तिइजा (या'नी मजाक) किया तो ईस डालत में (न

करमाने मुस्तफ़ि। حَسْبُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : जिस के पास मेरा जिक्र हुआ और उस ने मुझ पर दृष्टि पाक न पढा तलकीक वोह बढ भप्त हो गया. (उंन)

काफ़िर होगा न निकाह टूटेगा मगर) जैद को तजदीदे ईस्लाम व तजदीदे निकाह का हुकम दिया जायेगा. وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ

(इतावा २-जविय्या, जि. 21, स. 215)

अमान के मु-तअल्लिक कुफ़िय्या कलिमात की 8 मिसालें

﴿1﴾ जो अमान का मजाक उडाये वोह काफ़िर है.

(इतावा २-जविय्या, जि. 5, स. 102)

﴿2﴾ अमान की तलकीर करते हुये कलना के “घन्टी की आवाज नमाज की इत्तिलाअ देने के लिये जियादा अख़ी है” कुफ़ है.

﴿3﴾ जो अमान देने वाले को अमान देने पर कहे : “तूने जूट भोला” औसा शप्स काफ़िर हो गया. (فتاوى قاضى خان ६ ج ص ६१७)

﴿4﴾ जिस ने किसी मुअज़्ज़न के बारे में अमान के मजाक के तौर पर कहा : येह कौन मलूम है जो अमान कल रहा है ? या ﴿5﴾ अमान के बारे में कहा : गैर मा'रुफ़ सी आवाज है या कहा : ﴿6﴾ अजनाबियों की आवाज है, येह तमाम अक्वाल कुफ़ हैं. या'नी जब के अतौरे तलकीर (हकारत) कहे. (مَنْحُ الرُّوضِ الْأَزْهَرِ لِلْقَارِي ص ६१०)

﴿7﴾ अक ने अमान कही दूसरा मजाक उडाने के लिये दोबारा अमान कहे तो उस पर हुकमे कुफ़ है. (مَجْمَعُ الْأَنْهَارِ २ ج ص ००९)

﴿8﴾ अमान सुन कर येह कलना : क्या शोर मचा रहा है ! अगर येह कौल भुद अमान को ना पसन्द करने की वजह से कहा हो तो कुफ़ है.

(عالمگیری २ ج ص २१९)

करमाने मुस्तफा : صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : जिस ने मुज पर दस भरतभा सुबह और दस भरतभा शाम दुइदु पाक पढा (उसे कियामत के दिन मेरी शफाअत मिलेगी. (سورة الزمر))

अमान

اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ

अल्लाह सभ से बडा है अल्लाह सभ से बडा है अल्लाह सभ से बडा है अल्लाह सभ से बडा है

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

मैं गवाही देता हूँ के अल्लाह के सिवा कोई मा'बूद नहीं मैं गवाही देता हूँ के अल्लाह के सिवा कोई मा'बूद नहीं

أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ

मैं गवाही देता हूँ के उजरत मुहम्मद (صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) अल्लाह के रसूल हैं

أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ

मैं गवाही देता हूँ के उजरत मुहम्मद (صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) अल्लाह के रसूल हैं

حَتَّى عَلَى الصَّلَاةِ

नमाज पढने के लिये आओ नमाज पढने के लिये आओ

حَتَّى عَلَى الْفَلَاحِ

नजात पाने के लिये आओ नजात पाने के लिये आओ

اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ

अल्लाह सभ से बडा है अल्लाह सभ से बडा है

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

अल्लाह के सिवा कोई मा'बूद नहीं.

करमाने मुस्तफ़ा صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : जिसके पास मेरा जिक्र हुआ और उसने मुझ पर दुरुद शरीफ़ न पढा उसने जफ़ा की. (عبدالرزاق)

अजान की दुआ

अजान के बाद मुअज़्ज़िन व सामिअिन दुरुद शरीफ़ पढ कर येह दुआ पढें :

اللَّهُمَّ رَبِّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ ط اتِّسَدْنَا

औ अल्लाह उजल्ल एग़र एस दा'वते ताम्मा और सलाते काईमा के मालिक, तू हमारे सरदार

مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ ط وَالذَّرَجَةَ الرَّفِيعَةَ ط وَابْعَثْهُ مَقَامًا

उजरत मुहम्मद (صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) को वसीला और इजीलत और अहुत बुलन्द द-रजे अता इरमा, और उन को मकामे

مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ ط وَأَرْزُقْنَا شَفَاعَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ط

महमूद में भडा कर जिस का तूने उन से वा'दा किया है, और हमें कियामत के दिन उन की शफ़ाअत नसीब इरमा.

إِنَّكَ لَا تَخْلِفُ الْمِيعَادَ ط بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّحِمِينَ ط

बेशक तू वा'दे के भिलाफ़ नहीं करता, हम पर अपनी रहमत इरमा और सब से अठ कर रहम करने वाले.

शफ़ाअत की बिशारत

इरमाने मुस्तफ़ा صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : जब तुम अजान सुनो तो उन कलिमात को अदा करो जो मुअज़्ज़िन ने कहे फिर मुझ पर दुरुद शरीफ़ पढो फिर वसीले का सुवाल करो. औसा करने वाले के लिये मेरी शफ़ाअत वाजिब हो गई.

(مسلم ص २०३ حديث ३८६ ملخصاً)

करमाने मुस्तफ़ा: صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : जो मुज पर रोजे जुमुआ दुरुद शरीफ़ पढ़ेगा मैं कियामत के दिन उस की शक्राअत करूंगा. (क़ुरआन)

ईमाने मुफ़्सल

أَمِنْتُ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

मैं ईमान लाया अल्लाह पर और उस के फिरिशतों पर और उस की किताबों पर और उस के रसूलों पर और कियामत के दिन पर

وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ ط

और ईस पर के अच्छी और बुरी तकदीर अल्लाह की तरफ़ से है और मौत के बाद उठाये जाने पर.

ईमाने मुजमल

أَمِنْتُ بِاللَّهِ كَمَا هُوَ بِأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ وَقَبِلْتُ جَمِيعَ

मैं ईमान लाया अल्लाह पर जैसा के वोह अपने नामों और अपनी सिफ़तों के साथ है और मैं ने उस के तमाम

أَحْكَامِهِ، افْتَرَأْتُ بِاللِّسَانِ وَتَصَدِّقُ بِالْقَلْبِ ط

अहकाम कबूल किये ज़बान से ईकरार करते हुअे और दिल से तस्दीक करते हुअे.

पहला कलिमा तय्यिज

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ط (صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ)

अल्लाह के सिवा कोई ईबादत के लाईक नहीं मुहम्मद (صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) अल्लाह के रसूल हैं.

करमाने मुस्तक़ा: عَلَى اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالهِ وَسَلَّمَ: मुज पर दुरदे पाक की कसरत करो बेशक ये छ तुम्हारे लिये तखारत है.

(अबुस)

दूसरा कलिमा शहादत

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ

मैं गवाही देता हूँ के अल्लाह के सिवा कोई मा'बूद नहीं,
वो छ अकेला है उस का कोई शरीक नहीं

وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

और मैं गवाही देता हूँ के बेशक मुहम्मद (صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالهِ وَسَلَّمَ)
अल्लाह के बन्दे और रसूल हैं.

तीसरा कलिमा तम्जुद

سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ

अल्लाह पाक है और सब पूबियां अल्लाह के लिये हैं और अल्लाह के
सिवा कोई मा'बूद नहीं और अल्लाह सब से बडा है,

وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ

गुनाहों से बचने की ताकत और नेकी करने की तौफ़ीक अल्लाह
ही की तरफ़ से है जो सब से बुलन्द अ-जमत वाला है.

चौथा कलिमा तौहीद

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَهُوَ الْحَمْدُ

अल्लाह के सिवा कोई मा'बूद नहीं, वो छ अकेला है उस का कोई शरीक
नहीं, उसी के लिये है बादशाही और उसी के लिये हम्द है,

करमाने मुस्तफ़ा صلى الله تعالى عليه و آله وسلم : तुम जहाँ भी हो मुज पर दुर्रद पढे के तुम्हारा दुर्रद मुज तक पढोयता है. (طرائق)

يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ أَبَدًا أَبَدًا ط ذُو الْجَلَالِ

वोही जिन्दा करता और मारता है और वोह जिन्दा है उस को
हरगिज कभी मौत नहीं आयेगी, बडे जलाल

وَالْأَكْرَامِ ط بِيَدِهِ الْخَيْرُ ط وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ط

और बुजुर्गा वाला है, उस के हाथ में भलाई है और वोह हर चीज पर कादिर है.

पांचवां कलिमा छस्तिग़फ़ार

أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ رَبِّي مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ أَذْنَبْتُهُ عَمَدًا أَوْ حَطًّا

मैं अस्लाह से मुआझी मांगता हूँ जो मेरा परवर दगार है, हर गुनाह
से जो मैं ने जान बूज कर किया या भूल कर,

سِرًّا أَوْ عَلَانِيَةً وَأَتُوبُ إِلَيْهِ مِنْ الذَّنْبِ الَّذِي أَعْلَمُ

छुप कर किया या जाहिर हो कर और मैं उस की बारगाह में तौबा
करता हूँ उस गुनाह से जिस को मैं जानता हूँ

وَمِنَ الذَّنْبِ الَّذِي لَا أَعْلَمُ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَامُ الْغُيُوبِ

और उस गुनाह से भी जिस को मैं नहीं जानता, (अै अस्लाह) बेशक तू गैबों का जानने वाला

وَسَتَّارُ الْغُيُوبِ وَعَقَّارُ الذُّنُوبِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ

और अैबों का छुपाने वाला और गुनाहों का बप्शने वाला है और
गुनाह से बचने की ताकत और नेकी करने की कुव्वत

إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ ط

अस्लाह ही की तरफ़ से है जो सब से बुलन्द अ-जमत वाला है.

करमाने मुस्तक़। صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : जिस ने मुज पर दस भरतबा दुरेदे पाक पढा अल्लाह उस पर सो रहमते नाज़िल करमाता है. (ज़ुरान)

छटा कलिमा रदे कुफ़

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أَشْرِكَ بِكَ شَيْئًا وَأَنَا أَعْلَمُ

औ अल्लाह में तेरी पनाह मांगता हूँ इस बात से के मैं किसी शै को तेरा शरीक बनाऊँ ज़ान बूज़ कर

بِهِ وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا أَعْلَمُ بِهِ، تُبْتُ عَنْهُ وَتَبَرْتُ مِنْ

और बज़िश मांगता हूँ तुज़ से उस (शिक) की जिस को मैं नहीं जानता और मैं ने उस से तौबा की और मैं बेज़ार हुवा

الْكُفْرِ وَالشِّرْكِ وَالْكَذِبِ وَالْغَيْبَةِ وَالْبِدْعَةِ وَالنِّمَمَةِ

कुफ़ से और शिक से और जूट से और गीबत से और (बुरी) बिदअत से और युगली से

وَالْفَوَاحِشِ وَالْبِهْتَانِ وَالْمَعَاصِي كُلِّهَا وَأَسَلَمْتُ

और बे हयाथियों से और ओडतान से और तमाम गुनाहों से और मैं इस्लाम लाया

وَأَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

और मैं कहता हूँ अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लाईक नहीं मुहम्मद (صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) अल्लाह के रसूल हैं.

अेक युप सो सुभ

गमे मदीना, बकीअ,
मक़िरत और बे
हिसाब जन्नतुल
क़िरदौस में आका
के पओस का तालिब
20 मुहर्मुल हराम 1435 सि.ह.
25-11-2013



बतावत की बरीकत!

(८-नई)

ईस रिसाले में

शदीद जम्मी डालत में

योर की दो क्स्में

कारपेट के नुकसानात

गर्द आलूद पेशानी की इजीलत

गधे जैसा मुंड

साडिबे मजार की इन्डिरादी कोशिश

मां यारपाई से उठ ञडी डुई

वरक उलटिये.....

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ
 أَمَا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

नमाज़ का तरीका (ह-नई)

शैतान लाभ रोके ! येह रिसाला मुकम्मल पढ लीजिये,
 إِنَّ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى

दुर्इ शरीफ़ की फ़ीलत

सरकारे मदीना, सुल्ताने बा करीना, करारे कल्ओ सीना, कैज गन्जना صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ने नमाज़ के बा'द उम्हो सना व दुर्इ शरीफ़ पढने वाले से फ़रमाया, “दुआ मांग, कबूल की जायेगी सुवाल कर दिया जायेगा.”

(سُنَنُ النَّسَائِيِّ ج ١ ص ١٨٩ باب المدينة كراچی)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

मीठे भीठे इस्लामी भाईयो ! कुरआनो उद्दीस में नमाज़ पढने के बे शुमार इजायल और न पढने की सप्त सजाओं वारिद हैं, युनान्हे, पारह 28 सू-रतुल मुनाफ़ि़ून की आयत नम्बर 9 में इशदि रब्बानी है :

करमाने मुस्तफ़ा : حَسْبِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالصَّلَاةُ وَالصَّلَامُ : जिस ने मुज पर अक बार दुरुदे पाक पढा अल्लाह उस पर दस रकमतें बेजता है. (س)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ
 أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ
 ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ
 فَأُولَئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ ①

तर-ज-मअे कन्जुल ईमान : औ ईमान वालो !
 तुम्हारे माल न तुम्हारी औलाद कोई थीज तुम्हें
 अल्लाह के जिक से गाहिल न करे और
 जो औसा करे तो वोही लोग नुकसान में हैं.

उजरते सय्यिहुना ईमाम मुहम्मद बिन अहमद जहबी
 करमाते رَحِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى किराम नकल करते हैं : मुहस्सिरीने किराम
 हैं के ईस आयते मुबा-रका में अल्लाह तआला के जिक से पांच नमाजें
 मुराद हैं, पस जो शप्स अपने माल या'नी भरीदो इरोप्त, मईशत व
 रोजगार, साजो सामान और औलाद में मसइइ रहे और वक्त पर
 नमाज न पढे वोह नुकसान उठाने वालों में से है.

(كتاب الكباير ص ٢٠ دار مكتبة الحياة بيروت)

कियामत का सब से पहला सुवाल

सरकारे मदीना, सुल्ताने बा करीना, करारे कलबो सीना,
 कैज गन्जना صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ का ईशादि लकीकत बुन्याद है :
 “कियामत के दिन अन्दे के आ'माल में सब से पहले नमाज का सुवाल होगा.
 अगर वोह दुरुस्त हुई तो उस ने काम्याबी पाई और अगर उस में कमी हुई
 तो वोह रुस्वा हुवा और उस ने नुकसान उठाया.

(كنز العمال ج ٧ ص ١١٥ حديث ١٨٨٨٣ دارالكتب العلمية بيروت)

नमाजी के लिये नूर

सरकारे दो² आलम, नूरे मुजस्सम, शाहे बनी आदम, रसूले
 मुहत्तशम صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ का ईशादि गिरामी है : “जो शप्स नमाज

करमाने मुस्तकी : عَلَى اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : जो शप्स मुज पर दुरेदे पाक पढना भूल गया वोड जन्त का रास्ता भूल गया. (طرائق)

की छिड़ाऊत करे, उस के लिये नमाज कियामत के दिन नूर, दलील और नजात होगी और जो इस की छिड़ाऊत न करे, उस के लिये बरोजे कियामत न नूर होगा और न दलील और न ही नजात. और वोड शप्स कियामत के दिन फिरऔन, काइन, हामान और उबय्य बिन पलङ के साथ होगा.”

(مجمع الزوائد ج ٢ ص ٢١ حديث ١٦١١ دار الفكر بيروت)

किस का किस के साथ हशर होगा !

भीठे भीठे ईस्लामी भाईयो ! उजरते सय्यिदुना ईमाम मुहम्मद बिन अहमद जहबी عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْقَوِي नकल करते हैं : भा'ज उ-लमाओ किराम اللَّهُ تَعَالَى رَحْمَتُهُمْ इरमाते हैं के नमाज के तारिक को ईन यार (फिरऔन, काइन, हामान और उबय्य बिन पलङ) के साथ इस लिये उठाया जायेगा के लोग उमूमन दौलत, हुकूमत, वजारत और तिजारत की वजह से नमाज को तर्क करते हैं. जो हुकूमत की मशगूलिय्यत के सबब नमाज नहीं पढेगा उस का हशर फिरऔन के साथ होगा, जो दौलत के भाईस नमाज तर्क करेगा तो उस का काइन के साथ हशर होगा, अगर तर्के नमाज का सबब वजारत होगी तो फिरऔन के वजीर हामान के साथ हशर होगा और अगर तिजारत की मसइफिय्यत की वजह से नमाज छोडेगा तो उस को मक्कओ मुकर्रमा के अहुत बडे काफिर ताजिर उबय्य बिन पलङ के साथ बरोजे कियामत उठाया जायेगा.

(كتاب الكباثر ص ٢١ دار مكتبة الحياة بيروت)

फ़रमाने मुस्तक़ा عَلَى اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : जिस के पास मेरा ज़िक्र हुआ और उस ने मुज़ पर दुर्रदे पाक न पढा तड़कीक़ा वोह बट् बप्त हो गया. (ḥ-ḥ)

शदीद ज़म्मी हालत में नमाज़

जब हज़रते सय्यिदुना उमर फ़ा़रूके आ'ज़म رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ पर कातिलाना हम्वा हुवा तो अर्ज़ की गई : **अै अभीरुल मुअमिनीन !** नमाज़ (का वक्त है). इरमाया : **ज् हां, सुनिये !** “ज् शप्स नमाज़ को ज़ाअेअ करता है उस का ईस्लाम में कोई हिससा नहीँ.” और हज़रते सय्यिदुना उमर फ़ा़रूके رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ ने शदीद ज़म्मी होने के बा वुजूह नमाज़ अदा इरमाई. (ايضاً)

नमाज़ पर नूर या तारीकी के अस्बाब

हज़रते सय्यिदुना उबादा बिन सामित رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ से रिवायत है के नबिय्ये रलमत, शफ़ीअे उम्मत, शहन्शाहे नुबुव्वत, ताजदारे रिसालत صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ का इरमाने आलीशान है : “ज् शप्स अख़ी तरह वुजू करे, इर नमाज़ के लिये षडा हो, ईस के रुकूअ, सुजूह और किराअत को मुकम्मल करे तो नमाज़ कइती है : **अद्लाह तआला तेरी डिफ़ाज़त करे जिस तरह तू ने मेरी डिफ़ाज़त की. इर उस नमाज़ को आस्मान की तरफ़ ले जाया जाता है और उस के लिये यमक और नूर होता है. पस उस के लिये आस्मान के दरवाजे षोले जाते हैं हत्ता के उसे अद्लाह तआला की बारगाह में पेश किया जाता है और वोह नमाज़ उस नमाज़ी की शफ़ाअत करती है. और अगर वोह ईस का रुकूअ, सुजूह और किराअत मुकम्मल न करे तो नमाज़ कइती है : **अद्लाह तआला तुजे छोड दे जिस तरह तू ने मुजे ज़ाअेअ किया. इर उस नमाज़ को ईस तरह आस्मान की तरफ़ ले जाया जाता है के उस पर तारीकी छाई होती है और उस पर****

फ़रमाने मुस्तफ़ा صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : जिस ने मुज़ पर दस मरतबा सुबह और दस मरतबा शाम दुइदुंटे पाक पढा (उसे कियामत के दिन मेरी शफ़ाअत मिलेगी. (रुतब, १)

आस्मान के दरवाजे बन्द कर दिये जाते हैं फिर उस को पुराने कपडे की तरल लपेट कर उस नमाज़ी के मुँह पर मारा जाता है.

(کنز العمال ج ۷ ص ۱۲۹ حدیث ۱۹۰۴۹)

जुरे जातिमे का अेक सभल

उजरते सय्यिदुना ँमाम जुभारी الْجَارِي اللَّهِ الْبَارِي عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْبَارِي لَهُ : हैं :

उजरते सय्यिदुना हुजैफ़ा बिन यमान رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ ने अेक शप्स को देभा जे नमाज़ पढते हुअे रुकूअ और सुजूद पूरे अदा नहीं करता था. तो उस से फ़रमाया : “तुम ने जे नमाज़ पढी अगर ँसी नमाज़ की डालत में ँन्तिकाल कर जाओ तो उजरते सय्यिदुना मुहम्मदे मुस्तफ़ा صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ के तरीके पर तुम्हारी मौत वाकेअ नहीं डोगी.

(صحیح بخاری ج ۱ ص ۱۱۲) सु-नने नसाँ की रिवायत में येड भी है के आप रड़ुण ने पूँण : “तुम कब से ँस तरल नमाज़ पढ रहे डे ? उस ने कडा : यालीस⁴⁰ साल से. फ़रमाया : तुम ने यालीस⁴⁰ साल से बिल्कुल नमाज़ डी नहीं पढी और अगर ँसी डालत में तुम्हे मौत आ गँ तो डीने मुहम्मडी عَلَى صَاحِبِهَا الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ पर नहीं मरुगे.

(سنن نسائي ج ۲ ص ۵۸ دارالجيل بيروت)

नमाज़ का योर

उजरते सय्यिदुना अबू कताडा رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ से रिवायत है के सरकारे मदीना, करारे कलुो सीना, डैल गन्जुना, साडिडे मुअत्तर पसीना صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ का फ़रमाने बा करीना है : “लुगुं में बढतरीन

करमाने मुस्तक़ा صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : जिस के पास मेरा जिक्र हुआ और उस ने मुझ पर दुर्इद शरीफ़ न पढा उस ने जफ़ा की. (عمران: १०)

योर वोड है जो अपनी नमाज में योरी करे.” अर्ज की गई : “या रसूलल्लाह
صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ नमाज का योर कौन है ?” इरमाया : “(वोड जो नमाज के)
रुकूअ और सजदे पूरे न करे.”

(مسند امام احمد حنبل ج ٨ ص ٣٨٦ حديث ٢٢٧٠٥ دارالفكر بيروت)

योर की दो किस्में

मुइस्सिरे शडीर उकीमुल उम्मत उजरते मुइती अहमद
यार पान عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْمَنَّانِ ईस उदीस के तइत इरमाते हैं : मा'लूम
हुवा माल के योर से नमाज का योर बढतर है क्यूंके माल का योर
अगर सजा भी पाता है तो कुछ न कुछ नइअ भी उठा लेता है
मगर नमाज का योर सजा पूरी पायेगा ईस के लिये नइअ की
कोई सूरत नहीं. माल का योर बन्दे का उक मारता है जब के
नमाज का योर अद्लाह عَزَّوَجَلَّ का उक, येड डालत उन की है जो
नमाज को नाकिस पढते हैं ईस से वोड लोग दसें ईब्रत डसिल
करें जो सिरे से नमाज पढते डी नहीं.

(मिरआत, जि. 2, स. 78, ज़ियाउल कुरआन पब्लिकेशन्स)

भीठे भीठे ईस्लामी भाईयो ! अव्वल तो लोग नमाज पढते डी
नहीं हैं और जो पढते हैं ईन की अकसरियत सुन्नतें सीपने के जजबे
की कमी के बाईस आज कल सडीड तरीके से नमाज पढने से मडरूम
रडती है. यडां मुप्तसरन नमाज पढने का तरीका पेश किया जाता है.
बराअे मदीना ! अहुत ज़ियादा गौर से पढिये और अपनी नमाजों की
ईस्लाह इरमाईये :-

ફરમાને મુસ્તફા : عَلَى اللَّهِ تَعَلَّى عَلَيْهِ وَالْوَسْمُ : મુઝ પર દુરુદે પાક કી કસરત કરો બેશક યેહ તુમ્હારે લિયે તહારત હૈ. (બુયુસી)

ફિર તઅલ્લાહ પઢિયે :-

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ۝

મैं અલ્લાહ તઆલા કી પનાહ મેં આતા હૂં શૈતાન મદ્દૂદ સે.

ફિર તસ્મિયા પઢિયે :-

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝

અલ્લાહ ેઝઝલ્ કે નામ સે શુરુઅ જો બહુત મેહરબાન રહમત વાલા.

ફિર મુકમ્મલ સૂરએ ફાતિહા પઢિયે :-

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝
الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝ لِيَاكَ يَوْمَ الدِّينِ ۝
إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ۝
اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ۝
صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۝
غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ
وَلَا الضَّالِّينَ ۝

તર-જ-મએ ક-ઝુલ ઈમાન : સબ ખૂબિયાં અલ્લાહ ેઝઝલ્ કો જો માલિક સારે જહાન વાલોં કા. બહુત મેહરબાન રહમત વાલા, રોજે જઝા કા માલિક. હમ તુઝી કો પૂજેં ઓર તુઝી સે મદદ ચાહેં. હમ કો સીધા રાસ્તા ચલા, રાસ્તા ઉન કા જિન પર તૂ ને એહસાન કિયા, ન ઉન કા જિન પર ગઝબ હુવા ઓર ન બહકે હુઓં કા.

સૂરએ ફાતિહા ખત્મ કર કે આહિસ્તા સે આમીન કહિયે. ફિર તીન³ આયાત યા એક બડી આયત જો તીન³ છોટી આયતોં કે બરાબર હો યા કોઈ સૂરત મ-સલન સૂરએ ઈખ્લાસ પઢિયે :-

करमाने मुस्तहब। عَلَى اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : जिस ने मुज पर दस भरतभा दुरेदे पाक पढा अद्लाह उंस पर सो रइमते नाजिल इरमाता है. (ज़ुल)।

रानों से और रानों को पिंडलियों से जुदा रभिये. (हां अगर सड़ में हों तो बाजू करवटों से लगाओ रभिये) और दोनों² पाँउ की दसों¹⁰ उंगलियों का रुभ इस तरह किब्ले की तरफ़ रह के दसों¹⁰ उंगलियों के पेट (या'नी उंगलियों के तल्वों के उभरे हुअे हिस्से) जमीन पर लगे रहें. हथेलियां बिछी रहें और उंगलियां किब्ला ३ रहें मगर कलाईयां जमीन से लगी हुई मत रभिये. और अब कम अज कम तीन³ बार सजदे की तस्बीह या'नी (1) قُلِّبْ الْأَعْلَى पढिये फिर सर इस तरह उठाईये के पहले पेशानी फिर नाक फिर हाथ उठें. फिर सीधा कदम ખडा कर के उस की उंगलियां किब्ला रुभ कर दीजिये और उलटा कदम बिछा कर इस पर खूब सीधे बैठ जाईये और हथेलियां बिछा कर रानों पर घुटनों के पास रभिये के दोनों² हाथों की उंगलियां किब्ले की जानिब और उंगलियों के सिरे घुटनों के पास हों. दोनों² सजदों के दरमियान बैठने को जल्सा कहते हैं. फिर कम अज कम ओक बार اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي या'नी ओ अद्लाह عَلَى मेरी मग़्फ़िरत इरमा कह लेना मुस्तहब है) फिर اللَّهُ أَكْبَرُ कहते हुअे पहले सजदे ही की तरह दूसरा² सजदा कीजिये. अब इसी तरह पहले सर उठाईये फिर हाथों को घुटनों पर रख कर पन्नों के बल ખडे हो जाईये. उठते वक्त बिगैर मजबूरी जमीन पर हाथ से टेक मत लगाईये. येह आप की ओक रइअत पूरी हुई. अब दूसरी²

1- لَيْسَ

1: पाक है परवर दगार सब से बुलन्द.

करमाने मुस्तक़ा: عَلَى اللَّهِ تَعَالَى غَيْرُهُ وَاللَّهُ وَسَلَّمَ: जिसके पास मेरा ज़िक्र हो और वोह मुज़ पर दुरुद शरीफ़ न पड़े तो वोह लोगों में से कन्ज़ूस तरीन शप्स है. (अन्विस)

रक़अत में بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ पढ़ कर अल उम्द और सूरह पढ़िये और पहले की तरह रुकूअ और सजदे कीजिये. दूसरे² सजदे से सर उठाने के बा'द सीधा कदम ખડा कर के उलटा कदम बिछा कर बैठ जायये. दो² रक़अत के दूसरे सजदे के बा'द बैठना का'दह कललाता है अब का'दह में तशहूद पढ़िये :-

التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ	तमाम कौली, फ़े'ली और माली एबादतें
وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ	अल्लाह एज़ज़ल ही के लिये हैं. सलाम हो आप
إِيَّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ	पर औ नबी और अल्लाह एज़ज़ल की रहमतें
وَسَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا	और अ-र-कतें. सलाम हो हम पर और
وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ	अल्लाह एज़ज़ल के नेक अन्दों पर. में गवाही
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	देता हूँ के अल्लाह एज़ज़ल के सिवा कोई
وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا	मा'बूद नहीं और में गवाही देता हूँ के
عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ	मुहम्मद (صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) उस के अन्दे
	और रसूल हैं.

जब तशहूद में लफ़्जे “**لَا**” के करीब पड़ोयें तो सीधे हाथ की भीय की उंगली और अंगूठे का हल्का बना लीजिये और छुंग्लिया (या'नी छोटी उंगली) और बिन्सर या'नी इस के बराबर वाली उंगली को हथेली से मिला दीजिये और (أَشْهَدُ أَنْ) के फ़ौरन बा'द) लफ़्जे “**لَا**” कहते ही कलिमे की उंगली उठायये मगर इस को एधर उधर मत हिलायये और लफ़्जे “**أَنَّ**” पर गिरा दीजिये और फ़ौरन सब उंग्लियां सीधी कर लीजिये. अब अगर दो² से ज़ियादा रक़अतें

करमाने मुस्तकी علی اللہ تعالیٰ غیبہ و البہ وسلم : जिस ने मुज पर रोजे जुमुआ दो सो बार दुइटे पाक पढा उस के दो सो साल के गुनाह मुआफ़ होंगे. (अल-अमाल)

लीजिये :-

اللَّهُمَّ رَبَّنَا اتِنَا فِي الدُّنْيَا ۖ أَيْ अदलाह अँ एँ उमारे उमें दुन्या में
 حَسَنَةً ۖ وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً ۖ ۞ ۞ ۞ ۞ ॐ ललाई दे और उमें आभिरत में ललाई दे
 وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ۖ ॐ और उमें अजाबे दोजभ से बया.

इर नमाज अत्म करने के लिये पडले दामें कन्धे की तरफ़ मुँह कर के
 السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ ط कलिये और इसी तरह बाई तरफ़.
 अब नमाज अत्म हुँ.

(مراقى الفلاح معه حاشية الطحطاوى ص ۲۷۸، غنية المستملی ص ۲۶۱ كراچى)

धरलामी बहनों की नमाज में यन्त जगह इर्क है

मजकूरा नमाज का तरीका ईमाम या तन्हा मर्द का है. ईस्लामी बहनों तकबीरे तहरीमा के वक्त हाथ कन्धों तक उठाओं और यादर से बाहर न निकालें. (الهداية مع فتح القدير ج ۱ ص ۲۶۶). कियाम में उलटी हथेली सीने पर छाती के नीचे रभ कर इस के ठीपर सीधी हथेली रभें. रुकूम में थोडा जुकेँ या'नी ईतना के घुटनों पर हाथ रभ दें जोर न दें और घुटनों को न पकड़ें और उँगलियां मिली हुँ और पाँउं जुके हुँ अरभें मर्दों की तरह भूब सीधे न करें. सजदा सिमट कर करें या'नी बाजू करवटों से पेट रान से और रान पिंडलियों से और पिंडलियां जमीन से मिला दें, सजदे और का'दे दोनों में पाँउं सीधी तरफ़ निकाल दें. का'दे में उलटी सुरीन पर बैठें और सीधा हाथ सीधी रान के बीच में और उलटा हाथ उलटी रान के बीच में रभें. बाकी सब तरीका उसी तरह है.

(رَدُّ الْمُحْتَار ج ۲ ص ۲۵۹، عالمگیری ج ۱ ص ۷۴ وغيره)

करमाने मुस्तक़ी. حَسْبِيَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ : मुज़ पर दुरुद शरीफ़ पढो अल्लाह तुम पर रहमत भेजेगा. (अिन अरु)

दोनों मु-तवज्जेह हों !

ईस्लामी भाईयों और ईस्लामी बहनों के दिये हुअे ईस तरीकअे नमाज़ में आ'ज़ आतें इर्ज़ हें के ईस के बिगैर नमाज़ डोगी ही नही, आ'ज़ वाजिब, के ईस का ज़न बूज़ कर छोडना गुनाह और तौबा करना और नमाज़ का फिर से पढना वाजिब और त्बूल कर छुटने से सज्दअे सड्व वाजिब और आ'ज़ सुन्नते मुअक्कदा हें के जिस के छोडने की आदत बना लेना गुनाह है और आ'ज़ मुस्तडब हें के जिस का करना सवाब और न करना गुनाह नही. (बडार शरीअत, डिस्सा: 3, स. 66, मदीनतुल मुर्शिद बरेली शरीफ़)

“या अल्लाह” के छे⁶ हुर्ज़ की निस्बत से नमाज़ की 6 शराधत

❶ **तहारत** : नमाज़ी का बदन, लिबास और जिस जगह नमाज़ पढ रहा है उस जगह का डर किस्म की नज़ासत से पाक होना ज़रूरी है.

(مراقى الفلاح معه حاشية الطحطاوى ص 207)

❷ **शित्रे औरत** : (1) मर्द के लिये नाफ़ के नीचे से ले कर घुटनों समेत बदन का सारा डिस्सा छुपा हुवा होना ज़रूरी है जब के औरत के लिये इन पांच आ'ज़ा : मुंड की टिकली, दोनों² डथेलियां और दोनों² पाँउं के तल्वों के छलावा सारा जिस्म छुपाना लाज़िमी है अलबत्ता अगर दोनों² डथ (गिट्टों तक), पाँउं (टप्नों तक) मुकम्मल ज़ाहिर हों तो अेक मुफ़ता बिडी कौल पर नमाज़ दुरुस्त है. (الدرالمختار معه ردالمختار ج 2 ص 93)

(2) अगर अैसा बारीक कपडा पहना जिस से बदन का वोड डिस्सा जिस का नमाज़ में छुपाना इर्ज़ है नज़र आअे या जिल्द का रंग ज़ाहिर हो नमाज़ न डोगी. (فتاوى عالمگیری ج 1 ص 58) (3) आज कल बारीक कपडों का रवाज

करमाने मुस्तक़ा : على الله تعالى عليه و الله وسلم : मुज पर कसरत से दुरुद पाक पढे बेशक तुम्हारा मुज पर दुरुद पाक पढना तुम्हारे गुनाहों के लिये मक्किरत है. (भाग २)

बढता जा रहा है. ऐसे बारीक कपडे का पाजामा पहनना जिस से रान या सित्र का कोई हिस्सा यमकता हो ँलावा नमाज के ली पहनना **उराम** है. (बहारे शरीअत, हिस्सा: 3, स. 42, मदीनतुल मुर्शिद बरेली शरीफ) **(4)** ढलीज (या'नी मोटा) कपडा जिस से बदन का रंग न यमकता हो मगर बदन से ऐसा थिपका हुवा हो के ढेभने से उज्व की हैअत मा'लूम होती हो. ऐसे कपडे से अगर्थे नमाज हो जाअेगी मगर उस उज्व की तरफ़ दूसरों को निगाह करना जाँठन नहीं (ردالمحتار ج २ ص १०३) ऐसा लिबास लोगों के सामने पहनना मन्अ है और औरतों के लिये ब ढ-र-जअे औला मुमा-न-अत. (बहारे शरीअत, हिस्सा. 3, स. 42, मदीनतुल मुर्शिद बरेली शरीफ) **(5)** बा'ज भवातीन मलमल वगैरा की बारीक यादर नमाज में ओढती हैं जिस से बालों की सियाही यमकती है या ऐसा लिबास पहनती हैं जिस से आ'जा का रंग नजर आता है ऐसे लिबास में ली नमाज नहीं होती.

❸ **इस्तिफाले किबला** : या'नी नमाज में किबला या'नी का'बा की तरफ़ मुँह करना **(1)** नमाजी ने बिला उजर्र जान बूज कर किबले से सीना फेर दिया अगर्थे फौरन ही किबले की तरफ़ हो गया नमाज फ़ासिद हो गँ और अगर बिला कसद फिर गया और ब कदरे तीन³ बार "سُبْحَانَ اللَّهِ" कहने के वक़्ते से पहले वापस किबला रुध हो गया तो फ़ासिद न हुँ (البحر الرائق ج १ ص ६९७) **(2)** अगर सिर्फ़ मुँह किबले से फ़ेरा तो वाजिब है के फौरन किबले की तरफ़ मुँह कर ले और नमाज न जाअेगी मगर बिला उजर्र ऐसा करना मक़रुहे तहरीमी है. (غنية المستملی ص २२२ कराچی) **(3)** अगर ऐसी जगह पर हैं

करमाने मुस्तक़। عسى الله تعالى عليه والله وسع : ज़े मुज़ पर अक दुइद शरीक पढता है अल्लाह عزوجل उस के लिये अक कीरात अज्ज लिफ्तता है और कीरात उहुद पहाड जितना है. (عبرالرائق)

जहां किब्ले की शनाप्त का कोई ज़रीआ नहीं है न कोई औसा मुसल्मान है जिस से पूछ कर मा'लूम किया जा सके तो तहरीरी कीजिये या'नी सोचिये और जिधर किब्ला होना हिल पर जमे उधर ही रुख कर लीजिये आप के हक में वोही किब्ला है. (4) तहरीरी कर के नमाज़ पढी जा'द में मा'लूम हुवा के किब्ले की तरफ़ नमाज़ नहीं पढी, नमाज़ हो गई लौटाने की हाजत नहीं. (5) अक शम्स तहरीरी कर के नमाज़ पढ रहा हो दूसरा उस की देखा देभी उसी सभ्त नमाज़ पढेगा तो नहीं होगी दूसरे के लिये भी तहरीरी करने का हुकम है.

(ردالمحتار ج २ ص १६३)

﴿4﴾ **वक्त** : या'नी ज़े नमाज़ पढनी है उस का वक्त होना ज़रूरी है. म-सलन आज की नमाज़े अस्र अदा करना है तो येह ज़रूरी है के अस्र का वक्त शुइअ हो जाअे अगर वक्ते अस्र शुइअ होने से पहले ही पढ ली तो नमाज़ न होगी. (1) उमूमन मसाजिद में निज़ामुल अवकात के नकशे आवेज़ां होते हैं एन में ज़े मुस्तनद तौकीत द्वां के मुरत्तब कर्दा और उ-लमाअे अहले सुन्नत के मुसदका हों उन से नमाज़ों के अवकात मा'लूम करने में सलूलत रहती है. (2) ईस्लामी बहनों के लिये अक्वल वक्त में नमाज़े इज्ज अदा करना मुस्तहब है और बाकी नमाज़ों में बेहतर येह है के मर्दों की जमाअत का इन्तिज़ार करें जब जमाअत हो चुके फिर पढ़ें.

(دُرِّ مختار مع ردالمحتار ج २ ص ३०)

करमाने मुस्तफ़ा : على الله تعالى عليه واليه وسلم : जिस ने किताब में मुज़ पर दुइद पाक लिखा तो जब तक मेरा नाम उस में रहेगा फिरिश्ते उस के लिये ईस्तिस्कार करते रहेंगे. (अ. 1)

तीन³ अवकाते मक़रूडा : (1) तुलूअे आइताब से ले कर बीस²⁰ मिनट बा'द तक (2) गु़रूबे आइताब से बीस²⁰ मिनट पडले (3) निस्कुन्नहार या'नी उड्वअे कुब्रा से ले कर जवाले अइताब तक. एन तीनों³ अवकात में कोई नमाज़ ज़ाईज नहीँ न इर्ज़ न वाज़िब न नइल न कज़ा. हां अगर उस दिन की नमाज़े अस्र नहीँ पढी थी और मक़रूड वक्त शु़रूअ हो गया तो पढ ले अलबत्ता एतनी तापीर करना हराम है.

(अ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000)

दौराने नमाज़ मक़रूड वक्त दाबिल हो जाये तो ?

गु़रूबे आइताब से कम से कम 20 मिनट कब्ल नमाज़े अस्र का सलाम फिर जाना याइये जैसा के आ'ला उजरत एमाम अहमद रज़ा पान عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰن इरमाते हैं, “नमाज़े अस्र में जितनी तापीर हो अइजल है जब के वक्ते कराइत से पडले पडले जात हो जाये.” (इतावा र-अविय्या शरीफ़ जदीद. जि. 5, स. 156) फिर अगर एस ने अइतियात की और नमाज़ में तत्वील की (या'नी तूल दिया) के वक्ते कराइत वस्ते नमाज़ में आ गया जब भी एस पर अे'तिराज़ नहीँ.”

(इतावा र-अविय्या शरीफ़ मुभर्रज़, जि. 5, स. 139)

﴿5﴾ **निय्यत** :- निय्यत दिल् के पक्के एरादे का नाम है.

(حاشية الطّحطاوى ص 210 كراچى) (1) उभान से निय्यत करना ज़रूरी नहीँ अलबत्ता दिल् में निय्यत हाज़िर होते हुअे उभान से कल लेना बेइतर है. (فتاوى عالمگیری ج 1 ص 60). (مُلَخَّصٌ از دَرِّ مَخْتَارٍ مَعَهُ رَدِّ الْمَحْتَارِ ج 2 ص 113). किसी भी उभान में कल सकते हैं.

करमाने मुस्तफ़ा: حَسْبُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالهِ وَسَلَّمَ : जिस ने मुज़ पर अेक बार दु़ुदे पाक पढा अदल्लाह उस पर दस रइमतें बेजता है. (स्)

- (2) निख्यत में ज़बान से कइने का अे'तिबार नईी या'नी अगर दिल् में म-सलन ज़ुइर की निख्यत डो और ज़बान से लइजे अस्र निकला तब भी ज़ुइर की नमाज़ डो गइ (दु़ुंख्तार, रदالمख्तार ज २ व ११२) (3) निख्यत का अदना द-रज़ा येड है के अगर उस वक़्त कोइ पूछे के कौन सी नमाज़ पढते डो ? तो इौरन बता दे. अगर डालत अैसी है के सोय कर बताअेगा तो नमाज़ न डुई. (फ़तावु अलमक़ीरु ज १ व ६०) (4) इरज़ नमाज़ में निख्यते इरज़ भी ज़रूरी है म-सलन दिल् में येड निख्यत डो के आज की ज़ुइर की इरज़ नमाज़ पढता डूं. (दु़ुंख्तार, रदالمख्तार ज २ व ११६) (5) असइल (या'नी दु़ुस्त तरीन) येड है के नइल, सुन्नत और तरावीड में मुत्लक नमाज़ की निख्यत काई है मगर अेडतियात येड है के तरावीड में तरावीड या सुन्नते वक़्त की निख्यत करे और बाकी सुन्नतों में सुन्नत या सरकारे मदीना صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ की मुता-अ-अत (या'नी पैरवी) की निख्यत करे, इस लिये के आ'ज मशाइअ رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالَى इन में मुत्लक नमाज़ की निख्यत को ना-काई करार देते हैं. (मनीة المصلی معه غنية المستملی ص २६०) (6) नमाजे नइल में मुत्लक नमाज़ की निख्यत काई है अगरये नइल निख्यत में न डो. (दु़ुंख्तार, रदالمख्तार ज २ व १६६) (7) येड निख्यत, के मुंड मेरा क़िबला शरीक़ की तरक़ है शर्त नईी. (ایضاً) (8) ईक़त़िदा में मुक़्तदी का इस तरड निख्यत करना भी ज़ाईज है के ज़ो नमाज़ ईमाम की है वोडी नमाज़ मेरी है (9) नमाजे जनाज़ा की निख्यत येड है: “नमाज़ अदल्लाह (दु़ुंख्तार, रदالمख्तार ज २ व १२६) (10) वाजिअ में वाजिअ की निख्यत करना ज़रूरी है और ईसे मुअय्यन भी

करमाने मुस्तक़ा : حَسْبِيَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 (भूल गया. (جران))

कीजिये, म-सलन ईदुल फ़ित्र, ईदुल अज़्हा, नज़्र, नमाज़े बा'दे तवाफ़ (वाजिबुत्तवाफ़) या वोह नफ़ल नमाज़ जिस को ज़ान भूज़ कर फ़ासिद किया हो, के उस की कज़ा भी वाजिब हो जाती है (حاشية الطحطاوى ص २२२) (11) सजदअे शुक्र अगर्ये नफ़ल है मगर ईस में भी नियत ज़रूरी है म-सलन दिल् में येह नियत हो के मैं सजदअे शुक्र करता हूँ. (الدرالمختار مع ردالمحتار ج २ ص १२०). (12) सजदअे सल्व में भी “सादिबे नदरुल फ़ाईक” के नज़दीक नियत ज़रूरी है (ايضاً) या'नी उस वक्त दिल् में येह नियत हो के मैं सजदअे सल्व करता हूँ.

﴿6﴾ **तकबीरे तहरीमा** : या'नी नमाज़ को “الله أكبر” कह कर शुरुअ करना ज़रूरी है. (عالمگیری ج १ ص ६८)

“بِسْمِ اللهِ” के सात हुज़्फ़ की निस्बत से नमाज़ के 7 फ़राय्ज (1) तकबीरे तहरीमा (2) कियाम (3) किराअत (4) रुकूअ (5) सुजूद (6) का'दअे अभीरा (7) फ़ुज़्जे बिसुन्'ईही.

(غنية المستملی ص २०३ تا २८६)

﴿1﴾ **तकबीरे तहरीमा** : दर हकीकत तकबीरे तहरीमा (या'नी तकबीरे उला) शराईते नमाज़ में से है मगर नमाज़ के अइआल से बिल्कुल मिली हुई है ईस लिये ईसे नमाज़ के फ़राय्ज से भी शुमार किया गया है. (غنية المستملی ص २०३) (1) मुक्तदी ने तकबीरे तहरीमा का लफ़्ज़ “अद्लाह” ईमाम के साथ कहा मगर “अकबर” ईमाम से पहले अत्म कर लिया तो नमाज़ न होगी. (عالمگیری ج १ ص ६८) (2) ईमाम को रुकूअ में पाया और तकबीरे तहरीमा कहता हुवा रुकूअ में गया

करमाने मुस्तफ़ा : حَسْبُكَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ जिस के पास मेरा जिक्र हुआ और उस ने मुझ पर दृष्टि पाक न पढा तलकीक वोह बढ भप्त हो गया. (उंन)

या'नी तकबीर उस वक्त अत्म छुई के हाथ बढाओ तो धुटने तक पछोंय जाओ नमाज़ न होगी. (خلاصة الفتاوى ج ۱ ص ۸۳) जैसे मौकअ पर काईदे के मुताबिक पहले अडे अडे तकबीरे तहरीमा कल लीजिये इस के बा'द **الله أكبر** कलते हुअे रुकूअ कीजिये, ईमाम के साथ अगर रुकूअ में मा'मूली सी भी शिकत हो गई तो रकूअत मिल गई. अगर आप के रुकूअ में द्वाभिल होने से कबल ईमाम अडा हो गया तो रकूअत न मिली. (3) जो शप्स तकबीर के तलफ़्हुज़ पर कादिर न हो म-सलन गूंगा हो या किसी और वजह से ज़भान बन्द हो गई हो उस पर तलफ़्हुज़ लाज़िम नहीं. दिल में ईरादा काई है. (تبيين الحقائق ج ۱ ص ۱۰۹) (4) लफ़्जे अल्लाह को आल्लाहु या अकबर को आकबर या अकबार कहा नमाज़ न होगी बल्के अगर इन के मा'नअे फ़ासिदा समज़ कर जान बूज़ कर कहे तो काफ़िर है. (در مختار، ردالمحتار ج ۲ ص ۱۷۷) नमाज़ियों की ता'दाद ज़ियादा होने की सूरत में पीछे आवाज़ पछोंयाने वाले मुकब्बिरों की अक्सरियत अल्म की कमी के बाईस आज कल "अकबर" को "अकबार" कलती सुनाई देती है. इस तरह इन की अपनी नमाज़ भी टूटती और इन की आवाज़ पर जो लोग इन्तिकालात करते या'नी नमाज़ के अरकान अदा करते हैं उन की नमाज़ भी टूट जाती है. लिहाज़ा बिगैर सीपे कभी मुकब्बिर नहीं बनना चाहिये (5) पहली रकूअत का रुकूअ मिल गया तो तकबीरे उला की इज़ीवत पा गया.

(عالمگیری ج ۱ ص ۶۹)

करमाने मुस्तफ़ा : حَسْبُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالصَّلَاةُ : जिस ने मुज़ पर अेक बार दुरदे पाक पढा अल्लाह उस पर दस रहमतेँ बेजता है. (ط)

﴿2﴾ **क़ियाम :-** (1) कमी की ज़ानिब क़ियाम की हद येह है के हाथ बढाअे तो घुटनों तक न पड़ोअे और पूरा क़ियाम येह है के सीधा षडा हो. (163) (2) क़ियाम ँतनी देर तक है ज़ितनी देर तक क़िराअत है. अ क-दरे क़िराअते इर्ज़ क़ियाम भी इर्ज़, अ कदरे वाज़िब वाज़िब, और अ कदरे सुन्नत सुन्नत. (ايضاً) (3) इर्ज़, वित्र, ँदैन और सुन्नते इश्ज में क़ियाम इर्ज़ है. अगर बिला उज़रे सहीह कोँ येह नमाज़ेँ बैठ कर अदा करेगा तो न डोंगी. (ايضاً) (4) षडे डोने से मइज़ कुछ तकलीफ़ डोना उज़र नहीं बल्के क़ियाम उस वक्त साकित डोगा के षडा न डो सके या सजदा न कर सके या षडे डोने या सजदा करने में ज़ह्म बहता है या षडे डोने में कतरा आता है या यौथाँ सित्र षुलता है या क़िराअत से मजबूर मइज़ डो जाता है. यंडी षडा डो सकता है मगर ँस से मरज़ में ज़ियादती डोती है या देर में अश्र डोगा या ना काबिले बरदाशत तकलीफ़ डोगी तो बैठ कर पढे. (208) (5) अगर असा (या बैसाप्पी) षादिम या दीवार पर टेक लगा कर षडा डोना मुश्किन है तो इर्ज़ है के षडा डो कर पढे. (208) (6) अगर सिर्फ़ ँतना षडा डोना मुश्किन है के षडे षडे तकबीरे तहरीमा कड लेगा तो इर्ज़ है के षडा डो कर **اللَّهُ أَكْبَرُ** कड ले और अब षडा रहना मुश्किन नहीं तो बैठ ज़अे.

(غنية المستملی ص 209)

अबरदार ! षा'ज लोग मा'भूली सी तकलीफ़ (या ज़ह्म) की वजह से इर्ज़ नमाज़ेँ बैठ कर पढते हैं वोड ँस डुकमे शर-ँ पर गौर इरमाअे, ज़ितनी

करमाने मुस्तका : صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : जो शअ्स मुज पर दुरेदे पाक पढना भूल गया वोह जन्त का रास्ता भूल गया. (طرائق)

नमाजें कुदरते कियाम के आ वुजूद बैठ कर अदा की छों उन को लौटाना इर्ज है. ईसी तरह वैसे ही अडे न रह सकते थे मगर असा या दीवार या आदमी के सछारे अडे होना मुम्किन था मगर बैठ कर पढते रहे तो उन की भी नमाजें न हुईं इन का लौटाना इर्ज है. (मुलम्भस अज : बछारे शरीअत, छिस्सा. 3, स. 64, मदीनतुल मुर्शिद बरेली शरीफ) औरतों के लिये भी येही हुकम है के येह भी बिगैर शर-ई ईजाजत के बैठ कर नमाजें नहीं पढ सकतीं.

आ'ज मसाजिद में कुरसियों का ईन्तिजाम भी होता है आ'ज भूढे वगैरा उन पर बैठ कर इर्ज नमाज पढते हैं छालांके यल कर आअे छोते हैं, नमाज के आ'द अडे अडे आतचीत भी कर लेते हैं, अैसे लोग अगर बिगैर ईजाजते शर-ई बैठ कर नमाजें पढेंगे तो इन की नमाजें न छोंगी. (8) अडे छो कर पढने की कुदरत छो जब भी बैठ कर नइल पढ सकते हैं मगर अडे छो कर पढना अइजल है के छजरते सय्यिदुना अब्दुल्लाह बिन अब्र رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ से मरवी है, रहमते आलम, नूरे मुजस्सम, शाहे बनी आदम, रसूले मुह्तशम صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ने ईशाद इरमाया : बैठ कर पढने वाले की नमाज अडे छो कर पढने वाले की निस्फ़ (या'नी आधा सवाब) है. (صحيح مسلم ج 1 ص 203) अलबत्ता उजूर की वजह से बैठ कर पढे तो सवाब में कमी न छोगी येह जो आज कल आम रवाज पड गया है के नइल बैठ कर पढा करते हैं ब ज़ाहिर येह मा'लूम छोता है के शायद बैठ कर पढने को अइजल समजते हैं अैसा है तो उन का अयाल गलत है. वित्र के

करमाने मुस्तफ़ा : حَسْبُكَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : जिस के पास मेरा जिक्र हुआ और उस ने मुझ पर दृष्टे पाक न पढा तहकीक वाल बढ भन्त हो गया. (ह-न)

भा'द जो दो² रक़्अत नफ़ल पढते हैं उन का भी येही हुक़्म है के पडे हो कर पढना अफ़ज़ल है.

(बहारे शरीअत, हिस्सा : 4, स. 17, मदीनतुल मुशिद बरेली शरीफ़)

﴿3﴾ **किराअत** : (1) किराअत इस का नाम है के तमाम हुइक़ मभारिज से अदा किये जाओ के हर हई गैर से सहीह तौर पर मुमताज़ (नुमायां) हो जाओ. (عالمگیری ج 1 ص 19) (2) आहिस्ता पढने में भी येह ज़री है के फ़ुद सुन ले. (غنية المستملی ص 271) (3) अगर हुइक़ तो सहीह अदा किये मगर एतने आहिस्ता के फ़ुद न सुना और कोई रुकावट म-सलन शोरो गुल या सिक्ले समाअत (या'नी ठीया सुनने का मरज़) भी नहीं तो नमाज़ न हुई. (عالمگیری ج 1 ص 19) (4) अगर्ये फ़ुद सुनना ज़री है मगर येह भी ओहतियात रहे के सिरी (या'नी आहिस्ता किराअत वाली) नमाज़ों में किराअत की आवाज़ दूसरों तक न पछोये, इसी तरह तस्बीहात वगैरा में भी पयाल रभिये (5) नमाज़ के एलावा भी जहां कुछ कडना या पढना मुकरर किया है इस से भी येही मुराद है के कम अज़ कम एतनी आवाज़ हो के फ़ुद सुन सके. म-सलन तलाक़ देने, आज़ाद करने या जानवर ज़ह्ल करने के लिये अल्लाह ﷻ का नाम लेने में एतनी आवाज़ ज़री है के फ़ुद सुन सके. (ایضاً) दृष्टे शरीफ़ वगैरा अवराद पढते हुओ भी कम अज़ कम एतनी आवाज़ होनी याहिये के फ़ुद सुन सके ज़मी पढना कडलाओगा. (6) मुत्लकन ओक आयत पढना इर्ज़ की दो² रक़्अतों में और वित्र, सुनन और नवाइल की हर रक़्अत में एमाम व मुफ़रिद (या'नी तन्हा नमाज़ पढने वाले) पर इर्ज़ है.

करमाने मुस्तफ़ा: عَلَى اللَّهِ تَعَالَى غَيْرُ وَهُوَ وَسْتَمُ : जिस ने मुज़ पर दस भरतबा सुबह और दस भरतबा शाम दुइदें पाक पढा
 (उसे कियामत के दिन मेरी शफ़ाअत मिलेगी. (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ))

(7) मुक्तदी को नमाज़ में किराअत
 ज़ाईज़ नहीं. न सू-रतुल फ़ातिहा न आयत, न सिरी (या'नी आहिस्ता
 किराअत वाली) नमाज़ में न ज़हूरी (या'नी बुलन्द आवाज़ से किराअत
 वाली) नमाज़ में. इमाम की किराअत मुक्तदी के लिये भी काफ़ी है.

(8) इर्ज़ की किसी रक़अत में किराअत
 न की या इक़त अेक में की नमाज़ फ़ासिद हो गई. (9) (عالمگیری ج ۱ ص ۶۹)

इर्ज़ों में ठहर ठहर कर किराअत करे और तरावीह में मु-तवस्सित
 अन्दाज़ पर और रात के नवाफ़िल में जल्द पढने की इज़ाज़त है मगर
 औसा पढे के समज़ में आ सके या'नी कम से कम मद् का जो द-रज़ा
 कारियों ने रखा है उस को अदा करे वरना हराम है, इस लिये के
 तरतील से (या'नी ठहर ठहर कर) कुरआन पढने का हुक़म है

आज कल के अक़सर हुक्फ़ाज़ इस तरह
 पढते हैं के मद् का अदा होना तो बडी बात है. (يَعْلَمُونَ تَعْلَمُونَ) के सिवा
 किसी लफ़ज़ का पता नहीं चलता, न तस्हीहे हुक्फ़ाज़ होती बल्के जल्दी में
 लफ़ज़ के लफ़ज़ भा जाते हैं और इस पर तफ़ापुर होता है के कुलां इस कदर
 जल्द पढता है ! हालांके इस तरह कुरआने मज्हद पढना हराम और सप्त
 हराम है. (बहारे शरीअत, डिस्सा : 3, स. 86, 87, मदीनतुल मुश्रिद बरेली शरीफ़)

हुक्फ़ की सहीह अदाओगी मज़री है

अक़सर लोग ط ت में कोई
 स ص ث, اء ع, ه ح, ض ذ ظ लो ग
 इर्क़ नहीं करते. याद रभिये ! हुक्फ़ बदल जाने से अगर मा'ना फ़ासिद हो
 गये तो नमाज़ न होगी. (बहारे शरीअत, डिस्सा : 3, स. 108, मक्तबअे
 र-अविख्या) म-सलन जिस ने رَبِّيَ الْعَظِيمُ में عَزِيمَ को عَظِيمَ के

करमाने मुस्तक़ा: عَلَى اللَّهِ تَعَالَى غَنِيٌّ وَهُوَ اللَّهُ وَسَلَّمَ: जिसके पास मेरा ज़िक्र हुआ और उसने मुझ पर दुर्इद शरीक़ न पढा उसने ज़फ़ा की. (عبدالرزاق)

अज़ाअे ु) पढ दिय़ा नमाज़ जाती रही लिडाज़ा जिस से عَظِيمٌ सहीड अदा न हो वोड سُبْحَانَ رَبِّيَ الْكَرِيمِ पढे.

(कानूने शरीअत, डिस्सअे अव्वल, स. 119, इरीद बुक स्टोल लाडोर)

अअरदार ! अअरदार ! अअरदार !

जिस से दुर्इद सहीड अदा नहीं डोते उस के लिये थोडी डेर मशक कर लेना काई नहीं अडके लाज़िम है के एन्हें सीअने के लिये रात दिन पूरी कोशिश करे और अगर सहीड पढने वाले के पीछे नमाज़ पढ सकता है तो इर्ज़ है के उस के पीछे पढे या वोड आयते पढे जिस के दुर्इद सहीड अदा कर सकता डो. और येड दोनों² सूरतें ना मुश्किन डों तो जमानअे कोशिश में एस की अपनी नमाज़ डो ज़ाअेगी. आज़ कल काई लोग एस मरज़ में मुअ्तला हैं के न एन्हें कुरआन सहीड पढना आता है न सीअने की कोशिश करते हैं. याद रअिये ! एस तरड नमाज़ें अरबाद डोती हैं. (मुलअ्अस अज़ : अडारे शरीअत, डिस्सा 3, स. 116) जिस ने रात दिन कोशिश की मगर सीअने में नाकाम रडा जैसे आ'ज लोगों से सहीड दुर्इद अदा डोते डी नहीं उस के लिये लाज़िमी है के रात दिन सीअने की कोशिश करे और जमानअे कोशिश में वोड मा'ज़ूर है उस की अपनी नमाज़ डो ज़ाअेगी मगर सहीड पढने वालों की एमामत डरगिज़ नहीं कर सकता. डं ज़े दुर्इद उस के अपने गलत हैं वोडी दूसरों के भी गलत डों तो जमानअे कोशिश में अैसों की एमामत कर सकता है, और अगर कोशिश भी नहीं करता तो अुद उस की नमाज़ डी नहीं डोती तो दूसरे की उस के पीछे क्पा डोगी !

(माअूअ अज़ : इतावा र-जविय्या, ज़ि. 6, स. 254, रज़ा इअिन्देशन लाडोर)

કરમાને મુસ્તફા : على الله تعالى وعليه وآله وسلم : જો મુઝ પર રોઝે જુમુઆ દુરૂદ શરીફ પઢેગા મેં કિયામત કે દિન ઉસ કી શકાઅત કરૂંગા. (કરઆમ)

મદ્ર-સતુલ મદીના

મીઠે મીઠે ઇસ્લામી ભાઈયો ! આપ ને કિરાઅત કી અહમ્મિયત કા બખૂબી અન્દાઝા લગા લિયા હોગા, વાકેઈ વોહ મુસલ્માન બડા બદ નસીબ હૈ જો દુરુસ્ત કુરઆન શરીફ પઢના નહીં સીખતા. اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلَيْهِ તબ્લીગે કુરઆનો સુન્નત કી આલમગીર ગૈર સિયાસી તહરીક “દા’વતે ઇસ્લામી” કે બે શુમાર મદારિસ બનામ “મદ્ર-સતુલ મદીના” કાઈમ હૈં ઈન મેં મ-દની મુન્નોં ઓર મ-દની મુન્નિયોં કો કુરઆને પાક હિફઝ વ નાઝિરા કી મુફત તા’લીમ દી જાતી હૈ. નીઝ બાલિગાન કો ઉમૂમન બા’દ નમાઝે ઈશા હુરૂફ કી સહીહ અદાએગી કે સાથ સાથ સુન્નતોં કી તરબિયત દી જાતી હૈ. કાશ ! તા’લીમે કુરઆન કી ઘર ઘર ધૂમ પડ જાએ. કાશ ! હર વોહ ઇસ્લામી ભાઈ જો સહીહ કુરઆન શરીફ પઢના જાનતા હૈ વોહ દૂસરે ઇસ્લામી ભાઈ કો સિખાના શુરૂઅ કર દે. ઇસ્લામી બહને ભી યેહી કરેં યા’ની જો દુરુસ્ત પઢના જાનતી હૈં વોહ દૂસરી ઇસ્લામી બહનોં કો પઢાએં ઓર ન જાનને વાલિયાં ઈન સે સીખેં. اِنَّ شَاءَ اللّٰهُ عَلَيْهِ ફિર તો હર તરફ તા’લીમે કુરઆન કી બહાર આ જાએગી ઓર સીખને સિખાને વાલોં કે લિયે اِنَّ شَاءَ اللّٰهُ عَلَيْهِ સવાબ કા અખ્બાર લગ જાએગા.

યેહી હૈ આરઝૂ તા’લીમે કુરઆં આમ હો જાએ

તિલાવત શૌક સે કરના હમારા કામ હો જાએ

﴿4﴾ રુકૂઆ :- ઈતના રુકના કે હાથ બઢાએ તો ઘુટને કો પહોંચ જાએ યેહ રુકૂઆ કા અદના દ-રજા હૈ. (دَرِّمَخْتَار، ردالمختار ج ۲ ص ۱۶۶) ઓર પૂરા યેહ કે પીઠ સીધી બિઠા દે.

(حاشية الطحطاوى ص ۲۲۹)

फ़रमाने मुस्तफ़ा ﷺ: मुज पर दुरदे पाक की कसरत करो बेशक येह तुम्हारे विधे तदारत है.
(अबुयूसुफ़)

सुल्ताने मक्कअे मुकर्रमा, ताजदारे मदीनअे मुनव्वरह
عَزَّوَجَلَّ का फ़रमाने अ-ज-मत निशान है, अल्हाड
बन्दे की उस नमाज की तरफ़ नजर नही फ़रमाता जिस में रुकूअ व
सुजूद के दरमियान पीठ सीधी न करे.

(مسند امام احمد بن حنبل ج 3 ص 617 حديث 10803 دار الفكر بيروت)

﴿5﴾ **सुजूद** : (1) सुल्ताने मक्कअे मुकर्रमा, ताजदारे मदीनअे
मुनव्वरह ﷺ का फ़रमाने अ-ज-मत निशान है, मुजे
हुकूम हुवा के सात उड़ियों पर सजदा कइं, मुंड और दोनों² हाथ और दोनों²
घुटने और दोनों² पन्जे और येह हुकूम हुवा के कपडे और बाल न समेटूं.
(1) (صحيح مسلم ج 1 ص 193) (2) हर रुकूअत में दो² बार सजदा फ़र्ज है.
(3) (دُرِّ مختار، ردالمحتار ج 2 ص 167) सजदे में पेशानी जमना जरूरी है. जमने
के मा'ना येह है के जमीन की सप्ती महसूस हो. अगर किसी ने इस
तरह सजदा किया के पेशानी न जमी तो सजदा न होगा.
(4) (عالمگیری ج 1 ص 70) किसी नर्म थोड़ा म-सलन घास (जैसा के बाग की
हरियाली), रूई या कालीन (CARPET) वगैरा पर सजदा किया तो
अगर पेशानी जम गई या'नी धतनी दबी के अब दबाने से न दबे
तो सजदा हो जाओगा वरना नहीं. (5) (تبيين الحقائق ج 1 ص 117) आज
कल मसाजिद में कारपेट (CARPET) बिछाने का रवाज पड गया
है (बल्के बा'ज जगह तो कारपेट के नीचे मज्जीद फ़ोम ली बिछा देते हैं)
कारपेट पर सजदा करते वक्त इस बात का ખાસ ખयाल रचना है के
पेशानी अख़री तरह जम जाओ वरना नमाज न होगी. और नाक की उड़ी

करमाने मुस्तफ़ा على الله تعالى عليه واله وسلم : तुम जहाँ भी हो मुज पर दुरुद पढो के तुम्हारा दुरुद मुज तक पहुँचता है. (ط. ۱)

न दबी तो नमाज मक़रुहे तखरीमी वाजिबुल ईआदा होगी.

(मुलम्भस अज बहारे शरीअत, हिस्सा : 3, स. 71)

(6) कमानी दार (या'नी स्प्रिंग वाले) गद्दे पर पेशानी ખૂબ नहीं जमती लिहाजा नमाज न होगी. (अैज्ज)

कारपेट के नुकसानात

कारपेट से अेक तो सज्दे में दुश्वारी होती है, मज़ीद सहील मा'नों में ईस की सफ़ाई नहीं हो पाती लिहाजा धूल वगैरा जम्भ होती और जरासीम परवरिश पाते हैं, सज्दे में सांस के जरीअे जरासीम, गर्द वगैरा अन्दर दाखिल हो जाते हैं, कारपेट का रूआं फेड़ों में जा कर थिपक जाने की सूरत में كَذَابُ اللَّهِ كَرِيْمًا के-सर का अतरा पैदा होता है. बसा अवकात बज्ये कारपेट पर कै या पेशाब वगैरा कर डालते, बिद्लियां गन्दगी करतीं, यूहे और छुप-कलियां भेंगियां करते हैं. कारपेट नापाक हो जाने की सूरत में उमूमन पाक करने की ज़हमत भी नहीं की जाती. काश कारपेट बिछाने का रवाज ही अत्म हो जाअे.

नापाक कारपेट पाक करने का तरीका

कारपेट का नापाक हिस्सा अेक बार धो कर लटका दीजिये यहाँ तक के टपकना भौकूँ हो जाअे फिर दोबारा² धो कर लटकाईये उत्ता के टपकना बन्द हो जाअे फिर तीसरी³ बार ईसी तरल धो कर लटका दीजिये जब टपकना बन्द हो जाअेगा तो पाक हो जाअेगा. कारपेट और ईस जैसी वोह चीज़ें जिन में पतली नज़ासत ज़ूब हो जाती हो ईसी तरीके पर पाक कीजिये. अगर नापाक कारपेट या कपडा

करमाने मुस्तफ़ा: على الله تعالى عليه وآله وسلم: जिस ने मुज पर दस भरतबा दुरदे पाक पढा अल्लाह عزوجل उस पर सो रलमतें नाजिल करमाता है. (طبرانی)

वगैरा भलते पानी में (म-सलन दरिया, नहर में या टोंटी के नीचे) ँतनी ढेर तक रभ ँरों के जन्ने गालिब ढो ज़ांके के पानी नज़ासत को भल कर ले गया तभ ली पाक ढो ज़ांकेगा. कारपेट पर बर्या पेशाब कर ढे तो उस जगह पर पानी के ँटि मार ढेने से वोह पाक नहीं ढोता. याद रहे ! अेक ढिन के बर्ये या बर्यी का पेशाब ली नापाक ढोता है. (तफ़सीली मा'लूमात के लिये भलारे शरीअत हिससा 2 का मुता-लमा करमा लीजिये.)

«6» **का'दअे अपीरा** : या'नी नमाज की रक़अतें पूरी करने के भा'द ँतनी ढेर तक बैठना के पूरी तशहहूद (या'नी पूरी अतहिय्यात) 'रَسُوْلُهُ' तक पढ ली ज़ांके, फ़र्ज है. (عالمگیری ج ۱ ص ۷۰) यार⁴ रक़अत वाले फ़र्ज में यौथी⁴ रक़अत के भा'द का'दा न किया तो जब तक पांयवी⁵ का सज्दा न किया ढो बैठ ज़ांके और अगर पांयवी⁵ का सज्दा कर लिया या इज्ज में दूसरी² पर नहीं बैठा तीसरी³ का सज्दा कर लिया या मगरिब में तीसरी³ पर न बैठा और यौथी⁴ का सज्दा कर लिया ँन सब सूरतों में फ़र्ज बातिल ढो गअे. मगरिब के ँलावा और नमाजों में अेक रक़अत मजीद मिला ले. (غنية المستملی ص ۲۸۴)

«7» **पुइजे बिसुण्ही** : या'नी का'दअे अपीरा के भा'द सलाम या बातयीत वगैरा कोँ अैसा फ़े'ल कस्दन (या'नी ँरादतन) करना ज़ो नमाज से बाहर कर ढे. मगर सलाम के ँलावा कोँ फ़े'ल कस्दन पाया गया तो नमाज वाजिबुल ँआदा ढोगी. और अगर बिला कस्द कोँ ँस तरह का फ़े'ल पाया गया तो नमाज बातिल. (غنية المستملی ص ۲۸۶)

करमाने मुस्तक़ि: عَلَى اللَّهِ تَعَالَى غَيْرُكَ وَسَلَامٌ: जिस के पास मेरा जिक्र हो और वोह मुज पर दुरुद शरीफ़ न पढे तो वोह लोगों में से कन्जूस तरीन शप्स है. (ज़िब्तरी)

“क़ियामत में सब से पहले नमाज़ का सुवाल होगा”

के तीस हुरइ की निस्बत से तकरीबन 30 वाजिबात

(1) तकबीरे तहरीमा में लइज़ “**اللَّهُ أَكْبَرُ**” कडना (2) इर्ज़ी की तीसरी³ और चौथी⁴ रक़्अत के ठलावा बाकी तमाम नमाज़ों की हर रक़्अत में अल इम्द शरीफ़ पढना, सूरत मिलाना या कुरआने पाक की अेक बडी आयत ज़े छोटी तीन³ आयतों के बराबर हो या तीन³ छोटी आयतें पढना (3) अल इम्द शरीफ़ का सूरत से पहले पढना (4) अल इम्द शरीफ़ और सूरत के दरमियान “**आमीन**” और **بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ** के ठलावा कुछ और न पढना (5) क़िराअत के क़ौरन बा’द रुकूअ करना (6) अेक सजदे के बा’द बित्तरतीब दूसरा सजदा करना (7) ता’दीले अरकान या’नी रुकूअ, सुजूद, कौमा और जल्सा में कम अज़ कम अेक बार **اللَّهُ سُبْحَانَ اللَّهِ** कडने की भिकदार ठहरना (8) कौमा या’नी रुकूअ से सीधा षडा होना (बा’ज़ लोग कमर सीधी नही करते, इस तरह उन का वाजिब छूट जाता है) ((9) जल्सा या’नी दो² सजदों के दरमियान सीधा बैठना (बा’ज़ लोग जल्द बाज़ी की वजह से बराबर सीधे बैठने से पहले ही दूसरे सजदे में चले जाते हैं इस तरह उन का वाजिब तर्क हो जाता है याहे कितनी ही जल्दी हो सीधा बैठना लाज़िमी है वरना नमाज़ मक़रूहे तहरीमी वाजिबुल ठआदा होगी) (10) का’दअे ठिला वाजिब है अगर्ये नमाज़े नइल हो (दर अस्ल दो नइल का हर का’दा, “का’दअे अपीरा” है और इर्ज़ है अगर का’दा न किया और लूल कर षडा हो गया तो जब तक इस रक़्अत का सजदा न कर ले लौट आअे और सजदअे सइव करे.)

करमाने मुस्तक़ा على الله تعالى عليه والبرسنة : उस शप्स की नाक पाक आवुद हो जिस के पास मेरा जिक्र हो और वो ह मुज पर दुइदे पाक न पड़े. (१६)

(बछारे शरीअत, डिस्सा : 4, स. 52, मदीनतुल मुर्शिद बरेली शरीफ़) अगर नफ़ल की तीसरी³ रक़्अत का सजदा कर लिया तो यार⁴ पूरी कर के सजदअे सड्व करे. सजदअे सड्व ँस लिये वाजिब हुवा के अगर्ये नफ़ल में हर दो² रक़्अत के बा'द का'दा इर्ज़ है मगर तीसरी या पांयवीं (على هذا القياس) रक़्अत का सजदा करने के बा'द का'दअे उिला इर्ज़ के बज्जअे वाजिब हो गया. (مُلَخَّصًا حَاشِيَةُ الطَّحَطَاوِي عَلَى مَرَاقِي الْفَلَاحِ ص ٤٦٦) (11) इर्ज़, वित्र और सुन्नते मुअक्कदा में तशड्डुद (या'नी अतडिय्यात) के बा'द कुछ न बढाना (12) दोनों² का'दों में “तशड्डुद” मुकम्मल पढना. अगर अेक लइज ली छूटा तो वाजिब तर्क हो जअेगा और सजदअे सड्व वाजिब होगा (13) इर्ज़, वित्र और सुन्नते मुअक्कदा के का'दअे उिला में तशड्डुद के बा'द अगर बे जयाली में اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ يَا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا अड लिया तो सजदअे सड्व वाजिब हो गया और अगर जान बूज कर कडा तो नमाज लौटाना वाजिब है (دُرِّ مَخْتَار، ردالمحتار ج ٢ ص ٢٦٩) (14) दोनों तरफ़ सलाम इेरते वक्त लइज “السَّلَام” दोनों² बार वाजिब है. लइज “عَلَيْكُمْ” वाजिब नही बल्के सुन्नत है (15) वित्र में तकबीरे कुनूत कडना (16) वित्र में दुआअे कुनूत पढना (17) ँदैन की छे⁶ तकबीरें (18) ँदैन में दूसरी² रक़्अत की तकबीरे रुकूअ और ँस तकबीर के लिये लइजे “اللَّهُ أَكْبَرُ” डोना (19) “जड्ररी नमाज” म-सलन मगरिब व ँशा की पहली और दूसरी² रक़्अत और इज्ज, जुमुआ, ँदैन, तरावीड और र-मजान शरीफ़ के वित्र की हर रक़्अत में ँमाम को जड्र (या'नी ँतनी बुलन्ड आवाज, के

करमाने मुस्तकी على الله تعالى غفور رحيم : जिस ने मुझ पर रोझे जुमुआ दो सो बार दुरदे पाक पढा उस के दो सो साल के गुनाह मुआफ़ होंगे. (ज़ुमल)

दूसरे लोग या'नी वोह के सके अव्वल में हें सुन सके) से किराअत करना (20) गैर जहरी नमाज़ (म-सलन जोहर व असर) में आहिस्ता किराअत करना (21) हर इर्ज़ व वाजिब का उस की जगह होना (22) रुकूअ हर रुकूअत में अेक ही बार करना (23) सजदा हर रुकूअत में दो² ही बार करना (24) दूसरी² रुकूअत से पहले का'दा न करना (25) चार⁴ रुकूअत वाली नमाज़ में तीसरी³ रुकूअत पर का'दा न करना (26) आयते सजदा पढी हो तो सजदअे तिलावत करना (27) सजदअे सध्व वाजिब हुवा हो तो सजदअे सध्व करना (28) दो² इर्ज़ या दो² वाजिब या इर्ज़ व वाजिब के दरमियान तीन³ तस्बीह की कदर (या'नी तीन³ बार "سُبْحَانَ اللَّهِ" कहने की भिकदार) वक़्फ़ा न होना (29) इमाम जब किराअत करे ज्वाह बुलन्द आवाज़ से हो या आहिस्ता आवाज़ से मुक्तदी का युप रहना (30) किराअत के सिवा तमाम वाजिबात में इमाम की पैरवी करना. (दُر्र مختار, ردالمحتار ج 2 ص 181, عالمگیری ج 1 ص 71)

नमाज़ की तकरीबन 95 सुन्नतें

तकबीरे तहरीमा की सुन्नतें

(1) तकबीरे तहरीमा के लिये हाथ उठाना (2) हाथों की उंगलियां अपने हाथ पर (Normal) छोडना, या'नी न बिडकुल मिलाईये न इन में तनाव पैदा कीजिये (3) हथेलियों और उंगलियों का पेट किब्ला रु होना (4) तकबीर के वक्त सर न रुकाना (5) तकबीर शुर्अ करने से पहले ही दोनों² हाथ कानों तक उठा लेना (6) तकबीरे कुनूत और (7) तकबीराते इटैन में भी येही सुन्नतें हें (दُر्र مختार, ردالمحتار ج 2 ص 208) (8) इमाम का

करमाने मुस्तकी : صلى الله تعالى عليه و آله وسلم : मुज़ पर दुइद शरीफ़ पढो अल्लाह तुम पर रहमत भेजेगा. (अिन मुज़)

बुलन्द आवाज़ से **(9) اللَّهُ أَكْبَرُ** और **(10) سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ** सलाम कलना (छाजत से ज़ियादा बुलन्द आवाज़ करना मक़रुह है) (२०८) (ردالمحتار ج २ ص २०८)
(11) तकबीर के फ़ौरन बा'द हाथ बांध लेना सुन्नत है (बा'ज लोग तकबीरे उला के बा'द हाथ लटका देते हैं या कोलनियां पीछे की तरफ़ जुलाने के बा'द हाथ बांधते हैं उन का येह फ़ै'ल सुन्नत से हट कर है)

(दुइर मुख्तार, ردالمحتار ج २ ص २२९)

कियाम की सुन्नतें

(12) मर्द नाफ़ के नीचे सीधे हाथ की हथेली उलटे हाथ की कलाई के ज़ेद पर, छुंलियां और अंगूठा कलाई के अगल बगल और बाकी उंगलियां हाथ की कलाई की पुशत पर रखे (२९६) (غنية المستملی ص २९६)
(13) पहले सना **(14) فیر तअव्वुज़ या'नी** ○ **أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ** पढना
(15) فیر तस्मिया या'नी ○ **بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ** पढना **(16)** इन तीनों³ को ओक दूसरे के फ़ौरन बा'द कलना **(17)** इन सब को आहस्ता पढना (२१०) (दुइर मुख्तार, ردالمحتار ج २ ص २१०)
(18) आमीन कलना (19) इस को भी आहस्ता कलना **(20)** तकबीरे उला के फ़ौरन बा'द सना पढना (अिضا) (नमाज़ में तअव्वुज़ व तस्मिया किराअत के ताबेअ हैं और मुक्तदी पर किराअत नहीं लिहाज़ा तअव्वुज़ व तस्मिया भी मुक्तदी के लिये सुन्नत नहीं. हां जिस मुक्तदी की कोई रक़अत फ़ौत हो गई हो वोह अपनी बाकी रक़अत अदा करते वक्त इन दोनों² को पढे (२०३) (الهداية معه فتح القدير ج १ ص २०३)
(21) तअव्वुज़ सिर्फ़ पहली रक़अत में है और **(22)** तस्मिया हर रक़अत के शुइअ में सुन्नत है.

(عالمگیری ج १ ص ७६)

करमाने मुस्तक़ा : عَلَى اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : मुज़ पर कसरत से दुरुद दे पाक पढे बेशक तुम्हारा मुज़ पर दुरुद दे पाक पढना तुम्हारे गुनाहों के लिये मग़्किरत है. (हामिज़)

रुकूअ की सुन्नतें

(23) रुकूअ के लिये اللهُ أَكْبَرُ कलना (الهداية معه فتح القدير ج 1 ص 207)

(24) रुकूअ में तीन बार رَبِّيَ الْعَظِيمُ कलना (25) मर्द का

घुटनों को हाथ से पकडना और (26) उंगलियां भूब भुली रखना

(27) रुकूअ में टांगें सीधी रखना (बा'ज लोग कमान की तरफ़ टेढ़ी कर

लेते हैं येह मक़रुह है) (عالمگیری ج 1 ص 74)

(28) रुकूअ में पीठ अस्थी

तरफ़ बिछी हो उता के अगर पानी का पियाला पीठ पर रख दिया

जाओ तो ठहर जाओ. (مراقی الفلاح معه حاشية الطحطاوی ص 266)

(29) रुकूअ में सर उंचा नीचा न हो पीठ की सीध में हो. “सरकारे

मदीना صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ फ़रमाते हैं : उस की नमाज़ ना काफ़ी है

(या'नी कामिल नहीं) जो रुकूअ व सुजूद में पीठ सीधी नहीं करता”

صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ (السنن الكبرى ج 2 ص 126 دارالکتب العلمیه بیروت)

फ़रमाते हैं : “रुकूअ व सुजूद को पूरा करो के जुदा عَزَّوَجَلَّ की कसम ! मैं

तुम्हें अपने पीछे से देखता हूँ.” (مسلم شریف ج 1 ص 180)

(30) बेहतरे येह है के اللهُ أَكْبَرُ कलता हुवा रुकूअ को जाओ या'नी जब रुकूअ के

लिये रुकना शुज़्अ करे और अत्मे रुकूअ पर तकबीर अत्म करे

(عالمگیری ج 1 ص 69) ईस मसाफ़त को पूरा करने के लिये अद्लाह की

“ل” को बढ़ाओ अकबर की “ب” वगैरा किसी हर्फ़ को न बढ़ाओ.

(अहारे शरीअत, डिस्सा : 3, स. 72, मदीनतुल मुर्शिद अरेली शरीफ़)

अगर आद्लाहु या आकबर या अकबार कहा तो नमाज़ फ़ासिद हो

जाओगी. (دَرِّ مَخْتَار، ردالمختار ج 1 ص 232)

करमाने मुस्तक़। حَسْبِيَ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ : श्री मुज़ पर ओक दु़रुद शरीफ़ पढता है अल्लाह عزّوجلّ उस के लिये ओक कीरात अज़ब लिखता है और कीरात उहुद पहाड जितना है. (सुन्नत)

डौमा की सुन्नतें

(31) रुकूअ से ज़ब उठें तो हाथ लटका दीजिये (32) रुकूअ से उठने में ँमाम के लिये سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ कडना (33) मुक्तदी के लिये كَلِمَاتُ الْحَمْدِ كَلِمَاتُ الْحَمْدِ कडना (34) मुफ़रिद (या'नी तन्हा नमाज़ पढने वाले) के लिये दोनों² कडना सुन्नत है رَبَّنَا كَلِمَاتُ الْحَمْدِ कडने से भी सुन्नत अदा हो जाती है मगर "رَبَّنَا" के आ'द "و" होना बेहतर है, "اللَّهُمَّ" होना ँस से बेहतर, और दोनों² होना और ज़ियादा बेहतर है. या'नी كَلِمَاتُ الْحَمْدِ كَلِمَاتُ الْحَمْدِ कडिये (غنية المستملی ص 310) (35) मुफ़रीद كَلِمَاتُ الْحَمْدِ कडना हुवा रुकूअ से उठे, ज़ब सीधा षडा हो युके तो अब كَلِمَاتُ الْحَمْدِ कडये. (عالمگیری ج 1 ص 74)

सजदे की सुन्नतें

(36) सजदे में जाने के लिये और (37) सजदे से उठने के लिये اللهُ اكْبَرُ कडना. (الهداية مع فتح القدير ج 1 ص 261) (38) सजदे में कम अज़ कम तीन³ बार رَبَّنَا كَلِمَاتُ الْحَمْدِ कडना (ايضاً) (39) सजदे में लथेलियां जमीन पर रभना (40) हाथों की उंग्लियां मिली हुँ डिब्ला रुभ रभना (41) सजदे में ज़ां तो जमीन पर पडले घुटने फिर (42) हाथ फिर (43) नाक, फिर (44) पेशानी रभना (45) ज़ब सजदे से उठें तो ँस का उलट करना या'नी (46) पडले पेशानी, फिर (47) नाक, फिर (48) हाथ, फिर (49) घुटने उठाना (50) मर्द के लिये सजदे में सुन्नत येड है के आज़ू करवटों से और (51) रानों पेट से ज़ुदा हों (الهداية مع فتح القدير ج 1 ص 266) (52) कलाँयां जमीन पर न बिछाँये,

करमाने मुस्तफ़ा: عَلَى اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالْوَسْمُ : जिस ने किताब में मुज़ पर दुरुदे पाक लिखा तो जब तक मेरा नाम उस में रहेगा फिरिश्ते उस के लिये ईस्तिफ़ार करते रहेंगे. (طبرانی)

हां जब सड़ में हों तो बाजू करवटों से जुदा न रभिये (ردالمحتار ج ۲ ص ۲۰۷)
(53) सजदे में दोनों² पाउं की दसों¹⁰ उंग्लियों का पेट इस तरह जमीन पर लगाईये के दसों¹⁰ उंग्लियां डिब्ला रुभ रहें. (الهداية معه فتح القدير ج ۱ ص ۲۶۷)

जस्से की सुन्नतें

दोनों² सजदों के बीच में बैठना ईसे जस्सा कडते हें **(54)** जस्से में सीधा कदम ञडा कर के उलटा कदम बिछा कर उस पर बैठना **(55)** सीधे पाउं की उंग्लियां डिब्ला रुभ करना **(56)** दोनों हाथ रानों पर रभना. (تبيين الحقائق ج ۱ ص ۱۱۱)

दूसरी रक़अत के लिये उठने की सुन्नतें

(57) जब दोनों² सजदे कर लें तो दूसरी² रक़अत के लिये पन्जों के बल, **(58)** घुटनों पर हाथ रभ कर ञडा होना सुन्नत है. हां कमजोरी या पाउं में तकलीफ़ वगैरा मजबूरी की वजह से जमीन पर हाथ रभ कर ञडे होने में हरज नही. (ردالمحتار ج ۲ ص ۲۶۲)

का'दा की सुन्नतें

(59) मर्द का दूसरी² रक़अत के सजदों से फ़ारिग हो कर बायां पाउं बिछा कर **(60)** दोनों² सुरीन उस पर रभ कर बैठना और **(61)** सीधा कदम ञडा रभना **(62)** सीधे पाउं की उंग्लियां डिब्ला रुभ करना **(63)** सीधा हाथ सीधी रान पर और **(64)** उलटा हाथ उलटी रान पर रभना **(65)** उंग्लियां अपनी डालत पर या'नी (NORMAL) छोडना के न जियादा फुली हुई न बिडकुल मिवी हुई. (ايضاً) **(66)** उंग्लियों के कनारे घुटनों के पास होना, मगर घुटने

करमाने मुस्तफ़ा: على الله تعالى عليه وآله وسلم : जिस ने मुज़ पर एक बार दुरुदे पाक पढा अल्लाह उस पर दस रक़मतें बेजता है. (مسلم)

पकड़ना न याहिये. (२६०) (67) अतलिय्यात में शहादत पर ईशारा करना. ईस का तरीका येह है के छुंग्लिया और पास वाली को बन्द कर लीजिये. अंगूठे और बीच वाली का हल्का बांधिये और “ي” पर कलिमे की उंगली उठाईये ईस को धर धर मत हिलाईये और “أ” पर रफ दीजिये और सब उंग्लियां सीधी कर लीजिये (ردالمحتار ج २ ص २६६) (68) दूसरे² का’द में भी ईसी तरह बैठिये जिस तरह पहले में बैठे थे और तशद्दुद भी पढिये (69) तशद्दुद के आ’द दुरुद शरीफ़ पढिये (الهداية معه فتح القدير ج १ ص २७६) दुरुदे ईब्राहीम पढना अफ़जल है (बहारे शरीअत, खिस्सा: 3, स. 85) (70) नवाफ़िल और सुन्नते गैर मुअक़ददा के का’दमे उला में भी तशद्दुद के आ’द दुरुद शरीफ़ पढना सुन्नत है (غنية المستملی ص ३२२) (71) दुरुद शरीफ़ के आ’द दुआ पढना. (دُرّ مختار مع ردالمحتار ج २ ص २८३)

सलाम फ़ेरने की सुन्नतें

(72) इन अल्फ़ाज़ के साथ दो² बार सलाम फ़ेरना :
 (73) पहले सीधी तरफ़, फिर (74) उलटी तरफ़
 मुंह फ़ेरना (75) ईमाम के लिये दोनो² सलाम बुलन्द आवाज़ से कलना सुन्नत है मगर दूसरा² पहले की निस्बत कम आवाज़ से कहे (عالمگیری ج १ ص १०६) (76) पहली बार के सलाम में सलाम कहते ही ईमाम नमाज़ से बाहर हो गया अगर ई न कहा हो ईस वक्त अगर कोई शरीके जमाअत हो तो ईक़्तिदा सहीह न हुई हां अगर सलाम के आ’द ईमाम ने सजदमे सहुव किया बशर्ते के ईस पर सजदमे

करमाने मुस्तक़ा : على الله تعالى غيبه و الله وسلم : जो शप्स मुज़ पर दुरेदे पाक पढना भूल गया वोह जन्त का रास्ता भूल गया. (طرائق)

सह्व हो तो ईक्तिदा सहीह हो गई (३०२) (ردالمحتار ج २) (77) ईमाम दाहने सलाम में षिताब से उन मुक्तदियों की नियत करे जो दाहनी तरफ़ हैं और बायें से बाई तरफ़ वालों की मगर औरत की नियत न करे अगर्चे शरीके जमाअत हो नीज़^२ दोनों सलामों में किरामन कातिबीन और उन मलाअेका की नियत करे जिन को अल्लाह ﷻ ने छिड़ात के लिये मुकरर किया और नियत में कोई अदद मुअय्यन न करे (२९६) (ردالمحتار ج २) (78) मुक्तदी ली हर तरफ़ के सलाम में इस तरफ़ वाले मुक्तदियों और उन मलाअेका की नियत करे नीज़ जिस तरफ़ ईमाम हो उस तरफ़ के सलाम में ईमाम की ली नियत करे और अगर ईमाम उस के मडाजी (या'नी ठीक सामने की सीध में) हो तो दोनों^२ सलामों में ईमाम की ली नियत करे और मुन्फरिद सिई उन किरिश्तों ली की नियत करे (३०६) (ردالمحتار ج १) (79) मुक्तदी के तमाम ईन्तकालात (या'नी रुकूअ सुजूद वगैरा) ईमाम के साथ होना.

सलाम डेरने के बा'द की सुन्नतें

(80) सलाम के बा'द ईमाम के लिये सुन्नत येह है के दाई या बाई तरफ़ रुख कर ले, दाई तरफ़ अफ़जल है और मुक्तदियों की तरफ़ रुख कर के ली बैठ सकता है जब के आपिरी सइ तक ली कोई इस के सामने (या'नी इस के येहरे की सीध में) नमाज़ न पढता हो (३३०) (غنية المستملی ص)

(81) मुन्फरिद बिगैर रुख बढले अगर वही दुआ मांगे तो जाईज है.

(عالمگیری ج १ ص ७७)

करमाने मुस्तफ़ा: حَسْبُكَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : जिस के पास मेरा जिक्र हुआ और उस ने मुझ पर दृढ़ पाक न पढा तहकीक वोह बढ भप्त हो गया. (उंन)

सुन्नते बा'दिय्या की सुन्नतें

(82) जिन इर्जों के बा'द सुन्नतें हैं, इन में बा'दे इर्ज कलाम न करना याहिये अगर्थे सुन्नतें हो जायेंगी मगर सवाब कम होगा और सुन्नतों में ताभीर भी मक़रूह है, इसी तरह बड़े बड़े अवराहो वजाइफ़ की भी इजाज़त नहीं (३००) (غنية المستملی ص ۳۳۱, ردالمحتار ج ۲ ص ۳۰۰) के बा'द) कबले सुन्नत मुप्तसर हुआ पर कनाअत याहिये वरना सुन्नतों का सवाब कम हो जायेगा. (बहारे शरीअत, डिस्सा: 3, स. 81, मदीनतुल मुशिह बरेली शरीफ़) (84) सुन्नत व इर्ज के दरमियान कलाम करने से असहूह (या'नी दुरुस्त तरीन) येही है के सुन्नत बातिल नहीं होती अलबत्ता सवाब कम हो जाता है. येही हुकूम हर उस काम का है जो मुनाफ़िये तहरीमा है (تنوير الابصار معه ردالمحتار ج ۲ ص ۵۵۸) (85) सुन्नतें वहीं न पढिये बल्के दाअें भाअें, आगे पीछे उट कर पढिये या घर जा कर अदा कीजिये. (عالمگیری ج ۱ ص ۷۷) (सुन्नतें पढने के लिये घर जाने की वजह से जो इस्ल (या'नी इंसिला) हुआ उस में हरज नहीं. (जगह बढलने) या घर जाने के लिये नमाज़ी के आगे से गुज़रना या उस की तरफ़ अपना येहरा करना गुनाह है. अगर निकलने की जगह न मिले तो वहीं सुन्नतें पढ लीजिये)

सुन्नतों का अहम मस्यला

जो इस्लामी भाई सुन्नते कब्लिय्या या सुन्नते बा'दिय्या पढ कर आ-मदो रफ़्त और बातचीत में लग जाते हैं वोह सरकारे आ'ला उज़रत رضوان الله تعالیٰ عنہ के इस इतवा मुबा-रका से दर्स हासिल करें. युनाय्ते,

करमाने मुस्तफ़ा: جسّی اللّٰه تعالیٰ علیہ والہ وسلم : जिस ने मुज़ पर अेक बार दुरेदे पाक पढा अल्लाह उस पर दस रडमतें बेजता है. (ط)

अेक ईस्तिज़्ता के जवाब में ईशाद है : “सुन्नते कब्लिय्या में “ओला” अव्वल वक्त है बशर्ते के इर्ज व सुन्नत के दरमियान कलाम या कोई इे'ल मुनाफ़िये नमाज़ न करे, और सुन्नते बा'दिय्या में मुस्तहब इर्जों से ईत्तिसाल है मगर येह के मकान पर आ कर पढे तो इस्ल (या'नी इासिले) में इरज नहीं, लेकिन अजनबी अइ़्खाल से इस्ल न याइये येह इस्ल (इासिला) सुन्नते कब्लिय्या व बा'दिय्या दोनों के सवाब को साकित और इन्हें तरीकअे मस्नूना से पारिज करता है.”

(इतावा र-अविय्या मुभर्रज, जि. 5, स. 139, रजा इाउन्देशन मर्कुल औलिया लाडोर)

आगे बयान कर्दा 86 सुन्नतों में ठिम्नन इस्लामी बहनों के लिये भी सुन्नतें हैं इन के लिये “आईशा सिद्दीका” के दस हुइइ की निस्बत से 10 सुन्नतें

- (1) इस्लामी बहन के लिये तकबीरे तडरीमा और तकबीरे कुनूत में सुन्नत येह है के कन्धों तक हाथ उठाअे (الهداية معه فتح القدير ج 1 ص 236)
- (2) डियाम में औरत और पुन्सा (या'नी डिजडा) उलटे हाथ की डथेली सीने पर छाती के नीचे रभ कर उस की पुशत पर सीधी डथेली रभे (غنية المستملی ص 294)
- (3) इस्लामी बहन के लिये रुकूअ में घुटनों पर हाथ रभना और उंग्लियां कुशादा न करना सुन्नत है (الهداية معه فتح القدير ج 1 ص 208)
- (4) रुकूअ में थोडा लुके या'नी सिई ईतना के हाथ घुटनों तक पडोंय जाअें पीठ सीधी न करे और घुटनों पर ओर न दे इकत हाथ रभ दे और हाथों की उंग्लियां मिली हुई रभे और पाउं लुके हुअे रभे, मर्दों की तरड पूब सीधे न कर दे (عالمگیری ج 1 ص 74)

करमाने मुस्तक़ा : عَلَى اللَّهِ تَعَالَى غَيْرِ اللَّهِ وَسَلَّمَ : जो शप्स मुज़ पर दुरेदे पाक पढ़ना भूल गया वोड़ जन्त का रास्ता भूल गया. (طرائق)

(5) सिमट कर सजदा करे या'नी बाजू करवटों से (6) पेट रानों से (7) रानें पिंडलियों से और (8) पिंडलियां जमीन से मिला दे (9) दूसरी² रकूअत के सजदों से झारिग हो कर दोनों² पाउं सीधी ज़ानिब निकाल दे और (10) उलटी सुरीन पर बैठे. (الهداية مع فتح القدير ج 1 ص 70)

“सादके या रसूलल्लाह” के 14 हुर्क की निरखत से नमाज़ के तकरीबन 14 मुस्तहब्बात

(1) निर्यत के अहकाम ज़बान से कल लेना (تنوير الابصار مع رد المحتار ج 2 ص 113) जब के दिल में निर्यत छाज़िर हो वरना तो नमाज़ डोगी डी नडीं (2) कियाम में दोनों² पन्ज़ों के दरमियान यार⁴ उंगल का झसिला होना (عالمگیری ج 1 ص 73) (3) कियाम की डालत में सजदे की जगल, (4) रुकूअ में दोनों² कदमों की पुशत पर, (5) सजदे में नाक की तरफ़, (6) का'दा में गोद की तरफ़, (7) पहले सलाम में सीधे कन्धे की तरफ़ और (8) दूसरे सलाम में उलटे कन्धे की तरफ़ नज़र करना (تنوير الابصار مع رد المحتار ج 2 ص 214) (9) मुर्हरिद को रुकूअ और सजदों में तीन³ बार से ज़ियादा (मगर ताक अदद म-सलन पांय, सात, नव) तस्बीह कलना (رد المحتار ج 2 ص 242) (10) “खिल्या” वगैरा में डज़रते सय्यिहुना अब्दुल्लाह बिन मुबारक मुस्तहब है. (مراقی الفلاح مع حاشية الطحطاوی ص 277) (11) जिस को फ़ांसी आये उस के लिये मुस्तहब है के जब तक मुर्किन हो न फ़ांसे (12) ज़माडी आये तो मुंह बन्द किये रडिये और न रुके तो डोटंटा के नीचे दबाईये, अगर ईस तरल भी न रुके तो कियाम में सीधे डाय की पुशत से और गैरे

करमाने मुस्तक़ा: صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: जिस के पास मेरा जिक्र हुआ और उस ने मुझ पर दुर्इद शरीक़ न पढा उस ने जफ़ा की. (عبدالرزاق)

क़ियाम में उलटे हाथ की पुश्त से मुंड ढांप लीजिये. जमाही रोकने का बेहतरीन तरीका ये है के हिल में जयाल कीजिये के सरकारे मदीना صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ और दीगर अम्बिया عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام को जमाही कल्मी नहीं आती थी. (13) (مُخَصَّصًا دَرِّ مَخْتَارٍ وَرَدِ الْمَخْتَارِ ج ٢ ص ٢١٥) क़ौरन रुक जाओगी (14) (عالمگیری ج ١ ص ٥٧ مکتبہ حقانیہ) सजदा जमीन पर बिला हाईल होना. (مراقی الفلاح معہ حاشیة الطحطاوی ص ٣٧١)

उमर बिन अब्दुल अजीज रَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ का अमल

हुज्जतुल ईस्लाम हजरते सय्यिदुना ईमाम मुहम्मद गज़ाली क़ौरन रुक जाओगी (13) (مُخَصَّصًا دَرِّ مَخْتَارٍ وَرَدِ الْمَخْتَارِ ج ٢ ص ٢١٥) क़ौरन रुक जाओगी (14) (عالمگیری ج ١ ص ٥٧ مکتبہ حقانیہ) सजदा जमीन पर बिला हाईल होना. (مراقی الفلاح معہ حاشیة الطحطاوی ص ٣٧١)

हुज्जतुल ईस्लाम हजरते सय्यिदुना ईमाम मुहम्मद गज़ाली क़ौरन रुक जाओगी (13) (مُخَصَّصًا دَرِّ مَخْتَارٍ وَرَدِ الْمَخْتَارِ ج ٢ ص ٢١٥) क़ौरन रुक जाओगी (14) (عالمگیری ج ١ ص ٥٧ مکتبہ حقانیہ) सजदा जमीन पर बिला हाईल होना. (مراقی الفلاح معہ حاشیة الطحطاوی ص ٣٧١)

हुज्जतुल ईस्लाम हजरते सय्यिदुना ईमाम मुहम्मद गज़ाली क़ौरन रुक जाओगी (13) (مُخَصَّصًا دَرِّ مَخْتَارٍ وَرَدِ الْمَخْتَارِ ج ٢ ص ٢١٥) क़ौरन रुक जाओगी (14) (عالمگیری ج ١ ص ٥٧ مکتبہ حقانیہ) सजदा जमीन पर बिला हाईल होना. (مراقی الفلاح معہ حاشیة الطحطاوی ص ٣٧١)

हुज्जतुल ईस्लाम हजरते सय्यिदुना ईमाम मुहम्मद गज़ाली क़ौरन रुक जाओगी (13) (مُخَصَّصًا دَرِّ مَخْتَارٍ وَرَدِ الْمَخْتَارِ ج ٢ ص ٢١٥) क़ौरन रुक जाओगी (14) (عالمگیری ج ١ ص ٥٧ مکتبہ حقانیہ) सजदा जमीन पर बिला हाईल होना. (مراقی الفلاح معہ حاشیة الطحطاوی ص ٣٧١)

गर्ह आलूद पेशानी की इज़ीलत

हुज्जतुल ईस्लाम हजरते सय्यिदुना ईमाम मुहम्मद गज़ाली क़ौरन रुक जाओगी (13) (مُخَصَّصًا دَرِّ مَخْتَارٍ وَرَدِ الْمَخْتَارِ ج ٢ ص ٢١٥) क़ौरन रुक जाओगी (14) (عالمگیری ج ١ ص ٥٧ مکتبہ حقانیہ) सजदा जमीन पर बिला हाईल होना. (مراقی الفلاح معہ حاشیة الطحطاوی ص ٣٧١)

हुज्जतुल ईस्लाम हजरते सय्यिदुना ईमाम मुहम्मद गज़ाली क़ौरन रुक जाओगी (13) (مُخَصَّصًا دَرِّ مَخْتَارٍ وَرَدِ الْمَخْتَارِ ج ٢ ص ٢١٥) क़ौरन रुक जाओगी (14) (عالمگیری ج ١ ص ٥٧ مکتبہ حقانیہ) सजदा जमीन पर बिला हाईल होना. (مراقی الفلاح معہ حاشیة الطحطاوی ص ٣٧١)

हुज्जतुल ईस्लाम हजरते सय्यिदुना ईमाम मुहम्मद गज़ाली क़ौरन रुक जाओगी (13) (مُخَصَّصًا دَرِّ مَخْتَارٍ وَرَدِ الْمَخْتَارِ ج ٢ ص ٢١٥) क़ौरन रुक जाओगी (14) (عالمگیری ج ١ ص ٥٧ مکتبہ حقانیہ) सजदा जमीन पर बिला हाईल होना. (مراقی الفلاح معہ حاشیة الطحطاوی ص ٣٧١)

हुज्जतुल ईस्लाम हजरते सय्यिदुना ईमाम मुहम्मद गज़ाली क़ौरन रुक जाओगी (13) (مُخَصَّصًا دَرِّ مَخْتَارٍ وَرَدِ الْمَخْتَارِ ج ٢ ص ٢١٥) क़ौरन रुक जाओगी (14) (عالمگیری ج ١ ص ٥٧ مکتبہ حقانیہ) सजदा जमीन पर बिला हाईल होना. (مراقی الفلاح معہ حاشیة الطحطاوی ص ٣٧١)

(مجمع الزوائد ج ٢ ص ٣١١ حدیث ٢٧٦١ دارالفکر بیروت)

करमाने मुस्तफ़ि। عَلَى اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : जो मुज़ पर रोजे जुमुआ दुरुद शरीफ़ पढ़ेगा मैं क़ियामत के दिन उसे की शफ़ाअत क़रूँगा. (क़रआमल)

भीठे भीठे ईस्लामी भाईयो ! दौराने नमाज़ पेशानी से मिट्टी छुड़ाना बेहतर नहीं और **مَعَادُ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ** तक़ब़ुर के तौर पर छुड़ाना गुनाह है. और अगर न छुड़ाने से तक़लीफ़ होती हो या ज़याल बटता हो तो छुड़ाने में हरज़ नहीं. अगर किसी को रियाकारी का भौंफ़ हो तो उसे याहिये के नमाज़ के बा'द पेशानी से मिट्टी साफ़ कर ले.

“भाईयो नमाज़ के मुहसिदात सीपना इर्ज़ है”

के उन्तीस हुरूफ़ की निस्बत से नमाज़ तोडने वाली 29 बातें

- (1) भात करना (दुर् مختار معه ردالمحتار ج ٢ ص ٤٤٥)
 - (2) किसी को सलाम करना
 - (3) सलाम का जवाब देना (مراقى الفلاح معه حاشية الطحطاوى ص ٣٢٢)
 - (4) छींक का जवाब देना (नमाज़ में जुद को छींक आये तो ज़ामोश रहे) अगर **اللّٰهُمَّ** कल लिया तब भी हरज़ नहीं और अगर उस वक़्त उम्द न की तो फ़ारिग हो कर कले. (عالمگیری ج ١ ص ٩٨)
 - (5) जुश ज़बरी सुन कर जवाबन **اللّٰهُمَّ** कलना (عالمگیری ج ١ ص ٩٩)
 - (6) जुरी ज़बर (या किसी की मौत की ज़बर) सुन कर **وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ**
 - (7) अज़ान का जवाब देना (عالمگیری ج ١ ص ١٠٠)
 - (8) अद्लाह **عَزَّوَجَلَّ** का नाम सुन कर जवाबन **جَلَّ جَلَالُهُ** कलना (غنية المستملی ص ٤٢٠)
 - (9) सरकारे मदीना **صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** का ईस्मे गिरामी सुन कर जवाबन दुरुद शरीफ़ पढ़ना. म-सलन **“صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ”** कलना (عالمگیری ج ١ ص ٩٩)
- (अगर **جَلَّ جَلَالُهُ** या **صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** जवाब की निश्चयत से न कला तो नमाज़ न टूटी)

करमाने मुस्तफ़ा: صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: मुज़ पर हुड़ुदे पाक की कसरत करो बेशक येह तुम्हारे लिये तदारत है. (शु०)

नमाज़ में रोना

(10) दह या मुसीबत की वजह से येह अह्काज़ “आह”, “ओह”, “उह”, “तुह” निकल गये या आवाज़ से रोने में हई पैदा हो गये नमाज़ फ़ासिद हो गई. अगर रोने में सिर्फ़ आंसू निकले आवाज़ व हुड़ुह नही निकले तो हरज नही. (عالمگیری ج ۱ ص ۱۰۱) अगर नमाज़ में इमाम के पढने की आवाज़ पर रोने लगा और “अरे”, “नअम”, “हां” ज़बान से ज़री हो गया तो कोई हरज नही के येह फ़ुशूअ के बाईस है और अगर इमाम की फ़ुश इल्हानी के सबब येह अह्काज़ कहे तो नमाज़ टूट गई. (دُرّ مختار، ردالمحتار ج ۲ ص ۴۰۶)

नमाज़ में ખાંસना

(11) मरीज़ की ज़बान से बे इज़्तियार आह ! ओह ! निकला नमाज़ न टूटी. यूं ही छींक, ज़माही, ख़ांसी, उकार वगैरा में ज़ितने हुड़ुह मज़बूरन निकलते हैं वही मुआफ़ है. (دُرّ مختار ج ۱ ص ۴۱۶) (12) हूंकने में अगर आवाज़ न पैदा हो तो वोह ख़ांसी की मिसल है और नमाज़ फ़ासिद नही होती मगर कस्दन हूंकना मक़रुह है और अगर दो^२ हई पैदा हों जैसे उह, तुह तो नमाज़ फ़ासिद हो गई. (غنیه ص ۴۲۷) (13) ख़न्कारने में जब दो^२ हुड़ुह ज़ाहिर हों जैसे “अभ” तो मुफ़्फ़िद है. हां अगर उज़र या सहीह मक़सद हो म-सलन तबीअत का तकाज़ा हो या आवाज़ साफ़ करने के लिये हो या इमाम को लुक़मा देना मक़सूद हो या कोई आगे से गुज़र रहा हो उस को मु-तवज़्जेह करना हो इन वुजूहात की बिना पर ख़ांसने में कोई मुज़ा-यका नही. (دُرّ مختار، ردالمحتار ج ۲ ص ۴۰۵)

करमाने मुस्तफ़ि। عَلَى اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : تُوْمَ جَلَا بُمِ لُو مُوْجَ پَر دُرْدُ پَدُو کُو تُوْمَحَارَا دُرْدُ مُوْجَ تَکَ پَدُوْیَتَا هُ. (طُرَانِ)

दौराने नमाज़ देष कर पढना

(14) मुस्हफ़ शरीफ़ से, या किसी कागज़ से या मेहराब वगैरा में लिखा हुआ देष कर कुरआन शरीफ़ पढना (हां अगर याद पर पढ रहे हैं और मुस्हफ़ शरीफ़ या मेहराब वगैरा पर सिर्फ़ नज़र है तो हरज नहीं, अगर किसी कागज़ वगैरा पर आयात लिपी हैं इससे देषा और समजा मगर पढा नहीं इसमें भी कोई मुज़ा-यका नहीं) (ردالمحتار ج ۲ ص ۶۶۴) (15) इस्लामी किताब या इस्लामी मज़मून दौराने नमाज़ ज़ान भूज़ कर देषना और इरादतन समजना मकरूह है (عالمگیری ج ۱ ص ۱۰۱) दुन्यवी मज़मून हो तो ज़ियादा कराखियत है, लिहाजा नमाज़ में अपने करीब किताबें या तहरीर वाले पेकेट और शॉपिंग बैग, मोबाइल फ़ोन या घड़ी वगैरा इस तरह रखिये के इन की लिफाई पर नज़र न पड़े या इन पर इमाल वगैरा उढा दीजिये, नीज़ दौराने नमाज़ सुतून वगैरा पर लगे हुअे स्टीकर्ज़, इशितहार और इमों वगैरा पर नज़र डालने से भी बरिये.

अ-मले कसीर की ता'रीफ़

(16) अ-मले कसीर नमाज़ को इंसिद कर देता है जब के न नमाज़ के आ'माल से हो न ही इस्लाहे नमाज़ के लिये किया गया हो. जिस काम के करने वाले को दूर से देषने से औसा लगे के येह नमाज़ में नहीं है बल्के अगर गुमान भी गालिब हो, के नमाज़ में नहीं तब भी अ-मले कसीर है. और अगर दूर से देषने वाले को शको शुबा है के नमाज़ में है या नहीं तो अ-मले कलील है और नमाज़ इंसिद न होगी.

(دُرِّ مختار مع ردالمحتار ج ۲ ص ۶۶۴)

करमाने मुस्तफ़ा: على الله تعالى وعليه وآله وسلم: जिस ने मुज़ पर दस भरतबा दुरुदे पाक पढा अल्लाह उंस पर सो रडमते नाज़िल करमाता है. (طبرانی)

दौराने नमाज़ लिबास पहनना

- (17) दौराने नमाज़ कुर्ता या पाजामा पहनना या तलबन्द बांधना
(ردالمحتار ج ٢ ص ٦٥) (18) दौराने नमाज़ सित्र खुल जाना और इसी
हालत में कोई रुकून अदा करना या तीन³ बार سُبْحَانَ اللَّهِ कलने की
मिक्दार वक़्फ़ा गुज़र जाना (دُرِّ مختار معه ردالمحتار ج ٢ ص ٦٧)

नमाज़ में कुछ निगलना

- (19) मा'भूली सा भी जाना या पीना म-सलन तिल बिगैर यभाअे
निगल लिया. या कतरा मुंड में गिरा और निगल लिया (غنية المستملی ص ٤١٨)
(20) नमाज़ शुरू करने से पहले ही कोई चीज़ दांतों में मौजूद थी
उसे निगल लिया तो अगर वोह यने के बराबर या इस से ज़ियादा
थी तो नमाज़ फ़ासिद हो गई और अगर यने से कम थी तो मक़रुह.
(مراقی الفلاح معه حاشية الطحطاوی ص ٣٤١) (21) नमाज़ से क़बल कोई भीठी चीज़
खाई थी अब उस के अज्जा मुंड में बाकी नहीं सिर्फ़ लुआबे दहन में कुछ
असर रह गया है इस के निगलने से नमाज़ फ़ासिद न होगी
(خلاصة الفتاوی ج ١ ص ١٢٧) (22) मुंड में शकर वगैरा हो, के घुल कर लटक
में पड़ोयती है तो नमाज़ फ़ासिद हो गई (ایضاً) (23) दांतों से खून
निकला अगर थूक गा़लिब है तो निगलने से फ़ासिद न होगी वरना
हो जायेगी (عالمگیری ج ١ ص ١٠٢) (ग-लबे की अलामत येह है के अगर लटक
में मज़ा महसूस हुवा तो नमाज़ फ़ासिद हो गई, नमाज़ तोडने में जाईके का
अे'तिबार है और वुज़ू टूटने में रंग का लिहाज़ा वुज़ू उस वक़्त टूटता है जब
थूक सुर्ष हो जाअे और अगर थूक जर्द है तो वुज़ू बाकी है)

करमाने मुस्तक़ा: على الله تعالى غيبه والله وسلم: जिस के पास मेरा जिक्र हो और वोह मुज पर दुइद शरीक न पढे तो वोह लोगो में से कन्जूस तरीन शप्स है. (ज़िउरिया)

दौराने नमाज़ किब्ले से घन्हिराई

(24) बिला उज़र सीने को सभ्ते का'बा से 45 द-रज़ा या ईस से ज़ियादा ફेरना मुफ़्सिद नमाज़ है, अगर उज़र से हो तो मुफ़्सिद नहीं. म-सलन हदस (या'नी वुजू टूट जाने) का गुमान हुवा और मुंह फ़ेरा ही था के गुमान की ग-लती ज़ाहिर हुई तो अगर मस्जिद से पारिज न हुवा हो नमाज़ फ़ासिद न होगी. (दु'र مختار معه ردالمحتار ج २ ص ६१८)

नमाज़ में सांप मारना

(25) सांप बिच्छू को मारने से नमाज़ नहीं टूटती जब के न तीन³ कदम यलना पडे न तीन³ जर्ब की छाजत हो वरना फ़ासिद हो जायेगी. (غنية المستملی ص ६२३) सांप बिच्छू को मारना उस वक्त मुबाह है जब के सामने से गुज़रे और ईजा देने का भौंक हो, अगर तकलीफ़ पड़ोयाने का अन्देशा न हो तो मारना मक़ूह है (عالمگیری ج १ ص १०३) (26) पै दूर पै तीन बाल उभेडे या तीन जूअें मारीं या अेक ही जूँ को तीन बार मारा नमाज़ ज़ाती रही और अगर पै दूर पै न हो तो नमाज़ फ़ासिद न हुई मगर मक़ूह है. (ایضاً)

नमाज़ में पुजाना

(27) अेक रुक़्न में तीन³ बार पुजाने से नमाज़ फ़ासिद हो ज़ाती है या'नी यूँ के पुजा कर हाथ हटा लिया फिर पुजया फिर हटा लिया येह दो² बार हुवा अगर अब ईसी तरह तीसरी³ बार क्रिया तो नमाज़ ज़ाती रहेगी. अगर अेक बार हाथ रफ़ कर यन्द बार ह-र-कत दी तो येह अेक ही मरतबा पुजाना कडा ज़ायेगा. (عالمگیری ج १ ص १०६، غنية المستملی ص ६२३)

करमाने मुस्तक़ा : على الله تعالى غفر له وسلم : उस शिप्स की नाक भाक आवूद हो जिस के पास मेरा जिक्र हो और वोह मुज पर दुइदे पाक न पड़े. (76)

कहने में ग-लतियां

(28) तक्बीराते ईन्तिकालात में **اللَّهُ أَكْبَرُ** के “**ا**” को दराज़ किया या’नी आद्लाह या आकबर कहा या “**ب**” के बा’द “**ا**” बढ़ाया या’नी “अकबार” कहा तो नमाज़ फ़ासिद हो गई और अगर तक्बीरे तहरीमा में औसा हुवा तो नमाज़ शुइअ ही न हुई (दُرِّ مختار معه ردالمحتار ج २ ص १७७) अक्सर मुकब्बिर (या’नी जमाअत में इमाम की तक्बीरात पर जोर से तक्बीरें कल कर आवाज़ पड़ोयाने वाले) येह ग-लतियां ज़ियादा करते हैं और यूं अपनी और दूसरों की नमाज़ें गारत करते हैं. लिहाज़ा जो ईन अहकाम को अख़्शी तरह न ज़ानता हो उसे मुकब्बिर नहीं बनना चाहिये. (29) क़िराअत या अज़कारे नमाज़ में औसी ग-लती जिस से मा’ना फ़ासिद हो जायें नमाज़ फ़ासिद हो जाती है. (दُرِّ مختار معه ردالمحتار ج २ ص ६७३)

“पक्का नमाज़ी भिला शक ज़ुन्नतुल हिरदौस अ हकदार है”

के बतीस हुइइ की निरबत से नमाज़ के 32 मक़इहाते तहरीमा

(1) दाढी, बदन या लिबास के साथ खेलना (१०६ व १०७) (2) कपडा समेटना, जैसा के आज कल बा’ज लोग सजदे में जाते वक्त पाजमा वगैरा आगे या पीछे से उठा लेते हैं (غنية المستملی ص ३३७) अगर कपडा बदन से थिपक जाये तो अेक हाथ से छुडाने में हरज नहीं.

कन्धों पर यादर लटकाना

(3) सटल या’नी कपडा लटकाना. म-सलन सर या कन्धे पर ईस तरह से यादर या रुमाल वगैरा डालना के दोनों² कनारे लटक्ते हों, हां अगर अेक कनारा दूसरे कन्धे पर डाल दिया और दूसरा लटक रहा है तो हरज नहीं.

करमाने मुस्तक़ी : على الله تعالى غيبه و الله وسلم : जिस ने मुज़ पर रोजे जुमुआ दो सो बार दुरुद पाक पढ़ा उस के दो सो साल के गुनाह मुआफ़ होंगे. (अल-अमल)

(4) आज कल बा'ज़ लोग अेक कन्धे पर ँस तरह इमाल रभते हें के ँस का अेक सिरा पेट पर लटक रहा ढोता है और दूसरा पीठ पर. ँस तरह नमाज़ पढना मक़्ज़े तहरीमी है. (बहारे शरीअत, हिस्सा : 3, स. 165) (5) दोनों² आस्तीनों में से अगर अेक आस्तीन भी आधी कलाँ से ज़ियादा यढी हुँ ढो तो नमाज़ मक़्ज़े तहरीमी ढोगी. (दु'रुं مختार معه ردالمحتار ج 2 ص 488)

तबर्ष हाजत की शिदत

(6) पेशाब, पापाना या रीह की शिदत ढोना. अगर नमाज़ शुइअ करने से पहले ढी शिदत ढो तो वक्त में वुस्अत ढोने की सूरत में नमाज़ शुइअ करना ढी गुनाह है. ढां अगर अैसा है के इरागत और वुजू के बा'द नमाज़ का वक्त अत्म ढो ज़अेगा तो नमाज़ पढ लीजिये. और अगर दौराने नमाज़ येह ढालत पैदा हुँ तो अगर वक्त में गुन्जर्श ढो तो नमाज़ तोड देना वाजिब है, अगर ँसी तरह पढ ली तो गुनहगार ढोंगे. (दु'रुं مختार معه ردالمحتار ج 2 ص 492)

नमाज़ में कंकरियां हटाना

(7) दौराने नमाज़ कंकरियां हटाना मक़्ज़े तहरीमी है (غنية المستملی ص 338) ढजरते सय्यिदुना ज़ाबिर رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ इरमाते हें, मैं ने दौराने नमाज़ कंकरी हूने से मु-तअद्लिक बारगाहे रिसालत में सुवाल किया. ँर्शाद हुवा : "अेक बार. और अगर तू ँस से बये तो सियाह आंभ वाली¹⁰⁰ गिंटनियों से बेढतर है." (صحيح ابن خزيمة، حديث 897، ج 2، ص 52، المكتب الاسلامی بیروت) अगर सुन्नत के मुताबिक सजदा अदा न ढो सकता ढो तो अेक

करमाने मुस्तक़ा : صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : मुज पर कसरत से दुर्रदे पाक पढे बेशक तुम्हारा मुज पर दुर्रदे पाक पढना तुम्हारे गुनाहों के लिये मक्किरत है. (हासफ़)

या'नी अेक हाथ की उंगलियां दूसरे हाथ की उंगलियों में डालना. (غنية المستطى ص ३३८) सरकारे मदीना صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ने फ़रमाया : “जो मस्जिद के धरादे से निकले तो तश्बीक या'नी अेक हाथ की उंगलियां दूसरे हाथ की उंगलियों में न डाले बेशक वोह नमाज (के हुकम) में है. (مسند امام احمد بن حنبل حديث १८१२६ ج ६ ص ३२० دار الفكر بيروت) ज़ाते वक्त और नमाज के इन्तिज़ार में भी येह दोनों चीज़ें मक़रूहे तहरीमी हैं. (مراقى الفلاح معه حاشية الطحطاوى ص ३६६)

कमर पर हाथ रपना

(10) कमर पर हाथ रपना (ايضاً ३६७) नमाज के धलावा भी (बिला उज़र) कमर पर (या'नी दोनों² पडलूओं के वस्त में) हाथ नही रपना याहिये (ذَرِّمَخْتَارُ مَعَهُ رَدَّالْمَحْتَارُ ج २ ص ६९६) अदलाह उज़ुज के मडबूअ करमाते हैं : “कमर पर हाथ रपना जहन्नमियों की राहत है.” (السنن الكبرى ج २ ص ६०८ حديث ३०६६ دارالكتب العلمية بيروت) या'नी येह यहूदियों का फ़ैल है के वोह जहन्नमी हैं वरना जहन्नमियों के लिये जहन्नम में क्या राहत है !

(हाशिया बहारे शरीअत, हिस्सा : 3, स. 115, मक्तबअे इस्लामिय्या लाहोर)

आस्मान की तरफ़ देपना

(11) निगाह आस्मान की तरफ़ उठाना (البحر الرائق ج २ ص ३८) अदलाह उज़ुज के मडबूअ करमाते हैं : “क्या डाल है उन लोगों का जो

करमाने मुस्तक़ा: حَسْبِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ : जो मुज पर ओक दुइद शरीक़ पढता है अल्लाह उस के लिये ओक कीरात अज्र लिखता है और कीरात उहुद पहाड जितना है. (عمران)

नमाज में आस्मान की तरफ़ आंभें उठाते हैं इस से बाज रहें या उन की आंभें उयक ली जायेंगी. (12) (صحیح بخاری ج ۲ ص ۱۰۳) धर धर मुंड डेर कर देभना, याहे पूरा मुंड डेरा या थोडा. मुंड डेरे बिगैर सिर्फ़ आंभें डिरा कर धर धर बे ज़रत देभना मक़ड़े तन्ज़ीही है और नादिरन किसी ग-रजे सहीह के तहत हो तो हरज नहीं. (बहारे शरीअत, हिस्सा : 3, स. 194) सरकारे मदीना, सुल्ताने बा करीना, करारे कल्बो सीना, कैज गन्नाहना صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ करमाते हैं : “जो बन्दा नमाज में है अल्लाह की रहमते फ़ारसा उस की तरफ़ मु-तवज्जहेह रहती है जब तक धर धर न देभे, जब उस ने अपना मुंड डेरा उस की रहमत ली डिर जाती है.” (13) (ابو داؤد ج ۱ ص ۳۳۴ حديث ۹۰۹ دار احیاء التراث العربی بیروت) मर्द का सजदे में क्लार्थयां बिछाना. (نَدْرٍ مَخْتَارٍ مَعَهُ رَدَّالْمَحْتَارِ ج ۲ ص ۴۹۶)

नमाजी की तरफ़ देभना

(14) किसी शप्स के मुंड के सामने नमाज पढना. दूसरे शप्स को ली नमाजी की तरफ़ मुंड करना ना ज़रत व गुनाह है. कोई पडले से येहरा डिये हुअे हो और अब कोई उस के येहरे की तरफ़ रुफ़ कर के नमाज शुइअ करे तो नमाज शुइअ करने वाला गुनहगार हुवा और इस नमाजी पर कराहत आई वरना येहरा करने वाले पर गुनाह व कराहत है (نَدْرٍ مَخْتَارٍ مَعَهُ رَدَّالْمَحْتَارِ ج ۲ ص ۴۹۶) जो लोग जमाअत का सलाम डिर जाने के बा'द अपने अैन पीछे नमाज पढने वाले की तरफ़ येहरा कर के उस को देभते हैं या पीछे जाने के लिये उस की तरफ़ मुंड कर के षडे हो जाते हैं के

करमाने मुस्तफ़ा: عَلَى النَّعْمَانِ عَلَيْهِ وَالْوَسْمُ : जिस ने किताब में मुज पर दुरुद पाक लिखा तो जब तक मेरा नाम उस में रहेगा फिरिश्ते उस के लिये ईस्तिस्कार करते रहेंगे. (طبرانی)

येह सलाम फ़ेरे तो निकलूं, या नमाज़ी के ठीक सामने खड़े हो कर या बैठ कर ओ'लान करते, दर्स देते, बयान करते हैं येह सभ तौबा करें (15) नमाज़ में नाक और मुंह छुपाना (16) (عالمگیری ج 1 ص 106) (16) बिला ज़रूरत पन्कार (या'नी बलगम वगैरा) निकालना (17) (غنية المستملی ص 339) (17) कस्टन जमाही लेना (18) (مراقی الفلاح مع حاشیة الطحطاوی ص 304) (18) (अगर खुद ब खुद आये तो हरज नहीं मगर रोकना मुस्तहब है) अल्लाह عَزَّوَجَلَّ के मलबूब صَلَّی اللّهُ تَعَالَى عَلَیْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ इरमाते हैं : “जब नमाज़ में किसी को जमाही आये तो जहां तक हो सके रोके के शैतान मुंह में दाबिल हो जाता है.” (صحيح مسلم ص 413) (18) उलटा कुरआने मज्हद पढना (म-सलन पहली रुकूअत में “تَبَّتْ” पढी और दूसरी² में “اِدْجَاءَ” (19) किसी वाजिब को तर्क करना (مراقی الفلاح مع حاشیة الطحطاوی ص 340) (19) म-सलन “कौमा” और “जल्सा” में पीठ सीधी होने से पहले डी रुकूअ या दूसरे सज्दे में यला जाना (عالمگیری ج 1 ص 107) (19) ईस गुनाह में मुसल्मानों की अख़्शी भासी ता'दाह मुलव्वस नज़र आती है, याद रभिये ! जितनी भी नमाज़ें ईस तरह पढी होंगी सभ का लौटाना वाजिब है (20) “कियाम” के एलावा किसी और मौक़अ पर कुरआने मज्हद पढना (مراقی الفلاح مع حاشیة الطحطاوی ص 301) (21) किराअत रुकूअ में पड़ोय कर खत्म करना (ایضاً) (22) ईमाम से पहले मुक्तदी का रुकूअ व सुजूद वगैरा में यला जाना या ईस से पहले सर उठाना. (ردالمحتار ج 2 ص 513) (22) उज़रते सय्यिहुना ईमामे मालिक उज़रते सय्यिहुना अबू हुरैरा رَضِيَ اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ से रिवायत करते

फ़रमाने मुस्तफ़ी صلى الله تعالى عليه وآله وسلم : जिस ने मुज़ पर अेक बार दुरदे पाक पढा अद्लाह उस पर दस रहमतेँ भेजता है. (स्ल.)

हैँ के सरकार صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ने फ़रमाया : जो ईमाम से पहले सर उठाता और लुकाता है उस की पेशानी के बाल शैतान के हाथ में हैँ. (مَوْطَأُ اِمَامٍ مَالِكٌ حَدِيثٌ ٢١٢ ج ١ ص ١٠٢ دار المعرفه بيروت)

हुँरैरा رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ से रिवायत है अद्लाह عَزَّوَجَلَّ के मडबूब صلى الله تعالى عليه وآله وسلم फ़रमाते हैँ : “क्या जो शप्स ईमाम से पहले सर उठाता हैँ इस से डरता नहीँ के अद्लाह तआला उस का सर गधे का सर कर दे.” (صحيح مسلم، ١ ج، ١ ص ١٨١)

गधे जैसा मुंह

डरते सय्यिदुना ईमाम न-ववी عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْكُوفَى हदीस लेने के लिये अेक बडे मशहूर शप्स के पास दिमशक गअे. वोह पढा डाल कर पढाते थे, मुदतों तक उन के पास बहुत कुछ पढा मगर उन का मुंह न देभा, जब जमानअे दराज गुजरा और उन मुहदिस साहिब ने देभा के ईन को (या'नी ईमाम न-ववी) को ईल्मे हदीस की बहुत ज्वालिश है तो अेक रोज पढा हटा दिया ! देभते क्या हैँ के उन का गधे जैसा मुंह हैँ !! उन्हों ने फ़रमाया : साहिब जादे ! दौराने जमाअत ईमाम पर सभ्कत करने से डरो के येह हदीस जब मुज़ को पढोंयी मैं ने ईसे मुस्तअ्मद (या'नी बा'ज रावियों की अ-दमे सिद्धत के बाईस दूर अज डियास) जना और मैं ने ईमाम पर कस्दन सभ्कत की तो मेरा मुंह अैसा हो गया जैसा तुम देभ रहे हो.

(अडारे शरीअत, डिस्सा : 3, स. 95, मदीनतुल मुर्शिद अरेली शरीफ़)

इरमाने मुस्तफ़ी: على الله تعالى غلبوا لله وسلم: जो शप्स मुज़ पर दुरुदे पाक पढना भूल गया वोह जन्त का रास्ता भूल गया. (طبرانی)

(23) दूसरा कपडा डोने के बा वुजूद सिर्फ़ पाजामा या तडबन्द में नमाज़ पढना (24) किसी आने वाले शनासा की खातिर इमाम का नमाज़ को तूल देना (عالمگیری ج ۱ ص ۱۰۷) अगर उस की नमाज़ पर इआनत (मदद) के लिये ओक द्यो तस्बीह की कदर तूल दिया तो हरज नही (ايضاً) (25) जमीने मगसूबा (या'नी ऐसी जमीन जिस पर ना ज़ाईल कब्ज़ा किया डो) या (26) पराया भेत जिस में ज़राअत मौजूद है (مراقى الفلاح معه حاشية الطحطاوى ص ۲۰۸، دُرِّ مختار معه ردالمحتار ج ۲ ص ۵۲) या (27) जुते डुअे भेत में (ايضاً) या (28) कध्र के सामने जभ के कध्र और नमाज़ी के बीच में कोई चीज़ ड़ाईल न डो नमाज़ पढना (عالمگیری ج ۱ ص ۱۰۷) (29) कुर्फ़र के इबादत आनों में नमाज़ पढना बडके इन में ज़ाना भी मम्नूअ है (ردالمحتار ج ۲ ص ۵۳) (30) कुरते वगैरा के बटन खुले डोना जिस से सीना खुला रहे मक़ड़े तडरीमी है डं अगर नीचे कोई और कपडा है जिस से सीना नही खुला तो मक़ड़े तन्जीडी है.

नमाज़ और तसावीर

(31) ज़ानदार की तस्वीर वाला लिबास पहन कर नमाज़ पढना मक़ड़े तडरीमी है नमाज़ के इलावा भी ऐसा कपडा पहनना ज़ाईल नही (دُرِّ مختار معه ردالمحتار ج ۲ ص ۵۰۲) (32) नमाज़ी के सर पर या'नी छत पर या सज़दे की जगड पर या आगे या दाअें या बाअें ज़ानदार की तस्वीर आवेज़ां डोना मक़ड़े तडरीमी है और पीछे डोना भी मक़ड़

करमाने मुस्तफ़ा : حَسْبُكَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : जिस के पास मेरा जिक्र हुआ और उस ने मुझ पर दृढ़ता पाक न पढा तहकीक वोह बह भन्त हो गया. (उंन)

है मगर गुजश्ता सूरतों से कम. अगर तस्वीर इर्श पर है और इस पर सजदा नहीं होता तो कराहत नहीं. अगर तस्वीर गैर जानदार की है जैसे दरिया पहाड वगैरा तो इस में कोई मुजा-यका नहीं. इतनी छोटी तस्वीर हो जिसे जमीन पर रख कर खड़े हो कर देखें तो आ'जा की तहसील न दिखाई दे (जैसा के उमूमन तवाफ़े का'बा के मन्जर की तस्वीरें बहुत छोटी होती हैं येह तसावीर) नमाज़ के लिये बाईसे कराहत नहीं हैं (غنية المستملی ص ۳۴۷, دُرِّ مختار معه ردالمحتار ج ۲ ص ۵۰۳) में अक भी येहरा वाजेह हो गया तो मुमा-न-अत बाकी रहेगी. येहरे के इलावा म-सलन हाथ, पाउं, पीठ, येहरे का पिछला हिस्सा या अैसा येहरा जिस की आंभें, नाक, छोट वगैरा सब आ'जा मिटे हुअे हों अैसी तसावीर में कोई हरज नहीं.

**“या रज ! तेरी पसन्द की नमाज़ पढने की सआहत मिले”
के तेंतीस हुर्र की निरबत से नमाज़ के 33 मकरहाते तन्गीहा**

(1) दूसरे कपडे मुयस्सर होने के बा वुजूह कामकाज के लिबास में नमाज़ पढना. (غنية المستملی ص ۳۳۷) मुंड में कोई चीज़ लिये हुअे होना. अगर इस की वजह से किराअत ही न हो सके या अैसे अह्काज निकलें के जो कुरआने पाक के न हों तो नमाज़ ही इंसिद हो जाओगी. (دُرِّ مختار، ردالمحتار) (2) सुस्ती से नंगे सर नमाज़ पढना (عالمگیری ج ۱ ص ۱۰۶) नमाज़ में टोपी या इमामा शरीफ़ गिर पडा तो उठा लेना अइजल है जब के अ-मले कसीर की हाजत न पडे वरना नमाज़ इंसिद हो जाओगी और बार बार उठाना पडे तो छोड दें

करमाने मुस्तफ़ा: حَسْبُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالرِّسْمُ : जिस ने मुज़ पर अेक बार दु़ुदे पाक पढा अल्लाह उस पर दस रहमतेँ बेजता है. (ط)

- और न उठाने से पुशूअ व पुजूअ मकसूद हो तो न उठाना अइज़ल है. (दु़ुं مختار معه ردالمحتار ج २ ص ६९१) अगर कोई नंगे सर नमाज़ पढ रखा हो या उस की टोपी गिर पडी हो तो उस को दूसरा शप्स टोपी न पहनाये
- (3)** रुकूअ या सजदे में बिला ज़रूरत तीन³ बार से कम तस्बीह कलना (अगर वक्त तंग हो या ट्रेन चल पडने के भौंफ़ से हो तो हरज नहीं. अगर मुक्तदी तीन³ तस्बीहात न कलने पाया था के इमाम ने सर उठा लिया तो इमाम का साथ दे) **(4)** नमाज़ में पेशानी से पाक या घास छुडाना. हां अगर इन की वजह से नमाज़ में ध्यान बटता हो तो छुडाने में हरज नहीं
- (5)** सजदा वगैरा में उंग्लियां किबला से डेर देना (عالمگیری ج १ ص १०६) **(6)** मर्द का सजदे में रान को पेट से थिपका देना (فتاویٰ قاضی خان معه عالمگیری ج १ ص ११९) **(7)** नमाज़ में हाथ या सर के इशारे से सलाम का जवाब देना (دُرّ مختار معه ردالمحتار ج २ ص ६९७) ज़मान से जवाब देना मुफ़िसेदे नमाज़ है (مراقی الفلاح معه حاشیة الطحطاوی ص ३२२ قدیمی کتب خانہ) **(8)** नमाज़ में बिला उज़ूर यार जानूं या'नी थोकडी मार कर बैठना (غنية المستملی ص ३३९) **(9)** अंगडाई लेना और **(10)** इरादतन फांसना, फन्कारना (غنية المستملی ص ३६०) अगर तबीअत याहती हो तो हरज नहीं
- (11)** सजदे में जाते हुअे घुटने से पहले बिला उज़ूर हाथ जमीन पर रचना (عالمگیری ج १ ص १०७) **(12)** उठते वक्त बिला उज़ूर हाथ से कबल घुटने जमीन से उठाना. (غنية المستملی ص ३३०) **(13)** रुकूअ में सर को पीठ से उंग्या नीया करना (غنية المستملی ص ३३८) **(14)** नमाज़ में सना, तअव्वुज़, तस्मिया और आमीन ओर से कलना (عالمگیری ج १ ص १०७) **(15)** बिगैर उज़ूर दीवार वगैरा

करमाने मुस्तक़ी : على الله تعالى غيبه والله وسلم : जो शप्स मुज़ पर दुरेदे पाक पढना भूल गया वोह जन्त का रास्ता भूल गया. (طرائق)

पर टेक लगाना (ايضاً) (16) रुकूअ में घुटनों पर और (17) सजदों में जमीन पर हाथ न रखना (18) दाओं बाओं जूमना. और तरावुह या'नी कल्मी दाओं पाउं पर और कल्मी बाओं पाउं पर जोर देना येह सुन्नत है (बहारे शरीअत, हिस्सा : 3, स. 202) और सजदे के लिये जाते हुवे सीधी तरफ़ जोर देना और उठते वक्त उलटी तरफ़ जोर देना मुस्तहब है. (औज़न स. 101) (19) नमाज़ में आंभें बन्द रखना. हां अगर फुशूअ आता हो तो आंभें बन्द रखना अइज़ल है (दُرِّ مختار, ردالمحتار ج 2 ص 499) (20) जलती आग के सामने नमाज़ पढना. शम्अ या यराग सामने हो तो हरज नहीं (108) (21) ऐसी चीज़ के सामने नमाज़ पढना जिस से ध्यान बटे म-सलन जीनत और लह्वो लअूब वगैरा (439) (22) नमाज़ के लिये दौडना (23) आम रास्ता (24) कूडा डालने की जगह (25) मज़्बल या'नी जहां ज़नवर ज़बल किये जाते हों वहां (26) ईस्तबल या'नी घोडे बांधने की जगह, (27) गुस्ल खाना, (28) मवेशी खाना फुसूसन जहां उंट बांधे जाते हों, (29) ईस्तिन्ज़ा खाना की छत और (30) सहरा में बिला सुतरा के ज़ब के आगे से लोगों के गुज़रने का ईम्कान हो. इन जगहों पर नमाज़ पढना (31) (غنية المستملی ص 339) बिगैर उज़र हाथ से मख्भी मख्भर उडाना (118) (नमाज़ में जूं या मख्भर ईज़ा देते हों तो पकड़ कर मार डालने में कोई हरज नहीं जब के अ-मले कसीर से न हो. (बहारे शरीअत)) (32) हर वोह अ-मले कलील जो नमाज़ी के लिये मुईद हो ज़ाईज है और जो मुईद न हो वोह मक़रूह

फ़रमाने मुस्तहब। حَسْبُكَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : जिस के पास मेरा जिक्र हुआ और उस ने मुझ पर दृढ़ता पाक न पढा तहकीक वोह बढ भन्त हो गया. (उंन)

(33) (عالمگیری ج ۱ ص ۱۰۹) उलटा कपडा पहनना या ओढना.

(इतावा २-अविध्या, जि. 7, स. 358, ता 360, इतावा अहले सुन्नत गैर मतभूआ)

हाफ़ आस्तीन में नमाज़ पढना कैसा ?

आधी आस्तीन वाला कुर्ता या कमीस पहन कर नमाज़ पढना मक़रूहे तन्ज़ीही है जब के उस के पास दूसरे कपडे मौजूद हों. हज़रते सदरुशशरीअह मुफ़्ती मुहम्मद अमजद अली आ'ज़मी عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْقَوِي फ़रमाते हैं : “जिस के पास कपडे मौजूद हों और सिर्फ़ नीम आस्तीन (यानी आधी आस्तीन) या बनियान पहन कर नमाज़ पढता है तो कराहत तन्ज़ीही है और कपडे मौजूद नहीं तो कराहत भी नहीं” (इतावा अमजदिय्या, हिस्सा : 1, स. 193, मक्तबअे २-अविध्या बाबुल मदीना कराथी) मुफ़्तिये आ'ज़म पाकिस्तान हज़रते किब्ला मुफ़्ती वकारुद्दीन कादिरि २-अवी عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْقَوِي फ़रमाते हैं : हाफ़ आस्तीन वाला कुर्ता, कमीस या शर्ट कामकाज करने वाले लिबास में शामिल हैं (के काम काज वाला लिबास पहन कर इन्सान मुअज़्ज़ीन के सामने जाते हुअे कतराता है) इस लिये जो हाफ़ आस्तीन वाला कुर्ता पहन कर दूसरे लोगों के सामने जाना गवारा नहीं करते, उन की नमाज़ मक़रूहे तन्ज़ीही है और जो लोग अैसा लिबास पहन कर सब के सामने जाने में कोई बुराई महसूस नहीं करते, उन की नमाज़ मक़रूह नहीं.

(वकारुल इतावा, जि. 2, स. 246)

गोहर के आभिरि दो^२ नइल के भी क्या कहने

गोहर के बा'द यार^४ रकुअत पढना मुस्तहब है के हदीसे

करमाने मुस्तफ़ा صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : जिस ने मुज़ पर दस मरतबा सुबह और दस मरतबा शाम दुइदें पाक पढा (उसे क़ियामत के दिन मेरी शक़ाअत मिलेगी. (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ))

पाक में इरमाया : जिस ने जोड़ से पहले यार⁴ और बा'द में यार⁴ पर मुहा-क़ज़त की अद्लाह तआला उस पर आग हराम इरमा देगा. (سنن نسائي حديث 1817 ص 2207 دار الجليل بيروت) अद्लामा सय्यिद तहतावी इरमाते हैं के सिरे से आग में दाभिल ही न होगा और उस के गुनाह मिटा दिये जाअेंगे और उस पर (बन्दों की हक त-लक़ियों के) जो मुता-लबात हैं अद्लाह तआला उस के इरीक को राज़ी कर देगा या येह मतलब है के जैसे कामों की तौफ़ीक़ देगा जिन पर सज़ा न हो. और अद्लामा शामी رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ इरमाते हैं के उस के लिये बिशारत येह है के सआदत पर उस का फ़ातिमा होगा और दोज़भ में न जाअेगा.

(شامی ج 2 ص 402)

भीठे भीठे इस्लामी भाईयो ! اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي جहां जोड़ की दस¹⁰ रक़अत नमाज़ पढ लेते हैं वहां आभिर में मज़ीद दो रक़अत नफ़ल पढ कर बारहवीं¹² शरीफ़ की निस्बत से 12 रक़अत करने में देर ही कितनी लगती है ! इस्तिफ़ामत के साथ दो² नफ़ल पढने की निख्यत इरमा लीजिये.

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْبِ ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

इमामत का बयान

मर्दे गैरे मा'ज़ूर के इमाम के लिये छ⁶ शर्ते हैं :-

(1) सहीहुल अकीदा मुसल्मान होना (2) बालिग होना (3) आकिल होना (4) मर्द होना (5) किराअत सहीह होना (6) मा'ज़ूर न होना.

(دُرِّ مختار مع ردالمحتار ج 2 ص 284)

करमाने मुस्तक़ी على الله تعالى غيبه و الله وسلم: जिस के पास मेरा जिक्र हुआ और उस ने मुझ पर दुर्इद शरीक न पढा उस ने जफ़ा की. (عمران بن قيس)

“या ईमामल अम्बिया” के तेरह हुर्रुफ़ की निस्बत से इक्तिदा की 13 शरायत

(1) निख्यत (2) ईक्तिदा और ईस निख्यते ईक्तिदा का तहरीमा के साथ होना या तकबीरे तहरीमा से पहले होना बशर्ते के पहले होने की सूरत में कोई अजनबी काम निख्यत व तहरीमा में जुदाई करने वाला न हो (3) ईमाम व मुक्तदी दोनों² का अेक मकान में होना (4) दोनों² की नमाज़ अेक हो या ईमाम की नमाज़. नमाज़े मुक्तदी को अपने जिम्न में लिये हुअे हो (5) ईमाम की नमाज़ का मजहबे मुक्तदी पर सहीह होना और (6) ईमाम व मुक्तदी दोनों² का ईसे सहीह समजना (7) शरायत की मौजूदगी में औरत का मछाज़ी (बराबर) न होना (8) मुक्तदी का ईमाम से मुकदम (या'नी आगे) न होना (9) ईमाम के ईन्तिकावात का ईल्म होना (10) ईमाम का मुकीम या मुसाफ़िर होना मा'लूम हो (11) अरकान की अदाअेगी में शरीक होना (12) अरकान की अदाअेगी में मुक्तदी ईमाम के भिस्ल हो या कम (13) यूंही शरायत में मुक्तदी का ईमाम से ज़ाईद न होना. (ردالمحتار ج ٢ ص ٢٨٤ تا ٢٨٥)

इकामत के बा'द इमाम साहिब अे'लान करें

“अपनी अेडियां, गर्दन और कन्धे अेक सीध में कर के सफ़ सीधी कर लीजिये. दो² आदमियों के बीच में जगह छोडना गुनाह है, कन्धे से कन्धा मस या'नी टय़ किया हुआ रचना वाजिब, सफ़ सीधी रचना वाजिब और जब तक अगली सफ़ कोने तक पूरी न हो जाअे जान बूझ कर पीछे नमाज़ शुरुअ कर देना तर्क वाजिब, हुराम और गुनाह है.

करमाने मुस्तफ़ा على الله تعالى عليه وآله وسلم : जो मुज़ पर रोजे जुमुआ दुरुद शरीफ़ पढ़ेगा मैं कियामत के दिन उस की शफ़ाअत करूँगा. (क़ुरआन)

15 साल से छोटे ना बालिग बच्चों को सफ़ों में षडा न रफ़िये, ँन्हें कोने में ली न लेजिये छोटे बच्चों की सफ़ सब से आफ़िर में बनाईये.”
(तफ़सीली मा'लूमात के लिये देफ़िये : इतावा र-जविय्या, जि. 7, स. 219 ता 225, रज़ा इअन्देशन लाहोर)

जमाअत का बयान

आकिल, बालिग, आजाद और कादिर पर मस्जिद की जमाअते उला वाजिब है. बिला उज़ूर अक बार ली छोडने वाला गुनहगार और मुस्तफ़िके सज़ा है और कई बार तर्क करे तो इंसिक मर्दूदुशशादह (या'नी उस की गवाही काबिले कबूल नहीं) और उस को सप्त सज़ा दी जाअगी अगर पडोसियों ने सुकूत किया (या'नी आमोशी इफ़्तियार की) तो वोड ली गुनहगार हुअे. (दुर्मुख्तार व रदالمख्तार ज २ व २८७)
भा'ज हु-कहाअे किराम رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالَى इरमाते हें के “जो शप्स अज़ान सुन कर घर में इकामत का इन्तिज़ार करता है तो वोड गुनहगार हुअेगा और उस की शहादत (या'नी गवाही कबूल नहीं).”

(البحر الرائق ج १ ص ६०६, ६०७)

“या रसूलल्लाह मदीने जुला लो” के बीस हुइइ की

निस्बत से तर्के जमाअत के 20 आ'ज़ार

(1) मरीज, जिसे मस्जिद तक जाने में मशक़त हो (2) अपाडज (3) जिस का पाउं कट गया हो (4) जिस पर इलिज गिरा हो (5) इतना बूढा के मस्जिद तक जाने से आजिज हो (6) अन्धा अगर्ये अन्धे के लिये कोई औसा हो जो हाथ पकड कर मस्जिद तक पहुँचा दे (7) सप्त बारिश और

करमाने मुस्तफ़ा: صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: मुज़ पर दुरेदे पाक की कसरत करो बेशक येह तुम्हारे लिये तदारत है.
(अ-यूसु)

(8) शदीद कीयउ का हाईल होना (9) सप्त सर्दा (10) सप्त अंधेरा
(11) आंधी (12) माल या पाने के जाओअ होने का अन्देशा
(13) कर्ज प्वाह का भौङ है और येह तंगदस्त है (14) जालिम का
भौङ (15) पापाना (16) पेशाब या (17) रीह की हाजते शदीद है
(18) पाना हाज़िर है और नफ़स को ँस की प्वाहिश है (19) काङ्किला
यले जाने का अन्देशा है (20) मरीज़ की तीमार दारी के जमाअत के
लिये जाने से ँस को तकलीफ़ होगी और धबराओगा. येह सब तर्क
जमाअत के लिये उज़र हैं. (दुर् مختار مع ردالمختار ج ٢ ص ٢٩٢ تا ٢٩٣)

कुङ पर जातिमे का भौङ

ईङतार पार्टियों, दा'वतों, नियाजों और ना'त प्वानियों
वगैरा की वजह से ईर्ज नमाजों की मस्जिद की जमाअते उीला (या'नी
पहली जमाअत) तर्क करने की हरगिज़ ईजाज़त नहीं, यहां तक के जो
लोग घर या डोल या बंगले के कम्पाउन्ड वगैरा में तरावीह की जमाअत
काँम करते हैं और करीब मस्जिद मौजूद है तो उन पर वाजिब है के
पहले ईर्ज रङ्अतें जमाअते उीला के साथ मस्जिद में अदा करें. जो
लोग बिला उज़रे शर-ई बा वुजूदे कुदरत ईर्ज नमाज़ मस्जिद में जमाअते
उीला के साथ अदा नहीं करते उन को डर जाना याहिये के सरकारे
मदीना, राहते कल्बो सीना, क़ैज गन्जना, साहिबे मुअत्तर पसीना
مَسْأَلَةُ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ का इरमाने ईअ्रत निशान है: "जिस को येह पसन्द हो
के कल अद्लाह तआला से मुसल्मान हो कर मिले तो वोह ईन पांय⁵ नमाजों (की
जमाअत) पर वहां पाबन्दी करे जहां अज़ान दी जाती है क्यूंके अद्लाह عَزَّوَجَلَّ

करमाने मुस्तफ़ा صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : तुम जहाँ भी हो मुज़ पर दुरुद पढ़ो के तुम्हारा दुरुद मुज़ तक पहुँचता है. (طبرانی)

ने तुम्हारे नबी صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ के लिये सु-नने हुआ मशरूअ की और ये (बा जमाअत) नमाज़ें भी सु-नने हुआ से हैं और अगर तुम अपने नबी की सुन्नत छोड़ दोगे तो गुमराह हो जाओगे.” (मुसलम शरिफ ज १ व २३२) ईस हदीसे मुबारक से ईशारा मिलता है के जमाअते उला की पाबन्दी करने वाले का आतिमा बिलभैर होगा और जो बिला शर-ई मजबूरी के मस्जिद की जमाअते उला तर्क करता है उस के लिये مَعَاذَ اللهِ عَزَّوَجَلَّ कुफ़ पर आतिमे का भौंक है.

या रब्बे मुस्तफ़ा صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ उमें पांयों⁵ नमाज़ें मस्जिद की जमाअते उला में पढली सफ़ के अन्दर तकभीरे उला के साथ अदा करने की हमेशा सआदत नसीब करमा.

أَمِينٌ بِجَاهِ النَّبِيِّ الْأَمِينِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

मैं पांयों⁵ नमाज़ें पढ़ूँ बा जमाअत

हो तौफ़ीक ऐसी अता या एलाही

صَلُّوْا عَلَيَّ الْحَبِيْبُ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيَّ مُحَمَّدٌ

“या एभाम अहमह रमा” के तेरह दुरुद की निरखत से नमाज़े वित्र के 13 म-दनी फूल

(1) नमाज़े वित्र वाजिब है (البحر الرائق ج १ व ११) (2) अगर ये ह छूट जाओ तो ईस की कज़ा लाज़िम है (दर्र مختार, ردالمحتار ज २ व ०३२) (3) वित्र का वक्त ईशा के इर्ज़ों के बा'द से सुब्हे सादिक तक है (مراقى الفلاح معه حاشية الطحطاوى ص १७४) (4) जो सो कर उठने पर कादिर हो उस के लिये अफ़जल है के पिछली रात में उठ कर पढले तहज्जुद

करमाने मुस्तक़ा: على الله تعالى غيبه و الله وسلم: जिस के पास मेरा जिक्र हो और वोह मुज़ पर दु़रूद शरीफ़ न पढ़े तो वोह लोगों में से कन्ज़ूस तरीन शप्स है. (अन्बिया)

(10) दुआअे कुनूत के बाद दु़रूद शरीफ़ पढना बेहतर है (غنية المستملی ص ६०२)

(11) जो दुआअे कुनूत न पढ सके वोह येह पढे :

اللَّهُمَّ رَبَّنَا اتِّتْنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ۝
 ओ अल्लाह ! ओ हमारे मालिक ! तू हमें दुन्या में भलाई और आभिरत में भी भलाई अता इरमा और हमें दोज़भ के अजाभ से बचा.

या येह पढे : اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ۝ ओ अल्लाह मेरी भगि़रत इरमा दे.

(12) अगर दुआअे कुनूत पढना भूल गअे और रुकूअ में यले गअे तो वापस न लौटिये बल्के सजदअे सड्व कर लीजिये (عالمگیری ج ۱ ص ۱۱۰) (13) वित्र जमाअत से पढी जा रही हो (जैसा के र-मजानुल मुबारक में पढते हैं) और मुक्तदी कुनूत से इरिग न हुवा था के इमाम रुकूअ में यला गया तो मुक्तदी भी रुकूअ में यला जाअे. (عالمگیری ج ۱ ص ۱۱۰، تبیین الحقائق ج ۱ ص ۱۷۱ ملتان)

सजदअे सड्व का बयान

(1) वाजिभाते नमाज़ में से अगर कोई वाजिभ भूले से रह जाअे या इराइज व वाजिभाते नमाज़ में भूले से तापीर हो जाअे तो सजदअे सड्व वाजिभ है (2) अगर सजदअे सड्व वाजिभ होने के बाद वुजूद न किया तो नमाज़ लौटाना वाजिभ है (ایضاً) (3) जान बूझ कर वाजिभ तर्क किया तो सजदअे सड्व काई नहीं बल्के

करमाने मुस्तहब: على الله تعالى عليه والبر والسلام: उस शप्स की नाक पाक आवुद छो जिस के पास मेरा जिक्र छो और वोद मुज पर दुइडे पाक न पडे. (६)

नमाज़ दोबारा लौटाना वाजिब है. (ايضاً) **(4)** कोई ऐसा वाजिब तर्क हुवा जो वाजिबाते नमाज़ से नहीं बलके उस का वुजूब अम्रे पारिज से हो तो सजदअे सख्व वाजिब नहीं म-सलन पिलाई तरतीब कुरआने पाक पढना तर्के वाजिब (और गुनाह) है मगर इस का तअल्लुक वाजिबाते नमाज़ से नहीं बलके वाजिबाते तिलावत से है लिहाजा सजदअे सख्व नहीं (अलबत्ता इस से तौबा करे) (ايضاً). **(5)** इर्ज तर्क हो जाने से नमाज़ जाती रहती है. सजदअे सख्व से इस की तलाफी नहीं हो सकती लिहाजा दोबारा पढिये **(6)** सुन्नतें या मुस्तहबात म-सलन सना, तअव्वुज, तस्मिया, आमीन, तकबीराते धन्तिकावात और तस्बीहात के तर्क से सजदअे सख्व वाजिब नहीं होता, नमाज़ हो गई (فتح القدير ج ۱ ص ۴۳۸) मगर दोबारा पढ लेना मुस्तहब है भूल कर तर्क किया हो या जान भूज कर **(7)** नमाज़ में अगर्थे दस¹⁰ वाजिब तर्क हुअे तो सख्व के दो² ही सजदे सब के लिये काफ़ी हैं (ردالمحتار ج ۲ ص ६००) **(8)** ता'दीले अरकान (म-सलन रुकूअ के बा'द सीधा अडा होना या दो² सजदों के दरमियान अेक बार اللّهُ سُبْحَانَ كَلْنे की भिकदार सीधा बैठना) भूल गअे तो सजदअे सख्व वाजिब है. **(9)** कुनूत या तकबीरे कुनूत भूल गअे सजदअे सख्व वाजिब है (عالمگیری ج ۱ ص ۱۲۷) **(10)** किराअत वगैरा किसी मौकअ पर सोयने में तीन भरतबा اللّهُ سُبْحَانَ كَلْنे का वकई गुजर गया सजदअे सख्व वाजिब हो गया (ردالمحتار ج ۲ ص ६००) **(11)** सजदअे सख्व के बा'द भी अत्तहिय्यात पढना वाजिब है. अत्तहिय्यात पढ कर सलाम

करमाने मुस्तफ़ा : على الله تعالى غيبه و الله وسلم : जिस ने मुज पर रोजे जुमुआ दो सो बार दुरद पाक पढा उस के दो सो साल के गुनाह मुआफ़ होंगे. (अल-अल)

इरिये और बेहतर येह है के दोनों² का'दों (या'नी सजदअे सइव से पहले और बा'द) में दुरद शरीफ़ भी पढिये (12) (عالمگیری ج ۱ ص ۱۲۰) ईमाम से सइव हुवा और सजदअे सइव किया तो मुक्तदी पर भी सजदा वाजिब है (13) (دُرِّ مختار مع ردالمختار ج ۲ ص ۶۰۸) अगर मुक्तदी से ब डालते ईक्तिदा सइव वाकैअ हुवा तो सजदअे सइव वाजिब नहीं (عالمگیری ج ۱ ص ۱۲۸) और नमाज लौटाने की भी डाजत नहीं.

निहायत अहम मस्अला

कसीर ईस्लामी भाई ना वाकिइय्यत की बिना पर अपनी नमाज जाअेअ कर बैठते हैं दिहाजा येह मस्अला ખૂબ तवज्जोह से पढिये (14) मस्बूक (या'नी जो अेक या कई रकूअतें झैत डोने के बा'द नमाज में शामिल हुवा) को ईमाम के साथ सलाम इरेना जाईज नहीं अगर कस्दन इरेगा तो नमाज जाती रहेगी और अगर तूल कर ईमाम के साथ बिला वक़्फ़ा इौरन सलाम इेरा तो डरज नहीं लेकिन येह नादिर सूरत है (या'नी अैसा बहुत डी कम डोता है) और अगर तूल कर सलाम ईमाम के कुछ भी बा'द इेरा तो षडा डो जाअे. अपनी नमाज पूरी कर के सजदअे सइव करे. (15) (دُرِّ مختار مع ردالمختار ج ۲ ص ۶۰۹) मस्बूक ईमाम के साथ सजदअे सइव करे अगर्ये ईस के शरीक डोने से पहले डी ईमाम को सइव हुवा डो और अगर ईमाम के साथ सजदअे सइव न किया और अपनी बकिय्या पढने षडा डो गया तो आबिर में सजदअे सइव करे और ईस मस्बूक से अपनी नमाज में भी सइव हुवा तो आबिर के येडी सजदए उस ईमाम वाले सइव के दिये भी काई हैं. (عالمگیری ج ۱ ص ۱۲۸)

फ़रमाने मुस्तफ़ी ﷺ : عَلَى اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهُ وَسَلَّمَ : मुज़ पर कसरत से दुर्रदे पाक पढो बेशक तुम्हारा मुज़ पर दुर्रदे पाक पढना तुम्हारे गुनाहों के लिये मग्दिरत है. (भास्त्र)

सज्दये सध्व करना भूल जाये तो...

सज्दये सध्व करना था और भूल कर सलाम फ़ेरा तो जब तक मस्जिद से बाहर न हुवा कर ले (दُر्र مختار معه ردالمحتار ج २ ص ००६) मैदान में हो तो जब तक सड़ों से मु-तजाविज न हो या आगे को सज्दे की जगह से न गुज़रा कर ले जो थीज मानेये बिना है म-सलन कलाम वगैरा मुनाफ़िये नमाज़ अगर सलाम के बा'द पाई गई तो अब सज्दये सध्व नहीं हो सकता. (दُر्र مختار معه ردالمحتار ج २ ص ००६)

सज्दये तिलावत और शैतान की शामत

अद्लाह عَزَّوَجَلَّ के मडभूष, दानाये गुयूष, मुनज़्ज़हुन अनिल उयूष صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ का फ़रमाने जन्नत निशान है : जब जब आदमी आयते सज्दा पढ कर सज्दा करता है, शैतान हट जाता है और रो कर कडता है : हाये मेरी बरबादी ! धंने आदम को सज्दे का हुकम हुवा उस ने सज्दा किया उस के लिये जन्नत है और मुजे हुकम हुवा मैं ने धंकार किया मेरे लिये दोज़भ है. (صحيح مسلم، ج १، ص ६)

हर मुराद पूरी हो

जिस मक्सद के लिये अेक मजलिस में सज्दे की सभ (या'नी 14) आयतों पढ कर सज्दे करे अद्लाह عَزَّوَجَلَّ उस का मक्सद पूरा फ़रमा देगा. ज्वाह अेक अेक आयत पढ कर उस का सज्दा करता जाये या सभ पढ कर आबिर में 14 सज्दे कर ले.

(غنيه، در مختار وغيرهما)

करमाने मुस्तफ़ा: حَسْبُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالسَّلَامُ : श्री मुज पर ओक दुइद शरीफ़ पढता है अदवाले उंस के लिये ओक कीरात अज्ज लिफता है और कीरात उदुद पहाड जितना है. (عمران)

“कुरआने मजुद” के आठ दुइइ की निरबत से सज्दअे तिलावत के 8 म-दनी इल

(1) आयते सज्द पढने या सुनने से सज्द वाजिब हो जाता है.

पढने में येह शर्त है के ठतनी आवाज में हो, के अगर कोई उर्र न हो तो पुद सुन सके, सुनने वाले के लिये येह जरूरी नहीं के बिला कसद सुनी हो बिला कसद सुनने से भी सज्द वाजिब हो जाता है. (عالمگیری ج ۱ ص ۱۳۲)

(2) किसी भी ज़बान में आयत का तरजमा पढने और सुनने वाले पर सज्द वाजिब हो गया, सुनने वाले ने येह समझा हो या न समझा हो के आयते सज्द का तरजमा है. अलबत्ता येह जरूर है के उसे न मा'लूम हो तो बता दिया गया हो के येह आयते सज्द का तरजमा था और आयत पढी गई हो तो इस की जरूरत नहीं के सुनने वाले को आयते सज्द होना बताया गया हो. (عالمگیری ج ۱ ص ۱۳۳)

(3) सज्द वाजिब होने के लिये पूरी आयत पढना जरूरी है लेकिन बा'ज उ-लमाअे मु-तअज्जिरीन رَحْمَهُمُ اللَّهُ الْمُبِين के नजदीक वोह लइज जिस में सज्द का माद्दा पाया जाता है उस के साथ कबल या बा'द का कोई लइज मिला कर पढा तो सज्दअे तिलावत वाजिब हो जाता है लिहाजा ओहतियात येही है के दोनों² सूरतों में सज्दअे तिलावत किया जाअे.

(मुलफ्फसन इतावा २-अविय्या, जि. 8, स. 223, 233, रजा इअन्देशन, लाहोर)

(4) आयते सज्द बैइने नमाज पढी तो इौरन सज्द कर लेना वाजिब नहीं है अलबत्ता वुजू हो तो तापीर मकइहे तन्जीही है.

(تنوير الابصار معه ردالمحتار ج ۲ ص ۵۸۳)

करमाने मुस्तहब। **عَلَى اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالْوَسْمُ** : जिस ने किताब में मुज़ पर दुरुद पाक लिखा तो जब तक मेरा नाम उस में रहेगा फिरिश्ते उस के लिये ईस्तिफ़ार करते रहेंगे. (अ. ५)

(5) सज्दअे तिलावत नमाज़ में फ़ौरन करना वाज़िब है अगर ताप्पीर की या'नी तीन आयात से ज़ियादा पढ़ लिया तो गुनहगार होगा और जब तक नमाज़ में है या सलाम डेरने के बा'द कोई नमाज़ के मुनाज़्ज़ी डे'ल नहीं किया तो सज्दअे तिलावत कर के सज्दअे सडूव बज़ा लाअे.

(دُرِّ مختار معه ردالمختار ج ٢ ص ٥٨٤)

दौराने नमाज़ दूसरे से आयते सज्दा सुन ली तो.....

✽ २-मज़ानुल मुबारक में तरावीह या शबीना में अगरयै शरीक न हों बेशक अपनी ही अलग नमाज़ पढ़ रहे हों या नमाज़ में ली न हों तो आयते सज्दा सुन लेने से आप पर ली सज्दअे तिलावत वाज़िब हो ज़ाअेगा. काफ़िर या ना बालिग से आयते सज्दा सुनी तब ली सज्दअे तिलावत वाज़िब हो गया. नमाज़ में आयते सज्दा पढ़ी तो उस का सज्दा नमाज़ ही में वाज़िब है बैड़ने नमाज़ नहीं हो सकता. और कस्दन न किया तो गुनहगार हुवा तौबा लाज़िम है. अलबत्ता बालिग होने के बा'द बैड़ने नमाज़ जितनी बार ली आयते सज्दा पढ़ या सुन कर सज्दा वाज़िब हुवा और अभी तक सज्दा न किया हो उन का ग-ल-बअे उन के अे'तिबार से हिसाब लगा कर उतनी बार बा वुजू सज्दअे तिलावत करना लाज़िम है.

सज्दअे तिलावत का तरीका

(7) षडा हो कर **اللَّهُ أَكْبَرُ** कलता हुवा सज्दे में ज़ाअे और कम से कम तीन³ बार **رَبِّيَ الْأَعْلَى** कहे फिर **اللَّهُ أَكْبَرُ** कलता हुवा षडा हो ज़ाअे. पहले, पीछे दोनों² बार **اللَّهُ أَكْبَرُ** कलना सुन्नत है और षडे हो कर सज्दे में ज़ाना और सज्दे के बा'द षडा होना येह दोनों² क्रियाम मुस्तहब.

(عالمگیری ج ١ ص ١٣٥)

करमाने मुस्तफ़ा: حَسْبُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَرَسْمٌ : जिस ने मुज़ पर अेक बार दुरदे पाक पढा अल्लाह उस पर दस रहमतेँ बेजता है. (سـ)

(8) सजदअे तिलावत के लिये **اللَّهُ أَكْبَرُ** कइते वक्त न हाथ उठाना है न ईस में तशद्दुद है न सलाम. (تنوير الابصار معه ردالمحتار ج ٢ ص ٥٨٠)

सजदअे शुक्र का बयान

औलाद पैदा हुई, या माल पाया या गुमी हुई चीज़ मिल गई या मरीज़ ने शिफ़ा पाई या मुसाफ़िर वापस आया अल गरज़ किसी ने'मत के हुसूल पर सजदअे शुक्र करना मुस्तहब है. ईस का तरीका वोही है जे सजदअे तिलावत का है (136) (علمگیری ج 1 ص 136) ईसी तरह जब त्मी कोई ખુश ખबरी या ने'मत मिले तो सजदअे शुक्र करना कारे सवाब है म-सलन मदीनअे मुनव्वरह का वीज़ा लग गया, किसी पर ईफ़िरादी कोशिश काम्याब हुई और वोह द्वा'वते ईस्लामी के सुन्नतोँ की तरबिख्यत के म-दनी काइले में सफ़र के लिये तय्यार हो गया, किसी सुन्नी आदिमे बा अमल की ज़ियारत हो गई, मुबारक प्वाब नज़र आया, तालिबे ईल्मे दीन ईम्तिहान में काम्याब हुवा, आफ़त टली या कोई दुश्मने ईस्लाम मरा वगैरा वगैरा.

नमाज़ी के आगे से गुज़रना सप्त गुनाह है

(1) सरकारे मदीना, सुल्ताने बा करीना, करारे कल्बो सीना, ईज़ गन्जना, साहिबे मुअत्तर पसीना, बाईसे नुज़ूले सकीना. صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ने फ़रमाया : अगर कोई ज़ानता के अपने त्वाई के सामने नमाज़ में आउे हो कर गुज़रने में क्या है तो सो¹⁰⁰ बरस भडा रहना ईस अेक कदम यलने से बेहतर समज़ता. (سنن ابن ماجه حديث ٩٤٦ ج ١ ص ٥٠٦ دارالمعرفة بيروت) (2) हज़रते सय्यिदुना ईमामे मालिक رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ फ़रमाते हैं के हज़रते सय्यिदुना का'बुल अहबार رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ का ईर्शाद है : "नमाज़ी के आगे से गुज़रने

करमाने मुस्तक़ा : حَسْبِيَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ
 भूल गया. (جران)

वाला अगर जानता के इस पर क्या गुनाह है तो जमीन में धंस जाने को गुजरने से बेहतर जानता. (مَوْطَأُ إِسْمَاعِيلَ حَدِيثُ ٣٧١ ج ١ ص ١٥٤ دارالمعرفة بيروت)
 नमाज़ी के आगे से गुजरने वाला बेशक गुनाहगार है मगर भुद नमाज़ी की नमाज़ में इस से कोई इर्क नहीं पड़ता.

(मुवप्पस अज इतावा र-जविय्या, जि. 7, स. 254, रज़ा इंटरनेशन लाहोर)

“या रसूले भुदा नज़रे इरम” के पन्डरह हुरइ की निस्बत से नमाज़ी के आगे से गुजरने के बारे में 15 अहकाम

(1) मैदान और बड़ी मस्जिद में नमाज़ी के कदम से मौज़अे सुजूद तक गुजरना ना ज़ाईज है. मौज़अे सुजूद से मुराद येह है के कियाम की डालत में सज़दे की जगह नज़र जमाअे तो जितनी दूर तक निगाह डैले वोह मौज़अे सुजूद है. इस के दरमियान से गुजरना ज़ाईज नहीं (تبيين الحقائق ج ١ ص ١٦٠) मौज़अे सुजूद का इंसिला अन्दाज़न कदम से ले कर तीन³ गज़ तक है (कानूने शरीअत, डिस्सअे अव्वल, स. 131, इरीद बुक स्टोल मर्ज़ुल औदिया लाहोर) लिहाज़ा मैदान में नमाज़ी के कदम के तीन³ गज़ के बा'द से गुजरने में हरज नहीं (2) मकान और छोटी मस्जिद में नमाज़ी के आगे अगर सुतरा (या'नी आड) न हो तो कदम से दीवारे किब्ला तक कहीं से गुजरना ज़ाईज नहीं (عالمگیری ج ١ ص ١٠٤)
 (3) नमाज़ी के आगे सुतरा या'नी कोई आड हो तो उस सुतरे के बा'द से गुजरने में कोई हरज नहीं (ايضاً) (4) सुतरा कम अज़ कम अेक डाय (या'नी तकरीबन आधा गज़) उंया और उंगली बराबर मोटा होना याडिये (٣٦٥) (مراقی الفلاح معه حاشية الطحطاوى ص ٣٦٥) (5) इमाम का सुतरा मुक्तदी के लिये भी सुतरा है. या'नी इमाम के आगे सुतरा

करमाने मुस्तफ़ा : حَسْبُكَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : जिस के पास मेरा जिक्र हुआ और उस ने मुझ पर दृष्टि पाक न पढा तहकीक़ वोल बह भप्त हो गया. (उर्न)

हो तो अगर कोई मुक्तदी के आगे से गुज़र जाये तो गुनाहगार न होगा (६) दरभ्त, आदमी और जानवर वगैरा का भी सुतरा हो सकता है (१०६) (७) आदमी को इस हालत में सुतरा किया जाये जब के उस की पीठ नमाज़ी की तरफ़ हो. (अगर नमाज़ पढने वाले के अैन रुख की तरफ़ किसी ने मुंह किया तो अब कराहत नमाज़ी पर नहीं उस मुंह करने वाले पर है, लिहाज़ा इमाम के सलाम फेरने के बा'द मुड कर पीछे देखने में अेहतियात ज़रूरी है के आप के अैन पीछे की जानिब अगर कोई अपनी बकिय्या नमाज़ पढ रहा होगा और उस की तरफ़ आप अपना मुंह करेंगे तो गुनहगार होंगे (८) अेक शप्स नमाज़ी के आगे से गुज़रना याहत है अगर दूसरा शप्स उसी को आड बना कर उस के चलने की रफ़तार के अैन मुताबिक उस के साथ ही साथ गुज़र जाये तो पहला शप्स गुनहगार हुवा और दूसरे के लिये येही पहला शप्स सुतरा भी बन गया (९) नमाज़े बा जमाअत में अगली सफ़ में जगह होने के बा वुजूद किसी ने पीछे नमाज़ शुर्अ कर दी तो आने वाला उस की गरदन इलांगता हुवा जा सकता है के उस ने अपनी हुरमत अपने आप षोई (१०) अगर कोई इस कदर गिंयी जगह पर नमाज़ पढ रहा है के गुज़रने वाले के आ'जा नमाज़ी के सामने नहीं हुअे तो गुज़रने वाला गुनहगार नहीं. (११) दो^२ शप्स नमाज़ी के आगे से गुज़रना याहते हैं इस का तरीका येह है के इन में से अेक नमाज़ी के सामने पीठ कर के षडा हो जाये. अब इस को आड

करमाने मुस्तफ़ा: على الله تعالى عليه وآله وسلم: जिस ने मुज़ पर अेक बार दुरदे पाक पढा अल्लाह उस पर दस रइमतें बेजता है. (س)

बना कर दूसरा गुज़र जाये. फिर दूसरा पडले की पीठ के पीछे नमाज़ी की तरफ़ पीठ कर के भडा हो जाये. अब पडला गुज़र जाये फिर वोड दूसरा जिधर से आया था उसी तरफ़ हट जाये (ايضاً) (12) कोई नमाज़ी के आगे से गुज़रना याहता है तो नमाज़ी को ईजाज़त है के वोड उसे गुज़रने से रोके प्वाह الله كહે या जहूर (या'नी बुलन्द आवाज़ से) किराअत करे या हाथ या सर या आंख के ईशारे से मन्अ करे. ईस से ज़ियादा की ईजाज़त नहीं. म-सलन कपडा पकड कर जटकना या मारना बल्के अगर अ-मले कसीर हो गया तो नमाज़ ही जाती रही (ردالمحتار، دَرِّ مختار ج ۲ ص ۴۸۳، مراقی الفلاح معه حاشیة الطحطاوی ص ۳۶۷) (13) तस्बीह व ईशारा दोनों² को बिला ज़रूरत जम्अ करना मक़रुह है (ردالمحتار ج ۲ ص ۴۸۶) (14) औरत के सामने से गुज़रे तो औरत तस्कीक से मन्अ करे या'नी सीधे हाथ की उंग्लियां उलटे हाथ की पुशत पर मारे. अगर मर्द ने तस्कीक की और औरत ने तस्बीह कही तो नमाज़ इंसिद न हुई मगर बिलाई सुन्नत हुवा (ايضاً) (15) तवाफ़ करने वाले को दौराने तवाफ़ नमाज़ी के आगे से गुज़रना ज़ाईज है.

(ردالمحتار ج ۲ ص ۴۸۲)

सैर डोने की डालत में भाना

बरस पैदा करता है.

(क़तुल कुलूब मुतज्जम, जि. 2, स. 589)

गमे मदीना, बकीअ,
मकिरत और बे
हिसाब जन्तुल
फ़िरदौस में आका
के पडोस का तालिब



11 शा'बानुल मुअज़्जम, 1426 सि.हि.

करमाने मुस्तक : حَسْبِيَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : जो शोअस मुज पर दुरदे पाक पढना भूल गया वोह जन्त का रास्ता भूल गया. (طبرانی)

साहिबे मजार की घन्किरादी कोशिश

भीठे भीठे इस्लामी भाईयो ! اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلَيْهِ वता इस्लामी के म-दनी माडोल में जुजुर्गो का बहुत अदब किया जाता है. बल्के सख्खी भात येह है के अद्लाह रब्बुल इज्जत عَزَّوَجَلَّ की इनायत से दा'वते इस्लामी इेजाने औलिया ही की बढौलत यल रही है. युनान्हे अेक इस्लामी भाई का बयान कर्दा अेक साहिबे मजार वलिय्युल्लाह عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللّٰهِ की म-दनी काइले के लिये इन्किरादी कोशिश का इमान अफरोज वाकिआ अपने अन्दाज में पेश करता हूं : اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلَيْهِ आशिकाने रसूल का अेक म-दनी काइला यकवाल (पंजाब, पाकिस्तान) से मुजफ्फरआबाद और अतराफ के दीछातों में सुन्नतों की बछारें लुटाता हुवा अेक मकाम "अन्वार शरीफ" वारिद हुवा, वहां से छथों छथ यार⁴ इस्लामी भाई तीन³ दिन के लिये म-दनी काइले में सफर के लिये आशिकाने रसूल के साथ शरीक हुअे, इन यारों में "अन्वार शरीफ" के साहिबे मजार जुजुर्ग رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالَى عَلَيْهِ के पानवादे के अेक इरजन्द ली थे. म-दनी काइला नेकी की दा'वत की धूमें मयाता हुवा "गढी दुपट्टा" पछोंया. जब अन्वार शरीफ वालों के तीन³ दिन मुकम्मल हो गअे तो साहिबे मजार رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالَى عَلَيْهِ के रिशतेदार ने कछा : मैं तो वापस नहीं जाउंगा क्युंके आज रात मैं ने अपने "छजरत" رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالَى عَلَيْهِ को प्वाब में देखा के इरमा रहे थे : "बेटा ! पलट कर घर न जाना म-दनी काइले वालों के साथ मजीद आगे सफर जारी रजो." साहिबे मजार رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالَى عَلَيْهِ की इन्किरादी कोशिश का येह वाकिआ सुन कर म-दनी काइले में ખुशी की

करमाने मुस्तफ़ा : حَسْبُكَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ जिस के पास मेरा जिक्र हुआ और उस ने मुझ पर दृष्टि पाक न पढा तहकीक वोह बह भप्त हो गया. (उंग)

लहर दौड गई, सब के लौसलों को मदीने के 12 याद लग गये और अन्वार शरीफ़ से आये हुये यारों ईस्लामी भाई हाथों हाथ म-दनी काङ्किले में मजीद आगे सफ़र पर चल पडे.

औलियाये किराम ईन का ईजाने आम लूटने सब यलें काङ्किले में यलो
औलिया का करम तुम पे हो ला जरम मिल के सब यल पडें काङ्किले में यलो

मां यारपाई से उठ भडी हुई !

बाबुल मदीना करायी के अेक ईस्लामी भाई के बयान का खुलासा

है : मेरी अम्मीजान सप्त बीमारी के सबब यारपाई से उठने तक से मा'जूर थीं और डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया था. मैं सुना करता था के दा'वते ईस्लामी के सुन्नतों की तरबियत के म-दनी काङ्किलों में आशिकाने रसूल के साथ सफ़र करने से हुआओं कबूल होतीं और बीमारियां दूर होती हैं. युनान्चे, मैं ने भी दिल बांधा और दा'वते ईस्लामी के सुन्नतों का नूर बरसाते आलमी म-दनी मर्कज़ ईजाने मदीना के अन्दर काईम "म-दनी तरबियत गाह" में हाजिर हो कर तीन दिन के लिये म-दनी काङ्किले में सफ़र का ईरादा जाहिर किया, ईस्लामी भाईयों ने निहायत शक़त के साथ हाथों हाथ लिया, आशिकाने रसूल की मर्बियत में हमारा म-दनी काङ्किला बाबुल ईस्लाम सिन्ध के सहराये मदीना के करीब अेक गोठ में पड़ोया, दौराने सफ़र आशिकाने रसूल की षिदमात में हुआ की दर-प्वास्त करते हुये मैं ने अम्मीजान की तश्वीश नाक डालत बयान की, ईस पर उन्हों ने अम्मीजान के लिये षूब हुआओं करते हुये मुझे काई दिवासा दिया, अमीरे काङ्किला ने बडी नर्मी के साथ ईन्किरादी कोशिश

करमाने मुस्तफ़ा : صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : जिस ने मुझे पर दस मरतबा सुबह और दस मरतबा शाम दुइडे पाक पढा (उसे क्रियामत के दिन मेरी शक़ाअत मिलेगी. (عَنْ أَنَسٍ))

करते हुअे मुजे मज़ीद 30 दिन के म-दनी काङ्किले में सङ्गर के लिये आमादा किया, मैं ने भी निय्यत कर ली. मैं ने अम्मीजान की सिङ्खत याभी के लिये ખૂબ गिडगिडा कर दुआओं कीं, तीन दिन के ँस म-दनी काङ्किले की तीसरी रात मुजे अेक रोशन येहरे वाले भुजुर्ग की ज़ियारत हुँ, उन्हों ने ँरमाया : “अपनी अम्मीजान की ङ्क मत करो إِنَّ شَاءَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ वोड सिङ्खत याब डो ज़ांऐगी.” तीन^३ दिन के म-दनी काङ्किले से ङारिग डो कर मैं ने घर आ कर दरवाजे पर दस्तक दी, दरवाजा ખुला तो मैं डैरत से ખडे का ખडा रड गया, क्यूंके मेरी वोड भीमार अम्मीजान ज़े के यारपाँ से उठ तक नहीं सकती थीं उन्हों ने ખुद अपने पाँ पर यल कर दरवाजा ખोला था ! मैं ने ङर्त मसरत से मां के कदम यूमे और म-दनी काङ्किले में देखा हुवा ખ्वाब सुनाया. ङिर मां से ँज्जत ले कर मज़ीद 30 दिन के लिये आशिकाने रसूल के साथ म-दनी काङ्किले में सङ्गर पर रवाना डो गया.

मां ज़े भीमार डो	क़र्ज का बार डो	रन्जो गम मत करें	काङ्किले में यलो
रब के दर पर जुकें	ँदित्तिज्जओं करें	बाबे रडमत ખुलें	काङ्किले में यलो
दिल की कालक धुले	मर्जेँ ँरयां टले	आओ सभ यल पें	काङ्किले में यलो

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

تُؤْبُوا إِلَى اللهِ ! اَسْتَغْفِرُ الله

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

فُفَل مَدِيَنَة

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ

عَقِي



मुसाफ़िर की नमाज़ (ह-नई)

ईस रिसाले में....

उम्रह के वीजे पर उज के लिये रुकना कैसा ?

मुसाफ़िर बनने के लिये शर्त

सेठ और नोकर का ईकट्टा सफ़र

यलती गाडी में नईल के 4 म-दनी इल

क्या मुसाफ़िर को सुन्नते मुआफ़ हें ?

अरब मुमालिक में वीजे पर
रहने वालों के लिये मस्जला

वरक उलटिये....

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ
 آمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

मुसाफ़िर की नमाज़ (ह-नफ़ी)

बराअे करम येह रिसाला (17 सफ़हात) मुकम्मल पढ लीजिये,

إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى
 इस के इवाँद खुद ही देख लेंगे.

दुइ शरीफ़ की इमीलत

दो जहां के सुल्तान, सरवरे जीशान, महबूबे रहमान
 का इरमाने मग़िरेत निशान है, जब जुमा'रात का दिन
 आता है अद्लाह तआला इरिशतों को भेजता है जिन के पास यांटी के कागज़
 और सोने के कलम होते हैं वोह लिखते हैं, कौन यौमे जुमा'रात और शबे
 जुमुआ मुज पर कसरत से दुइदे पाक पढता है.

(کنز العمال ج ۱ ص ۲۰۰ حدیث ۲۱۷۴ دارالکتب العلمیہ بیروت)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

अद्लाह तआ-र-क व तआला सू-रतुन्निसाअ की आयत नम्बर

101 में ईशाद इरमाता है :-

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ
 فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ
 تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنَّ
 خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ
 كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا
 لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا ﴿ (پ ۵ النساء ۱۰۱)

तर-ज-मअे क-जुल ईमान : और जब तुम
 जमीन में सफ़र करो तो तुम पर गुनाह नहीं
 के बा'ज नमाज़ें कसर से पढो. अगर तुम्हें
 अन्देशा हो के काफ़िर तुम्हें ईजा देंगे, बेशक
 कुइफ़ार तुम्हारे खुदे दुश्मन हैं.

फ़रमाने मुस्तफ़ा: صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: जिस ने मुज पर अक बार दुइते पाक पढा अल्लाह उस पर दस रइमतें भेजता है. (स्)

सदरुल अफ़जिल उजरते अल्लामा मौलाना सय्यिद मुहम्मद नईमुदीन मुरादआबादी رَحْمَةُ اللهِ الْهَادِي فَرَمَاتे हैं: भौके कुक़र करर के लिये शर्त नहीं, उजरते सय्यिदुना या'ला बिन उमय्या رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ ने उजरते सय्यिदुना उमर फ़ाउके आ'उम رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ से अउर की, के: उम तो अमन में हैं, फिर उम कयूं करर करते हैं? फ़रमाया: इस का मुजे भी तअजुब हुवा था तो मैं ने सरकारे मदीनअे मुनव्वरउ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ से दरयाफ़त किया. हुजुरे अकरम, नूरे मुजस्सम, शाडे बनी आदम, रसूले मुहूतशम صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ने ईशाद फ़रमाया के तुम्हारे लिये येह अल्लाह عَزَّوَجَلَّ की तरफ़ से स-दका है, तुम उस का स-दका कबूल करो. (صحيح مسلم ج ١ ص ٢٢١)

उम्मुल मुअमिनीन उजरते सय्यि-दतुना आईशा सिदीका رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا रिवायत फ़रमाती हैं: नमाज दो रक़अत फ़र की गई फिर जब सरकारे मदीना صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ने छिजरत फ़रमाई तो यार फ़र की गई और सफ़र की नमाज उसी पडले फ़र पर छोडी गई.

(صحيح بخارى ج ١ ص ٥٦٠)

उजरते सय्यिदुना अब्दुल्लाह बिन उमर رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا से रिवायत है: अल्लाह के उबीब, उबीबे लबीब صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ने नमाजे सफ़र की दो रक़अतें मुकरर फ़रमाई और येह पूरी है कम नहीं या'नी अगयें ब जाहिर दो रक़अतें कम हो गई मगर सवाब में दो ही यार के बराबर हैं.

(سنن ابن ماجه ج ٢ ص ٥٩ حديث ١١٩٤ دارالمعرفة بيروت)

ફરમાને મુસ્તકા : عَلَى اللَّهِ تَعَالَى غَيْرُكَ وَهُوَ اللَّهُ وَسَلِّمْ : જો શપ્સ મુઝ પર દુરુદે પાક પઢના બૂલ ગયા વોહ જન્મત કા રાસ્તા બૂલ ગયા. (طرائق)

શર-ઈ સફર કી મસાફત

શરઅન મુસાફિર વોહ શપ્સ હૈ જો સાઢે 57 મીલ (તકરીબન 92 કિલો મીટર) કે ફાસિલે તક જાને કે ઈરાદે સે અપને મકામે ઈકામત મ-સલન શહર યા ગાઉં સે બાહર હો ગયા. (મુલખ્મસન ફતાવા ર-ઝવિયા, જિ. 8, સ. 270, રઝા ફાઉન્ડેશન મર્કઝુલ ઓલિયા લાહોર)

મુસાફિર કબ હોગા ?

મહઝ નિચ્ચતે સફર સે મુસાફિર ન હોગા બલ્કે મુસાફિર કા હુકમ ઉસ વક્ત હૈ કે બસ્તી કી આબાદી સે બાહર હો જાએ. શહર મેં હૈ તો શહર સે, ગાઉં મેં હૈ તો ગાઉં સે ઓર શહર વાલે કે લિયે યેહ ભી ઝરૂરી હૈ કે શહર કે આસ પાસ જો આબાદી શહર સે મુતસિલ હૈ ઉસ સે ભી બાહર આ જાએ. (دُرِّ مختار، ردالمحتار ج ۲ ص ۵۹۹)

આબાદી ખત્મ હોને કા મતલબ

આબાદી સે બાહર હોને સે મુરાદ યેહ હૈ કે જિધર જા રહા હૈ ઉસ તરફ આબાદી ખત્મ હો જાએ અગર્યે ઉસ કી મહાઝાત મેં (યા'ની બરાબર) દૂસરી તરફ ખત્મ ન હુઈ હો. (غنية المستملی، ص ۵۳۶)

ફિનાએ શહર કી તા'રીફ

ફિનાએ શહર સે જો ગાઉં મુતસિલ હૈ શહર વાલે કે લિયે ઉસ ગાઉં સે બાહર હો જાના ઝરૂરી નહીં યૂંહી શહર કે મુતસિલ બાગ હોં અગર્યે ઉન કે નિગહબાન ઓર કામ કરને વાલે ઉન બાગાત હી મેં રહતે હોં, ઉન બાગોં સે નિકલ જાના ઝરૂરી નહીં. (ردالمحتار ج ۲ ص ۵۹۹) ફિનાએ શહર સે બાહર જો જગહ શહર કે કામોં કે લિયે હો મ-સલન કબ્રિસ્તાન,

करमाने मुस्तफ़ि : حَسْبُكَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : जिस के पास मेरा जिक्र हुआ और उस ने मुझ पर दृढ़दे पाक न पढा तहकीक वोह बढ भन्त हो गया. (उंग)

घोडदौड का मैदान, कूडा फेंकने की जगह अगर येह शहर से मुत्तसिल हों तो इस से बाहर हो जाना जरूरी है. और अगर शहर व इना के दरमियान फासिला हो तो नहीं. (ایضاً ص ۱۰۰)

मुसाफिर बनने के लिये शर्त

सफ़र के लिये येह भी जरूरी है के जहां से यला वहां से तीन दिन की राह (या'नी तकरीबन 92 किलो मीटर) का इरादा हो और अगर दो दिन की राह (या'नी 92 किलो मीटर से कम) के इरादे से निकला वहां पछोंय कर दूसरी जगह का इरादा हुवा के वोह भी तीन दिन (92 किलो मीटर) से कम का रास्ता है यूंही सारी दुन्या घूम कर आये मुसाफिर नहीं (غنیہ، در مختار ج ۲ ص ۲۰۹) येह भी शर्त है के तीन दिन की राह के सफ़र का मुत्तसिल इरादा हो, अगर यूं इरादा किया के म-सलन दो दिन की राह पर पछोंय कर कुछ काम करना है वोह कर के फिर अेक दिन की राह जाउंगा तो येह तीन दिन की राह का मुत्तसिल इरादा न हुवा मुसाफिर न हुवा.

(बहारे शरीअत, खिस्सा: 4, स. 77, मदीनतुल मुशिद बरेली शरीफ)

वतन की डिस्में

वतन की दो डिस्में हैं (1) वतने अस्वी : या'नी वोह जगह जहां इस की पैदाईश हुई है या इस के घर के लोग वहां रहते हैं या वहां सुकूनत कर ली और येह इरादा है के वहां से न जायेगा (2) वतने ईकामत : या'नी वोह जगह के मुसाफिर ने पन्दरह दिन या इस से ज़ियादा ठहरने का वहां इरादा किया हो.

(عالمگیری ج ۱ ص ۱۴۰)

करमाने मुस्तफ़ा صلى الله تعالى عليه و آله وسلم : जिस ने मुज़ पर दस भरतबा सुभद और दस भरतबा शाम दुइदें पाक पढा (उसे क़ियामत के दिन मेरी शक़ाअत मिलेगी. (صحيح البخاري))

वतने छकामत बातिल होने की सूरेतें

वतने छकामत दूसरे वतने छकामत को बातिल कर देता है या'नी अेक जगह पन्दरह दिन के छरादे से ठहरा क़िर दूसरी जगह छतने छी दिन के छरादे से ठहरा तो पहली जगह अब वतन न रही. दोनों के दरमियान मसाफ़ते सफ़र हो या न हो. यूँछी वतने छकामत वतने अस्ली और सफ़र से बातिल हो जाता है. (عالمگیری ج ۱ ص ۱۴۰)

सफ़र के दो रास्ते

किसी जगह जाने के दो रास्ते हैं अेक से मसाफ़ते सफ़र है दूसरे से नहीं तो जिस रास्ते से येह जाअेगा उस का अे'तिबार है, नजदीक वाले रास्ते से गया तो मुसाफ़िर नहीं और दूर वाले से गया तो है अगर्ये छस रास्ते के छप्तियार करने में छस की कोछ ग-रजे सछीह न हो.

(عالمگیری ج ۱ ص ۱۳۸، دُرّ مختار مع ردالمحتار ج ۲ ص ۶۰۳)

मुसाफ़िर कब तक मुसाफ़िर है ?

मुसाफ़िर उस वक्त तक मुसाफ़िर है जब तक अपनी बस्ती में पहोंय न जाअे या आबादी में पूरे 15 दिन ठहरने की निय्यत न कर ले. येह उस वक्त है जब पूरे तीन दिन की राह (या'नी तकरीबन 92 क़िलो मीटर) यल युका हो अगर तीन मन्जिल (या'नी तकरीबन 92 क़िलो मीटर) पहोंयने से पेशतर वापसी का छरादा कर लिया तो मुसाफ़िर न रहा अगर्ये जंगल में हो. (دُرّ مختار مع ردالمحتار ج ۲ ص ۶۰۴)

सफ़र ना जाछा हो तो ?

सफ़र जाछा काम के लिये हो या ना जाछा काम के लिये अहर छाल

करमाने मुस्तक़ा: عَلَى اللَّهِ تَعَالَى غَنِيٌّ وَاللَّهُ وَسِيمٌ: जिस के पास मेरा जिक्र हुआ और उस ने मुझ पर दुःख शरीफ़ न पढा उस ने जफ़ा की. (عمران: १)

मुसाफ़िर के अहकाम जारी होंगे.

(عالمگیری ج ۱ ص ۱۳۹)

सेठ और नोकर का छकड़ा सफ़र

माहाना या सालाना एंजारे वाला नोकर अगर अपने सेठ के साथ सफ़र करे तो सेठ के ताबेअ है, इरमां भरदार बेटा वालिद के ताबेअ है और वोह शागिर्ट जिस को उस्ताद से भाना मिलता है वोह उस्ताद के ताबेअ है या'नी जो निय्यत मत्बूअ (या'नी जिस के ताबेअ है) की है वोही ताबेअ की भानी जाओगी. ताबेअ को याहिये के मत्बूअ को सुवाल करे वोह जो जवाब दे उस के भ मूजिब अमल करे. अगर उस ने कुछ भी जवाब न दिया तो देभे के वोह (या'नी मत्बूअ) मुकीम है या मुसाफ़िर, अगर मुकीम है तो अपने आप को भी मुकीम समजे और अगर मुसाफ़िर है तो मुसाफ़िर, और येह भी मा'लूम नही तो तीन दिन की राह (या'नी तकरीबन 92 किलो मीटर) का सफ़र तै करने के भा'द करे, इस से पहले पूरी पढे और अगर सुवाल न कर सका तो वोही हुकूम है के सुवाल किया और कुछ जवाब न मिला.

(مَلَخَّصًا رَدَّ الْمَحْتَار ج ۲ ص ۶۱۶, ۶۱۷)

काम हो गया तो यला जाओंगा !

मुसाफ़िर किसी काम के लिये या अहबाब के एन्तिज़ार में दो यार रोज़ या तेरह यौदह दिन की निय्यत से ठहरा, या येह एंरादा है के काम हो जाओगा तो यला जाओगा, दोनों सूरतों में अगर आज कल आज कल करते बरसों गुज़र जाओ जब भी मुसाफ़िर ही है, नमाज़ करे पढे.

(عالمگیری ج ۱ ص ۱۳۹)

करमाने मुस्तफ़ा: على الله تعالى عليه والله وسّم. जो मुज पर रोजे जुमुआ दुरुद शरीफ़ पढेगा में कियामत के दिन (उस की शफ़ाअत करेगा. (क़ुरआन)

औरत के सफ़र का मस्यला

औरत को बिगैर महरम के तीन दिन (तकरीबन 92 किलो मीटर) या ज़ियादा की राह जाना ज़ाईज नहीं. ना बालिग बय्या या मा'तूह (या'नी नीम पागल) के साथ भी सफ़र नहीं कर सकती, हमराही में बालिग महरम या शोहर का होना ज़रूरी है. (एल्मकिरी ज 1 व 142) औरत, मुराहिक (करीबुल बुलूग लउका) महरम (काबिले इत्मीनान) के साथ सफ़र कर सकती है. "मुराहिक बालिग के हुकूम में है." (फ़तावु एल्मकिरी ज 1 व 219) महरम के लिये ज़रूरी है के सप्त फ़ासिक, बेबाक, गैर मामून न हो.

(बहारे शरीअत, छिस्सा: 4, स. 84, मदीनतुल मुर्शिद बरेली शरीफ़)

औरत का सुसराल व मयका

औरत बियाह कर सुसराल गई और यहीं रहने सहने लगी तो मयका (या'नी औरत के वालिदैन का घर) ईस के लिये वतने अस्वी न रहा या'नी अगर सुसराल तीन मन्ज़िल (तकरीबन 92 किलो मीटर) पर है वहां से मयके आई और पन्डरह दिन ठहरने की निय्यत न की तो कसर पढे और अगर मयके रहना नहीं छोडा बल्के सुसराल आरिज़ी तौर पर गई तो मयके आते ही सफ़र अत्म हो गया नमाज़ पूरी पढे.

(बहारे शरीअत, छिस्सा: 4, स. 84, मदीनतुल मुर्शिद बरेली शरीफ़)

अरब मुमालिक में वीठा पर रहने वालों का मस्यला

आज कल कारोबार वगैरा के लिये कई लोग बाल बय्यों समेत अपने मुल्क से दूसरे मुल्क मुत्ताकिल हो जाते हैं, इन के पास मप्सूस मुद्दत

करमाने मुस्तक़ि: على الله تعالى عليه واليه وسلم: मुज पर दुरदे पाक की कसरत करो भेशक येह तुम्हारे लिये तहारत है.
(अ-यूसुफ)

का (VISA) होता है. (म-सलन अरब अमारात में ज़ियादा से ज़ियादा तीन साल का रिहाईशी वीजा मिलता है) येह वीजा आरिज़ी होता है और मप्सूस रकम अदा कर के हर तीन साल के आभिर में ँस की तजदीद करवानी पडती है. यूंके वीजा महदूद मुदत के लिये मिलता है लिहाजा बाल बख्ये ल्मी अगर्ये साथ छों ँस की अमारात में मुस्तक़िल क़ियाम की निय्यत बेकार है और ँस तरह प्वाह कोर्छ 100 साल तक यछां रहे अमारात ँस का वतने अस्ली नहीं हो सकता. येह जब ल्मी सफ़र से लौटेगा और क़ियाम करना याहे तो ँकामत की निय्यत करनी होगी. म-सलन दुबई में रहता है और सुन्नतों की तरबिय्यत के लिये द्वा'वते ँस्लामी के म-दनी काफ़िले में आशिकाने रसूल के साथ तकरीबन 150 किलो मीटर दूर वाकेअ अमारात के दारुल ख़िलाफ़ा अबू ज़हबी का ँस ने सुन्नतों ल्भरा सफ़र ँप्तियार क़िया. अब द्वाबारा दुबई में आ कर अगर ँस को मुकीम होना है तो 15 दिन या ँस से जाईद क़ियाम की निय्यत करनी होगी वरना मुसाफ़िर के अहकाम ज़ारी होंगे. छां अगर ज़ाहरे लाल (या'नी UNDER STOOD) येह है के अब 15 दिन या ँस से ज़ियादा अर्से येह दुबई में ही गुजारेगा तो मुकीम हो गया अगर ँस का कारोबार ही ँस तरह का है के मुकम्मल 15 दिन रात येह दुबई में नहीं रहता, वक्तन इ वक्तन शर-ई सफ़र करता है तो ँस तरह अगर्ये बरसों अपने बाल बख्यों के पास दुबई आना जाना रहे येह मुसाफ़िर ही रहेगा ँस को नमाज कसर करना होगी. अपने शहर के बाहर दूर दूर तक माल सप्लाय करने वाले और शहर ब

करमाने मुस्तफ़ी علی اللہ تعالیٰ غیبہ و البوستم : तुम जहां भी हो मुज पर दुरद पढे के तुम्हारा दुरद मुज तक पढीयता है. (طرائق)

शहर, मुल्क अ मुल्क इरे लगाने वाले और द्राईवर साहिबान वगैरा इन अहकाम को जेहन में रबे.

ठाघरे मदीना के लिये जरूरी मस्यला

जिस ने एकामत की नियत की मगर उस की हालत बताती है के पन्दरह दिन न ठहरेगा तो नियत सहीह नहीं म-सलन हज करने गया और जिल डिज्जतिल हराम का मदीना शुरुअ हो जाने के बा वुजूह पन्दरह दिन मक्कअे मुअज़्जमा में ठहरने की नियत की तो येह नियत बेकार है के जब हज का इरादा किया है तो (15 दिन इस को मिलेंगे ही नहीं के 8 जिल डिज्जतिल हराम) बिना शरीफ़ (और 9 को) अ-रफ़ात शरीफ़ को जरूर जाओगा फिर इतने दिनों तक (या'नी 15 दिन मुसल्लव) मक्कअे मुअज़्जमा में क्यूंकर ठहर सकता है ? बिना शरीफ़ से वापस हो कर नियत करे तो सहीह है (उर् मुख्तार ज २, १२९, १३०, १३१, १३२, १३३, १३४, १३५, १३६, १३७, १३८, १३९, १४०, १४१, १४२, १४३, १४४, १४५, १४६, १४७, १४८, १४९, १५०) जलब के वाकेई 15 या जियादा दिन मक्कअे मुअज़्जमा में ठहर सकता हो, अगर उन्ने गालिब हो के 15 दिन के अन्दर अन्दर मदीनअे मुनव्वरह या वतन के लिये रवाना हो जाओगा तो अब भी मुसाफ़िर है.

उम्रह के वीजे पर हज के लिये रुकना कैसा ?

उम्रह के वीजे पर जा कर गैर कानूनी तौर पर हज के लिये रुकने या दुन्या के किसी भी मुल्क में VISA की मुद्दत पूरी होने के बा'द गैर कानूनी रहने की जिन की नियत हो वोह वीजा की मुद्दत अत्म छोते वक्त जिस शहर या गाँ में मुकीम हों वहां जब तक रहेंगे उन के लिये

करमाने मुस्तफ़ि। عَلَى اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ : जिस ने मुज पर दस भरतबा दुवदे पाक पढा अल्लाह उंस पर सो रलमतें नाजिल करमाता है. (طبرانی)

मुकीम ही के अहकाम होंगे. अगर्ये भरसों पडे रहें मुकीम ही रहेंगे. अलबत्ता ओक बार भी अगर 92 किलो मीटर या इस से ज़ियादा फ़ासिले के सफ़र के इरादे से उस शहर या गाँव से यले तो अपनी आबादी से बाहर निकलते ही मुसाफ़िर हो गये और अब उन की इकामत की नियत बेकार है. म-सलन कोई शप्स पाकिस्तान से उम्रह के VISA पर मक्कअे मुकर्रमा اللهُ شَرَفًا وَتَعْظِيمًا गया, VISA की मुदत खत्म होते वकत भी मक्का शरीफ़ ही में मुकीम है तो उस पर मुकीम के अहकाम हैं. अब अगर म-सलन वहां से मदीनअे मुनव्वरह اللهُ شَرَفًا وَتَعْظِيمًا आ गया तो याहे भरसों गैर कानूनी पडा रहे, मगर मुसाफ़िर ही है, यहां तक के अगर दोबारा मक्कअे मुकर्रमा اللهُ شَرَفًا وَتَعْظِيمًا आ जाये फिर भी मुसाफ़िर रहेगा, इस को नमाज कसर ही अदा करनी होगी. हां अगर दोबारा VISA मिल गया तो इकामत की नियत की जा सकती है. याद रहे ! जिस कानून की खिलाफ़ वर्जी करने पर जिल्लत, रिशवत और जूट वगैरा आफ़ात में पडने का अन्देशा हो उस कानून की खिलाफ़ वर्जी जाइज नहीं. युनान्थे, मेरे आका आ'ला हजरत, इमामे अहले सुन्नत, मौलाना शाह इमाम अहमद रजा खान عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰن करमाते हैं : मुबाह (या'नी जाइज) सूरतों में से बा'ज (सूरतें) कानूनी तौर पर जुर्म होती हैं इन में मुलव्वस होना (या'नी अैसे कानून की खिलाफ़ वर्जी करना) अपनी जात को अजिथ्यत व जिल्लत के लिये पेश करना है और वोह

करमाने मुस्तक़ा على الله تعالى عليه وآله وسلم: उस शप्स की नाक पाक आवूद हो जिस के पास मेरा जिक्र हो और वोह मुज पर दुर्रदे पाक न पड़े. (१६)

नियत की और यार पर सलाम डेरा तो उस की भी नमाज हो गई. कु-कहाअे किराम حَسْبُكَ اللهُ السَّلَام डरमाते हैं: “नियते नमाज में ता’दादे रकुआत की ता’थीन या’नी तक़रर करना जररी नहीं क्यूंके येह जिम्नन हासिल है. नियत में ता’दाद मुअय्यन करने में भता नुक्सान देह नहीं. (दुर्र مختार معه ردالمختار ج २ ص ९७, ९८)

मुसाफिर धमाम और मुकीम मुक्तदी

ईक़तदा दुरुस्त होने के लिये अेक शर्त येह भी है के धमाम का मुकीम या मुसाफिर होना मा’लूम हो ज्वाह नमाज शुइअ करते वक्त मा’लूम हुवा या भा’द में, लिहाजा धमाम को याहिये के शुइअ करते वक्त अपना मुसाफिर होना जाहिर कर दे और शुइअ में न कहा तो भा’दे नमाज कह दे के “मुकीम ईस्लामी भाई अपनी नमाजें पूरी कर लें, मैं मुसाफिर हूं.” (दुर्र مختार ज २ ص १११, ११२) और शुइअ में अे’लान कर युका है जब भी भा’द में कह दे के जो लोग उस वक्त मौजूद न थे उन्हें भी मा’लूम हो जाअे. अगर धमाम का मुसाफिर होना जाहिर था तो नमाज के भा’द वाला येह अे’लान मुस्तहब है.

(दुर्र مختार ज २ ص ७३०, ७३१ دارالمعرفة بيروت)

मुकीम मुक्तदी और बकिय्या दो रकुअते

कसर वाली नमाज में मुसाफिर धमाम के सलाम डेरने के भा’द मुकीम मुक्तदी जब अपनी बकिय्या नमाज अदा करे तो इर्ज की तीसरी और चौथी रकुअत में सू-रतुल इतिहा पढने के बजाअे अन्दाज़न उतनी

करमाने मुस्तक़ा: على الله تعالى عليه و آله وسلم: जिस ने मुज पर रोजे जुमुआ दो सो बार दुइटे पाक पढा उस के दो सो साल के गुनाह मुआफ़ होंगे. (अमल)

देर युप भडा रहे.

(मुलप्यसन बहारे शरीअत, डिस्सा: 4, स. 82, मदीनतुल मुर्शिद बरेली शरीफ़)

क्या मुसाफिर को सुन्नते मुआफ़ हैं ?

सुन्नतों में कसर नहीं बल्के पूरी पढी जायेगी, भौफ़ और रवा-रवी (या'नी घबराहट) की हालत में सुन्नते मुआफ़ हैं और अभ्न की हालत में पढी जायेगी. (عالمگیری ج ۱ ص ۱۳۹)

“नमाज” के चार हुरफ़ की निस्बत से

यलती गाडी में नफ़ल पढने के 4 म-दनी फ़ूल



बैरने शहर (बैरने शहर से मुराद वोह जगह है जहां से मुसाफिर पर कसर करना वाजिब होता है) सुवारी पर (म-सलन यलती कार, बस, वेगन में भी नफ़ल पढ सकता है और इस सूरत में इस्तिफ़ाले किब्ला या'नी किब्ला रुफ़ होना) शर्त नहीं बल्के सुवारी (या गाडी) जिस रुफ़ को जा रही हो उधर ही मुंड हो और अगर उधर मुंड न हो तो नमाज जाईज नहीं और शुअ करते वक्त भी किब्ला की तरफ़ मुंड होना शर्त नहीं बल्के सुवारी (या गाडी) जिधर जा रही है उसी तरफ़ मुंड हो और रुकूअ व सुजूद ईशारे से करे और (जइरी है के) सजदे का ईशारा ब निस्बत रुकूअ के पस्त हो. (या'नी रुकूअ के लिये जिस कदर जुका, सजदे के लिये उस से जियादा जुके) (دُرِّ مختار معه ردالمختار ج ۲ ص ۴۸۷) यलती ट्रेन वगैरा ऐसी सुवारी जिस में जगह मिल सकती है उस में किब्ला रुफ़

करमाने मुस्तक़ा صلى الله تعالى عليه و آله وسلم : मुज पर दुइद शरीफ़ पढो अल्लाह عزوجل तुम पर रहमत भेजेगा. (अिन सदी)

डो कर काईदे के मुताबिक नवाक़िल पढने डोंगे.



गाँड में रहने वाला जब गाँड से बाहर हुवा तो सुवारी (गाडी) पर नक़ल पढ सकता है. (रदالمختार २ ज ८१६)



बैरने शहर सुवारी पर नमाज शुरुअ की थी और पढते पढते शहर में दाख़िल डो गया तो जब तक घर न पडोंया सुवारी पर पूरी कर सकता है. (दर्र مختार २ ज ८१७, ८१८)



यलती गाडी में बिला उज़रे शर-ई इर्ज़ व सुन्नते इज्ज व तमाम वाजिबात जैसे वित्र व नज़र और वोड नक़ल जिस को तोड दिया डो और सजदअे तिलावत जब के आयते सजदा जमीन पर तिलावत की डो अदा नहीं कर सकता और अगर उज़र की वजह से डो तो ँन सभ में शर्त येड है के अगर मुफ़्किन डो तो डिब्ला इ ञडा डो कर अदा करे वरना जैसे ल्मी मुफ़्किन डो. (इर ट्रेन से उतर कर ँआदा करे) (दर्र مختार २ ज ८१८)

मुसाफ़िर तीसरी रक़अत के लिये ञडा डो ञअे तो....?

अगर मुसाफ़िर कसर वाली नमाज की तीसरी रक़अत शुरुअ कर दे तो ँस की दो सूरते हें (1) ञ कदरे तशाहुहुद का'दअे अपीरा कर युका था तो जब तक तीसरी रक़अत का सजदा न किया डो लौट आअे और सजदअे सड्व कर के सलाम इेर दे अगर न लौटे और ञडे ञडे सलाम इेर दे तो ल्मी नमाज डो ञाअेगी मगर सुन्नत तर्क हुई. अगर तीसरी रक़अत का सजदा कर लिया तो अेक और रक़अत मिला कर सजदअे सड्व कर के नमाज

करमाने मुस्तक। على الله تعالى عليه و الله وسلم : मुज पर कसरत से दुरदे पाक पढे बेशक तुम्हारा मुज पर दुरदे पाक पढना तुम्हारे गुनाहों के लिये मगिरत है. (मस्ने)

मुकम्मल करे येह आभिरि द्यो रकूअतें नफ़ल शुमार होंगी (2) का'दअे अभीरा किये बिगैर जडा हो गया था तो जब तक तीसरी रकूअत का सजदा न किया हो लौट आये और सजदअे सलूव कर के सलाम फ़ैर दे अगर तीसरी रकूअत का सजदा कर लिया फ़र्ज बातिल हो गये अब अेक और रकूअत मिला कर सजदअे सलूव कर के नमाज मुकम्मल करे यारों रकूअतें नफ़ल शुमार होंगी. (द्यो रकूअत फ़र्ज अदा करने अत्मी जिम्मे बाकी हें.) (माखुड अज़ डूर مختار معه ردالمختار ج २ ص ०००)

सफ़र में कज़ा नमाज़ें

डावते ँकामत में होने वाली कज़ा नमाज़ें सफ़र में त्मी पूरी पढनी होंगी और सफ़र में कज़ा होने वाली कसर वाली नमाज़ें मुकीम होने के बा'द त्मी कसर ही पढी जाअेंगी.

गमे मदीना, बकीअ,
मगिरत और बे
हिसाब जन्नतुल
फ़िरदौस में आका
के पओस का तालिब



27 र-जबुल मुरज्जब 1426 हि.

करमाने मुस्तफ़ा: صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: जो मुज़ पर ओक दुबुद शरीफ़ पढेता है अदवाह उँस के लिये ओक कीरात अजब लिफता है और कीरात उँदुद पछाड जितना है. (ए.रा. १/१४)

हिफ़्ज़ बुला देने का अज़ाब

यकीनन हिफ़्ज़े कुरआने करीम कारे सवाबे अज़ीम है, मगर याद रहे हिफ़्ज़ करना आसान, मगर उम्र भर इस को याद रचना दुश्वार है. हुफ़्ज़ाज व छाफ़िजात को यादिये के रोजाना कम अज कम ओक पारा लाज़िमन तिलावत कर लिया करें. जो हुफ़्ज़ाज २-मजानुल मुबारक की आमद से थोडा अर्सा कबल इकत मुसल्ला सुनाने के लिये मन्जिल पक्की करते हैं और इस के धलावा مَكَّاهُ اللهُكَ सारा साल गइलत के सभब कइ आयात बुलाअे रहते हैं, वोह बार बार पढ़ें और भौंके फुदा كَرِّمْ से लरजें. नीज जिस ने ओक आयत ली बुलाई है वोह दोबारा याद कर ले और बुलाने का जो गुनाह हुवा उस से सख्खी तौबा करे.



1 जो कुरआनी आयात याद करने के बा'द बुला देगा बरोजे कियामत अन्धा उठाया जायेगा. (مَلَخْد: १७० १२०/१२१)

इरामीने मुस्तफ़ा صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ



2 मेरी उम्मत के सवाब मेरे हुज़ूर पेश किये गये यहां तक के मैं ने उन में वोह तिन्का ली पाया जिसे आदमी मस्जिद से निकालता है और मेरी उम्मत के गुनाह मेरे हुज़ूर पेश किये गये. मैं ने इस से बडा गुनाह न देया के किसी आदमी को कुरआन की ओक सूरत या ओक आयत याद हो किंर वोह उसे बुला दे.

(جامع ترمذی حدیث २९१६)

करमाने मुस्तफ़ा: عَلَى اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالْوَسْمُ: जिस ने किताब में मुज़ पर दुइदु पाक लिखा तो जब तक मेरा नाम उस में रहेगा फिरिश्ते उस के लिये ईस्तिस्कार करते रहेंगे. (अ. ७)



3 जो शप्स कुरआन पढे फिर उसे लुला दे तो कियामत के दिन अल्लाह तआला से कोढी हो कर मिले.

(अबु दाउद हदीथ १६७६)



4 कियामत के दिन मेरी उम्मत को जिस गुनाह का पूरा भदला दिया जाओगा वोह येह है के उन में से किसी को कुरआने पाक की कोई सूरत याद थी फिर उस ने इसे लुला दिया.

(कन्ज़ुलुग़माल हदीथ २४६६)



5 आ'ला हज़रत, इमामे अहले सुन्नत, इमाम अहमद रज़ा भान عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰن इरमाते हैं: "उस से ज़ियादा नादान कौन है जिसे भुदा क़ुर्क़ुँ औसी हिम्मत बप्शे और वोह इसे अपने हाथ से भो दे अगर कद्र इस (हिफ़जे कुरआने पाक) की ज़ानता और जो सवाब और द-रज़ात इस पर भौगिद हैं (या'नी जिन का वा'दा किया गया है) उन से वाकिफ़ होता तो इसे ज़ानो हिल से ज़ियादा अज़ीज़ रभता." मज़ीद इरमाते हैं: "जहां तक हो सके इस के पढाने और हिफ़ज़ कराने और भुद याद रभने में कोशिश करे ताके वोह सवाब जो इस पर भौगिद (या'नी वा'दा किये गये) हैं हासिल हों और बरोजे कियामत अन्धा कोढी उठने से नज़ात पाओ.

(इतावा र-अविय्या, जि. 23, स. 645,647)

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ
 مَا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

क़ा नमाज़ों का तरीका ^(१-वक़ी)

शैतान लाप रोक़े येह रिसाला (25 सफ़हात) मुकम्मल पढ
 लीजिये, **إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ** इस की ब-र-कतें भुद ही देप लेंगे.

दुइ शरीफ़ की इमीलत

दो जहां के सुल्तान, सरवरे जीशान, महबूबे रहमान
 صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ का इरमाने मग़ि़रत निशान है : मुज़ पर दुइ पाक
 पढना पुल सिरात पर नूर है, जो रोज़े जुमुआ मुज़ पर 80 बार दुइ पाक पढे
 उस के 80 साल के गुनाह मुआफ़ हो जाअेंगे

(الأفردوس بمأثور الخطاب ج 2 ص 408 حديث 3814)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

पारह 30 सू-रतुल माग़िन की आयत नम्बर 4 और 5 में
 ईशाह़ होता है :

فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ
 عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ

तर-ज-मअे क-ज़ुल ईमान : तो उन
 नमाज़ियों की पराबी है जो अपनी
 नमाज़ से भूले बैठे हें.

मुइरिसरे शहीर, हकीमुल उम्मत, हज़रते मुइती अहमद
 पार पान عَلَيْهِ رَحْمَةُ الْحَنَّانِ सू-रतुल माग़िन की आयत नम्बर 5 के तह़्त

फ़रमाने मुस्तक़ा صَلَّي اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : जिस ने मुज पर अेक बार दुइदे पाक पढा अल्लाह उंस पर दस रहुमतें बेजता है. (१)

फ़रमाते हैं : नमाज से भूलने की यन्द् सूरतें हैं : कल्मी न पढना, पाबन्दी से न पढना, सहीह वक्त पर न पढना, नमाज सहीह तरीके से अदा न करना, शौक से न पढना, समज भूज कर अदा न करना, कसल व सुस्ती, बे परवाँ से पढना.

(नूरुल धरफ़ान, स. 958)

जहन्नम की भौफ़नाक वादी

सदरुशशरीअह, अदरुतारीकह, उजरते भौलाना मुहम्मद अमजद अली आ'जमी عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِي फ़रमाते हैं : जहन्नम में वैल नामी अेक भौफ़नाक वादी है जिस की सप्ती से भुद जहन्नम ली पनाह मांगता है. ज़ान भूज कर नमाज क़ा करने वाले उंस के मुस्तहिक हैं.

(अदारे शरीअत, जि. 1, स. 347 मुलफ़्फसन)

पहाड गरमी से पिघल ज़अें

उजरते सय्यिदुना इमाम मुहम्मद बिन अहमद ज-हबी عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِي फ़रमाते हैं : क़हा गया है के जहन्नम में अेक वादी है जिस का नाम वैल है, अगर उंस में दुन्या के पहाड डाले ज़अें तो वोह ली उंस की गरमी से पिघल ज़अें और येह उन लोगों का ठिकाना है ज़ो नमाज में सुस्ती करते और वक्त के बा'द क़ा कर के पढते हैं मगर येह के वोह अपनी कोताही पर नादिम डों और बारगाहे भुदा वन्दी में तौबा करें.

(كِتَابُ الْكَبَائِرِ ص 19)

सर कुयलने की सज़ा

सरकारे मदीनअे मुनव्वरह, सरदारे मक्कअे मुकर्रमा صَلَّي اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ने सहाअअे किराम الرّضوان से फ़रमाया :

करमाने मुस्तक़ि। حَسْبِيَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : जिस के पास मेरा ज़िक्र हुआ और उस ने मुझ पर दृढ़ पक न पढा तहकीक़ वोह बढ भप्त हो गया. (हज़र)

क़ब्र में आग के शो'ले

अेक शप्स की बहन झैत हो गध. जब उसे दहन कर के लौटा तो याद आया के रकम की थेली क़ब्र में गिर गध है युनान्ये क़ब्रिस्तान आ कर थेली निकालने के लिये उस ने अपनी बहन की क़ब्र षोद डाली ! अेक दिल् खिला देने वाला मन्जर उस के सामने था, उस ने देषा के बहन की क़ब्र में आग के शो'ले लडक रहे हैं ! युनान्ये उस ने जूं तूं क़ब्र पर मिट्टी डाली और सदमे से यूर यूर रोता हुआ मां के पास आया और पूछा : ध्यारी अम्मीजान ! मेरी बहन के आ'माल कैसे थे ? वोह बोली : बेटा क्यूं पूछते हो ? अर्ज़ की : “मैं ने अपनी बहन की क़ब्र में आग के शो'ले लडकते देषे हैं.” येह सुन कर मां ली रोने लगी और क़हा : “अइसोस ! तेरी बहन नमाज़ में सुस्ती किया करती थी और नमाज़ क़ज़ा कर के पढा करती थी.”

(क़ताब़ अलक़ाब्रि, व. २१)

मीठे मीठे ईस्लामी लार्थयो ! जब क़ज़ा करने वालों की अैसी अैसी सप्त सज़ाअें हैं तो जो बढ नसीब सिरि से नमाज़ डी नडीं पढते उन का क्या अन्जाम होगा !

अगर नमाज़ पढना भूल जाये तो.....?

ताजदारे रिसालत, शहन्शाहे नुबुव्वत, पैकरे जूदो सषावत सरापा रहमत صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ने ईशाद इरमाया : जो नमाज़ से सो जाये या भूल जाये तो जब याद आये पढ ले, के वोही उस का वक्त है. (मुसल्लम व. ३६१ हदित ११६)

हु-क़हाअे किराम اللهُ السّلامُ رَحْمَتُهُمْ इरमाते हैं : सोते में या भूले से नमाज़ क़ज़ा हो गध तो उस की क़ज़ा पढनी इर्ज़ है अलबत्ता क़ज़ा का गुनाह उस पर नडीं मगर बेदार होने और याद आने पर अगर वक़ते

फ़रमाने मुस्तफ़ा صَلَّي اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : जिस ने मुज़ा पर दस मरतबा सुब्ह और दस मरतबा शाम दुर्इटे पाक पढा (उसे क़ियामत के दिन मेरी शक़ाअत मिलेगी. (مَدِينَةُ)

मक़रूह न हो तो उसी वक़्त पढ ले ताप्पीर मक़रूह है.

(बहारे शरीअत, जि. 1, स. 701)

धत्तिफ़ाक़न आंभ न फ़ुली तो..... ?

इतावा र-अविय्या में है : ❁ जब जाने, के अब सोया तो नमाज़ ज़ाती रहेगी उस वक़्त सोना हलाल नहीं मगर जब के किसी ज़गा देने वाले पर अ'तिमाद हो ❁ जैसे वक़्त में सोया के आदतन वक़्त में आंभ फ़ुल ज़ाती और धत्तिफ़ाक़न न फ़ुली तो गुनहगार नहीं.

(इवाइटे ज़लीला इतावा र-अविय्या, जि. 4, स. 698)

मजबूरी में अदा का सवाब मिलेगा या नहीं ?

आंभ न फ़ुलने की वजह से नमाज़े इश "क़ज़ा" हो जाने की सूरत में "अदा" का सवाब मिलेगा या नहीं. इस ज़िम्न में मेरे आका आ'ला हज़रत, इमामे अहले सुन्नत, वलिय्ये ने'मत, अज़ीमुल ब-र-क़त, अज़ीमुल मर्तबत, परवानअे शम्मे रिसालत, मुजद्दिदे दीनो मिल्लत, डामिये सुन्नत, माडिये बिद्अत, आलिमे शरीअत, पीरे तरीक़त, बाईसे भैरो ब-र-क़त, इमामे इशको मडब्बत, हज़रते अल्लामा मौलाना अलहाज अल हाफ़िज़ अल कारी शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान صَلَّي اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ इतावा र-अविय्या जिल्द 8 सफ़्हा 161 पर फ़रमाते हैं : रहा अदा का सवाब मिलना येह अल्लाह عَزَّ وَجَلَّ के इप्तियार में है. अगर वोह जानेगा के इस ने अपनी ज़ानिब से कोई तक्सीर (कोताही) न की, सुब्ह तक ज़ागने के कस्ट से बैठा था और बे इप्तियार आंभ लग गई तो ज़रूर उस पर गुनाह नहीं. रसूलुल्लाह صَلَّي اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

फ़रमाने मुस्तक़ि: عَلَى اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَسَلَّمَ: जिस के पास मेरा ज़िक्र हुआ और उस ने मुझ पर दुर्इद शरीक़ न पढा उस ने ज़का की. (عمران: १)

फ़रमाते हैं : नींद की सूरत में कोताही नहीँ, कोताही उस शप्स की है जो (जागते में) नमाज़ न पढे उता के दूसरी नमाज़ का वक्त आ जाये.

(मुसल्लम व ३६६ १११)

रात के आभिरि हिस्से में सोना कैसा ?

नमाज़ का वक्त दाभिल हो जाने के बा'द सो गया फ़िर वक्त निकल गया और नमाज़ क़ज़ा हो गई तो कत्अन गुनहगार हुआ जब के जागने पर सहीह अ'तिमाद या जागने वाला मौजूद न हो बल्के इज्ज में दुभूले वक्त से पहले भी सोने की इजाज़त नहीँ हो सकती जब के अकसर हिस्सा रात का जागने में गुज़रा और ज़न्ने गादिब है के अब सो गया तो वक्त में आंभ न भुलेगी. (बहारे शरीअत, जि. 1, स. 701)

रात ढेर तक जागना

भीठे भीठे इस्लामी भाईयो ! ना'त प्वानियों, ज़िको फ़िक़ की महफ़िलों नीज़ सुन्नतों तरे इजातिमाआत वगैरा में रात ढेर तक जागने के बा'द सोने के सबब अगर नमाज़े इज्ज क़ज़ा होने का अन्देशा हो तो ब निथ्यते अ'तिक़ाफ़ मस्जिद में कियाम करें या वहां सोअें जहां कोई काबिले अ'तिमाद इस्लामी भाई जागने वाला मौजूद हो. या अलार्म वाली घडी हो जिस से आंभ भुल जाती हो मगर अेक अदद घडी पर तरोसा न किया जाये के नींद में डाय लग जाने से या यूं ही पराब हो कर बन्द हो जाने का इम्कान रहता है, दो या हस्बे ज़रूरत ज़ाईद घडियां हों तो बेहतर है. कु-कहाये किराम رَحْمَتُهُمُ اللَّهُ السَّلَامُ फ़रमाते हैं : “जब येड अन्देशा हो, के सुब्ह की नमाज़ जाती रहेगी तो बिला ज़रूरते शरईय्या उसे रात ढेर तक जागना भन्नूअ है.” (رَدُّ الْمَحْتَرَجِ २ ३३)

करमाने मुस्तक़ा: عَلَى اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالهِ وَسَلَّمَ : जो मुज़ पर रोजे ज़ुमुआ दुरुद शरीफ़ पढ़ेगा में क़ियामत के दिन उस की शक़ाअत क़ुर्गा. (क़ुरआन)

अदा, क़ा और वाज़िबूल धरमादा की ता'रीफ़

जिस चीज़ का बन्दों को हुक्म है उसे वक्त में बजा लाने को अदा कहते हैं और वक्त ख़त्म होने के बाद अमल में लाना क़ा है और अगर उस हुक्म के बजा लाने में कोई ख़राबी पैदा हो जाये तो उस ख़राबी को दूर करने के लिये वोह अमल दोबारा बजा लाना धरमादा कहलाता है. वक्त के अन्दर अन्दर अगर तहरीमा बांध ली तो नमाज़ क़ा न हुई बल्के अदा है. (दरमुंख़्तार ज़ २, १२७-१२८) मगर नमाज़े इज़ा, ज़ुमुआ और धरैन में वक्त के अन्दर सलाम क़िरना लाज़िमी है वरना नमाज़ न होगी. (बख़ारे शरीअत, ज़ि. १, स. ७०१) बिला उज़रे शर-ध नमाज़ क़ा कर देना सप्त गुनाह है, धस पर क़र्ज़ है के उस की क़ा पढ़े और सय्ये दिल से तौबा ली करे, तौबा या इज़ा मक़बूल से **إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ** तापीर का गुनाह मुआफ़ हो जायेगा (दरमुंख़्तार ज़ २, १२६) तौबा उसी वक्त सहीह है जब के क़ा पढ़ ले उस को अदा किये बिगैर तौबा किये जाना तौबा नहीं, के जो नमाज़ धस के जिम्मे थी उस को न पढ़ना तो अब ली बाकी है और जब गुनाह से बाज़ न आया तो तौबा कहां हुई ?

(رَدُّ الْمُخْتَارِ ج २, १२७)

इज़रते सय्यिदुना धन्ने अब्बास **رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا** से रिवायत है, ताजदारे रिसालत, शहन्शाहे नुबुव्वत, पैकरे जूदो सभावत, सरापा रहमत **صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالهِ وَسَلَّمَ** ने धशाद क़रमाया : गुनाह पर काधम रह कर तौबा करने वाला उस की भिस्ल है जो अपने रब **عَزَّ وَجَلَّ** से ठह्रा (या'नी मज़ाक) करता है.

(شُعَبُ الْإِيمَانِ ج ५, ६३६ حديث ७१७८)

करमाने मुस्तफ़ा: عَلَى اللَّهِ تَعَلَّى عَلَيْهِ وَالْوَسْمُ : मुज़ पर दुरदे पाक की कसरत करो भेशक येह तुम्हारे लिये तहारत है.

(अ-यूसी)

तौबा के तीन रुकन हैं

सदरुल अज़ाज़िल उज़रते अल्लामा सय्यिद मुहम्मद नईमुदीन मुरादआबादी عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْكَلِيمَةِ फ़रमाते हैं : “तौबा के तीन रुकन हैं : 1) अतिराफ़े जुर्म 2) नदामत 3) अज़्मे तर्क (या'नी इस गुनाह को छोड़ने का पुप्ता अह्द). अगर गुनाह काबिले तलाफ़ी है तो उस की तलाफ़ी भी लाज़िम. म-सलन तारिके सलात (या'नी नमाज़ तर्क कर देने वाले) की तौबा के लिये नमाज़ों की क़ज़ा भी लाज़िम है.”

(अज़ाधनुल ईस्फ़ान, स. 12)

सोते को नमाज़ के लिये जगाना वाज़िब है

कोई सो रहा है या नमाज़ पढना भूल गया है तो जिसे मा'लूम है उस पर वाज़िब है के सोते को जगा दे और भूले हुअे को याद दिला दे. (वरना गुनहगार होगा) (बहारे शरीअत, जि. 1, स. 701) याद रहे ! जगाना या याद दिलाना उस वक्त वाज़िब होगा जब के जन्ने गालिब हो, के येह नमाज़ पढेगा वरना वाज़िब नहीं.

इज़ का वक्त हो गया उठो !

भीठे भीठे ईस्लामी भाईयो ! जूब सदाअे मदीना लगाईये या'नी सोने वालों को नमाज़ के लिये जगाईये और ढेरों नेकियां कमाईये. दा'वते ईस्लामी के म-दनी माहोल में इज़ के लिये मुसल्मानों को जगाना सदाअे मदीना लगाना कहलाता है, सदाअे मदीना वाज़िब नहीं, नमाज़े इज़ के लिये जगाना कारे सवाब है जो हर मुसल्मान को हस्बे मौक़अ करना चाहिये. सदाअे मदीना लगाने में इस बात की अेहतियात ज़रूरी है के किसी मुसल्मान को ईज़ा न हो.

करमाने मुस्तफ़ी : على الله تعالى غيبه و الهوسم : तुम जहां भी हो मुज पर दुरद पढे के तुम्हारा दुरद मुज तक पढीयता है. (طرائق)

हिंकायत

अेक ईस्लामी ल्ाई ने मुजे (सगे मदीना َعْنَه َعْنَه को) बताया था उम यन्ड ईस्लामी ल्ाई मेगाफ़ोन पर इज्जे के वक्त सदाअे मदीना लगाते हुअे अेक गली से गुजरे. अेक साखिब ने उम को टोका और कहा के मेरा बय्या रात लर नहीं सोया अल्मी अल्मी आंभ लगी है आप लोग मेगाफ़ोन बन्ड कर दीजिये. उम को उन साखिब पर बडा गुस्सा आया के न जाने कैसा मुसल्मान है, उम नमाज के लिये जगा रहे हैं और येह ईस नेक काम में रुकावट डाल रहा है ! षेर दूसरे दिन उम फिर सदाअे मदीना लगाते हुअे उस तरफ़ ज़ा निकले तो वोही साखिब पडले से गली के नुक्कड पर गमज़दा षडे थे और उम से कहने लगे : आज ली बय्या सारी रात नहीं सोया अल्मी अल्मी आंभ लगी है ईसी लिये मैं यहां षडा डो गया ताके उमारी गली से षामोशी से गुजरने की आप उजरात की षिदमात में दर-ष्वास्त करूं. ईस से मा'लूम हुवा के बिगैर मेगाफ़ोन के सदाअे मदीना लगाई ज़ाअे. नीज बिगैर मेगाफ़ोन के ली ईस क्दर षुलन्ड आवाजें न निकाली ज़ाअें जिस से घरों में नमाज व तिलावत में मशगूल ईस्लामी बडनों, जईफ़ों, मरीजों और बय्यों को तश्वीश डो या ज़े अव्वल वक्त में पढ कर सो रहा या सो रही डो उस की नींद में षलल पडे. और अगर कोई मुसल्मान अपने घर के पास सदाअे मदीना लगाने से रोके तो उस से ज़िद बड्स करने के बज्जअे उस से मुआफ़ी मांग ली ज़ाअे और उस पर हुस्ने ज़न रषा ज़ाअे के यकीनन कोई मुसल्मान नमाज के लिये जगाने का मुषालिफ़ नहीं डो सकता, उस बियारे की कोई मजबूरी डोगी. बिलइर्ज वोह बे नमाजी डो तो ली आप उस पर सपती करने के मज्जल नहीं,

करमाने मुस्तफ़ा: صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: जिस ने मुज पर दस भरतबा दुरेदे पाक पढा अल्लाह عُزَّوَجَلَّ उस पर सो रलमतें नाज़िल करमाता है. (ज़ुरान)

किसी मुनासिब वक़्त पर इन्तिहाई नरमी के साथ इन्फ़िरादी कोशिश के ज़रीअे उस को नमाज के लिये आमादा कीजिये. मसाजिद में ली अज़ाने इज्ज वगैरा के इलावा बे मौकअ नीज़ मडल्लों या मकानों के अन्दर मडाइले ना'त वगैरा में स्पीकर इस्ति'माल करने वालों को ली अपने अपने घरों में इबादत करने वालों, मरीजों, शीर ज्वार बय्यों और सोने वालों की इज़ा को पेशे नज़र रचना याहिये.

हुकूके आम्मा के ओहसास की हिकायत

हुकूके आम्मा का ज़याल रचना बहुत ज़रूरी है, हमारे अस्वाइफ़ इस मुआ-मले में बेहद मोहतात हुवा करते थे. युनान्ये हुज्जतुल इस्लाम हज़रते सय्यिदुना इमाम मुहम्मद बिन मुहम्मद बिन मुहम्मद गज़ाली رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ इरमाते हैं: हज़रते सय्यिदुना इमाम अहमद बिन हम्बल رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ की षिदमत में ओक शप्स कई साल से हाज़िर होता और इल्म हासिल करता. ओक बार जब आया तो आप رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ ने उस से मुंड डेर लिया. उस के ब इसरार इस्तिफ़सार पर इरमाया: अपने मकान की दीवार के सडक वाले कोने पर गारा लगा कर कदे आदम (या'नी इन्साना कद) के बराबर उस (कोने) को तुम ने आगे बढा दिया है हावां के वोह मुसल्मानों की गुजर गाह है. या'नी मैं तुम से कैसे षुश हो सकता हूँ के तुम ने मुसल्मानों का रास्ता तंग कर दिया है! (احياء العلوم ج ١ ص ٩٦ تلمّصاً) यहां वोह लोग ली इध्रत हासिल करें ज़े अपने घरों के बाहर औसे यबूतरे वगैरा बना देते हैं जिस से मुसल्मानों का रास्ता तंग हो जाता है.

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

करमाने मुस्तक़: عَلَى اللَّهِ تَعَالَى غَيْرُ الْوَسْمِ: जिस के पास मेरा जिक्र हो और वोह मुज पर दुरुद शरीक न पढे तो वोह लोगों में से कन्जूस तरीन शप्स है. (अल-अज़ीज़)

जल्द से जल्द क़ा पढ लीजिये

जिस के जिम्मे क़ा नमाज़ें हों उन का जल्द से जल्द पढना वाजिब है मगर बाल बच्चों की परवरिश और अपनी ज़रूरियात की इरादमी के सबब तापीर ज़ाहज़ है. लिहाज़ा कारोबार भी करता रहे और कुरसत का जो वक्त मिले उस में क़ा पढता रहे यहाँ तक के पूरी हो जायें.

(दُرُّمُخْتَار २/ص १६६)

छुप कर क़ा पढिये

क़ा नमाज़ें छुप कर पढिये लोगों पर (या घर वालों बल्के करीबी दोस्त पर भी) इस का इज़हार न कीजिये (म-सलन येह मत क़ा कीजिये के मेरी आज की इज़ क़ा हो गइ या मैं क़ाये उम्मी पढ रहा हूँ वगैरा), के गुनाह का इज़हार भी मक़रूहे तहरीमी व गुनाह है. (رَدُّ الْمُحْتَار २/ص १००) लिहाज़ा अगर लोगों की मौजूदगी में वित्र क़ा पढ़ें तो तक़बीरे कुनूत के लिये हाथ न उठायें.

जुमुअतुल वदाअ में क़ाये उम्मी

र-मजानुल मुबारक के आबिरी जुमुआ में बा'ज लोग बा जमाअत क़ाये उम्मी पढते हैं और येह समजते हैं के उम्म भर की क़ायेँ इसी अेक नमाज़ से अदा हो गइ येह बातिल मद्ज़ है.

(बहारे शरीअत, जि. 1, स. 708)

उम्म भर की क़ा का हिसाब

जिस ने क़बी नमाज़ें ही न पढी हों और अब तौफ़ीक हुई और क़ाये उम्मी पढना याहता है वोह जब से बालिग हुवा है उस वक्त से

करमाने मुस्तक़। عَلَى اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : उस शप्स की नाक पाक आवुद छो जिस के पास मेरा जिक्र छो और वोह मुज पर दुइदे पाक न पढे. (१७)

नमाजों का हिसाब लगाओ और तारीफे बुलूग भी नहीं मा'लूम तो ओहतियात इसी में है के डिजरी सिन के हिसाब से औरत नव साल की उम्र से और मर्द बारह साल की उम्र से नमाजों का हिसाब लगाओ.

क़ा पढने में तरतीब

क़ाओ उम्री में यूं भी कर सकते हैं के पहले तमाम इज्जें अदा कर लें फिर तमाम जोइर की नमाजें इसी तरह अस्स, मगरिब और इसा.

क़ाओ उम्री का तरीका (ह-नई)

क़ा हर रोज़ की बीस रकअतें छोती हैं. दो इर्ज़ इज्ज के, यार जोइर, यार अस्स, तीन मगरिब, यार इसा के और तीन वित्र. निय्यत इस तरह कीजिये, म-सलन : “सब से पहली इज्ज जो मुज से क़ा हुँ उस को अदा करता हूँ.” हर नमाज में इसी तरह निय्यत कीजिये. जिस पर ब कसरत क़ा नमाजें हैं वोह आसानी के लिये अगर यूं भी अदा करे तो ज़ाँज है के हर रुकूअ और हर सजदे में तीन बार “سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ، سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى” की जगह सिर्फ़ अक अक बार कहे. मगर येह हमेशा और हर तरह की नमाज में याद रचना याहिये के जब रुकूअ में पूरा पलोंय जाओ उस वक्त سُبْحَانَ का “सीन” शुइअ करे और जब عَظِيم का “मीम” भत्म कर चुके उस वक्त रुकूअ से सर उठाओ. इसी तरह सजदे में भी करे. अक तफ़्हीक़ (या'नी कमी) तो येह हुँ और दूसरी येह के इर्जों की तीसरी और चौथी रकअत में अल हम्द शरीफ़ की जगह इकत “سُبْحَانَ اللَّهِ” तीन बार कल कर रुकूअ कर ले. मगर वित्र की तीनों रकअतों में अल हम्द शरीफ़ और सूरत दोनों ज़रूर पढी जाओं. तीसरी तफ़्हीक़ (या'नी कमी) येह के का'दओे अभीरा में

करमाने मुस्तक़ा : عَلَى اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : जिस ने मुज़ पर रोज़े जुमुआ दो सो बार दुइदें पाक पढा उस के दो सो साल के गुनाह मुआफ़ होंगे. (त्र.अल.)

तशहहुद या'नी अतहिय्यात के बा'द दोनों दुइदों और दुआ की जगह सिर्फ़ “**اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ**” क़ह कर सलाम फ़ेर दे. यौथी तह्ज़ीफ़ (या'नी कमी) येह के वित्र की तीसरी रक़्अत में दुआअे कुनूत की जगह **اَللّٰهُ اَكْبَرُ** क़ह कर इक़त अेक बार या तीन बार “**رَبِّ اغْفِرْ لِيْ**” क़हे. (मुलभ्भस अज इतावा २-जविय्या मुभर्रज, जि. ८, स. १५७) याद रभिये ! तह्ज़ीफ़ (या'नी कमी) के इस तरीके की आदत हरगिज़ न बनाईये, मा'भूल की नमाज़ें सुन्नत के मुताबिक़ ही पढिये और इन में इराईज व वाजिबात के साथ साथ सुन्न और मुस्तहब्बात व आदाब की त्मी रिआयत कीजिये.

नमाज़े क़स्र की क़ज़ा

अगर डालते सफ़र की क़ज़ा नमाज़ डालते इक़ामत में पढेंगे तो क़स्र ही पढेंगे और डालते इक़ामत की क़ज़ा नमाज़ डालते सफ़र में पढेंगे तो पूरी पढेंगे या'नी क़स्र नहीं करेंगे. (एलमग़िरी ज १ व १२)

जमानअे इरतिदाह की नमाज़ें

जो शप्स **مَمَّا دَانَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ** मुरतद हो गया फिर इस्लाम लाया तो जमानअे इरतिदाह की नमाज़ों की क़ज़ा नहीं और मुरतद होने से पहले जमानअे इस्लाम में जो नमाज़ें ज़ाती रही थीं उन की क़ज़ा वाजिब है. (रुदु'लमुह्तार ज २ व ६६)

बय्ये की पैदाइश के वक़्त नमाज़

दाई (Nurse/Midwife) नमाज़ पढेगी तो बय्ये के मर जाने का अन्हेशा है, नमाज़ क़ज़ा करने के लिये येह उज़र (या'नी मजबूरी) है. बय्ये का सर बाहर आ गया और निफ़ास से पेशतर वक़्त अत्म हो ज़ाअेगा तो इस डालत में त्मी उस की मां पर नमाज़ पढना इज़्ज़ है न

इरमाने मुस्तक़ा: صلى الله تعالى عليهم و آله وسلم: मुज़ा पर दुइद शरीक़ पढो अल्लाह उज़ूल तुम पर रहमत भेजेगा. (अबुनूर)

पढेगी तो गुनहगार होगी. किसी बरतन में बख्ये का सर रख कर जिस से उस को नुकसान न पड़ोये नमाज़ पढे मगर इस तरकीब से पढने में भी बख्ये के मर जाने का अन्देशा हो तो ताप्पीर मुआज़ है. बा'द निफ़ास इस नमाज़ की क़ज़ा पढे. (ایضاً ص ۱۲۷)

मरीज़ को नमाज़ कब मुआज़ है ?

ऐसा मरीज़, के इशारे से भी नमाज़ नहीं पढ सकता अगर येह हालत पूरे छ^० वक्त तक रही तो इस हालत में जो नमाज़ें इत हूँ (उन की क़ज़ा वाज़िब नहीं. (عالمگیری ج ۱ ص ۱۲۱)

उम्र भर की नमाज़ें दोगारा पढना

जिस की नमाज़ों में नुकसान व कराहत हो वोह तमाम उम्र की नमाज़ें इरे तो अख़ी बात है और कोई भराबी न हो तो न याहिये और करे तो इज़ व असर के बा'द न पढे और तमाम रकअतें भरी पढे और वित्र में कुनूत पढ कर तीसरी के बा'द का'दा कर के, फिर अक और मिलाअे के चार हो जअें. (عالمگیری ج ۱ ص ۱۲۴)

क़ज़ा का लइज़ कहना भूल गया तो ?

आ'ला हज़रत, इमामे अहले सुन्नत, मौलाना शाह अहमद रज़ा पान عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰن इरमाते हैं : हमारे उ-लमा तसरीह इरमाते हैं : क़ज़ा न निथ्यते अदा और अदा न निथ्यते क़ज़ा दोगा सहीह हैं.

(इतावा र-जविख्या मुभर्रज, जि. 8, स. 161)

क़ज़ा नमाज़ें नवाइल की अदाअेगी से बेहतर

“इतावा शामी” में है : क़ज़ा नमाज़ें नवाइल की अदाअेगी से बेहतर और अहम हैं मगर सुन्नते मुअक़दा, नमाज़े याशत,

करमाने मुस्तक़ा : صلى الله تعالى عليه و آله وسلم : मुज पर कसरत से दुर्रदे पाक पढे बेशक तुम्हारा मुज पर दुर्रदे पाक पढना तुम्हारे गुनाहों के लिये मक्किरत है. (भास्त्र)

सलातुतस्बीह और वोह नमाजें जिन के बारे में अहादीसे मुभा-रका मरवी हैं या'नी जैसे तहिय्यतुल मस्जिद, अस्र से पहले की यार रकअत (सुन्नते गैर मुअक्कदा) और मगरिब के बा'द ९^० रकअतें (पढी ज़अंगी). (१६१व२ ज़ुलुम्तार २) याद रहे ! क़ा नमाज की बिना पर सुन्नते मुअक्कदा छोडना ज़ाईज नहीं, अलबत्ता सुन्नते गैर मुअक्कदा और हदीसों में वारिद शुदा मप्सूस नवाज़िल पढे तो सवाब का हकदार है मगर एन्हें न पढने पर कोई गुनाह नहीं, याहे जिम्मे क़ा नमाज हो या न हो.

इज व अस्र के बा'द नवाज़िल नहीं पढ सकते

नमाजे इज और अस्र के बा'द वोह तमाम नवाज़िल अदा करने मक़रुहे (तहरीमी) हैं जो कस्दन हों अगर्चे तहिय्यतुल मस्जिद हों, और हर वोह नमाज (बी नहीं पढ सकते) जो गैर की वजह से लाज़िम हो म-सलन नज़र और तवाफ़ के नवाज़िल और हर वोह नमाज जिस को शुर्अ किया फिर उसे तोड डाला, अगर्चे वोह इज और अस्र की सुन्नतें ही क्यूं न हों. (६०.६६व२ ज़ुलुम्तार २)

क़ा के लिये कोई वक्त मुअय्यन नहीं उम्र में जब (बी) पढेगा बरिय्युज़्ज़िम्मा हो ज़ाएगा. मगर तुलूअ व गुर्ब और जवाल के वक्त नमाज नहीं पढ सकता, के एन वक्तों में नमाज ज़ाईज नहीं.

(बहारे शरीअत, जि. 1, स. 702, ०१व२ ज़ुलुम्तार २)

जोहर की यार सुन्नतें रह ज़ाअें तो क्या करे ?

अगर जोहर के इर्ज पहले पढ लिये तो दो रकअत सुन्नते बा'दिया अदा करने के बा'द यार रकअत सुन्नते कब्लिया अदा कीजिये

ફરમાને મુસ્તફા ﷺ: عَلَيَّ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالْبُرْسُومُ : जिस ने किताब में मुज पर दूइदे पाक लिखा तो जब तक मेरा नाम उस में रहेगा फिरिश्ते उस के लिये ईस्तिफ़ार करते रहेंगे. (अ. 1)

सरकारे आ'ला हजरत, ए'मामे अहले सुन्नत, मौलाना शाह अहमद रज़ा पान **عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰن** फ़रमाते हैं : ए'स (या'नी मगरिब) का वक्ते मुस्तहब जब तक है के सितारे पूब जाहिर न हो जायें, एतनी देर करनी के (बड़े बड़े सितारों के ए'लावा) छोटे छोटे सितारे भी यमक आयें मक़रूह है. (इतावा र-जविय्या मुबररज़, जि. 5, स. 153) अस्से व ए'शा से पहले जो रक़अतें हैं वोह सुन्नते गैर मुअक़्क़दा हैं उन की क़ज़ा नहीं.

तरावीह की क़ज़ा का क्या हुक़म है ?

जब तरावीह इ'त हो जायें तो उस की क़ज़ा नहीं, न जमाअत से न तन्हा और अगर कोई क़ज़ा पढ भी लेता है तो येह जुदागाना नईल हो जायेंगे, तरावीह से ए'न का तअद्वुक़ न होग़ा.

(تنويرُ الأبصارِ ودرمختار ج ٢ ص ٥٩٨)

नमाज का इ'दया

जिन के रिश्तेदार इ'त हुअे डों वोह

ए'स मजमून का ज़रूर मुता-लआ फ़रमायें

मय्यित की उम्र मा'लूम कर के ए'स में से नव साल औरत के लिये और बारह साल मर्द के लिये ना बालिगी के निकाल दीजिये. बाकी जितने साल बचे उन में हिसाब लगाए'ये के कितनी मुद्दत तक वोह (या'नी मर्दूम) बे नमाज़ी रहा या बे रोज़ा रहा, या कितनी नमाज़ें या रोज़े उस के जिम्मे क़ज़ा के बाकी हैं. ज़ियादा से ज़ियादा अन्दाज़ा लगा लीजिये बल्के य़ाहें तो ना बालिगी की उम्र के बा'द

करमाने मुस्तक़ा حَسْبُكَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَرَسْمُهُ : जिस ने मुज पर एक बार दुरदे पाक पढा अल्लाह उस पर दस रकमों भेजता है. (स्)

भकिय्या तमाम उम्र का हिसाब लगा लीजिये. अब झी नमाज अेक अेक स-द-कअे इत्र भैरात कीजिये. अेक स-द-कअे इत्र की भिकदार 2 किलो से 80 ग्राम कम गेहूँ या उस का आटा या उस की रकम है. और अेक दिन की ७^६ नमाजों हें पांच इर्ज और अेक वित्र वाजिब. म-सलन 2 किलो से 80 ग्राम कम गेहूँ की रकम 12 रुपै डो तो अेक दिन की नमाजों के 72 रुपै हुअे और 30 दिन के 2160 रुपै और बारह माह के तकरीबन 25920 रुपै हुअे. अब किसी मय्यित पर 50 साल की नमाजों बाकी हें तो इदया अदा करने के लिये 1296000 रुपै भैरात करने डोंगे. ज़ाहिर है डर शप्स इतनी रकम भैरात करने की इस्तिताअत (ताकत) नहीं रभता, इस के लिये उ-लमाअे किराम رَحْمَتُهُمُ اللَّهُ السَّلَام ने शर-ई डीला इशाद इरमाया है. म-सलन वोड 30 दिन की तमाम नमाजों के इदये की नय्यत से 2160 रुपै किसी इकीर (इकीर और भिस्कीन की ता'रीफ़ सइडा नम्बर 63 पर मुला-डजा इरमाइये) की भिल्क कर डे, येड 30 दिन की नमाजों का इदया अदा डो गया. अब वोड इकीर येड रकम डेने वाले डी को डिबा कर डे (या'नी तोडके में डे डे) येड कब्जा करने के बा'द इर इकीर को 30 दिन की नमाजों के इदये की नय्यत से कब्जे में डे कर उस का मालिक बना डे. इसी तरड लौट इेर करते रहें यूं सारी नमाजों का इदया अदा डो ज़ाअेगा. 30 दिन की रकम के जरीअे डी डीला करना शर्त नहीं वोड तो समजाने के लिये भिसाल डी है. भिलइर्ज 50 साल के इदयों की रकम भौजूड डो तो अेक डी बार लौट

करमाने मुस्तक़ा : حَسْبِيَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ : जो शअ्स मुज पर दुरेदे पाक पढना भूल गया वोह जन्त का रास्ता भूल गया. (برهان)

इेर करने में काम हो जायेगा. नीज क़िरे की रकम का हिसाब गेहूं के भौजूदा भाव से लगाना होगा. ईसी तरह ई रोजा भी अेक स-द-कअे क़िरे है. नमाजों का क़िदया अदा करने के बा'द रोजों का भी ईसी तरीके से क़िदया अदा कर सकते हैं. गरीब व अमीर सभी क़िदये का हीला कर सकते हैं. अगर वु-रसा अपने मर्हूमन के लिये येह अमल करें तो येह मय्यित की जबर दस्त ईमदाद होगी, ईस तरह मरने वाला भी ईक़ा के भोज से आजाद होगा और वु-रसा भी अजरो सवाब के मुस्तहिक होंगे. बा'ज लोग मस्जिद वगैरा में अेक कुरआने पाक का नुस्खा दे कर अपने मन को मना लेते हैं के हम ने मर्हूम की तमाम नमाजों का क़िदया अदा कर दिया येह उन की गलत इहमी है. (तइसील के लिये देभिये : इतावा र-जविय्या मुभर्रज, जि. 8, स. 167) याद रभिये ! मर्हूम की नमाजों का क़िदया औलाद और दीगर वु-रसा की तरह कोई आम मुसल्मान भी दे सकता है.

(مَنَعَةُ الْخَالِقِ عَلَى الْبَحْرِ الرَّائِقِ لَابِنِ عَابِدِينَ ج ٢ ص ١٦٠ مَلَخَصًا)

मर्हमा के क़िदये का अेक मसअला

औरत की आदते हैज अगर मा'लूम हो तो उस कदर दिन और न मा'लूम हो तो हर महीने से तीन दिन नव बरस की उम्र से मुस्तस्ना करें मगर जितनी बार हम्ब रहा हो मुदते हम्ब के महीनों से अय्यामे हैज का ईस्तिस्ना न करें. औरत की आदत दरबारअे निइास अगर मा'लूम हो तो हर हम्ब के बा'द उतने दिन मुस्तस्ना करे और न

करमाने मुस्तफ़ा: حَسْبِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : जिस के पास मेरा ज़िक्र हुआ और उस ने मुझ पर दृढ़ पाक न पढा तहकीक़ वोल बढ भप्त हो गया. (उंन)

मा'लूम हो तो कुछ नहीं, के निज़ास के लिये जानिबे अकल (कम से कम) में शरअन कुछ तकदीर नहीं. मुश्किन है के अेक ही मिनट आ कर झैरन पाक हो जाओ. (भापूज अज इतावा र-अविय्या मुपर्रज़, जि. 8, स. 154)

सादाते किराम को नमाज़ का इंदिया नहीं दे सकते

मेरे आका आ'ला उज़रत, एमामे अहले सुन्नत, मौलाना शाह एमाम अहमद रज़ा खान عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰن से सख्खियों और गैर मुस्लिमों को नमाज़ का इंदिया देने के मु-तअद्लिक पूछा गया तो इरमाया : येह स-दका (या'नी नमाज़ का इंदिया) उज़राते सादाते किराम के लाईक नहीं और हुनूद वगैरहुम कुइंफारे इन्द एस स-दके के लाईक नहीं. एन दोनों को देने की अस्वन एजाज़त नहीं, न एन के दिये अदा हो. मुस्लिमीन मसाकीन जविल कुर्बा गैर हाशिमीन (या'नी अपने मिसकीन मुसल्मान रिशतेदार गैर हाशिमियों) को देने दूना (या'नी दुगना) अज्ज है.

(इतावा र-अविय्या मुपर्रज़, जि. 8, स. 166)

100 कोडों का हीला

हीलअे शर-ए का जवाज़ कुरआनो उदीस और इंकले उ-नई की मो'तबर कुतुब में मौजूद है. युनान्ये उज़रते सख्खिदुना अय्यूब عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام की भीमारी के जमाने में आप عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام की जौजअे मोह-त-रमा رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا अेक बार बिदमते सरापा अ-जमत में तापीर से हाज़िर हुई तो आप عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام ने कसम पाई के "मैं तन्दुरुस्त हो कर सो कोडे माइंग्गा" सिद्धत याब

करमाने मुस्तक़ा عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم : जिस ने मुज़ पर एक बार दुरुदे पाक पढा अल्लाह उंस पर दस रक़मों बेजता है. (ط)

डोने पर अल्लाह عَزَّوَجَلَّ ने उन्हें सो तीलियों की जाडू मारने का हुक़म ईशदि करमाया. (नूरुल ईरफ़ान, स. 728 मुलफ़्फ़सन) अल्लाह तबा-र-क़ व तआला पारह 23 सूरे ص की आयत नम्बर 44 में ईशदि करमाता है :

وَحْدُ يَدَيْكَ ضَعْفًا فَاصْرِبْ
بِهِ وَلَا تَحْتِطْ ^ط (२३प, ४४: ४४)

तर-ज-मअे क-ज़ुल ईमान : और करमाया के अपने हाथ में एक जाडू ले कर ईस से मार दे और कसम न तोड.

“आलमगीरी” में डीलों का अेक मुस्तक़िल बाब है जिस का नाम “क़िताबुल डियल” है युनान्चे आलमगीरी “क़िताबुल डियल” में है : ज़े डीला क़िसी का डक मारने या उस में शुबा पैदा करने या बातिल से इरेब देने के लिये क़िया ज़ाअे वोड मक़ड़ है और ज़े डीला ईस लिये क़िया ज़ाअे के आदमी डराम से बय ज़ाअे या डलाल को डसिल कर ले वोड अख़ा है. ईस क़िस्म के डीलों के ज़ाईज डोने की दलील अल्लाह عَزَّوَجَلَّ का येड इरमान है :

وَحْدُ يَدَيْكَ ضَعْفًا فَاصْرِبْ
بِهِ وَلَا تَحْتِطْ ^ط (२३प, ४४: ४४)

तर-ज-मअे क-ज़ुल ईमान : और करमाया के अपने हाथ में एक जाडू ले कर ईस से मार दे और कसम न तोड.

(عالمگیری ج ٦ ص ٣٩٠)

कान छेदने का रवाज कब से हुवा ?

डीले के जवाज़ पर अेक और दलील मुला-डज़ा इरमाईये युनान्चे

करमाने मुस्तक़ा : حَسْبِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَسَلَّمَ (शुभस मुज पर दुरेदे पाक पढना भूल गया वोह जन्त का रास्ता भूल गया. (طبرانی))

हजरते सय्यिहुना अफ़दुल्लाह ँने अफ़्बास رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا से रिवायत है के अेक बार हजरते सय्यि-दतुना सारह और हजरते सय्यि-दतुना हाजिरा رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا में कुछ यप-कलश हो गछ. हजरते सय्यि-दतुना सारह رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا ने कसम ढाछ के मुजे अगर काबू मिला तो मैं हाजिरा رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا का कोछ उजूव काटूंगी. अद्लाह عَزَّ وَجَلَّ ने हजरते सय्यिहुना जिअछल الصَّلَاةُ وَالسَّلَام को हजरते सय्यिहुना ँब्राहीम अलीलुल्लाह عَلِيٌّ عَلَيْهِ وَالسَّلَام وَنَبِيْنَا की ढिदमत में त्तेजा के ँन में सुदह करवा दें. हजरते सय्यि-दतुना सारह رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا ने अर्ज की : “مَا حِيلَةٌ يَمِينِي؟” या'नी मेरी कसम का क्या ढीला ढोगा ? तो हजरते सय्यिहुना ँब्राहीम अलीलुल्लाह عَلِيٌّ عَلَيْهِ وَالسَّلَام وَنَبِيْنَا पर वड्य नाजिल हुछ के (हजरते) सारह (رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا) को हुकम ढो के वोह (हजरते) हाजिरा (رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا) के कान छेद दें. उसी वकत से औरतों के कान छेदने का रवाज पडा. (عَمْرُوعِيُونِ الْبَصَائِرِ لِلْحَمَوِيِّ ج ३ ص २१०)

गाय के गोशत का तोहफ़ा

उम्मूल मुअमिनीन हजरते सय्यि-दतुना आछशा सिदीका रَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا से रिवायत है के ढो जहान के सुदतान, सरवरे जीशान रَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَسَلَّمَ की ढिदमत में गाय का गोशत हाजिर किया गया, क़िसी ने अर्ज की : येह गोशत हजरते सय्यि-दतुना अरीरा رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا पर स-दका हुवा था. इरमाया : هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ या'नी येह अरीरा के लिये स-दका था ढमारे लिये ढदिय्या है. (مُسْلِمٍ ص ०६१ حدیث १०७०)

करमाने मुस्तहब। حَسْبِيَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : जिस के पास मेरा जिक्र हुआ और उस ने मुझ पर दुर्रदे पाक न पढा। तहकीक वोह बढ भन्त हो गया. (उंग)

जकात का शर-ई हीला

ईस हदीसे पाक से साफ़ ज़ाहिर है के हज़रते सय्यि-दतुना बरीरा رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا जो के स-दके की हकदार थीं उन को बतौरे स-दका मिला हुआ गाय का गोशत अगर्चे उन के हक में स-दका ही था मगर उन के कब्ज़ा कर लेने के बा'द जब बारगाहे रिसालत में पेश किया गया था तो उस का हुकम बदल गया था और अब वोह स-दका न रहा था. यूं ही कोई मुस्तहिक शप्स जकात अपने कब्जे में लेने के बा'द किसी भी आदमी को तोड़फ़तन दे सकता या मस्जिद वगैरा के लिये पेश कर सकता है के मजकूर मुस्तहिक शप्स का पेश करना अब जकात न रहा, हदिय्या या अतिय्या हो गया. हु-क़डाये किराम رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام जकात का शर-ई हीला करने का तरीका यूं ईशाद ईरमाते हैं : जकात की रकम मुर्दे की तजहीजो तक़्दीन या मस्जिद की ता'मीर में सर्फ़ नहीं कर सकते के तम्ब्लीके इकीर (या'नी इकीर को मालिक करना) न पाई गई. अगर ईन उमूर में अर्च्य करना चाहें तो ईस का तरीका येह है के इकीर को (जकात की रकम का) मालिक कर दें और वोह (ता'मीरे मस्जिद वगैरा में) सर्फ़ करे, ईस तरह सवाब दोनों को होगा.

(बहारे शरीअत, जि. 1, स. 890)

मीठे मीठे ईस्लामी भाईयो ! देखा आप ने ! कइ न दइ न बलके ता'मीरे मस्जिद में भी हीलये शर-ई के जरीये जकात ईस्ति'माल की जा सकती है क्यूंके जकात तो इकीर के हक में थी

करमाने मुस्तक़ा : على الله تعالى عليه و اله وسلم : जिस ने मुज पर दस मरतबा सुब्द और दस मरतबा शाम दुर्दे पाक पढा (उसे क़ियामत के दिन मेरी शक़ाअत मिलेगी. (अ. १०, ११))

जब इकीर ने कब्ज़ा कर लिया तो अब वोह मालिक हो चुका, जो याहे करे. हीलअे शर-ई की ब-र-कत से देने वाले की ज़कात भी अदा हो गई और इकीर भी मस्जिद में दे कर सवाब का हकदार हो गया. इकीरे शर-ई को हीले का मस्अला बेशक़ समजा दिया जाये.

इकीर की ता'रीफ़

इकीर वोह है के ❁ जिस के पास कुछ न कुछ हो मगर ईतना न हो के निसाब को पड़ोय जाये या ❁ निसाब की कदर तो हो मगर उस की हाजते अस्लिय्या (या'नी ज़रूरियाते जिन्दगी) में मुस्तगरक़ (बिरा हुवा) हो. म-सलन रहने का मकान, पानादारी का सामान, सुवारी के ज़ानवर (या स्कूटर या कार), कारीगरों के औज़ार, पहनने के कपडे, बिदमत के लिये लौंडी, गुलाम, ईल्मी शुग्ल रहने वाले के लिये ईस्लामी किताबें जो उस की ज़रूरत से ज़ाईद न हों ❁ ईसी तरह अगर मद्यून (या'नी मक़्ज़) है और दैन (या'नी क़र्ज़) निकालने के बा'द निसाब बाकी न रहे तो इकीर है अगर्थे उस के पास अेक तो क़्या कई निसाबें हों.

(बहारे शरीअत, जि. 1, स. 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000)

मिस्कीन की ता'रीफ़

मिस्कीन वोह है जिस के पास कुछ न हो यहां तक के पाने और बदन धुपाने के लिये ईस का मोहताज है के लोगों से सुवाल करे

करमाने मुस्तफ़ा علی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم : जिस के पास मेरा ज़िक्र हुवा और उस ने मुज पर दुरुद शरीफ़ न पढा (उस ने जफ़ा की). (عبدالرزاق)

और एसे सुवाल उलाल है. इकीर (या'नी जिस के पास कम अज कम अक दिन का खाने के लिये और पढनने के लिये मौजूद है (उस) को बिगैर ज़रत व मजबूरी सुवाल उराम है.

(عالمگیری ج ۱ ص ۱۸۷-۱۸۸, अउरे शरीअत, जि. 1, स. 924)

भीठे भीठे इस्लामी भाईयो ! मा'लूम हुवा ज़ो बिकारी कमाने पर कादिर होने के आ वुजूद बिला ज़रत व मजबूरी अतौरे पेशा भीक मांगते हैं गुनाहगार व अजाबे नार के उकदार हैं और ज़ो औसों के डाल से आ खबर हो उसे उन को देना ज़रत नही.



गमे मदीना, अकीअ,
मदिरत और बे
हिसाब जन्नतुल
किरदौस में आका
के पड़ोस का तालिब



यकुम मुहर्रमुल उराम 1435 सि.हि.

06-11-2013

نامائے جانا کا तरीکا

(ع-نئی)

ہس ریسالے میں....

دیکھات

جنتی کا جانا

گاؤجانا نمازے جانا

کافیر کا جانا

جانا کی دُعاؤں

پوٹکشی والے کا جانا

بڑھے کا جانا اُٹانے کا तरीکا

वरक उलटिये....

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ
 آمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

नमाजे जनाजा का तरीका (६-नकी)

शैतान लाभ रोके येह रिसाला (19 सफ़्हात)
 मुकम्मल पढ लीजिये, إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ इस के
 इवाँद भुद ही टेभ लेंगे.

दुर्इ शरीफ़ की इमीलत

रहमते आ-लमिय्यान, मलबूबे रहमान صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ
 का इरमाने न-र-कत निशान है : जे मुज पर अेक बार दुर्इ शरीफ़ पढता
 है अद्लाह तआला उस के लिये अेक कीरात अज लिभता है और कीरात उहुद
 पहाड जितना है.

(مُصَنَّف عَبْد الرَّزَّاق ج ١ ص ٣٩ حديث ١٠٣)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ

वली के जनाजे में शिर्कत की न-र-कत

अेक शप्स हजरते सय्यिहुना सरी स-कती عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْقَوِي के
 जनाजे में शरीक हुवा. रात को प्वाभ में हजरते सय्यिहुना सरी स-कती
عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْقَوِي की जियारत हुँ तो पूछा : **يَا نَبِيَّ اللَّهِ مَا فَعَلَ اللَّهُ بِكَ؟**
 अद्लाह उँ ने आप के साथ क्या मुआ-मला इरमाया ? जवाब दिया :
 अद्लाह उँ ने मेरी और मेरे जनाजे में शरीक हो कर नमाजे जनाजा

करमाने मुस्तक़। حَسْبُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالهِ وَسَلَّمَ : जिस ने मुज पर एक बार दुरदे पाक पढा अल्लाह उस पर दस रहमतें बेजता है. (س)

पढने वालों की मग़ि़रत इरमा दी. उस ने अर्ज़ की : या सय्यिदी मैं ने भी आप के जनाजे में शरीक हो कर नमाजे जनाजा पढी थी. तो आप ने एक इहरिस निकाली मगर उस शप्स का नाम शामिल न था, जब गौर से देखा तो उस का नाम हाशिये पर मौजूद था. (تاريخ دمشق لابن عسكراج ۲۰ ص ۱۹۸).
अल्लाह عُزَّ وَجَلَّ की उन पर रहमत हो और उन के सदके हमारी बे हिसाब मग़ि़रत हो.

أَمِينِ بِجَاةِ النَّبِيِّ الْأَمِينِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ
سَلُّوْا عَلَيَّ الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيَّ مُحَمَّدٍ

अकीदत मन्टों की भी मग़ि़रत

उठरते सय्यिदुना बिशरे हाकी عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْكَافِي को धन्तिकाल के बा'द कासिम बिन मुनबबेह عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الرَّافِع ने प्वाब में देप कर पूछा : या'नी अल्लाह عُزَّ وَجَلَّ ने आप के साथ क्या मुआ-मला इरमाया ? जवाब दिया : अल्लाह عُزَّ وَجَلَّ ने मुजे बप्श दिया और धशाद इरमाया : औ बिशर ! तुम को बलके तुम्हारे जनाजे में जो जो शरीक हुओ उन को भी मैं ने बप्श दिया. तो मैं ने अर्ज़ की : या रब عُزَّ وَجَلَّ ! मुज से महब्बत करने वालों को भी बप्श दे. तो अल्लाह عُزَّ وَجَلَّ की रहमत मजीद जोश पर आई, और इरमाया : कियामत तक जो तुम से महब्बत करेंगे उन सब को भी मैं ने बप्श दिया. (ایضاً ۱۰ ص ۲۲۰).
अल्लाह عُزَّ وَجَلَّ की उन पर रहमत हो और उन के सदके हमारी बे हिसाब मग़ि़रत हो.

أَمِينِ بِجَاةِ النَّبِيِّ الْأَمِينِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

आ'माल न देभे येह देभा, है मेरे वली के दर का गहा

पालिक ने मुजे यूँ बप्श दिया, سُبْحَانَ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ

करमाने मुस्तफ़ा : عَلَى اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : जो शप्स मुज पर दुइदे पाक पढ़ना भूल गया वोह जन्त का रास्ता भूल गया. (طبرانی)

मीठे मीठे ईस्लामी भाईयो ! अल्लाह वालों رَحْمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى से निस्बत भाईसे सआदत, एन का जिके भैर भाईसे नुजूले रलमत, एन की सोहबत दो जहां के लिये भा भ-र-कत, एन के मजारात की जियारत तिरयाके अमराजे मा'सियत और एन की अकीदत जरीअखे नजाते आपिरत है. رَحْمَهُمُ اللَّهُ السَّلَامُ इमें भी औलियाअे किराम اللهُ السَّلَام से अकीदत और वलिय्ये कामिल उजरते सख्यिदुना बिशरे डाईी क़ाफ़ी से मलुबत है. या अल्लाह عَزَّ وَجَلَّ ! एन के सदके हमारी अमिन بِجَاهِ النَّبِيِّ الْأَمِينِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ मग़ि़रत इरमा.

बिशरे डाईी से हमें तो प्यार है

إِنْ شَاءَ اللَّهُ अपना बेडा पार है

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

कईन योर

अेक औरत की नमाजे जनाजा में अेक कईन योर भी शामिल हो गया और कब्रिस्तान साथ जा कर उस ने कब्र का पता मलईऊ कर लिया. जब रात हुई तो उस ने कईन युराने के लिये कब्र षोद डाली. यकायक मईमा भोल उठी : سُبْحَانَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ! अेक मग़ूर (या'नी बप्शिश का हकदार) शप्स मग़ूर (या'नी बप्शी हुई) औरत का कईन युराता है ! सुन, अल्लाह तआला ने मेरी भी मग़ि़रत कर दी और उन तमाम लोगों की भी जिन्हों ने मेरे जनाजे की नमाज पढी और तू भी उन में शरीक था. (येह सुन कर उस ने कौरन कब्र पर भिटी डाल दी और सख्ये हिल से ताईभ हो गया.) (شُعَبُ الْإِيمَانِ ج ٧ ص ٨ رقم ٩٢٦١) अल्लाह عَزَّ وَجَلَّ की उन

करमाने मुस्तफ़। صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : जिस के पास मेरा जिक्र हुआ और उस ने मुझ पर दूरदे पाक न पढा तहकीक वोह बढ भन्त हो गया. (उंन)

पर रहमत हो और उन के सदके हमारी बे हिसाब मग़ि़रत हो.

اٰمِيْنَ بِجَاةِ النَّبِيِّ الْاَمِيْنَ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

صَلُّوْا عَلَيَّ الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيَّ مُحَمَّد

तमाम शु-रकाअे जनाजा की बग्शिश

भीठे भीठे ईस्लामी भाईयो ! देखा आप ने ! नेक बन्दों की नमाजे जनाजा में हाज़िरी किस कदर सआदत मन्दी की बात है. जब भी मौकअ मिले बल्के मौकअ निकाल कर मुसल्मानों के जनाजों में शिर्कत करते रहना याहिये, हो सकता है किसी नेक बन्दे के जनाजे में शुभूलिय्यत हमारे लिये सामाने मग़ि़रत बन जाअे. फुदाअे रहमान ज़ुंजु की रहमत पर कुरबान, के जब वोह किसी मरने वाले की मग़ि़रत इरमा देता है तो उस के जनाजे का साथ देने वालों को भी बग्श देता है. युनान्ये हज़रते सय्यिदुना अब्दुल्लाह बिन अब्बास رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا से रिवायत है के सरकारे मदीना, सुल्ताने बा करीना, करारे कलभो सीना, इैज़ गन्जुना صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ने ईशादि इरमाया : “बन्दअे मोमिन को मरने के बा’द सब से पहली जजा येह दी जाअेगी के उस के तमाम शु-रकाअे जनाजा की बग्शिश कर दी जाअेगी.” (اَلْتَرْغِيْبُ وَالتَّرْهِيْبُ ج ٤ ص ١٧٨ حديث ١٣)

क़ब्र में पहला तोहफ़ा

सरकारे नामदार, दो आलम के मालिको मुप्तार, शहन्शाहे अबरार صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ से किसी ने पूछा : मोमिन जब क़ब्र में दाखिल होता है तो उस को सब से पहला तोहफ़ा क्या दिया जाता है ? तो ईशादि इरमाया : उस की नमाजे जनाजा पढने वालों की मग़ि़रत कर दी जाती है.

(شُعَبُ الْاِيْمَان ج ٧ ص ٨ رقم ٩٢٠٧)

फरमाने मुस्तफा ﷺ : جس نے मुझ पर دس مرتबा सुभद और दस مرتबा शाम दुइडे पाक पढा (उसे क्रियामत के दिन मेरी शफाअत मिलेगी.) (بخاری)

जन्नती का जनाजा

भीठे भीठे आका, मक्की म-दनी मुस्तफा ﷺ का फरमाने आङ्कित निशान है : जब कोई जन्नती शप्स फौत हो जाता है, तो अद्लाह عزَّ وَّجَلَّ उया फरमाता है के उन लोगों को अजाब दे जो उस का जनाजा ले कर यले और जो उस के पीछे यले और जिन्होंने ने उस की नमाजे जनाजा अदा की.

(الأفردوس بمأثور الخطاب ج ١ ص ٢٨٢ حديث ١١٠٨)

जनाजे का साथ देने का सवाब

उजरते सय्यिदुना दावूद عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام ने बारगाहे पुदा वन्दी عزَّ وَّجَلَّ में अर्ज की : या अद्लाह عزَّ وَّجَلَّ ! जिस ने मद्ज तेरी रिजा के लिये जनाजे का साथ दिया, उस की जजा क्या है ? अद्लाह तआला ने फरमाया : जिस दिन वोह भरेगा तो फिरिश्ते उस के जनाजे के डमराह यलेंगे और मैं उस की भङ्कित करूँगा. (شَرَحُ الصُّدُور ص ٩٧)

उहुद पहाड जितना सवाब

उजरते सय्यिदुना अबू हुरैरा رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ से रिवायत है के सरकारे मदीना, करारे कलबो सीना, ईज गन्जना ﷺ का फरमाने बा करीना है : जो शप्स (धमान का तकाजा समज कर और हुसूले सवाब की नियत से) अपने घर से जनाजे के साथ यले, नमाजे जनाजा पढे और दफ्न होने तक जनाजे के साथ रहे उस के लिये दो कीरात सवाब है जिस में से डर कीरात उहुद (पहाड) के बराबर है और जो शप्स सिई जनाजे की नमाज पढ कर वापस आ जाये तो उस के लिये ओक कीरात सवाब है.

(مُسْلِم ص ٤٧٢ حديث ٩٤٥)

फरमाने मुस्तक़ा صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : जिस के पास मेरा जिक्र हुआ और उस ने मुझ पर दुःख शरीक़ न पढा उस ने जफ़ा की. (عبرالرزق)

नमाजे जनाजा बाघसे छद्मत है

उज़रते सय्यिदुना अबू ज़र गिज़ारी رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ का ईशार्द है : मुज़ से सरकारे दो आलम, नूरे मुज़स्सम, शाहे बनी आदम, रसूले मुह्तशम صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ने फ़रमाया : क़ब्रों की ज़ियारत करो ताके आभिरत की याद आये और मुर्दे को नहलाओ के फ़ानी जिस्म (या'नी मुर्दा जिस्म) का धूना बहृत बडी नसीहत है और नमाजे जनाजा पढो ताके येह तुम्हें गमगीन करे क्यूंके गमगीन ईन्सान अल्लाह جَلَّ وَعَزَّ के साअे में डोता है और नेकी का काम करता है.

(الْمُسْتَدْرَكُ لِلْحَاكِمِ ج ١ ص ٧١١ حديث ١٤٣٥)

मय्यित को नहलाने वगैरा की फ़तीहत

मौलाअे काअेनात, उज़रते सय्यिदुना अलिय्युल मुर्तजा शेरे भुदा كَرَّمَ اللهُ تَعَالَى وَجْهَهُ الْكَرِيمِ से रिवायत है के सुल्ताने दो ज़हान, शहन्शाहे कौनो मकान, रहमते आ-लमिय्यान صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ने ईशार्द फ़रमाया के ज़े किसी मय्यित को नहलाअे, क़फ़न पढनाअे, भुशू लगाअे, जनाजा उठाअे, नमाज़ पढे और ज़े नाकिस भात नज़र आअे उसे धुपाअे वोह अपने गुनाहों से अैसा पाक डो ज़ता है जैसा जिस दिन मां के पेट से पैदा हुआ था.

(ابن ماجه ج ٢ ص ٢٠١ حديث ١٤٦٢)

जनाजा देष कर पढने का विर्द

उज़रते सय्यिदुना मालिक बिन अनस رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا को आ'दे वफ़ात किसी ने प्वाब में देष कर पूछा : يَا'नी अल्लाह مَفْعَلُ اللهِ بِكَ؟ अल्लाह ने आप के साथ क्या सुलूक फ़रमाया? कडा : अेक कलिमे की वजह से बपश दिया ज़े उज़रते सय्यिदुना उस्माने गनी رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ जनाजे को

करमाने मुस्तफ़ा: صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: जो मुज पर रोजे जुमुआ दुइद शरीक पड़ेगा में कियामत के दिन उस की शक़ाअत करेगा. (कोब्राल)

देख कर कड़ा करते थे. (वोड़ कलिमा येह है:) **سُبْحَنَ الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ** (या'नी वोड़ जात पाक है जो जिन्दा है उसे कभी मौत नहीं आयेगी) लिहाजा में भी जनाजा देख कर येही कड़ा करता था येह कलिमा कडने के सबअ अल्लाह **عَزَّ وَجَلَّ** ने मुजे बापश दिया. (احياء العلوم ج ٥ ص ٢٦٦ تَلَخُّمًا)

सरकार صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ने सब से पहला जनाजा किस का पढा ?

नमाजे जनाजा की इब्तिदा हजरते सय्यिदुना आदम सकि्युल्लाह **عَلَى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام** के दौर से हुई है, फिरिशतों ने सय्यिदुना आदम सकि्युल्लाह **عَلَى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام** के जनाजमे मुबा-रका पर यार तकभीरें पढी थीं. इस्लाम में वुजूबे नमाजे जनाजा का हुकम मदीनमे मुनव्वरह **رَأَى أَنَّ اللَّهَ شَرَفًا وَتَعْظِيمًا** में नाजिल हुवा. हजरते सय्यिदुना अस्अद बिन जुरारह **رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ** का विसाले मुबारक छिजरत के बा'द नवें महीने के आबिर में हुवा और येह पढले सहाबी की मय्यित थी जिस पर नबिय्ये अकरम **صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** ने नमाजे जनाजा पढी. (माभूज अज इतावा र-अविय्या मुभर्रज, जि. 5, स. 375, 376)

नमाजे जनाजा इर्जे किफ़ाया है

नमाजे जनाजा “इर्जे किफ़ाया” है या'नी कोई अक भी अदा कर ले तो सब भरियुज्जिअम्मा हो गये वरना जिन जिन को खबर पड़ोयी थी और नहीं आये वोड़ सब गुनहगार होंगे. इस के लिये जमाअत शर्त नहीं अक शपस भी पढ ले तो इर्ज अदा हो गया. इस की इर्जियत का इन्कार कुई है.

(बहारे शरीअत, जि. 1, स. 825, 120, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000)

करमाने मुस्तक़ा: صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: मुज़ पर दुर्रदे पाक की कसरत करो भेशक येह तुम्हारे लिये तदारत है.
(अबुसै)

नमाज़े जनाज़ा में दो रुकन और तीन सुन्नते हैं

दो रुकन येह हैं : ﴿1﴾ यार बार “اللهُ أَكْبَرُ” कडना
﴿2﴾ कियाम. (126/ص3 مُختار) ईस में तीन सुन्नते मुअक़ददा येह हैं :
﴿1﴾ सना ﴿2﴾ दुर्रद शरीफ़े ﴿3﴾ मय्यित के लिये दुआ.

(बहारे शरीअत, जि. 1, स. 829)

नमाज़े जनाज़ा का तरीका (ह-नई)

मुक्तदी ईस तरह निय्यत करे : “मैं निय्यत करता हूं ईस जनाज़े की नमाज़ की वासिते अद्लाह وَجَلَّ وَعَزَّ के, दुआ ईस मय्यित के लिये, पीछे ईस ईमाम के” (103/ص2 فتاوى تاتارखाणि) अब ईमाम व मुक्तदी पहले कानों तक हाथ उठाओं और “اللهُ أَكْبَرُ” कडते हुअे झौरन हस्बे मा'मूल नाफ़ के नीये बांध लें और सना पढ़ें. ईस में “وَتَعَالَى جَدُّكَ” के आ'द “وَجَلَّ ثَنَّاكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ” पढ़ें फिर बिगैर हाथ उठाओ “اللهُ أَكْبَرُ” कडें, फिर दुर्रदे ईब्राहीम पढ़ें, फिर बिगैर हाथ उठाओ “اللهُ أَكْبَرُ” कडें और दुआ पढ़ें (ईमाम तकबीरें जुलन्द आवाज़ से कडे और मुक्तदी आडिस्ता. बाकी तमाम अज़कार ईमाम व मुक्तदी सभ आडिस्ता पढ़ें) दुआ के आ'द फिर “اللهُ أَكْبَرُ” कडें और हाथ लटका दें फिर दोनों तरफ़ सलाम झैरे दें. सलाम में मय्यित और झिरिशतों और हाज़िरीने नमाज़ की निय्यत करे, उसी तरह जैसे और नमाज़ों के सलाम में निय्यत की जाती है यहां ईतनी बात ज़ियादा है के मय्यित की त्नी निय्यत करे.

(बहारे शरीअत, जि. 1, स. 829, 835 मा'पूजन)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

करमाने मुस्तकी على الله تعالى عليه و آله وسلم : तुम जहां भी हो मुज पर दुइद पढे के तुम्हारा दुइद मुज तक पढीयता है. (طبرانی)

बालिग मर्द व औरत के जनमो की दुआ

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا وَصَغِيرِنَا

ईलाही ! बप्श दे हमारे हर जिन्दा को और हमारे हर झौत शुदा को और हमारे हर लाजिर को और हमारे हर गाईब को और हमारे हर छोटे को

وَكَبِيرِنَا وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنْهَا فَاحْيِهِ

और हमारे हर बडे को और हमारे हर मर्द को और हमारी हर औरत को.
ईलाही ! तू हम में से जिस को जिन्दा रभे तो उस को ईस्लाम पर

عَلَى الْإِسْلَامِ ط وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنْهَا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ ط

जिन्दा रभ और हम में से जिस को मौत दे तो उस को ईमान पर मौत दे.

(الْمُسْتَدْرَكُ لِلْحَاكِمِ ج ١ ص ٦٨٤ حديث ١٣٦٦)

ना बालिग लडके की दुआ

اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا فَرَطًا وَاجْعَلْهُ لَنَا جَرًّا

ईलाही ! ईस (लडके) को हमारे लिये आगे पछोय कर सामान करने वाला बना दे और ईस को हमारे लिये अज (का मूजिब)

وَذُخْرًا وَاجْعَلْهُ لَنَا شَافِعًا وَمُشَفَّعًا ط

और वक्त पर काम आने वाला बना दे और ईस को हमारी सिफारिश करने वाला बना दे और वोह जिस की सिफारिश मन्जूर हो जाये.

(کنزُ الدقائق ص ٥٢)

करमाने मुस्तफ़ा: عَلَى اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَرَسْمُهُ : जिस ने मुज पर दस भरतभा दुरेदे पाक पढा अल्लाह उंस पर सो रहमते नाजिल करमाता है. (طبرانی)

ना बालिगा लडकी की दूआ

اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا نَافِرْطًا وَاجْعَلْهَا نَاجِرًا

ईलाही ! ईस (लडकी) को हमारे लिये आगे पहोंय कर सामान करने वाली बना दे और ईस को हमारे लिये अज (की मूजिब)

وَذُخْرًا وَاجْعَلْهَا نَاشِافَةً وَمُشَفَّعَةً ط

और वक्त पर काम आने वाली बना दे और ईस को हमारे लिये सिफ़ारिश करने वाली बना दे और वोह जिस की सिफ़ारिश मन्ज़ूर हो जाये.

जूते पर भडे हो कर जनाजा पढना

जूता पहन कर अगर नमाजे जनाजा पढें तो जूते और जमीन दोनों का पाक होना जरूरी है और जूता उतार कर उस पर भडे हो कर पढें तो जूते के तले और जमीन का पाक होना जरूरी नहीं. भेरे आका आ'ला हजरत, ईमामे अहले सुन्नत मौलाना शाह ईमाम अहमद रजा भान رَحْمَةُ الرَّحْمَنِ ओक सुवाल के जवाब में ईशाद करमाते हैं : “अगर वोह जगह पेशाब वगैरा से नापाक थी या जिन के जूतों के तले नापाक थे और ईस हालत में जूता पहने हुअे नमाज पढी उन की नमाज न हुई, अहतियात येही है के जूता उतार कर उस पर पाई रभ कर नमाज पढी जाये के जमीन या तला अगर नापाक हो तो नमाज में भलल न आये.”

(इतावा र-जविय्या मुभर्रजा, जि. 9, स. 188)

करमाने मुस्तक़ा: عَلَى اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : जिस के पास मेरा जिक्र हो और वोह मुज पर दुरुद शरीफ़ न पढे तो वोह लोगों में से कन्जूस तरीन शप्स है. (ज़ुम्हूर)

गाँघबाना नमाज़े जनाज़ा नहीं हो सकती

मय्यित का सामने होना जरूरी है, गाँघबाना नमाज़े जनाज़ा नहीं हो सकती. मुस्तहब येह है के इमाम मय्यित के सीने के सामने पडा हो.

(ज़ुम्हूर ज ३, १२३-१३६)

यन्द् जनाज़ों की छकड़ी नमाज़ का तरीका

यन्द् जनाज़े अक साथ भी पढे जा सकते हैं, इस में इत्तियार है के सब को आगे पीछे रभें या'नी सब का सीना इमाम के सामने हो या कितार बन्द. या'नी अक के पाँउ की सीध में दूसरे का सिरदाना और दूसरे के पाँउ की सीध में तीसरे का सिरदाना وَعَلَى هَذَا الْقِيَّاس (या'नी इसी पर किय़ास कीजिये). (बहारे शरीअत, जि. 1, स. 839, १६०, १६१)

जनाज़े में कितनी सड़ें हों ?

बेहतर येह है के जनाज़े में तीन सड़ें हों, के हदीसे पाक में है : "जिस की नमाज़ (जनाज़ा) तीन सड़ों ने पढी उस की मग्ज़िरत हो जायेगी." अगर कुल सात ही आदमी हों तो अक इमाम बन जाये अब पहली सड़ में तीन पडे हो जायें दूसरी में दो और तीसरी में अक. (गुनै १०८८)

जनाज़े में पिछली सड़ तमाम सड़ों से अइज़ल है. (ज़ुम्हूर ज ३, १३१)

जनाज़े की पूरी जमाअत न मिले तो ?

मस्बूक (या'नी जिस की बा'ज तकबीरें फ़ौत हो गँध वोह) अपनी बाकी तकबीरें इमाम के सलाम फ़ेरने के बा'द कहे और अगर येह अन्देशा हो के दुआ वगैरा पढेगा तो पूरी करने से कबल लोग जनाज़े को कन्धे तक उठा लेंगे तो सिर्फ़ तकबीरें कल ले दुआ वगैरा छोड दे. यौथी तकबीर के बा'द जो शप्स आया तो जब तक इमाम ने सलाम नहीं

करमाने मुस्तक़ा: على الله تعالى عليه وآله وسلم: उस शप्स की नाक पाक आवुद हो जिस के पास मेरा जिक्र हो और वोह मुज पर दुइदे पाक न पड़े. (८६)

फ़ेरा शामिल हो जाये और इमाम के सलाम के आ'द तीन बार "الله أكبر" कहे. फिर सलाम फ़ेर दे. (तुम्खतार ज ३, स १३६)

पागल या भुदकुशी वाले का जनाजा

जो पैदाइशी पागल हो या बालिग होने से पहले पागल हो गया हो और इसी पागल पन में मौत वाक़ेअ हुई तो उस की नमाजे जनाजा में ना बालिग की हुआ पढ़ेंगे. (जुवहेर स १३८, गुनिये स ०८७) जिस ने भुदकुशी की उस की नमाजे जनाजा पढ़ी जायेगी. (तुम्खतार ज ३, स १२७)

मुर्दा बय्ये के अहकाम

मुसल्मान का बय्या जिन्दा पैदा हुवा या'नी अक्सर हिस्सा बाहर होने के वक्त जिन्दा था फिर मर गया तो उस को गुस्ल व कफ़न देंगे और उस की नमाज पढ़ेंगे, वरना उसे वैसे ही नहला कर अक कपडे में लपेट कर दफ़न कर देंगे. इस के लिये सुन्नत के मुताबिक गुस्ल व कफ़न नहीं है और नमाज भी इस की नहीं पढ़ी जायेगी. सर की तरफ़ से अक्सर की भिकदार सर से ले कर सीने तक है. लिहाजा अगर इस का सर बाहर हुवा था और यीभता था मगर सीने तक निकलने से पहले ही क़ौत हो गया तो उस की नमाज नहीं पढ़ेंगे. पाउ की जानिब से अक्सर की भिकदार कमर तक है. बय्या जिन्दा पैदा हुवा या मुर्दा या कय्या गिर गया उस का नाम रखा जाये और वोह क़ियामत के दिन उठाया जायेगा.

(तुम्खतार उरुदुल्लिखतार ज ३, स १०२, १०६) बहारे शरीअत, जि. १, स. ८४१)

जनाजे को कन्धा देने का सवाब

हदीसे पाक में है : "जो जनाजे को यालीस कदम ले कर चले उस के यालीस कभीरा गुनाह मिटा दिये जायेंगे." नीज हदीस शरीफ़ में है :

करमाने मुस्तक। على الله تعالى عليه و آله وسلم : जिस ने मुज पर रोजे जुमुआ दो सो बार दुरदे पाक पढा उस के दो सो साल के गुनाह मुआफ होंगे. (अल-अमाल)

जो जनाजे के यारों पायों को कन्धा दे अदवाह **عَزَّ وَجَلَّ** उस की उत्मी (या'नी मुस्तकिल) भगिरत इरमा देगा.

(**أَلْجَوْهَرَةُ النَّيِّرَةِ** ص ३९, **دُرِّمُخْتَار** ج ३ ص १०८-१०९), अडारे शरीअत, जि. 1, स. 823)

जनाजे को कन्धा देने का तरीका

जनाजे को कन्धा देना इबादत है. सुन्नत येह है के यके बा'द दीगरे यारों पायों को कन्धा दे और हर बार दस दस कदम यले. पूरी सुन्नत येह है के पहले सीधे सिरडाने कन्धा दे फिर सीधी पाईती (या'नी सीधे पाई की तरफ) फिर उलटे सिरडाने फिर उलटी पाईती और दस दस कदम यले तो कुल यालीस कदम हुअे. (**عالمگیری** ج १ ص ११२), अडारे शरीअत, जि. 1, स. 822) बा'ज लोग जनाजे के जुलूस में अे'लान करते रहते हैं, दो दो कदम यलो ! उन को याहिये के इस तरह अे'लान किया करें : "दस दस कदम यलो."

अय्ये का जनाजा उठाने का तरीका

छोटे अय्ये के जनाजे को अगर अेक शप्स हाथ पर उठा कर ले यले तो हरज नहीं और यके बा'द दीगरे लोग हाथों हाथ लेते रहें. (**عالمگیری** ج १ ص ११२) औरतों को (अय्या हो या अडा किसी के ली) जनाजे के साथ जाना ना जईज व मन्नुअ है.

(अडारे शरीअत, जि. 1, स. 823, **دُرِّمُخْتَار** ج ३ ص ११२)

नमाजे जनाजा के बा'द वापसी के मसाधल

जो शप्स जनाजे के साथ हो उसे बिगैर नमाज पढे वापस न होना याहिये और नमाज के बा'द औलियाअे मय्यित (या'नी मरने वाले के सर परस्तों) से इज्जत ले कर वापस हो सकता है और दफ्न के

इरमाने मुस्तका: على الله تعالى عليه وآله وسلم: मुज पर दुइद शरीफ़ पढे अल्लाह ज़ुजल तुम पर रहमत भेजेगा. (अबुसूर)

भा'द ईजाजत की हाजत नहीं।

(एलमगीरी ج 1 ص 160)

क्या शोहर बीवी के जनाजे को कन्धा दे सकता है ?

शोहर अपनी बीवी के जनाजे को कन्धा भी दे सकता है, कब्र में भी उतार सकता है और मुंड भी देष सकता है. सिर्फ़ गुस्ल देने और बिला हाईल बदन को धूने की मुमा-न-अत है. औरत अपने शोहर को गुस्ल दे सकती है. (बहारे शरीअत, जि. 1, स. 812, 813)

मुरतद की नमाजे जनाजा का हुकमे शर-ई

मुरतद और काफ़िर के जनाजे का अेक ही हुकम है. मजहब तब्दील कर के ईसाई (क्रिस्थेन) डोने वाले का जनाजा पढने वाले के बारे में किये गये अेक सुवाल का जवाब देते हुअे सय्यिदी आ'ला हजरत, ईमामे अहले सुन्नत, मुजदिदे दीनो मिल्लत, हजरते अल्लामा मौलाना शाह ईमाम अहमद रजा खान عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰن इतावा र-जविय्या जिहद 9 सफ़हा 170 पर ईशाद इरमाते हैं : अगर ब सुभूते शर-ई साबित डो, के मय्यित "عِيَادًا بِاللَّهِ" (या'नी खुदा की पनाह) तब्दीले मजहब कर के ईसाई (क्रिस्थेन) डो युका था तो बेशक उस के जनाजे की नमाज और मुसल्मानों की तरह ईस की तजहीजो तकफ़ीन सभ हुरामे कर्ह थी. قَالَ اللهُ تَعَالَى (अल्लाह तआला इरमाता है)

وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَّاتَ

أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ ط

(प. 10, التوبة: 84)

तर-ज-मअे क-जुल ईमान : और उन में से किसी की मय्यित पर कभी नमाज न पढना और न उस की कब्र पर खडे डोना.

मगर नमाज पढने वाले अगर उस की नसरानिय्यत (या'नी

करमाने मुस्तकी : على الله تعالى عليه و الله وسلم : मुज पर कसरत से दुरदे पाक पढे बेशक तुम्हारा मुज पर दुरदे पाक पढना तुम्हारे गुनाहों के लिये मज्किरत है. (मुस्नाद)

किस्सेन डोने) पर मुत्तलअ न थे और बर बिनाअे इल्मे साबिक (या'नी पिछली मा'लूमात के सबब) उसे मुसल्मान समजते थे न उस की तज्हीजो तर्कीन व नमाज तक उन के नजदीक उस शप्स का नसरानी (या'नी किस्सेन) डो जना साबित हुवा, तो इन अफ्आल में वोड अब ली मा'जूर व बे कुसूर हें के जब उन की दानिस्त (या'नी मा'लूमात) में वोड मुसल्मान था, उन पर येड अफ्आल बजा लाने ब जो'मे फुद शरअन लाजिम थे, हां अगर येड ली उस की ईसाईय्यत से ખबरदार थे फिर नमाज व तज्हीजो तर्कीन के मुर-तर्किब हुअे कत्अन सप्त गुनहगार और वबाले कबीरा में गिरिफ्तार हुअे, जब तक तौबा न करें नमाज उन के पीछे मक़्इड. मगर मुआ-म-लअे मुरतदीन फिर ली बरत्ना जाईज नही के येड लोग ली ईस गुनाह से काफिर न होंगे. हमारी शर-अे मुतद्दर सिराते मुस्तकीम है, ईफ़रातो तर्कीत (या'नी हदे अे'तिदाव से बढाना घटाना) किसी बात में पसन्द नही इरमाती, अलबत्ता अगर साबित डो जअे के उन्हों ने उसे नसरानी जान कर न सिई ब वजहे हमाकत व जहालत किसी ग-रजे दून्यवी की निय्यत से बढे फुद ईसे ब वजहे नसरानिय्यत मुस्तहिके ता'जीम व काबिले तज्हीजो तर्कीन व नमाजे जनाजा तसव्वुर किया तो बेशक जिस जिस का अैसा ખयाल डोगा वोड सब ली काफिर व मुरतद हें और उन से वोही मुआ-मला बरत्ना वाजिब जे मुरतदीन से बरता जअे.

(इतावा २-अविय्या)

अल्लाह तबा-र-क व तआला पारह 10 सू-रतुतौबह की आयत नम्बर 84 में ईशाई इरमाता है :

करमाने मुस्तक़। حَسْبِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَسَلَّمَ : जो मुज़ पर ओक दुइद शरीक़ पढता है अल्लाह उंस के लिये ओक कीरात अज्र लिफता है और कीरात उहुद पहाड जितना है. (मुराद)

وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَّاتَ
أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ ۗ إِنَّهُمْ
كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَآتُوا
وَهُمْ فَسِقُونَ ﴿١٧﴾

तर-ज-मअे क-जुल ईमान : और उन में से किसी की मय्यित पर कभी नमाज़ न पढना और न उस की कब्र पर भडे होना बेशक वोह अल्लाह व रसूल से मुन्किर हुअे और फ़िस्क (कुफ़) ही में भर गअे.

सदरुल अफ़ाजिल उज़रते अल्लामा मौलाना सय्यिद मुहम्मद नईमुद्दीन मुरादआबादी عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْإِنْبِيَّاتِي ईस आयत के तह्त फ़रमाते हैं : ईस आयत से साबित हुवा के काफ़िर के जनाजे की नमाज़ किसी हाल में ज़ाईज नही और काफ़िर की कब्र पर दफ़न व ज़ियारत के लिये भडे होना भी मन्हूअ है. (अजाईनुल ईरफ़ान, स. 376)

उज़रते सय्यिदुना ज़ाबिर बिन अब्दुल्लाह رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا से रिवायत है के सरदारे मक्कअे मुकर्रमा, सरकारे मदीनअे मुनव्वरह सَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَسَلَّمَ ने ईशाद फ़रमाया : अगर वोह भीमार पड़ें तो पूछने न ज़ाओ, मर ज़ाअें तो जनाजे में हाज़िर न हो. (इबिन माजे ज 1 स 70 حدिथ 92)

**“मदीना” के पांय हुइइ की निस्बत से
जनाजे के मु-तअल्लिक़ पांय म-दनी इल
“इलां मेरी नमाज़ पढाअे” औसी वसियत का हुक़म**

﴿1﴾ मय्यित ने वसियत की थी के मेरी नमाज़ इलां पढाअे या मुजे इलां शप्स गुस्ल दे तो येह वसियत बातिल है या'नी ईस वसियत से (मरने वाले के) वली (या'नी सर परस्त) का हक़ ज़ाता न रहेगा, हां वली को ईप्तियार है के पुह न पढाअे उस से पढवा दे. (बहारे शरीअत, ज़ि. 1, स.

करमाने मुस्तहब। **عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** : जिस ने किताब में मुज पर दुबदे पाक लिखा तो जब तक मेरा नाम उस में रहेगा फिरशते उस के विये ईस्तिस्कार करते रहेंगे. (अ. 1)

837, وغيره ۱۶۳ (عالمگیری ج ۱ ص ۱۶۳) अगर किसी मुत्तकी जुजुर्ग या आलिम के बारे में वसियत की हो तो वु-रसा को याहिये के ईस पर अमल करें.

एमाम मय्यित के सीने की सीध में पडा हो

﴿2﴾ मुस्तहब येह है के मय्यित के सीने के सामने एमाम पडा हो और मय्यित से दूर न हो मय्यित प्वाह मर्द हो या औरत बालिग हो या ना बालिग, येह उस वक्त है के अेक ही मय्यित की नमाज पढानी हो और अगर यन्द हों तो अेक के सीने के मुकाबिल (या'नी सामने) और करीब पडा हो. (دُرْمُخْتَارُ وَرُدُّ الْمُحْتَارِ ج ۳ ص ۱۳۴)

नमाजे जनाजा पढे बिगैर दफ्ना दिया तो ?

﴿3﴾ मय्यित को बिगैर नमाज पढे दफ्ना कर दिया और मिट्टी ली दे दी गई तो अब उस की कब्र पर नमाज पढें जब तक इटने का गुमान न हो, और मिट्टी न दी गई हो तो निकालें और नमाज पढ कर दफ्ना करें, और कब्र पर नमाज पढने में दिनों की कोई ता'दाद मुकर्रर नहों के कितने दिन तक पढी जाये, के येह मौसिम और जमीन और मय्यित के जिस्म व मरज के इफ्तिलाफ से मुप्तलिफ है, गरमी में जल्द इटेगा और जाडे (या'नी सर्दी) में ब-देर (या'नी देर में), तर (या'नी गीली) या शोर (या'नी पारी) जमीन में जल्द, शुशक और गैरे शोर में ब-देर, इर्बा (या'नी मोटा) जिस्म जल्द, लागर (या'नी दुबला पतला) देर में. (أَيْضاً ص ۱۴۶)

मकान में दबे हुअे की नमाजे जनाजा

﴿4﴾ कूंअें में गिर कर मर गया या उस के ठीपर मकान गिर पडा और मुर्दा निकाला न जा सका तो उसी जगह उस की नमाज पढें, और

करमाने मुस्तफ़ा: حَسْبُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالهِ وَسَمُّهُ : जिस ने मुज पर अेक बार दुरदे पाक पढा अल्लाह उंस पर दस रदमते बेजता है. (س.ط)

दरिया में डूब गया और निकाला न जा सका तो उस की नमाज नहीं हो सकती के मय्यित का मुसल्ली (या'नी नमाज पढने वाले) के आगे होना मा'लूम नहीं.

(رَدُّ الْمُحْتَارِ ج ۳ ص ۱۶۷)

नमाजे जनाजा में ता'दाए बढाने के लिये तापीर

﴿5﴾ जुमुआ के दिन किसी का इन्तिकाल हुवा तो अगर जुमुआ से पहले तजहीजो तकफ़ीन हो सके तो पहले ही कर लें, इस खयाल से रोक रचना के जुमुआ के बा'द मजमअ जियादा होगा मक़रुह है.

(बहारे शरीअत, जि. 1, स. 840, 173, رَدُّ الْمُحْتَارِ ج ۳ ص ۱۷۳)

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ط

बालिग की नमाजे जनाजा से कबल

येह अे'लान कीजिये

महूम के अजीज व अहबाब तवज्जोह इरमाअें ! महूम ने अगर जिन्दगी में कभी आप की दिल आजारी या हक त-लफ़ी की हो या आप के मक़रुहों तो इन को रिजाअे इलाही के लिये मुआफ़ कर दीजिये, (إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ) महूम का भी भला होगा और आप को भी सवाब मिलेगा. नमाजे जनाजा की नियत और इस का तरीका भी सुन लीजिये. “मैं नियत करता हूँ इस जनाजे की नमाज की, वासिते अल्लाह उंस के, दुरदे इस मय्यित के लिये पीछे इस इमाम के.” अगर येह अहकाम याद न रहें तो कोई हरज नहीं, आप के दिल में येह नियत होनी जरूरी है के “मैं इस मय्यित की नमाजे जनाजा पढ रहा हूँ” जब इमाम साहिब “اللَّهُ أَكْبَرُ” कहें तो कानों तक हाथ उठाने के बा'द “اللَّهُ أَكْبَرُ” कहते हुअे इौरन हरबे मा'मूल नाफ़ के नीचे बांध

करमाने मुस्तक। صلى الله تعالى عليه وآله وسلم : जो शअ्स मुज पर दुइडे पाक पढना भूल गया वोड जन्त का रास्ता भूल गया. (براهن)

लीजिये और सना पढिये. दूसरी बार ँमाम साडिभ “الله أكبر” कहें तो आप बिगैर हाथ उठाअे “الله أكبر” कडिये, फिर नमाज वाला दुइडे ँब्राडीम पढिये. तीसरी बार ँमाम साडिभ “الله أكبر” कहें तो आप बिगैर हाथ उठाअे “الله أكبر” कडिये और बालिग के जनाजे की दुआ पढिये¹ जब चौथी बार ँमाम साडिभ “الله أكبر” कहें तो आप “الله أكبر” कड कर दोनों हाथों को ञोल कर लटक दीजिये और ँमाम साडिभ के साथ काँडे के मुताबिक सलाम ईर दीजिये.

ॐ एक युप सो¹⁰⁰ सुभ

गमे मदीना, अकीअ,
मगिरत और बे
डिसाभ जन्तुल
डिरदौस में आका
के पडोस का तालिभ
25 मुडर्रमुल डराम 1435 सि.डि.
30-11-2013



सवाभ कमाने का म-दनी भौकअ

जनाजे के ँन्तिजार में जहां लोग जम्भ डों वहां ँस रिसाले से दर्स दे कर भूभ सवाभ कमाँये. नीज अपने मडूमीन के ँसाले सवाभ के लिये अैसे भौकअ पर जनाजे के जुलूस में या ता'जियत के लिये जम्भ डोने वालों में येड रिसाला तकसीम इरमाँये.

¹ : अगर ना बालिग या ना बालिगा का जनाजा डो तो उस की दुआ पढने का अे'लान कीजिये.

ईमानी जुमुआ

ईस रिसाले में....

दस दिन तक बलाओं से डिफाजत

200 साल की ईबादत का सवाब

गुस्ले जुमुआ का वक्त

गरीबों का हज

इहें जम्अ छोती हैं

पहली अजान छोते ही कारोबार ना जाईज

दस हजार बरस के रोजों का सवाब

वरक उलटिये....

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ
أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

इम़ाने जुमुआ

शैतान सुस्ती दिलाओगा मगर आप येह रिसाला
(25 सङ्घात) पूरा पढ कर इमान ताजा कीजिये.

जुमुआ को दुरइ शरीफ़ पढने की इमीलत

नबियों के सुल्तान, रहमते आ-लमिय्यान, सरदारे दो जहान,
महबूबे रहमान صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ का इरमाने अ-र-कत निशान है :
जिस ने मुज पर रोजे जुमुआ दो सो²⁰⁰ बार दुरइ पाक पढा उस के दो सो²⁰⁰
साल के गुनाह मुआफ़ होंगे. (جَمْعُ الْجَوَامِعِ لِلْسُّيُوطِيِّ ج ٧ ص ١٩٩ حديث ٢٢٣٠٣)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

मीठे मीठे इस्लामी भाईयो ! हम कितने खुश नसीब हैं के

अल्लाह तआ-र-क व तआला ने अपने प्यारे उबीब صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ के सटके हमें जुमुअतुल मुबारक की ने'मत से सरकराज इरमाया. अइसोस !
हम ना कदरे जुमुआ शरीफ़ को बी आम दिनों की तरह गइलत में गुजार देते हैं ढालांके जुमुआ यौमे ईद हे, जुमुआ सभ दिनों का सरदार है, जुमुआ के रोज़ जहन्नम की आग नहीं सुलगाई जाती, जुमुआ की रात दोज्ज के दरवाजे नहीं खुलते, जुमुआ को बरोजे कियामत हुल्हन की तरह उठाया जाओगा, जुमुआ के रोज़ मरने वाला खुश नसीब मुसल्मान शहीद का रुत्बा पाता और अजाबे

ફરમાને મુસ્તફા صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم : جيس نے મુઝ પર એક બાર દુરુદે પાક પઢા અલ્લાહ اَسْوَءُ اَمْرٍ اَوْ اَسْفَلُ اَمْرٍ (પર દસ રહમતે ભેજતા છે. (ط))

કબ્રા સે મહફૂઝ હો જાતા છે. મુફસ્સિરે શહીર હકીમુલ ઉમ્મત હઝરતે મુફતી અહમદ યાર ખાન عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی કે ફરમાન કે મુતાબિક, જુમુઆ કો હજ હો તો ઉસ કા સવાબ સત્તર⁷⁰ હજ કે બરાબર છે, જુમુઆ કી એક નેકી કા સવાબ સત્તર ગુના છે. (ચૂકે જુમુઆ કા શરફ બહુત ઝિયાદા છે લિહાઝા) જુમુઆ કે રોઝ ગુનાહ કા અઝાબ ભી સત્તર ગુના છે.

(મુલખ્ખસ અઝ મિરઆત, જિ. 2, સ. 323, 325, 336)

જુમુઅતુલ મુબારક કે ફેઝાઈલ કે તો ક્યા કહને ! અલ્લાહ اَسْوَءُ اَمْرٍ اَوْ اَسْفَلُ اَمْرٍ ને જુમુઆ કે મુ-તઅલ્લિક એક પૂરી સૂરત “સૂ-રતુલ જુમુઅહ” નાઝિલ ફરમાઈ છે જો કે કુરઆને કરીમ કે 28વેં પારે મેં જગમગા રહી છે. અલ્લાહ તબા-ર-ક વ તઆલા સૂ-રતુલ જુમુઅહ કી આયત નમ્બર 9 મેં ઈશાદિ ફરમાતા છે :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا دُودِيَ
لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا
إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۗ ذَلِكُمْ
خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ①

તર-જ-મએ કન્ઝુલ ઈમાન : ઐ ઈમાન વાલો ! જબ નમાઝ કી અઝાન હો જુમુઆ કે દિન તો અલ્લાહ કે ઝિક કી તરફ દૌરો ઓર ખરીદ વ ફરોખ્ત છોડ દો, યેહ તુમ્હારે લિયે બેહતર છે અગર તુમ જાનો.

આકા صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ને પહલા જુમુઆ કબ અદા ફરમાયા

સદરુલ અફાઝિલ હઝરતે અલ્લામા મૌલાના સય્યિદ મુહમ્મદ નઈમુદીન મુરાદઆબાદી عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْهَادِي ફરમાતે હેં : હુઝૂર عَلَيْهِ السَّلَام જબ હિજરત કર કે મદીનએ તચ્ચિબા તશરીફ લાએ તો 12 રબીઉલ અવ્વલ (622 સિ.ઈ.) રોઝે દો² શમ્બા (યા'ની પીર શરીફ) કો ચાશત કે

करमाने मुस्तक़ा: صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: जो शप्स मुअ पर दुरेदे पाक पढना भूल गया वोड जन्त का रास्ता भूल गया. (طرائف)

वक्त मकामे कुभा में एकामत इरमाई. दो² शम्भा (या'नी पीर शरीफ़) सेह शम्भा (या'नी मंगल) यहार शम्भा (या'नी बुध) पंज शम्भा (या'नी जुमा'रात) यहां कियाम इरमाया और मस्जिद की बुन्याद रपी. रोजे जुमुआ मदीनअे तय्यिबा का अज़्म इरमाया. बनी सालिम इब्ने औफ़ के बत्ने वादी में जुमुआ का वक्त आया उस जगह को लोगो ने मस्जिद बनाया. सय्यिदे आलम صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ने वहां जुमुआ अदा इरमाया और पुत्बा इरमाया. (अजाइनुल इरफ़ान, स. 884)

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ عَزَّوَجَلَّ आज भी उस जगह पर शानदार “मस्जिदे जुमुआ” काईम है और जाईरीन हुसूले अ-र-कत के लिये उस की ज़ियारत करते और वहां नवाफ़िल अदा करते हैं.

जुमुआ के मा'ना

मुफ़स्सिरे शहीर हकीमुल उम्मत हज़रते मुफ़्ती अहमद यार पान عَلَيْهِ رَحْمَةُ الْحَنَّانِ इरमाते हैं : यूंके इस दिन में तमाम मफ़्लूकात वुजूह में मुजतमअ (या'नी इक़्दी) हुई, के तक़्मीले पल्क इसी दिन हुई नीज़ हज़रते आदम عَلَيْهِ السَّلَام की मिट्टी इसी दिन जम्अ हुई नीज़ इस दिन में लोग जम्अ हो कर नमाजे जुमुआ अदा करते हैं, इन वुजूह से इसे जुमुआ कहते हैं. ईस्लाम से पहले अहले अरब इसे अरुबह कहते थे.

(मिरआतुल मनाज्जिद, ज़ि. 2, स. 317)

सरकार صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ने कुल कितने जुमुआ अदा इरमाये ?

मुफ़स्सिरे शहीर हकीमुल उम्मत हज़रते मुफ़्ती अहमद यार पान عَلَيْهِ رَحْمَةُ الْحَنَّانِ इरमाते हैं : नबिय्ये करीम صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ने

इरमाने मुस्तफ़ा صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : जिस के पास मेरा जिक्र हुआ और उस ने मुझ पर दुरुदे पाक न पढा तडकीक वोड भद भप्त हो गया. (उंन)

तकरीबन पांच सो जुमुअे पढे हैं ँस लिये के जुमुआ बा'दे छिजरत शुरुअ हुआ जिस के बा'द दस साल आप صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ की ज़ाहिरि जिन्दगी शरीफ़ रही ँस अर्से में जुमुअे ँतने डी छोते हैं.

(मिरआत, जि. 2, स. 346, 1410 تحت الحديث ج 4 ص 190)

तीन जुमुअे सुस्ती से छोडे ँस के दिल् पर मोडूर

अव्लाड के मडभूब, दानाअे गुयूब, मुनज़ज़हुन अनिल उयूब

अव्लाड के मडभूब, दानाअे गुयूब, मुनज़ज़हुन अनिल उयूब
 का इरमाने ँभ्रत निशान है : “जो शप्स तीन³ जुमुआ (की नमाज) सुस्ती के सभब छोडे अव्लाड عَزَّ وَجَلَّ उस के दिल् पर मोडूर कर देगा.”

(سُنَنِ تِرْمِذِي ج 2 ص 38 حديث 500)

जुमुआ इर्जे औन है और ँस की इर्जियत जोडूर से जियादा मुअक्कद (या'नी ताकीदी) है और ँस का मुन्किर (या'नी ँन्कार करने वाला) काफ़िर है. (दुर्मुख्तार ज 3 ص 5)

(दुर्मुख्तार ज 3 ص 5, अडारे शरीअत, जि. 1, स. 762)

जुमुआ के घमामा की इज़ीलत

सरकारे मदीना, सुल्ताने बा करीना, करारे कलबो सीना, इँज गन्जना صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ का ँशदि रडमत बुन्याद है : “बेशक अव्लाड तआला और उस के किरिशते जुमुआ के दिन ँमामा बांधने वालों पर दुरुदे भेजते हैं.”

(مَجْمَعُ الرُّوَاِئِدِ ج 2 ص 394 حديث 307)

शिफ़ा दामिल होती है

डजरते डुमैद बिन अब्दुर्रहमान رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا अपने वालिद से रिवायत करते हैं के इरमाया : “जो शप्स जुमुआ के दिन अपने नापुन काटता है अव्लाड तआला उस से बीमारी निकाल कर शिफ़ा

ફરમાને મુસ્તફા ﷺ : صَلَّيَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : જિસ ને મુઝ પર દસ મરતબા સુબહ ઓર દસ મરતબા શામ દુરૂદે પાક પઢા (ઉસે કિયામત કે દિન મેરી શકાઅત મિલેગી. (مُعْتَمَدٌ))

દાખિલ કર દેતા હૈ.”

(مُصَنَّفُ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ ج ٢ ص ٦٥)

દસ દિન તક બલાઓં સે હિફઝત

સદરુશશરીઅહ, બદરુત્તરીકહ મૌલાના અમજદ અલી આ'ઝમી ફરમાતે હૈં, હદીસે પાક મેં હૈ : જો જુમુઆ કે રોઝ નાખુન તરશ્વાએ અલ્લાહ તઆલા ઉસ કો દૂસરે જુમુએ તક બલાઓં સે મહફૂઝ રખેગા ઓર ત્રીન³ દિન ઝાઈદ યા'ની દસ¹⁰ દિન તક. એક રિવાયત મેં યેહ ભી હૈ કે જો જુમુઆ કે દિન નાખુન તરશ્વાએ તો રહમત આએગી ગુનાહ જાઓંગે. (બહારે શરીઅત, હિસ્સા : 16, સ. 226, ٦٦٩٠٦٦٨ ص ٩٢ مُؤَخْتَارُ وَرَدِ الْمُحْتَارِ ج ١)

રિઝ્ક મેં તંગી કા એક સબબ

સદરુશશરીઅહ, બદરુત્તરીકહ હઝરતે મૌલાના મુહમ્મદ અમજદ અલી આ'ઝમી ફરમાતે હૈં : જુમુઆ કે દિન નાખુન તરશ્વાના મુસ્તહબ હૈ, હાં અગર ઝિયાદા બઢ ગએ હોં તો જુમુઆ કા ઇન્તિઝાર ન કરે કે નાખુન બડા હોના અચ્છા નહીં ક્યૂંકે નાખુનોં કા બડા હોના તંગિયે રિઝ્ક કા સબબ હૈ.

(બહારે શરીઅત, હિસ્સા : 16, સ. 225)

ફિરિશ્તે પુશ નસીબોં કે નામ લિખતે હૈં

મુસ્તફા જાને રહમત, શમ્મે બઝમે હિદાયત, નોશએ બઝમે જન્નત, મમ્બએ જૂદો સખાવત, સરાપા ફઝલો રહમત ﷺ કા ઇશાદિ રહમત બુન્યાદ હૈ : “જબ જુમુઆ કા દિન આતા હૈ તો મસ્જિદ કે દરવાઝે પર ફિરિશ્તે આને વાલે કો લિખતે હૈં, જો પહલે આએ ઉસ કો પહલે લિખતે હૈં, જલ્દી આને વાલા ઉસ શપ્સ કી

करमाने मुस्तक़ा: عَلَى اللَّهِ تَعَالَى غَنِيٌّ وَاللَّهُ وَسْلَمُ: जिसके पास मेरा जिक्र हुआ और उसने मुझ पर दुर्इद शरीफ़ न पढा उसने जफ़ा की. (عمران: १०)

तरह है जो अल्लाह तआला की राह में अक़ ठीत स-दका करता है, और उसके बा'द आने वाला उस शप्स की तरह है जो अक़ गाय स-दका करता है, उसके बा'द वाला उस शप्स की मिसल है जो मेंढा स-दका करे, फिर उसकी मिसल है जो मुर्गी स-दका करे, फिर उसकी मिसल है जो अन्डा स-दका करे और जब इमाम (फ़ुत्बे के लिये) बैठ जाता है तो वोह आ'माल नामों को लपेट लेते हैं और आ कर फ़ुत्बा सुनते हैं."

(صَحِيحُ بَخَارِي ج ١ ص ٣١٩ حَدِيثُ ٩٢٩)

मुफ़स्सिरे शहीर हकीमुल उम्मत हजरते मुफ़ती अहमद यार पान عَلَيْهِ رَحْمَةُ الْخَلْقَانِ इरमाते हैं: बा'ज उ-लमा ने इरमाया के मलाअेका जुमुआ की तुलूअे इज से षडे डोते हैं, बा'ज के नजदीक आइताब यमकने से, मगर हक येह है के सूरज ढलने (या'नी इब्तिदाअे वक्ते ओइर) से शुइअ डोते हैं क्यूंके उसी वक्त से वक्ते जुमुआ शुइअ डोता है, मा'लूम हुवा के वोह इरिशते सब आने वालों के नाम जानते हैं, पयाल रहे के अगर अव्वलन सो¹⁰⁰ आदमी अक़ साथ मस्जिद में आअें तो वोह सब अव्वल हैं. (मिरआत, जि. 2, स. 335)

पहली सदी में जुमुआ का ज़ाबा

हुज्जतुल ईस्लाम हजरते सय्यिदुना इमाम मुहम्मद बिन मुहम्मद बिन मुहम्मद गजाली عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْوَالِي इरमाते हैं: पहली सदी में स-हरी के वक्त और इज के बा'द रास्ते लोगों से त्बरे हुअे देभे जाते थे, वोह यराग लिये हुअे (नमाजे जुमुआ के लिये) ज़ामेअ मस्जिद की तरफ़ जाते गोया इद का दिन हो, हत्ता के येह (या'नी नमाजे जुमुआ

करमाने मुस्तफ़ा صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : जो मुज़ पर रोजे जुमुआ दुरुद शरीफ़ पढ़ेगा मैं कियामत के दिन उस की शफ़ाअत करूँगा. (अबुअल)

के लिये जल्दी जाने का) सिद्धिसिला अत्म हो गया. पस कड़ा गया के ईस्लाम में जो पहली बिद्अत आहिर हुँ वोह जामेअ मस्जिद की तरफ़ जल्दी जाना छोडना है. अइसोस ! मुसल्मानों को किसी तरह यद्दुदियों से उया नहीं आती के वोह लोग अपनी ईबादत गाहों की तरफ़ हफ़ते और ईतवार के दिन सुभ्र सवेरे जाते हैं नीज़ तलब गाराने दुन्या ખरीद व इरोप्त और हुसूले नइअे दुन्यवी के लिये सवेरे सवेरे बाजारों की तरफ़ यल पडते हैं तो आभिरत तलब करने वाले इन से मुकाबला क्युं नहीं करते ! (احياء العلوم ج ۱ ص ۲۶۶) जहां जुमुआ पढा जाता है उस को “जामेअ मस्जिद” भोलते हैं.

गरीबों का हज

उजरते सय्यिदुना अब्दुद्लाह बिन अब्बास رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا से रिवायत है के सरकारे नामदार, बि ईजने परवरद गार दौ² आलम के मालिको मुप्तार, शहन्शाहे अबरार صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ने ईशाद करमाया : الْجُمُعَةُ حَرِّ الْمَسَاكِينِ या'नी जुमुआ की नमाज़ मसाकीन का उज है. और दूसरी रिवायत में है के الْجُمُعَةُ حَرِّ الْفُقَرَاءِ या'नी जुमुआ की नमाज़ गरीबों का उज है. (جَمْعُ الْجَوَامِعِ لِلْسُّيُوطِيِّ ج ۴ ص ۸۴ حديث ۱۱۱۰, ۸, ۱۱۱)

जुमुआ के लिये जल्दी निकलना हज है

अद्लाह عَزَّ وَجَلَّ के प्यारे रसूल, रसूले मकबूल, सय्यिदुल आमिना صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ के गुलशन के मलकते कूल صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ने ईशाद करमाया : “बिला शुभा तुम्हारे लिये हर जुमुआ के दिन में ओक उज और

करमाने मुस्तफ़ा صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : मुज़ पर दुरदे पाक की कसरत करो बेशक येख तुम्हारे लिये तछारत है.
(अबुयूस)

अेक उम्रह भौजूद है, लिहाज़ा जुमुआ की नमाज़ के लिये जल्दी निकलना उज है और जुमुआ की नमाज़ के बा'द अस्र की नमाज़ के लिये इन्तिज़ार करना उम्रह है.”
(السَّنَنُ الْكُبْرَى لِلْبَيْهَقِيِّ ج ٣ ص ٣٤٢ حديث ٥٩٠٠)

उज व उम्रह का सवाब

हुज्जतुल इस्लाम हज़रते सय्यिदुना इमाम मुहम्मद बिन मुहम्मद बिन मुहम्मद गज़ाली عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْوَالِي इरमाते हैं : (नमाज़े जुमुआ के बा'द) अस्र की नमाज़ पढने तक मस्जिद ही में रहे और अगर नमाज़े मगरिब तक ठहरे तो अइज़ल है. कछा ज़ता है के जिस ने ज़मेअ मस्जिद में (जुमुआ अदा करने के बा'द वही रुक कर) नमाज़े अस्र पढी उस के लिये उज का सवाब है और जिस ने (वही रुक कर) मगरिब की नमाज़ पढी उस के लिये उज और उम्रे का सवाब है.

(أَخْبَاهُ الظُّلُوم ج ١ ص ٢٤٩)

सब दिनों का सरदार

नबिय्ये मुअज़्ज़म, रसूले मोहतरम, सुल्ताने जी उशम, ताज़दारे हारम, सरापा जूदो करम صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ का इरमाने बा करीना है : जुमुआ का दिन तमाम दिनों का सरदार है और अद्लाह عَزَّ وَجَلَّ के नज़दीक सब से बडा है और वोह अद्लाह عَزَّ وَجَلَّ के नज़दीक इद्दुल अज़्ज़ा और इद्दुल फ़ित्र से बडा है. इस में पांय षस्लते हैं : **1** अद्लाह तआला ने इसी में आदम (عَلَيْهِ السَّلَام) को पैदा किया और **2** इसी में ज़मीन पर उन्हें उतारा और **3** इसी में उन्हें वफ़ात दी और **4** इस में अेक साअत औसी है के बन्दा उस वक्त जिस यीज़ का सुवाल करेगा

फ़रमाने मुस्तफ़ी ﷺ : तुम जहाँ भी हो मुज पर दुरुद पढो के तुम्हारा दुरुद मुज तक पहुँचता है. (طبرانی)

वोह उसे देगा जब तक हराम का सुवाल न करे और ﴿5﴾ ँसी दिन में क़ियामत काँम होगी. कोँ मुकर्रब क़िरिशता व आस्मान व ज़मीन और हवा व पहाड और दरिया अैसा नहीं के जुमुआ के दिन से डरता न हो.

(سُنَنِ ابْنِ مَاجَه ج 2 ص 8 حدیث 1084)

जानवरों का जोड़े क़ियामत

अेक और रिवायत में सरकारे मदीना صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ने येह भी फ़रमाया है के कोँ जानवर अैसा नहीं के जुमुआ के दिन सुब्ह के वक्त आइताब निकलने तक क़ियामत के डर से खीबता न हो, सिवाअे आदमी और ज़िन्न के.

(مَوْطَأُ امام مالك ج 1 ص 110 حدیث 246)

दुआ कबूल होती है

सरकारे मक्कअे मुकर्रमा, सरदारे मदीनाअे मुनव्वरह सरकारे मक्कअे मुकर्रमा, सरदारे मदीनाअे मुनव्वरह صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ का फ़रमाने ँनायत निशान है : जुमुआ में अेक अैसी घडी है के अगर कोँ मुसल्मान उसे पा कर उस वक्त अद्लाह عَزَّوَجَلَّ से कुँ माँगे तो अद्लाह عَزَّوَجَلَّ उस को ज़रूर देगा और वोह घडी मुप्तसर है.

(صَحِيح مُسْلِم ص 424 حدیث 802)

असर व मगरिब के दरमियान दूँडो

हुज़ूरे पुरनूर, शाईअे यौमुन्नुशूर صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ का फ़रमाने पुर सुरूर है : "जुमुआ के दिन जिस साअत की ख्वाडिश की जाती है उसे असर के बा'द से गुरुअे आइताब तक तलाश करो."

(سُنَنِ تِرْمِذِي ج 2 ص 30 حدیث 489)

करमाने मुस्तफ़ा عَلَيْهِ السَّلَامُ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : जिस ने मुज पर दस भरतभा दुरेदे पाक पढा अल्लाह उंस पर सो रलमतें नाजिल करमाता है. (जुमरान)

साहिबे बहारे शरीअत का धर्शाई

उजरते सदरुशशरीअह मौलाना मुहम्मद अमजद अली आ'जमी عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْقَوِي करमाते हैं : कबूलिय्यते हुआ की साअतों के बारे में दो² कौल कवी हैं : «1» एमाम के पुत्बे के लिये बैठने से अत्मे नमाज तक «2» जुमुआ की पिछली (या'नी आबिरी) साअत.

(बहारे शरीअत, जि. 1, स. 754)

कबूलिय्यत की घडी कौन सी ?

मुफ़स्सिरे शहीर उकीमुल उम्मत उजरते मुफ़ती अहमद यार पान عَلَيْهِ رَحْمَةُ الْحَنَّان करमाते हैं : रात में रोजाना कबूलिय्यते हुआ की साअत (या'नी घडी) आती है मगर दिनों में सिर्फ़ जुमुआ के दिन. मगर यकीनी तौर पर येह नहीं मा'लूम के वोह साअत कब है, गालिब येह के दो² पुत्बों के दरमियान या मगरिब से कुछ पडले. अक और हदीसे पाक के तहत मुफ़ती साहिब عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى करमाते हैं : एस साअत के मु-तअद्लिक उ-लमा के यालीस⁴⁰ कौल हैं, जिन में दो² कौल जियादा कवी हैं, अक दो² पुत्बों के दरमियान का, दूसरा आइताब रूबते वक्त का.

(मिरआत, जि. 2, स. 319, 320)

हिंकायत

उजरते सय्यि-दतुना इति-मतुज्जहरा رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا उस वक्त पुद जुजरे में बैठतीं और अपनी आदिमा इज्जा रَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا को बाहर पडा करतीं, जब आइताब रूबने लगता तो आदिमा आप को जबर देतीं, उस की जबर पर सय्यिदह

करमाने मुस्तक। صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : जिस के पास मेरा जिक्र हो और वोह मुज पर दुरुद शरीफ न पढे तो वोह लोगों में से कन्जूस तरीन शप्स है. (अल-अरबा)

अपने हाथ हुआ के लिये उठातीं. (औज़न, स. 320) भोडतर येह है के इस साअत में (कोई) जामेअ हुआ मांगे जैसे येह कुरआनी हुआ :

(तर-ज-मअे ४-१-२) رَبَّنَا إِنِّي أَتَى فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ○ (پ ۲ البقرة: ۲۰۱)
 कन्जुल ईमान : औ हमारे रब हमें हुन्या में तलाई दे और हमें आभिरत में तलाई दे और हमें अजाबे दोऊष से बचा) (मिरआत, जि. 2, स. 325)
 हुआ की निखत से दुरुद शरीफ भी पढ सकते हैं के दुरुदे पाक भी अजीमुशान हुआ है. अइजल येह है के दोनों भुत्बों के दरमियान बिगैर हाथ उठाये बिला जभान डिलाये दिल् में हुआ मांगी जाये.

हर जुमुआ को अेक करोड 44 लाख जहन्नम से आजाद

सरकारे मदीना صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ का इरमाने नज्मत निशान है : जुमुआ के दिन और रात में यौबीस²⁴ घन्टे हैं कोई घन्टा औसा नहीं जिस में अद्लाह तआला जहन्नम से ४⁶ लाख आजाद न करता हो, जिन पर जहन्नम वाजिब हो गया था.

(مُسْنَدُ أَبِي يَعْلَى ج 3 ص 291 230 حديث 41 3471)

अजाबे कब्र से महकूज

ताजदारे मदीनअे मुनव्वरह, सुल्ताने मककअे मुकर्रमा صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ने ईशाद ईरमाया : जो रोजे जुमुआ या शबे जुमुआ (या'नी जुमा'रात और जुमुआ की दरमियानी शब) मरेगा अजाबे कब्र से बचा लिया जायेगा और कियामत के दिन इस तरह आयेगा के उस पर शहीदों की मोडूर होगी.

(جَلِيَّةُ الْأَوْلِيَاءِ ج 3 ص 181 حديث 29 37)

फ़रमाने मुस्तफ़ा ﷺ: उस शप्स की नाक पाक आवुद हो जिस के पास मेरा जिक्र हो और वो ह मुज पर दुरुद पाक न पड़े. (८७)

जुमुआ ता जुमुआ गुनाहों की मुआझी

हजरते सय्यिदुना सलमान फ़ारसी رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ से मरवी है, सुल्ताने दो जलान, शहन्शाहे कौनो मकान, रहमते आ-लमिय्यान صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ का फ़रमाने आलीशान है : जो शप्स जुमुआ के दिन नछाये और जिस तहारत (या'नी पाकीज़गी) की ईस्तिताअत हो करे और तेल लगाये और घर में जो पुशबू हो मले फिर नमाज़ को निकले और दो^२ शप्सों में जुदाई न करे या'नी दो शप्स बैठे हुअे हों उन्हे हटा कर भीय में न बैठे और जो नमाज़ उस के लिये लिफ़ी गई है पढे और ईमाम जब फुत्बा पढे तो युप रहे उस के लिये उन गुनाहों की, जो ईस जुमुआ और दूसरे जुमुआ के दरमियान हें मग़ि़रत हो जायेगी.

(صحيح بخارى ج ١ ص ٣٠٦ حديث ٨٨٣)

200 साल की घबाहत का सवाब

हजरते सय्यिदुना सिद्दीके अक़बर व हजरते सय्यिदुना ईमरान बिन हुसैन رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا रिवायत करते हें के ताजदारे मदीनअे मुनव्वरह, सुल्ताने मक्कअे मुकर्रमा صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ने ईशाह्द फ़रमाया : जो जुमुआ के दिन नछाये उस के गुनाह और षताअें मिटा दी जाती हें और जब यलना शुअ़अ किया तो हर कदम पर भीस²⁰ नेकियां लिफ़ी जाती हें. (٢٩٢ حديث ١٣٩ ص ١٨ ج ١٨) और दूसरी रिवायत में है : हर कदम पर भीस²⁰ साल का अमल लिफ़ा जाता है और जब नमाज़ से फ़ारिग हो तो उसे दो सो²⁰⁰ बरस के अमल का अज मिलता है.

(الْمُعْجَمُ الْأَوْسَطُ ج ٢ ص ٣١٤ حديث ٣٩٧)

फ़रमाने मुस्तफ़ी صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : जिस ने मुज़ पर रोजे जुमुआ दो सो बार दुरुदे पाक पढा उस के दो सो साल के गुनाह मुआफ़ होंगे. (अहमद)

महूम वालिदैन को हर जुमुआ आ'माल पेश होते हैं

दो² आलम के मालिको मुफ़्तार, मक्की म-दनी सरकार, महबूबे परवरद गार صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ने ईशाद फ़रमाया : पीर और जुमा'रात को अद्लाह एَزَّ وَجَلَّ के हुज़ूर आ'माल पेश होते हैं और अम्बियाअे किराम عَلَيْهِمُ السَّلَام और मां बाप के सामने हर जुमुआ को. वोह नेकियों पर जुश होते हैं और उन के येहरों की सफ़ाई व ताबिश (या'नी यमक दमक) बढ जाती है, तो अद्लाह से डरो और अपने वफ़ात पाने वालों को अपने गुनाहों से रन्ज न पहोंयाओ.

(نَوَاوِرُ الْاَصُولِ لِلْحَكِيمِ التِّرْمِذِيِّ ج ٢ ص ٢٦٠)

जुमुआ के पांच जुसूसी आ'माल

दुजरते सय्यिदुना अबू सईद رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ से मरवी है, सरकारे दो² आलम, नूरे मुजस्सम, शाहे बनी आदम, रसूले मुद्तशम صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ का फ़रमाने मुअज़्ज़म है : पांच चीज़ें जो अेक दिन में करेगा अद्लाह एَزَّ وَجَلَّ उस को जन्नती लिफ़ देगा **1** जो मरीज की ईयादत को ज़ाअे **2** नमाजे जनाज़ा में हाज़िर हो **3** रोज़ा रभे **4** (नमाजे) जुमुआ को ज़ाअे और **5** गुलाम आज़ाद करे.

(الاحسان بترتيب صحيح ابن جبان ج ٤ ص ٩١ حديث ٢٧٦٠)

जन्नत वाजिब हो गर्घ

दुजरते सय्यिदुना अबू उमामा رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ से मरवी है के सुल्ताने दो ज़हान, शहन्शाहे कौनो मकान, रहमते आ-लमिय्यान صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ का फ़रमाने आलीशान है : जिस ने जुमुआ की नमाज़ पढी, उस दिन का रोज़ा रभा, किसी मरीज की ईयादत की, किसी जनाजे में

इरमाने मुस्तफ़ा : صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : मुज पर दुइद शरीफ़ पढो अल्लाह عَزَّوَجَلَّ तुम पर रहमत भेजेगा. (अनसूरी)

हाजिर हुवा और किसी निकाह में शिकत की तो जन्नत उस के लिये वाजिब हो गई.
(الْمُعْجَمُ الْكَبِيرُ ج 8 ص 97 حديث 7484)

सिर्फ़ जुमुआ का रोज़ा न रभिये

पुसूसियत के साथ तन्हा जुमुआ या सिर्फ़ हफ़ता का रोज़ा रभना मक़रूहे तन्जीही है. हां अगर किसी मप्सूस तारीफ़ को जुमुआ या हफ़ता आ गया तो कराहत नहीं. म-सलन 15 शा'बानुल मुअज़्ज़म, 27 र-जबुल मुरज्जब वगैरा. इरमाने मुस्तफ़ा : صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : जुमुआ का दिन तुम्हारे लिये ईद है इस दिन रोज़ा मत रभो मगर येह के इस से पहले या भा'द में भी रोज़ा रभो.
(الْتَرْغِيبُ وَالتَّرْهِيْبُ ج 2 ص 81 حديث 11)

दस हज़ार बरस के रोज़ों का सवाल

सरकारे आ'ला हज़रत ईमाम अहमद रज़ा पान عَلَيْهِ رَحْمَةُ الْحَنَانِ इरमाते हैं : रोज़ा ज़ुमुआ या'नी जब इस के साथ पंज शम्बा (या'नी जुमा'रात का) या शम्बा (हफ़ता का रोज़ा) भी शामिल हो, मरवी हुवा के दस हज़ार बरस के रोज़ों के बराबर है.

(इतावा र-जविय्या मुभर्रज़ा, जि. 10, स. 653)

जुमुआ का रोज़ा कब मक़रूह है

जुमुआ का रोज़ा हर सूरत में मक़रूह नहीं, मक़रूह सिर्फ़ इसी सूरत में है जबके कोई पुसूसियत के साथ जुमुआ का रोज़ा रभे. युनान्ये जुमुआ का रोज़ा कब मक़रूह है इस जिम्न में इतावा र-जविय्या मुभर्रज़ा जिहद 10 सफ़हा 559 से सुवाल जवाब मुला-हज़ा हों, सुवाल : क्या इरमाते हैं उ-लमाअे दीन इस मस्अले में के जुमुआ का रोज़ा नइल

करमाने मुस्तफ़ी صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : मुज पर कसरत से दुर्रदे पाक पढो बेशक तुम्हारा मुज पर दुर्रदे पाक पढना तुम्हारे गुनाहों के लिये मक्किरत है. (भास्त्र)

रफना कैसा है ? ओक शप्स ने जुमुआ का रोजा रफा दूसरे ने उस से कहा : जुमुआ ँदुल मुअमिनीन है रोजा रफना ँस दिन में मक़रुह है और ब ँस्सर बा'द दो पहर के रोजा तुडवा दिया.... जवाब : जुमुआ का रोजा फास ँस निय्यत से के आज जुमुआ है ँस का रोजा बितप्सीस याहिये मक़रुह है मगर न वोह कराहत, के तोडना लाजिम हुवा, और अगर फास ब निय्यते तप्सीस न थी तो अस्लन कराहत भी नहीं, उस दूसरे शप्स को अगर निय्यते मक़रुहा पर ँत्तिलाअ न थी जब तो ओ'तिराज ही सिरे से लमाकत हुवा, और रोजा तोड देना शर-अ पर सप्त जुरअत, और अगर ँत्तिलाअ भी हुँ जब भी मस्अला बता देना काफ़ी था न के रोजा तुडवाना, और वोह भी बा'द दो पहर के, जिस का ँप्तियार नइल रोजे में वालिदैन के सिवा किसी को नहीं, तोडने वाला और तुडवाने वाला दोनों गुनहगार हुअे, तोडने वाले पर कजा लाजिम है कफ़ारा अस्लन नहीं. وَاللّٰهُ تَعَالٰى اَعْلَمُ

जुमुआ को मां बाप की कब्र पर हाजिरी का सवाब

सरकारे नामदार, दो² आलम के मालिको मुफ्तार, शहन्शाहे अबरार صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ का इरमाने फुश गवार है : जो अपने मां बाप दोनों या ओक की कब्र पर हर जुमुआ के दिन जियारत को हाजिर हो, अल्लाह तआला उस के गुनाह बफ़श दे और मां बाप के साथ अख़ा भरताव करने वाला लिफा जअे. (الْمَغْرَمُ الْاَوْسَطُ لِلطَّبْرَانِي ج ٤ ص ٣٢١ حديث ٦١١٤)

कब्रे वालिदैन पर “यासीन” पढने की इज़ीलत

हुज़ूरे अकरम, नूरे मुजस्सम, शाहे बनी आदम صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

करमाने मुस्तफ़ा : صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : जो मुज पर ओक दुइद शरीक पढता है अद्लाह عُزْرُوْجَلْ उस के लिये ओक कीरात अज्ज लिफता है और कीरात उहुद पहाड जितना है. (एभराज)

ने ईशाद करमाया : जो शप्स रोजे जुमुआ अपने वालिदैन या ओक की कभ्र की जियारत करे और उस के पास यासीन पढे, बप्श दिया जाये.

(الْكَوْثِلُ فِي صُغْفَاءِ الرِّجَالِ ج ٦ ص ٢٦٠)

तीन हज़ार मग़्फ़िरतें

सुल्ताने उ-रमैन, रहमते कौनैन, नानाअे उ-सनैन

करमाने बाईसे येन है : जो उर जुमुआ वालिदैन या ओक की जियारते कभ्र कर के वहां यासीन पढे, यासीन (शरीफ़) में जितने उई हैं उन सब की गिनती के बराबर अद्लाह عُزْرُوْجَلْ उस के लिये मग़्फ़िरत करमाये.

(اتحاف السادة ج ٤ ص ٢٧٢) भीठे भीठे ईस्लामी भाईयो ! उर जुमुआ शरीफ़ को क़ौत शुदा वालिदैन या ईन में से ओक की कभ्र पर डालिरे हो कर यासीन शरीफ़ पढने वाले का तो बेडा ही पार है. **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَارْتَأِبُوا رِجْلَيْكُمْ وَكُلُوا وَشَرَبُوا وَلَا تَمَسُوا الْأَنْفُسَ يَأْتُواكُمْ مِنَ الْقِبْلَةِ يَأْتُواكُمْ مِنَ الْقِبْلَةِ** यासीन शरीफ़ में 5 रुकूअ 83 आयात 729 कलिमात और 3000 हुइक हैं अगर ईन्हद्लाह (या'नी अद्लाह عُزْرُوْجَلْ के नजदीक) येह गिनती दुरुस्त है तो तीन उज़ार मग़्फ़िरतों का सवाब मिलेगा.

जुमुआ को यासीन पढने वाले की मग़्फ़िरत होगी

करमाने मुस्तफ़ा : صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : जो शबे जुमुआ (या'नी जुमा'रात और जुमुआ की दरमियानी शब) यासीन पढे उस की मग़्फ़िरत हो जायेगी.

(الترغيب والترهيب ج ١ ص ٢٩٨ حديث ٤)

इहें जम्म होती हैं

जुमुआ के दिन इहें जम्म होती हैं लिहाजा ईस में जियारते कुबूर करनी याछिये और ईस रोजे जहन्नम नहीं लउकाया जाता.

फ़रमाने मुस्तफ़ा صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : जिस ने क़िताब में मुज पर दुइदे पाक लिखा तो जब तक मेरा नाम उस में रहेगा क़िरिशते उस के लिये ईस्तिफ़ार करते रहेंगे. (अबू)।

(دُرُؤُخْتَارُ ج ۳ ص ۴۹) सरकारे आ'ला उजरत ईमाम अहमद रज़ा पान फ़रमाते हैं : ज़ियारते (कुबूर) का अफ़जल वक़्त रोज़े जुमुआ बा'दे नमाजे सुबह है. (इतावा र-जविय्या मुभर्रज़ा, ज़ि. 9, स. 523)

“सू-रतुल कड़फ़” की इमीलत

उजरते सय्यिदुना अब्दुल्लाह ईब्ने उमर رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا से मरवी है : नबिय्ये रहमत, शफ़ीअे उम्मत, शह-शाहे नुबुव्वत, ताजदारे रिसालत صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ का इरमाने बा अ-जमत है : “जो शफ़्स जुमुआ के रोज़ सू-रतुल कड़फ़ पढे उस के कदम से आस्मान तक नूर बुलन्द होग़ा जो क़ियामत को उस के लिये रोशन होग़ा और द्यो² जुमुओं के दरमियान जो गुनाह दुअे हैं बफ़श दिये जाअेंगे.”

(التَّرْغِيبُ وَالتَّرْهِيْبُ ج ۱ ص ۲۹۸ حديث ۲)

द्योनो² जुमुआ के दरमियान नूर

उजरते सय्यिदुना अबू सईद رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ से मरवी है, दुजूर सरापा नूर, इँज ग-जूर, शाहे गयूर صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ का इरमाने नूरुन अला नूर है : “जो शफ़्स बरोजे जुमुआ सू-रतुल कड़फ़ पढे उस के लिये द्योनो² जुमुओं के दरमियान नूर रोशन होग़ा.”

(السَّنَنُ الْكُبْرَى لِلْبَيْهَقِيِّ ج ۳ ص ۳۰۳ حديث ۵۹۹۶)

का'बे तक नूर

अक रिवायत में है : “जो सू-रतुल कड़फ़ शबे जुमुआ (या'नी जुमा'रात और जुमुआ की दरमियानी शब) पढे उस के लिये वहां से का'बे तक नूर रोशन होग़ा.”

(سُنَنُ دَارِمِي ج ۲ ص ۵۴۶ حديث ۳۴۰۷)

फ़रमाने मुस्तफ़ी صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : जिस ने मुज पर एक बार दुरदे पाक पढा अल्लाह उस पर दस रहमते भेजता है. (مسلم)

“सूरअे हा भीम अदुधान” की इमीलत

हउरते सय्यिदुना अबू उमामा رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ से मरवी है, मदीने के सुल्तान, रहमते आ-लमियान صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ का इरमाने जन्नत निशान है : जो शप्स बरोजे जुमुआ या शबे जुमुआ सू-रतुदुधान पढे उस के लिये अल्लाह عَزَّ وَجَلَّ जन्नत में अेक घर बनाअेगा. (السُّنَنِ تِرْمِذِي ج ٤ ص ٤٠٧ حديث ٢٨٩٨)

(السُّنَنِ تِرْمِذِي ج ٨ ص ٢٦٤ حديث ٨٠٢٦) अेक रिवायत है के उस की मग्किरत डो जाअेगी.

सत्तर हउार इरिशतों का घस्तिग्फ़ार

ईमामुल अन्सारे वल मुहाजिरीन, मुहिब्बुल कु-कराअे वल मसाकीन जनाबे रइमतुखिल आ-लमीन صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ का इरमाने दिल् नशीन है : “जो शप्स रात में सू-रतुदुधान पढे तो सुष्ड डोने तक उस के लिये सत्तर हउार इरिशते ईस्तिग्फ़ार करेंगे.” (السُّنَنِ تِرْمِذِي ج ٤ ص ٤٠٦ حديث ٢٨٩٧)

सारे गुनाह मुआइ

हउरते सय्यिदुना अनस बिन मालिक رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ से मरवी है, सुल्ताने दौ² जडान, शहन्शाहे कौनो मकान, रहमते आ-लमियान صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ का इरमाने मग्किरत निशान है : जो शप्स जुमुआ के दिन नमाजे इज से पडले तीन बार اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ اَتُوْبُ اِيْهِ पढे उस के गुनाह बप्श दिये जाअेंगे अगर्गे समुन्दर की जाग से जियादा डों. (السُّنَنِ تِرْمِذِي ج ٥ ص ٣٩٢ حديث ٧٧١٧)

करमाने मुस्तफ़ा حَسْبِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : ओ शप्स मुज़ पर दुरेदे पाक पढना भूल गया वोड जन्तन का रास्ता भूल गया. (ज़रान)

नमाज़े जुमुआ के बा'द

अल्लाह तबा-र-क व तआला पारह 28 सू-रतुल जुमुअह की आयत नम्बर 10 में ईशाद करमाता है :

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا
فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ
اللَّهِ وَادْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ
تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

तर-ज-मअे कन्ज़ुल ईमान : इर जभ नमाज़ (जुमुआ) हो युके तो जमीन में फैल जाओ और अल्लाह का इज़ल तलाश करो और अल्लाह को बहुत याद करो इस उम्मीद पर के इलाह पाओ.

सदरुल अफ़ज़िल हज़रते अल्लामा मौलाना सय्यिद मुहम्मद नईमुदीन मुरादआबादी عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْهَادِي इस आयत के तहत तफ़सीरे भजाईनुल ईरफ़ान में इरमाते हैं : अब (या'नी नमाज़े जुमुआ के बा'द) तुम्हारे लिये जाईज है के मआश के कामों में मशगूल हो या त-लबे ईल्म या ईयादते मरीज़ या शिकते जनाज़ा या ज़ियारते उ-लमा या इस के भिस्ल कामों में मशगूल हो कर नेकियां हासिल करो.

मजलसे इल्म में शिकत

नमाज़े जुमुआ के बा'द मजलसे इल्म में शिकत करना मुस्तहब है. युनान्ये हुजजतुल ईस्लाम हज़रते सय्यिदुना ईमाम मुहम्मद बिन मुहम्मद बिन मुहम्मद गज़ाली عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْوَالِي इरमाते हैं के हज़रते सय्यिदुना अनस बिन मालिक رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ का कौल है : इस आयत में (इकत) परीद व इरोप्त और कस्बे दुन्या मुराद नहीं बल्के त-लबे इल्म, त्माईयों की ज़ियारत, बीमारों की ईयादत, जनाज़े के साथ जाना और इस तरह के काम हैं.

(क़िम्बात सैदात ज 1 व 191)

करमाने मुस्तफी صلى الله تعالى عليه وآله وسلم : जिस के पास मेरा जिक्र हुआ और उस ने मुझ पर दुर्रदे पाक न पढा तलकीक वोह बढ अप्त हो गया. (उर्न)

मीठे मीठे ईस्लामी त्माईयो ! अदाईगिये जुमुआ वाजिब होने के लिये ग्यारह शर्ते हैं एन में से अेक त्मी मा'दूम (कम) हो तो इर्ज नहीं इर त्मी अगर पढेगा तो हो ज़ायेगा बढके मर्दे आकिल बालिग के लिये जुमुआ पढना अइजल है. ना बालिग ने जुमुआ पढा तो नइल है के ईस पर नमाज इर्ज ही नहीं. (درمختار وردالمختار ج ۳ ص ۳۰)

“मेरे गोसे आ'उम” के ग्यारह दुर्रइ की निरुत से अदाइगिये जुमुआ इर्ज होने की 11 शराहत

* शहर में मुकीम होना * सिद्धत, या'नी मरीज पर जुमुआ इर्ज नहीं मरीज से मुराद वोह है के मस्जिदे जुमुआ तक न जा सकता हो या यला तो ज़ायेगा मगर मरज बढ ज़ायेगा या देर में अख़ा होगा. शैपे इानी मरीज के हुकम में है * आज़ाद होना, गुलाम पर जुमुआ इर्ज नहीं और उस का आका मन्अ कर सकता है * मर्द होना * बालिग होना * आकिल होना. येह दोनों² शर्ते फ़ास जुमुआ के लिये नहीं बढके हर ईबादत के वुजूब में अकल व बुलूग शर्त है * अंभियारा होना * यलने पर कादिर होना * कैद में न होना * बादशाह या योर वगैरा किसी ज़ालिम का फौइ न होना * मीह या आंधी या ओले या सर्दी का न होना या'नी ईस कदर, के उन से नुकसान का फौइ सहीह हो. (बहारे शरीअत, जि. 1, स. 770, 772)

जिन पर नमाज इर्ज है मगर किसी शर-ई उज़ूर के सबाब जुमुआ इर्ज नहीं, उन को जुमुआ के रोज़ ज़ोइर मुआइ नहीं है वोह तो पढनी ही होगी.

जुमुआ की सुन्नतें

नमाजे जुमुआ के लिये अव्वल वक्त में जाना, मिस्वाक करना, अख़े

करमाने मुस्तक़ा: حَسَى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : जिस ने मुज़ पर एक बार दुइदें पाक पढा अल्लाह उस पर दस रक़मतें भेजता है. (१)

और सफ़ेद कपडे पहनना, तेल और फ़ुशू लगाना और पहली सफ़ में बैठना मुस्तक़ा है और गुस्ल सुन्नत है. (عالمگیری ج ۱ ص ۱۶۹، غنیه ص ۵۰۹)

गुस्ले जुमुआ का वक्त

मुफ़स्सिरें शहीर हकीमुल उम्मत हज़रते मुफ़ती अहमद यार पान करमाते हैं: बा'ज़ उ-लमाअे किराम رَحْمَةُ اللّٰهِ السَّلَامُ करमाते हैं के गुस्ले जुमुआ नमाज़ के लिये मसून है न के जुमुआ के दिन के लिये. लिहाज़ा जिन पर जुमुआ की नमाज़ नहीं उन के लिये येह गुस्ल सुन्नत नहीं, बा'ज़ उ-लमाअे किराम رَحْمَةُ اللّٰهِ السَّلَامُ करमाते हैं के जुमुआ का गुस्ल नमाजे जुमुआ से करीब करो हत्ता के इस के वुज़ू से जुमुआ पढे मगर हक येह है के गुस्ले जुमुआ का वक्त तुलूअे इज से शुरुअ हो जाता है. (मिरआत, जि. 2, स. 334) मा'लूम हुवा औरत और मुसाफ़िर वगैरा जिन पर जुमुआ वाजिब नहीं है उन के लिये गुस्ले जुमुआ भी सुन्नत नहीं.

गुस्ले जुमुआ सुन्नते गैर मुअक़्क़दा है

हज़रते अल्लामा इब्ने आबिदीन शाभी كُدْرَسِ سُنَّةِ الشَّامِي करमाते हैं: नमाजे जुमुआ के लिये गुस्ल करना सु-नने ज़वाइद से है इस के तर्क पर इताब (या'नी मलामत) नहीं. (رَدُّ الْمُحْتَار ج ۱ ص ۳۳۹)

पुत्बे में करीब रहने की इज़ीलात

हज़रते सय्यिदुना समुरह बिन जुन्दह رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ से भरवी है, हुज़ूर सरापा नूर, इंज गन्जूर, शाहे गयूर صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ने करमाया: हाज़िर रहो पुत्बे के वक्त और इमाम से करीब रहो इस लिये के आदमी जिस कदर दूर रहेगा उसी कदर जन्नत में पीछे रहेगा अगर्चे वोह (या'नी मुसल्मान) जन्नत में दाखिल ज़रूर होगा. (سُنَنِ ابوداؤد ج ۱ ص ۱۰۸ حديث ۱۱۰۸)

करमाने मुस्तफ़। حَسْبُكَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : जिस के पास मेरा जिक्र हुआ और उस ने मुझ पर दुरुददे पाक न पढा। तहकीक वोह बह भप्त हो गया. (उंन)

है म-सलन पुत्बअे ईदैन व निकाल वगैरहुमा. (दُرْمُخْتَار ج ३ ص ६०)

पहली अरान होते ही करोबार भी ना जाधर

पहली अरान के होते ही (नमाजे जुमुआ के लिये जाने की) कोशिश (शुअ कर देना) वाजिब है और बैअ (या'नी भरीद व इरोप्त) वगैरा उन चीजों का जो सअ्य (या'नी कोशिश) के मुनाफ़ी (या'नी खिलाफ़) हों छोड देना वाजिब. यहां तक के रास्ते चलते हुअे अगर भरीद व इरोप्त की तो येह भी ना ज़रूरी और मस्जिद में भरीद व इरोप्त तो सप्त गुनाह है और पाना प्या रहा था के अराने जुमुआ की आवाज आई अगर येह अन्देशा हो, के पाअेगा तो जुमुआ फ़ौत हो जाअेगा तो पाना छोड दे और जुमुआ को ज़अे. जुमुआ के लिये ईत्मीनान व वकार के साथ ज़अे.

(बहारे शरीअत, जि. 1, स. 775, ६२, दُرْمُخْتَار ج ३ ص ६९, १, ६९)

आजकल ईल्मे दीन से दूरी का दौर है, लोग दीगर ईबादात की तरह पुत्बा सुनने जैसी अजीम ईबादात में भी ग-लतियां कर के कई गुनाहों का ईरतिकाभ करते हैं लिहाजा म-दनी ईदितिआ है के देरों नेकियां कमाने के लिये हर जुमुआ को भतीब कबल अज अराने पुत्बा मिम्बर पर यदने से पहले येह अ'लान करे :

“**बिस्मिल्लाह**” के सात हुइइ की निस्बत से

पुत्बे के 7 म-दनी इल

* उदीसे पाक में है : “जिस ने जुमुआ के दिन लोगों की गरदनें इलांगी उस ने जहन्नम की तरफ़ पुल बनाया.” (त्रिमुजि ज २ व ६८, हदिथ ०१३) ईस के अेक मा'ना येह है के उस पर यद यद कर लोग जहन्नम में दापिल होंगे.

(हाशियअे बहारे शरीअत, जि. 1, स. 761, 762)

करमाने मुस्तफ़ा صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : जिस ने मुज़ पर दस मरतबा सुबह और दस मरतबा शाम दुइदें पाक पढा (उसे क़ियामत के दिन मेरी शक़ाअत मिलेगी. (عَنْ أَنَسٍ))

✽ अतीब की तरफ़ मुंछ कर के बैठना सुन्नते सडाबा है.

✽ बुजुग़ाने दीन رَحِمَهُمُ اللهُ السَّيِّئِينَ इरमाते हैं : दो² जानू बैठ कर फ़ुत्बा सुने, पडले फ़ुत्बे में डाय बांधे, दूसरे में जानू पर डाय रभे तो إِنَّ شَاءَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ दो² रक़्अत का सवाब मिलेगा. (मिरआतुल मनाज्जिद, जि. 2, स. 338)

✽ आ'ला डज़रत र्थमाम अडमद रज़ा फ़ान رَحْمَةُ الرَّحْمٰن इरमाते हैं : फ़ुत्बे में डुज़ूरे अकदस وَاللهُ وَآلِهِ وَسَلَّمَ का नामे पाक सुन कर दिल में दुइद पढें, के ज़बान से सुक़ूत (या'नी फ़ामोशी) इर्र है.

(इतावा र-जविथ्या मुफ़र्रज़, जि. 8, स. 365)

✽ “दुरे मुफ़्तार” में है : फ़ुत्बे में फ़ाना पीना, कलाम करना अग़र्ये اللهُ كَلْبًا, सलाम का जवाब देना या नेकी की बात बताना डराम है. (تَرْمِخْتَار ج ٣ ص ٣٩)

✽ आ'ला डज़रत رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ इरमाते हैं : ब डालते फ़ुत्बा यलना डराम है. यडां तक उ-लमाअे क़िराम رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام इरमाते हैं के अग़र अैसे वक़्त आया के फ़ुत्बा शुइअ डो गया तो मस्जिद में जडां तक पडोंया वडीं रुक़ ज़ाअे, आगे न बढे के येड अमल डोगा और डाले फ़ुत्बा में कोर्र अमल रवा (या'नी ज़ाअ) नडीं. (इतावा र-जविथ्या मुफ़र्रज़, जि. 8, स. 333)

✽ आ'ला डज़रत رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ इरमाते हैं : फ़ुत्बे में क़िसी तरफ़ ग़रदन इर्र कर देफ़ना (बी) डराम है. (अैज़न, स. 334)

ज़ुमुआ की इमामत का अहम मसअला

अेक बडुत ज़इरी अम्र जिस की तरफ़ अवाम की बिल्कुल तवज्जुड नडीं वोड येड है के ज़ुमुआ को और नमाज़ों की तरड समज रफ़ा है के जिस ने याडा नया ज़ुमुआ क़ाथम कर दिया और

ફરમાને મુસ્તફા ﷺ : صَلَّي اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : जिस के पास मेरा जिक्र हुआ और उस ने मुझ पर दुर्इद शरीफ़ न पढा उस ने जफ़ा की. (عبدالرزاق)

જિસ ને ચાહા પઢા દિયા યેહ ના જાઈઝ હૈ ઈસ લિયે કે જુમુઆ કાઈમ કરના બાદશાહે ઈસ્લામ યા ઉસ કે નાઈબ કા કામ હૈ. ઓર જહાં ઈસ્લામી સલ્તનત ન હો વહાં જો સબ સે બડા ફકીહ (આલિમ) સુન્ની સહીહુલ અકીદા હો, વોહ અહકામે શરઈયા જારી કરને મેં સુલ્તાને ઈસ્લામ કા કાઈમ મકામ હૈ લિહાઝા વોહી જુમુઆ કાઈમ કરે, બિગૈર ઉસ કી ઈજાઝત કે (જુમુઆ) નહીં હો સકતા ઓર યેહ ભી ન હો તો આમ લોગ જિસ કો ઈમામ બનાએ. આલિમ કે હોતે હુએ અવામ બતૌરે ખુદ કિસી કો ઈમામ નહીં બના સકતે ન યેહ હો સકતા હૈ કે દો ચાર⁴ શખ્સ કિસી કો ઈમામ મુકરર કર લેં ઐસા જુમુઆ કહીં સાબિત નહીં. (બહારે શરીઅત, જિ. 1, સ. 764)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ



ગમે મદીના, બકીઅ,
મઙ્ગિરત ઓર બે
હિસાબ જન્નતુલ
ફિરદૌસ મેં આકા
કે પડોસ કા તાલિબ



25 રબીઉલ અવ્વલ 1432 સિ.હિ.

नमामें ईद का तरीका

(ह-नई)

घटुल झि, नकर घट

ईस रिसाले में....

ईद की जमाअत न मिली तो ?

ईद की अधूरी जमाअत मिली तो ?

तकबीरे तशरीक के 8 म-दनी झूल

दिल जिन्दा रहेगा

ईद के मुस्तहब्बात

वरक उलटिये....

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ
أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

नमाजे धेद का तरीका (उ-नई)

शैतान लाभ सुस्ती दिलाअे येड रिसाला (9 सङ्घात) मुकम्मल
पढ लीजिये إِنَّ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ इस के इवाधेद फुद डी देभ लेंगे.

दुइद शरीफ़ की इगीलत

दो आलम के मालिको मुफ्तार, मक्की म-दनी सरकार, मडबूबे
परवर दगार صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ने धशरिद इरमाया : जे मुज पर
शभे जुमुआ और रोजे जुमुआ सो बार दुइद शरीफ़ पढे अद्लाड तआला
उस की सो डजते पूरी इरमाअेगा सत्तर आभिरत की और तीस दुन्या की.

(तاريخ دمشق لابن عساکر ج ٤ ص ٣٠١ دارالفکر بیروت)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

दिल ठिन्दा रहेगा

ताजदारे मदीना, करारे कलबो सीना صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ का
इरमाने आलीशान है : जिस ने धेदेन की रात (या'नी शभे धेदुल क़ित्र और
शभे धेदुल अज़्हा) त-लबे सवाभ के लिये किया म किया (या'नी धेबादत में गुजारा)
उस दिन उस का दिल नडीं मरेगा, जिस दिन लोगों के दिल मर जाअेंगे.

(سُنَنِ ابْنِ مَاجَه ج ٢ ص ٣٦٥ حَدِيث ١٧٨٢ دارالمعرفة بیروت)

जन्नत वाजिब हो जाती है

अेक और मकाम पर डजरते सय्यिदुना मुआज बिन जबल

इरमाने मुस्तफ़ा. عَلَى اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالهِ وَسَلَّمَ : जिस ने मुज पर अक बार दुइदे पाक पढा अल्लाह उस पर दस रइमतें बेजता है. (ط)

रुइ से मरवी है, इरमाते हैं : जो पांय रातों में शब बेदारी करे (या'नी जाग कर ईबादत में गुजारे) उस के लिये जन्नत वाजिब हो जाती है. जिल खिज्जल शरीफ़ की आठवीं, नवीं और दसवीं रात (ईस तरह तीन रातें तो येह हुं) और यौथी ईदुल फ़ित्र की रात, पांयवीं शा'बानुल मुअज़्जम की पन्दरहवीं रात (या'नी शबे बराअत). (अल्लरुग़ीब वल्लरुह़ीब ज २ व १८१ हद़ीथ १)

नमाजे ईद के लिये जाने से कबल की सुन्नत

उजरते सय्यिदुना बुरैदा रुइ अल्ले त्वाली एंने से मरवी है के हुजुरे अन्वर, शाफ़ेअे मडशर, मदीने के ताजवर, बि ईजने रब्बे अक़बर गौबों से बा खबर, मडबूबे दावर सल्ले अल्ले त्वाली एंने वल्ले वल्ले वल्ले ईदुल फ़ित्र के दिन कुछ भा कर नमाज के लिये तशरीफ़ ले जाते थे और ईदे अज़्ज़ा के रोज़ नहीं जाते थे जब तक नमाज से फ़ारिग न हो जाते. (सुन्नत त्रिमि ज २ व ७० हद़ीथ ०६२ दारुलफ़कीरियत उजरते सय्यिदुना अनस रुइ अल्ले त्वाली एंने से है के ईदुल फ़ित्र के दिन तशरीफ़ न ले जाते जब तक यन्द खजुरें न तनावुल इरमा लेते और वोह ताक होतीं. (बुख़ारी ज १ व ३२८ हद़ीथ १०३ दारुलक़तब ऐलमिऐ बीरुत)

नमाजे ईद के लिये आने जाने की सुन्नत

उजरते सय्यिदुना अबू हुरैरा रुइ अल्ले त्वाली एंने से रिवायत है : ताजदारे मदीना, सुइरे कलबो सीना सल्ले अल्ले त्वाली एंने वल्ले वल्ले वल्ले ईद को (नमाजे ईद के लिये) अक रास्ते से तशरीफ़ ले जाते और दूसरे रास्ते से वापस तशरीफ़ लाते. (सुन्नत त्रिमि ज २ व ६९ हद़ीथ ०६१)

नमाजे ईद का तरीका (उ-नई)

पहले ईस तरह निख्यत कीजिये : “मैं निख्यत करता हूँ दो

क्रमाने मुस्तक़ा: على الله تعالى عليه واليه وسلم: जो शप्स मुज़ पर दुरेदे पाक पढना भूल गया वोड जन्त का रास्ता भूल गया. (طرائق)

रक़्मत नमाज़ ईदुल फ़ित्र (या ईदुल अज़्हा) की, साथ छ⁶ जाईद तक़बीरों के, वासिते अल्वाड عَزَّوَجَلَّ के, पीछे ईस ईमाम के” फिर कानों तक हाथ उठाईये और اللهُ أَكْبَرُ कल कर हस्बे मा’मूल नाफ़ के नीचे बांध लीजिये और सना पढिये. फिर कानों तक हाथ उठाईये और اللهُ أَكْبَرُ कलते हुअे लटका दीजिये. फिर हाथ कानों तक उठाईये और اللهُ أَكْبَرُ कल कर लटका दीजिये. फिर कानों तक हाथ उठाईये और اللهُ أَكْبَرُ कल कर बांध लीजिये या’नी पहली तक़बीर के बा’द हाथ बांधिये ईस के बा’द दूसरी और तीसरी तक़बीर में लटकाईये और यौथी में हाथ बांध लीजिये. ईस को यूं याद रभिये के जहां क्रियाम में तक़बीर के बा’द कुछ पढना है वहां हाथ बांधने हैं और जहां नहीं पढना वहां हाथ लटकाने हैं. फिर ईमाम तअव्वुज़ और तस्मिया आलिस्ता पढ कर अल उम्द शरीफ़ और सूरह जहूर (या’नी बुलन्द आवाज़) के साथ पढे, फिर रुकूअ करे. दूसरी रक़्मत में पहले अल उम्द शरीफ़ और सूरह जहूर के साथ पढे, फिर तीन बार कान तक हाथ उठा कर اللهُ أَكْبَرُ कलिये और हाथ न बांधिये और यौथी बार बिगैर हाथ उठाअे اللهُ أَكْبَرُ कलते हुअे रुकूअ में जाईये और काईदे के मुताबिक नमाज़ मुकम्मल कर लीजिये. हर दू तक़बीरों के दरमियान तीन बार “سُبْحَانَ اللَّهِ” कलने की भिकदार युप भडा रहना है.

(भडारे शरीअत, जि. 1, स. 781, ११ مؤختारह ३ ص १)

नमाज़े ईद किस पर वाजिब है ?

ईदैन (या’नी ईदुल फ़ित्र और बकर ईद) की नमाज़ वाजिब है मगर सब पर नहीं सिर्फ़ उन पर जिन पर ज़मुआ वाजिब है. ईदैन में

करमाने मुस्तक़ा: حَسْبُكَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : जिस के पास मेरा जिक्र हुआ और उस ने मुज पर दृष्टे पाक न पढा तहकीक वोह बह भप्त हो गया. (हंन)

न अज़ान है न ईकामत. (बहारे शरीअत, जि. 1, स. 779, मक-त-भतुल मदीना बाबुल मदीना करायी, دارالمعرفة بیروت, ۱۰۱ ص ۳ دُرْمُخْتَار)

एद का पुत्बा सुन्नत है

ईदैन की अदा की वोही शर्ते हैं जो जुमुआ की, सिई ईतना इक है के जुमुआ में पुत्बा शर्त है और ईदैन में सुन्नत. जुमुआ का पुत्बा कबल अज नमाज है और ईदैन का बा'द अज नमाज.

(बहारे शरीअत, जि. 1, स. 779, ۱۰۰ ص ۱ عالمگیری)

नमाजे एद का वक्त

ईन दोनों नमाजों का वक्त सूरज के ब कदर अक नेजा बुलन्द होने (या'नी तुलूअे आइताब के 20 मिनट के बा'द) से ज़ह्वअे कुब्रा या'नी निस्कुन्नहारे शर-ई तक है मगर ईदुल क़ित्र में देर करना और ईदुल अज़्हा जल्द पढना मुस्तहब है.

(बहारे शरीअत, जि. 1, स. 781, ۶۰ ص ۳ دُرْمُخْتَار)

एद की अघूरी जमाअत मिली तो.....?

पहली रकअत में ईमाम के तकबीरें कलने के बा'द मुक्तदी शामिल हुवा तो उसी वक्त (तकबीरे तहरीमा के एलावा मजीद) तीन तकबीरें कल ले अगर्थे ईमाम ने क़िराअत शुइअ कर दी हो और तीन ही कहे अगर्थे ईमाम ने तीन से ज़ियादा कही हों और अगर ईस ने तकबीरें न कहीं के ईमाम रुकूअ में यला गया तो ખડे ખડे न कहे बल्के ईमाम के साथ रुकूअ में जाओ और रुकूअ में तकबीरें कल ले और अगर ईमाम को रुकूअ में पाया और गालिब गुमान है के तकबीरें कल कर ईमाम को रुकूअ में पा लेगा तो ખડे ખડे तकबीरें कहे क़िर रुकूअ में जाओ वरना اللهُ أَكْبَرُ कल

करमाने मुस्तफ़ा : صلى الله تعالى عليه و آله وسلم : जिस ने मुज पर दस भरतबा सुभद और दस भरतबा शाम दुइद पक पढा
 (उसे कियामत के दिन मेरी शक़ाअत मिलेगी. (مؤخره))

कर रुकूअ में जाअे और रुकूअ में तकबीरें कहे क़िर अगर र्घस ने रुकूअ में तकबीरें पूरी न की थीं के र्घमाम ने सर उठा लिया तो बाकी साकित हो गर्घ (या'नी बकिय्या तकबीरें अब न कहे) और अगर र्घमाम के रुकूअ से उठने के बा'द शामिल हुवा तो अब तकबीरें न कहे बल्के (र्घमाम के सलाम क़ैरने के बा'द) जब अपनी (बकिय्या) पढे उस वक्त कहे और रुकूअ में जहां तकबीर कलना बताया गया उस में हाथ न उठाअे और अगर दूसरी रक़अत में शामिल हुवा तो पहली रक़अत की तकबीरें अब न कहे बल्के जब अपनी क़ौत शुदा पढने जडा हो उस वक्त कहे. दूसरी रक़अत की तकबीरें अगर र्घमाम के साथ पा जाअे क़बिहा (या'नी तो बेहतर). वरना र्घस में भी वोही तफ़सील है जो पहली रक़अत के बारे में मजकूर हुर्घ.

(बहारे शरीअत, जि. 1, स. 782, 101, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000)

र्घट की जमाअत न मिली तो क्या करे ?

र्घमाम ने नमाज पढ ली और कोर्घ शप्स बाकी रह गया ज्वाल वोह शामिल ही न हुवा था या शामिल तो हुवा मगर उस की नमाज क़ासिद हो गर्घ तो अगर दूसरी जगह मिल जाअे पढ ले वरना (बिगैर जमाअत के) नहीं पढ सकता. हां बेहतर येह है के येह शप्स यार रक़अत याशत की नमाज पढे.

(नू'मख्तार 3/17)

र्घट के जुत्बे के अहकाम

नमाज के बा'द र्घमाम दो जुत्बे पढे और जुत्बअे जुमुआ में जो यीजें सुन्नत हैं र्घस में भी सुन्नत हैं और जो वहां मक़रूह वहां भी मक़रूह. सिर्क दो बातों में क़र्क है अेक येह के जुमुआ के पहले जुत्बे से पेशतर

करमाने मुस्तक। على الله تعالى غيبه و الله وسلم: जिस के पास मेरा जिक्र हुवा और उस ने मुज पर दुइद शरीक न पढा उस ने जका की. (عبرالزق)

पतीब का बैठना सुन्नत था और र्घस में न बैठना सुन्नत है. दूसरे येह के र्घस में पहले भुत्बे से पेशतर 9 बार और दूसरे के पहले 7 बार और भिम्बर से उतरने के पहले 14 बार اللهُ أَكْبَرُ कलना सुन्नत है और जुमुआ में नहीं.

(बहारे शरीअत, जि. 1, स. 783, 100, عالمگیری ج 1 ص 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100)

र्घस मुबारक मिररअ, “रि दो र्घटी में गम मदीने का”
के नीस दुइइ की मिररजत से र्घट के 20 आदाब
र्घट के दिन येह र्घमूर मुस्तहब हैं :

✽ र्छजमत बनवाना (मगर रुद्धें बनवाये न के र्घंजेजी बाल)

✽ नाभुन तरशवाना ✽ गुस्ल करना ✽ मिरस्वाक करना (येह उस के र्घलावा है जो वुजू में की जाती है) ✽ अस्थे कपडे पहनना, नअे र्छों तो नअे वरना धुले हुअे ✽ भुशबू लगाना ✽ अंगूठी पहनना (जब कभी अंगूठी पहनिये तो र्घस बात का भास भयाल रभिये के सिर्द साढे यार भाशे से कम वज्ज्न् यांटी की अेक ही अंगूठी पहनिये. अेक से जियादा न पहनिये और उस अेक अंगूठी में भी नगीना अेक ही र्छो, अेक से जियादा नगीने न र्छों, भिगैर नगीने की भी मत पहनिये. नगीने के वज्ज्न् की कोर्रि कैद नहीं. यांटी का छल्ला या यांटी के भयान कर्दा वज्ज्न् वगैरा के र्घलावा किसी भी धात की अंगूठी या छल्ला मर्द नहीं पहन सकता) ✽ नमाजे इज मर्रिडे महल्ला में पढना ✽ र्घदुल क्त्रि की नमाज को जाने से पहले यन्द भजूरें भा लेना, तीन, पांच, सात या कमोभेश मगर ताक र्छों. भजूरें न र्छों तो कोर्रि मीठी यीज्ज्न् भा लीजिये. अगर नमाज से पहले कुछ भी न भाया तो गुनाह न हुवा मगर र्घशा तक न भाया तो र्घताब (मलामत) किया जअेगा

قُفْلٌ مَدِينَةٍ
الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ
بِقِيَمَةٍ



म-दनी वसिखत नामा

मअ कङन व दङन के अडकामात

ईस रिसावे में....

मदीनअे मुनव्वरह से यावीस वसिखते

वसिखत बाईसे मङ्कुरत

तरीकअे तजहीज व तकङीन

मई को कङन पडनाने का तरीका

औरत को कङन पडनाने का तरीका

वरक उलटिये....

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ
 مَا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

म-दनी वसियत नामा

(मअ कइ न दइ न के अहकामात)

शैतान लाप सुस्ती दिलाअे येह पुरसोज रिसाला (15 सइहात)
 मुकम्मल पठ लीजिये عَزَّوَجَلَّ إِنَّ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ आप अपने कलब में रिक्त व
 डलयल महसूस करेंगे.

दुइ शरीफ़ की इमीलत

महबूबे रब्बुल आ-लमीन, जनाबे सादिको अमीन
 صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ने इरमाया : मुज पर दुइ शरीफ़ पढो, अल्लाह
 तुम पर रहमत भेजेगा. (الكاول لابن عوى ج ٥ ص ٥٠٠)

صَلُّوْا عَلَيَّ الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيَّ مُحَمَّدٍ

ईस वक्त नमाजे इज के बा'द
 मस्जिदुन्न-अविशियशरीफ़ عَلَى صَاحِبِهَا الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ में बैठ कर
 “أَرْبَعِينَ وَصَايَا مِنَ الْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ” (या'नी मदीनअे मुनव्वरह से यालीस⁴⁰
 वसियतें) तहरीर करने की सआदत हासिल कर रहा हूँ, आह ! सद् आह !

आज मेरी मदीनतुल मुनव्वरह شَرَفًا وَتَعْظِيمًا की हाजिरी की
 आपिरी सुभ है, सूरज रौजअे महबूब عَلَى صَاحِبِهَا الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ पर अर्जे
 सलाम के लिये हाजिर हुवा याहता है, आह ! आज रात तक अगर
 जन्नतुल अकीअ में मदइ न मिलने की सूरत न हुई तो मदीने से जुदा
 होना पड जाअेगा. आंभ अश्कबार है, दिल बे करार है, हाअे !

अइसोस यन्द घडियां तयबा की रह गई हें

दिल में जुदाई का गम तूझं मया रहा है

करमाने मुस्तक : صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : जिस के पास मेरा जिक्र हो और वोह मुज पर दुइद शरीफ न पढे तो वोह लोगो में से कन्जूस तरीन शप्स है. (अल-अन्बिया)

आह ! दिल गम में डूबा हुआ है, हिजरे मदीना की जं सोज झिक ने सरापा तस्वीरे गम बना कर रच दिया है, अइसा लगता है गोया डोंटों का तबस्सुम किसी ने छीन लिया हो, आह ! अन्करीब मदीना छूट जायेगा, दिल टूट जायेगा, आह ! मदीने से सूअे वतन रवानगी के लम्हात अैसे जं गुजा होते हैं गोया,
किसी शीर प्वार बय्ये को उस की मां की गोद से छीन लिया गया हो और वोह रोता हुआ निहायत ही उसरत के साथ बार बार मुड कर अपनी मां की तरफ देभता हो के शायद मां अेक बार फिर बुला लेगी..... और शकत के साथ गोद में छुपा लेगी..... अपने सीने से चिमटा लेगी..... मुजे लोरी सुना कर अपनी मामता लरी गोद में भीठी नींद सुला देगी..... आह !

में शिकस्ता दिल लिये भोजल कदम रभता हुआ

यल पडा हूं या शह-शाहे मदीना अल वदाअ

अब शिकस्ता दिल के साथ “यालीस वसाया” अर्ज करता हूं, मेरे येह वसाया “दा’वते इस्लामी” से वाबस्ता तमाम इस्लामी भाईयों और इस्लामी बहनों की तरफ ली हैं नीज मेरी औलाद और दीगर अहले भाना ली इन वसाया पर ज़रूर तवज्जोह रभें.

जहे किस्मत ! मुज पापी व बदकार को मदीनअे पुर अन्वार में, वोह ली सायअे सज्ज सज्ज गुम्बदो मीनार में, अै काश ! जल्वअे सरकारे नामदार, शह-शाहे अबरार, शफीअे रोजे शुमार, मलबूबे परवर दगार, अहमदे मुप्तार صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ में शहादत नसीब हो जाअे और जन्नतुल बकीअ में दो² गज जमीन मुयस्सर आअे

करमाने मुस्तक़ा على الله تعالى عليه و آله وسلم: उस शप्स की नाक पाक आवूद हो जिस के पास मेरा जिक्र हो और वोह मुज पर दुइते पाक न पड़े. (८६)

अगर औसा हो जाओ तो दोनों जहां की सआदतें ही सआदतें हैं।
आह ! वरना जहां मुकदर.....

❶ अगर आलमे नज़्म में पाओं तो उस वक्त का हर काम सुन्नत के मुताबिक करें, मुम्किना सूरत में सीधी करवट लिटा कर येहरा डिब्ला इ करें। यासीन शरीफ़ भी सुनाओं और कलिमओ तय्यिबा सीने पर हम आने तक मुसल्सल ब आवाज पढा जाओ.

❷ बा'द कब्जे इह भी हर हर मुआ-मले में सुन्नतों का लिहाज रखें, म-सलन तजहीजो तक्कीन वगैरा में ता'जुल (या'नी जल्दी) और जियादा अवाम ँकड़ी करने के शौक में ताप्पीर करना सुन्नत नहीं। बहारे शरीअत हिस्सा 4 में बयान किये हुओ अहकाम पर अमल किया जाओ. पुसूसन ताकीद अशद ताकीद है के हरगिज नौहा न किया जाओ क्यूंके येह हराम और जहन्नम में ले जाने वाला काम है.

❸ क़भ्र का साँज वगैरा सुन्नत के मुताबिक हो और लइद बनाने के सुन्नत है.¹

❹ अन्हइने क़भ्र दीवारें वगैरा कय्यी मिट्टी की हों, आग की पक्की हुँह ँटें ँस्ति'माल न की जाओं, अगर अन्हर में पक्की हुँह ँट की दीवारें जइरी हों तो फिर अन्हइनी हिस्सा मिट्टी के गारे से अच्छी तरह लीप दिया जाओ.

1 : क़भ्र की दो डिस्में हैं (1) सन्हूक (2) लइद : लइद बनाने का तरीका येह है के क़भ्र भोदने के बा'द मय्यित रहने के लिये जनिबे डिब्ला जगल भोदी जाती है. लइद सुन्नत है अगर जमीन ँस काबिल हो तो येही करें और अगर जमीन नर्म हो तो सन्हूक में मुआ-यका नहीं. हो सकता है गोरकन वगैरा भश्वरा हें के स्लेब अन्हइनी हिस्से में तिरछी कर के लगा लो मगर उस की बात न मानी जाओ.

करमाने मुस्तक़ा : صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : जिस ने मुज़ पर रोजे जुमुआ दो सो बार दुर्रदे पाक पढा उस के दो सो साल के गुनाह मुआफ़ होंगे. (अल-अमाल)

- ﴿5﴾ मुम्किन हो तो अन्हइनी तप्तों पर यासीन शरीफ़, सू-रतुल मुल्क और दुर्रदे ताज पढ कर दम कर दिया जाये.
- ﴿6﴾ कफ़ने मस्नून फुद सगे मदीना ग़ुफ़ी के पैसों से हो. डालते इकर की सूरत में किसी सहीहुल अकीदा सुन्नी के माले डलाल से लिया जाये.
- ﴿7﴾ गुस्ल बा रीश, बा इमामा व पाबन्दे सुन्नत इस्लामी (बाई अैन सुन्नत के मुताबिक़ हें (सादाते किराम अगर गन्दे वुजूद को गुस्ल हें तो सगे मदीना ग़ुफ़ी इसे अपने लिये बे अ-दबी तसव्वुर करता है)
- ﴿8﴾ गुस्ल के दौरान सत्रे औरत की मुकम्मल डिफ़ाजत की जाये अगर नाफ़ से ले कर घुटनों समेत कथ्यई या किसी गडरे रंग की दो² मोटी यादरें उढा दी जायें तो गालिबन सत्र यमकने का अेडतिमाल जाता रहेगा. हां पानी ज़ाहिरि जिस्म के डर डिस्से बडके इयें इयें की जउ से ले कर नोक पर बडना लाज़िमी है.
- ﴿9﴾ कफ़न अगर आबे जमजम या आबे मदीना बडके दोनों से तर किया हुवा हो तो सआदत है. काश ! कोई सय्यिद साडिब सर पर सब्ज इमामा शरीफ़ सजा हें.¹
- ﴿10﴾ बा'दे गुस्ले मय्यित, कफ़न में येडरा ह्युपाने से कब्ल, पडले पेशानी पर अंगुशते शहादत से بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ लिफिये.
- ﴿11﴾ इसी तरड सीने पर : اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ :
- ﴿12﴾ हिल की जगड पर : يَا رَسُولَ اللّٰهِ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ
- ﴿13﴾ नाफ़ और सीने के दरमियानी डिस्सअे कफ़न पर : يَا غَوْسِ

¹ : सिर्फ़ उ-लमा व मशाईफ़ को बा इमामा दफ़न किया जा सकता है, आम लोगों की मय्यित को मअ इमामा दफ़नाना मन्अ है.

કરમાને મુસ્તફા : صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : مُؤَلَّىٰ پَر دُرُودِ شَرِيفِ پَدُو اَللّٰهُ اَعْلٰى عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (ابن عمر)

આ'ઝમ દસ્ત ગીર رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ يَا اَبَامَا اَبُو اَحْمَد
رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ يَا اَبَامَا اَبُو اَحْمَد رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ
رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ يَا اَبَامَا اَبُو اَحْمَد رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ
رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ يَا اَبَامَا اَبُو اَحْمَد

- ﴿14﴾ નીઝ નાફ કે ઊપર સે લે કર સર તક તમામ હિસ્સએ કફન પર (ઇલાવા પુશ્ત કે) “મદીના મદીના” લિખા જાએ. યાદ રહે ! યેહ સબ કુછ રોશનાઈ સે નહીં સિફ અંગુશ્તે શહાદત સે લિખના હૈ ઓર ઝહે નસીબ કોઈ સચ્ચિદ સાહિબ લિખે.
- ﴿15﴾ દોનોં? આંખોં પર મદીનતુલ મુનવ્વરહ زَادَهَا اللهُ شَرَفًا وَتَعْظِيمًا કી ખજૂરોં કી ગુઠલિયાં રખ દી જાએ.
- ﴿16﴾ જનાઝા લે કર ચલતે વક્ત ભી તમામ સુન્નતોં મલૂઝ રખિયે.
- ﴿17﴾ જનાઝે કે જુલૂસ મેં સબ ઈસ્લામી ભાઈ મિલ કર ઈમામે અહલે સુન્નત رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ કા કસીદએ દુરૂદ “કા'બે કે બદરુદુજા તુમ પે કરોડોં દુરૂદ” પઢે. (ઇસ કે ઈલાવા ભી ના'તેં વગૈરા પઢે મગર સિફ ઓર સિફ ઉ-લમાએ અહલે સુન્નત હી કા કલામ પઢા જાએ)
- ﴿18﴾ જનાઝા કોઈ સહીહુલ અકીદા સુન્ની આલિમે બા અમલ યા કોઈ સુન્નતોં કે પાબન્દે ઈસ્લામી ભાઈ યા અહલ હોં તો ઓલાદ મેં સે કોઈ પઢા દેં મગર ખ્વાહિશ હૈ કે સાદાતે કિરામ કો ફૌકિયત દી જાએ.
- ﴿19﴾ ઝહે નસીબ ! સાદાતે કિરામ અપને રહમત ભરે હાથોં કબ્ર મેં ઉતાર કર અર-હમુરાહિમીન કે સિપુદ કર દેં.
- ﴿20﴾ યેહરે કી તરફ દીવારે કિબ્લા મેં તાક બના કર ઉસ મેં કિસી પાબન્દે સુન્નત ઈસ્લામી ભાઈ કે હાથ કા લિખા હુવા અહ્દ નામા, નકશે ના'લે શરીફ, સબ્જ ગુમ્બદ શરીફ કા નકશા, શ-જરા શરીફ, નકશે હરકારા વગૈરા તબરુકાત રખિયે.

करमाने मुस्तफा (صلى الله تعالى عليه وآله وسلم) : मुज पर कसरत से दुर्रदे पाक पढे बेशक तुम्हारा मुज पर दुर्रदे पाक पढना तुम्हारे गुनाहों के लिये मङ्किरत है. (भासफ़)

﴿21﴾ जन्तुल बकीअ में जगल मिल जाये तो जहे किस्मत ! वरना किसी वलियुल्लाह के कुर्ब में, येह ली न हो सके तो जहां ईस्लामी भाई याहें सिपुर्दे भाक करें मगर जाये गरब पर दफ्न न करें, के हराम है.

﴿22﴾ कब्र पर अजान दीजिये.

﴿23﴾ जहे नसीब ! कोई सय्यिद साहिब तल्कीन फरमा दें. 1

﴿24﴾ हो सके तो मेरे अहले महब्बत मेरी तदफ्तीन के बा'द 12 रोज तक, येह न हो सके तो कम अज कम 12 घन्टे ही सही मेरी कब्र पर हल्का किये रहें और जिंको दुर्रद और तिलावत व ना'त से मेरा हिल बहलाते रहें إِنَّ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ नई जगल में हिल लग

1 : तल्कीन की इजीलत : सरकारे मदीना, करारे कल्बो सीना क् صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ का करमाने आलीशान है : जब तुम्हारा कोई मुसल्मान भाई मेरे और उस को मिट्टी दे युको तो तुम में अक शप्स कब्र के सिरछाने भडा हो कर कहे : या हुवां बिन हुलाना ! वोह सुनेगा और जवाब न देगा. फिर कहे : या हुवां बिन हुलाना ! वोह सीधा हो कर बैठ जायेगा, फिर कहे : या हुवां बिन हुलाना ! वोह कहेगा : “हमें ईशाद कर अल्लाह के अल्लाह पर रहूम फरमाये.” मगर तुम्हें उस के कलने की ખबर नहीं होती. फिर कहे :

أَذْكُرُ مَا حَرَجْتَ عَلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا: شَهَادَةَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ (صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ)، وَأَنَّكَ رَضِيتَ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ (صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) تَرْجَمًا : “तू उसे याद कर जिस पर तू दुन्या से निकला या'नी येह गवाही, के अल्लाह के सिवा कोई मा'बूद नहीं और मुहम्मद (صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآलِهِ وَسَلَّمَ) उस के बन्दे और रसूल हैं और येह के तू अल्लाह के रज और ईस्लाम के दीन और मुहम्मद (صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) के नबी और कुरआन के ईमाम होने पर राजी था.” मु'कर नकीर अक दूसरे का हाथ पकड कर कहेंगे यलो हम उस के पास क्या बैठें जिसे लोग उस की हुज्जत सिाया युके. ईस पर किसी ने सरकारे मदीना क् صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ से अर्ज की : अगर उस की मां का नाम मा'लूम न हो ? फरमाया : हव्वा (رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا) की तरफ़ निस्बत करे. (1979-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-100) याद रहे ! हुवां बिन हुलाना की जगल मय्यित और उस की मां का नाम ले, म-सलन या मुहम्मद ईलयास बिन अमीना. अगर मय्यित की मां का नाम मा'लूम न हो तो मां के नाम की जगल हव्वा (رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا) का नाम ले. तल्कीन सिर्फ़ अ-रबी में पढिये.

करमाने मुस्तक। حَسْبِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالهِ وَسَلَّمَ : श्री मुज पर ओक दुबुद शरीक पढता है अद्लाह وَعَزَّ وَجَلَّ उस के लिये ओक कीरात अज्ज लिफता है और कीरात उहुद पहाड जितना है. (मुराज)

ही जायेगा इस दौरान भी और हमेशा नमाजे बा जमाअत का अहतिमाम रहें.

- ﴿25﴾ मेरे जिम्मे अगर कर्ज वगैरा हो तो मेरे माल से और अगर माल न हो तो दर-ज्वास्त है के मेरी औलाद अगर जिन्दा हो तो वोह या कोई और इस्लामी भाई अहसानन अपने पदले से अदा करमा दें. अद्लाह وَعَزَّ وَجَلَّ अजरे अजीम अता करमायेगा. (मुफ्तलिफ़ इजतिमाआत में अ'लान किया जाये के जिस किसी की भी दिल आजारी या हक त-लफ़ी हुई हो वोह मुहम्मद इल्यास अत्तार कादिरि को मुआफ़ करमा दें अगर कर्ज वगैरा हो तो झैरन वु-रसा से रुजूअ करें या मुआफ़ कर दें)
- ﴿26﴾ मुजे कसरत के साथ इसाले सवाब व हुआअे मग्दिरत से नवाजते रहें तो अहसाने अजीम होगी.
- ﴿27﴾ सब के सब मस्लके आ'ला हजरत या'नी मज़हबे अहले सुन्नत पर इमामे अहले सुन्नत मौलाना शाह इमाम अहमद रजा भान عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰن की सहीह इस्लामी ता'लीमात के मुताबिक काईम रहें.
- ﴿28﴾ बह मज़हबों की सोहबत से कोसों दूर भागिये, के इन की सोहबत भातिमा बिलभैर में बहुत बडी रुकावट और सबबे बरबादिये आभिरत है.
- ﴿29﴾ ताजदारे मदीना, राहते कदबो सीना صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالهِ وَسَلَّمَ की महब्बत और सुन्नत पर मज़बूती से काईम रहिये.
- ﴿30﴾ नमाजे पन्जगाना, रोज़अे र-मज़ान, जकात, हज वगैरा इराईज (व दीगर वाजिबात व सुनन) के मुआ-मले में किसी किस्म की कोताही न किया करें.

करमाने मुस्तफ़ा عَلِيٌّ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالْآلِهِ وَسَلَّمَ : जिस ने किताब में मुज़ पर दुइदें पाक लिखा तो जब तक मेरा नाम उस में रहेगा फिरिश्ते उस के लिये ईस्तिफ़ार करते रहेंगे. (अ.प्र.)

- ﴿31﴾ वसियत ज़रूरी वसियत : दा'वते ईस्लामी की मर्कज़ी मजलिसे शूरा के साथ हर दम वफ़ादार रहिये, ईस के हर रुकन और अपने हर निगरान के हर उस हुकम की ईताअत कीजिये जो शरीअत के मुताबिक़ हो शूरा या दा'वते ईस्लामी के किसी भी जिम्मेदार की बिवा ईजाज़ते शर-ई मुभा-लफ़्त करने वाले से मैं बेज़ार हूँ, प्वाह वोह मेरा कैसा ही करीबी अजीज़ हो.
- ﴿32﴾ हर ईस्लामी भाई हफ़ते में कम अज़ कम अेक बार अलाकाई दौरा बराअे नेकी की दा'वत में अव्वल ता आबिर शिर्कत करे और हर माह कम अज़ कम तीन दिन, बारह माह में 30 दिन और जिन्दगी में एक मुशत कम अज़ कम बारह माह के लिये म-दनी काफ़िले में सफ़र करे. हर ईस्लामी भाई और हर ईस्लामी बहन अपने किरदार की ईस्लाह पर ईस्तिफ़ामत पाने के लिये रोज़ाना क़िके मदीना कर के "म-दनी ईन्आमात" का रिसाला पुर करे और हर माह अपने जिम्मेदार को जम्अ करवाअे.
- ﴿33﴾ ताजदारे मदीना, सुइरे कलबो सीना صَلَّي اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالْآلِهِ وَسَلَّمَ की महफ़्बत व सुन्नत का पैगाम हुन्या में आम करते रहिये.
- ﴿34﴾ बढ अकी-दगियों और बढ आ'मालियों नीज़ हुन्या की बे ज़ महफ़्बत, माले हराम और ना ज़ाईज़ इशान वगैरा के भिलाइ अपनी जिदो जहूद जारी रभिये. हुस्ने अप्लाक और म-दनी मिठास के साथ नेकी की दा'वत की धूमें मयाते रहिये.
- ﴿35﴾ गुस्सा और यिउयिउा पन को करीब भी मत इटकने दीजिये वरना दीन का काम हुशवार हो जाअेगा.
- ﴿36﴾ मेरी तावीज़ात और मेरे बयान की केसिटों से मेरे वु-रसा को

करमाने मुस्तफ़ा صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : जिस ने मुझ पर अेक बार दुरदे पाक पढा अद्लाह عَزَّوَجَلَّ उस पर दस रहमते बेजता है. (ط)

दुन्या की दौलत कमाने से बचने की म-दनी इल्तिजा है.

﴿37﴾ मेरे “तर्के” वगैरा के मुआ-मले में हुकुमे शरीअत पर अमल किया जाये.

﴿38﴾ मुझे जो कोई गाली दे, बुरा बला कहे, जप्पी कर दे या किसी तरह भी दिल आजारी का सबब बने मैं उसे अद्लाह عَزَّوَجَلَّ के लिये पेशगी मुआफ़ कर चुका हूँ.

﴿39﴾ मुझे सताने वालों से कोई इन्तिकाम न ले.

﴿40﴾ बिलइर्ज़ कोई मुझे शहीद कर दे तो मेरी तरफ़ से उसे मेरे हुकूक मुआफ़ हैं. वु-रसा से भी दर-प्वास्त है के उसे अपना हक मुआफ़ कर दें. अगर सरकारे मदीना صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ की शफ़ाअत के सदके मइशर में ખुसूसी करम हो गया तो اِنْ شَاءَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ अपने कातिल या'नी मुझे शहादत का ज़ाम पिलाने वाले को भी जन्नत में लेता जाउंग़ा बशर्ते के उस का फ़ातिमा इमान पर हुवा हो. (अगर मेरी शहादत अमल में आये तो इस की वजह से किसी किस्म के हंगामे और हउतालें न की जायें. अगर “हउताल” इस का नाम है के जबर दस्ती कारोबार बन्द करवाया जाये, दूकानों और गाडियों पर पथराव वगैरा किया जाये तो बन्दों की ऐसी हक त-लफ़ियां करना कोई भी मुफ़्फ़ितये इस्लाम जाइज नहीं कल सकता, इस तरह की हउताल हराम और जहन्नम में ले जाने वाला काम है.)

काश ! गुनाह बफ़शने वाला ખुदाये गफ़्फ़ार عَزَّوَجَلَّ मुझ गुनहगार को अपने प्यारे महबूब صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ के तुझैल मुआफ़ करमा दे. ओ मेरे प्यारे प्यारे अद्लाह عَزَّوَجَلَّ ! जब तक जिन्दा रहूँ इशके

करमाने मुस्तफ़ा صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : जो शप्स मुज़ पर दुरेदे पाक पढना भूल गया वोह जन्नत का रास्ता भूल गया. (طبرانی)

रसूल صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ में गुम रहूँ, जिसे मदीना करता रहूँ, नेकी की दा'वत के लिये कोशां रहूँ, महबूब صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ की शफ़ाअत पाऊँ और बे हिसाब बपशा जाऊँ। जन्नतुल फ़िरदौस में प्यारे हबीब صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ का पड़ोस नसीब हो। आह ! काश ! हर वक्त नज़्ज़ारअे महबूब में गुम रहूँ. अै अल्लाह عَزَّ وَجَلَّ ! अपने हबीब पर बे शुमार दुरेदो सलाम लेज, धन की तमाम उम्मत की मग़ि़रत इरमा.

أَمِينٍ بِجَاهِ النَّبِيِّ الْأَمِينِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

या धलाही जब रजा प्वाबे गिरां से सर उठाये

दौलते बेदार धशके मुस्तफ़ा का साथ हो

“म-दनी वसियत नामा” पडली बार मुहर्मुल उराम 1411 सि.हि. मुताबिक 1990 ध. मदीनअे मुनव्वरह شَرَفًا وَتَعْظِيمًا से ज़ारी किया था फ़िर कभी कभी थोड़ी बहुत तरमीम की गध थी, अब मज़ीद बा'ज़ तरामीम के साथ हाज़िर किया है.

गमे मदीना, अकीअ, मग़ि़रत और बे हिसाब जन्नतुल फ़िरदौस में आका के पड़ोस का तालिब



10 ज़ुमादुल ग़िला 1434 सि.हि

23-3-2013

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

वसियत बाधसे मग़ि़रत

इरमाने मुस्तफ़ा صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : “जो वसियत करने के बा'द फ़ौत हुवा वोह सीधे रास्ते और सुन्नत पर फ़ौत हुवा और उस की मौत तकवा और शहादत पर हुध और धस डालत में भरा के उस की मग़ि़रत हो गध.”

(ابن ماجه 3/ص 304 حديث 2701)

करमाने मुस्तफ़ा : حَسْبِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : जिस के पास मेरा जिक्र हुआ और उस ने मुझ पर दुरुदे पाक न पढा तहकीक वोह बह भप्त हो गया. (उंन)

क़ूण द़ूण का तरीका

मर्द का मस्नून क़ूण

(1) लिफ़ाफ़ा (2) ठंजार (3) कमीस

औरत का मस्नून क़ूण

मुन्दरिजअे बाबा तीन और दो मजीद (4) सीना बन्द (5) ओढनी. पुन्सा मुश्किल को औरत की तरह पांच कपडे दिये जाअें मगर कुसुम या जा'फ़रान का रंग्गा हुवा और रेशमी क़ूण एसे ना जा'एज है.

(मुलખ्मस अज बहारे शरीअत, जि. 1, स. 817, 819, 1111, 1112, 1113)

क़ूण की तहसील

﴿1﴾ लिफ़ाफ़ा : या'नी यादर मय्यित के कद से एतनी बडी हो के दोनों तरफ़ बांध सकें ﴿2﴾ ठंजार : (या'नी तहबन्द) चोटी (या'नी सर के सिरे) से कदम तक या'नी लिफ़ाफ़े से एतना छोटा जो बन्दिश के लिये जा'एद था ﴿3﴾ कमीस (या'नी क़ूनी) : गरदन से घुटनों के नीचे तक और येह आगे और पीछे दोनों तरफ़ बराबर हो एस में याक और आस्तीनें न हों. मर्द की क़ूनी कन्धों पर चिरें और औरत के लिये सीने की तरफ़ ﴿4﴾ सीना बन्द : पिस्तान से नाफ़ तक और बेहतर येह है के रान तक हो.¹

(मुलખ्मस अज बहारे शरीअत, जि. 1, स. 818)

¹ : उमूमन तय्यार क़ूण बरीद लिया जाता है उस का मय्यित के कद के मुताबिक मस्नून सा'एज का होना ज़रूरी नही येह भी हो सकता है के एतना ज़ियादा हो के एसरफ़ में दाखिल हो जाअे, लिहाजा अेहत्यात एसी में है के थान में से हस्बे ज़रूरत कपडा काटा जाअे.

करमाने मुस्तफ़ा: حَسْبُكَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالصَّلَاةُ وَالصَّلَامُ : जिस ने मुज पर एक बार दुरुदे पाक पढा अल्लाह उस पर दस रकमों बेजता है. (س)

गुस्ले मय्यित का तरीका

अगर बतियां या लूबान जला कर तीन, पांच या सात बार गुस्ले के तप्ते को धूनी दें या'नी छतनी बार तप्ते के गिर्द फिराओं, तप्ते पर मय्यित को छस तरह लिटाओं जैसे कब्र में लिटाते हैं, नाइ से धुटनों समेत कपडे से छुपा दें. (आज कल गुस्ले के दौरान सफ़ेद कपडा उढाते हैं और उस पर पानी लगने से मय्यित के सत्र की बे पदग़ी होती है लिहाजा कथ्यथ या गहरे रंग का छतना मोटा कपडा हो, के पानी पडने से सत्र न यमके, कपडे की दो तहें कर लें तो ज़ियादा बेहतर) अब नहलाने वाला अपने हाथ पर कपडा लपेट कर पहले दोनों² तरफ़ छस्तिन्जा करवाओ (या'नी पानी से धोओ) फिर नमाज जैसा वुजू करवाओं या'नी तीन बार मुंह फिर कोहनियों समेत दोनों हाथ तीन तीन बार धुलाओं, फिर सर का मस्ह करें, फिर तीन बार दोनों² पाँउ धुलाओं. मय्यित के वुजू में पहले गिह्रों तक हाथ धोना, कुल्ली करना और नाक में पानी डालना नहीं है, अलबत्ता कपडे या इथ की कुरेरी बिगो कर दांतों, मसूढ़ों, छोटों और नथनों पर फेर दें. फिर सर या दाढी के बाल छों तो धोओं. अब बाई (या'नी उलटी) करवट पर लिटा कर बेरी के पत्तों का जोश दिया हुवा (जो अब नीम गर्म रह गया हो) और येह न हो तो फालिस पानी नीम गर्म सर से पाँउ तक बहाओं के तप्ते तक पछोंय जाओ. फिर सीधी करवट लिटा कर बी छसी तरह करें फिर टेक लगा कर बिठाओं और नरमी के साथ पेट के नियाले छिस्से पर हाथ फेरें और कुछ निकले तो धो डालें. दोबारा वुजू और गुस्ले की छजत नहीं फिर आबिर में सर से पाँउ तक तीन बार काइूर का पानी बहाओं. फिर किसी पाक कपडे से बदन आछिस्ता से पोंछ दें.

करमाने मुस्तक़ा : حلى الله تعالى عليه و آله وسلم : ओ शप्स मुज पर दुरदे पाक पहना भूल गया वोह जन्त का रास्ता भूल गया. (طرائق)

एक बार सारे बदन पर पानी बहाना इर्ज़ है और तीन बार सुन्नत. (गुस्ले मय्यित में बे तहाशा पानी न बहाअें आभिरत में एक कतरे कतरे का हिसाब है येह याद रभें)

मर्द को कड़न पहनाने का तरीका

कड़न को एक या तीन या पांच या सात बार धूनी दे दें. फिर इस तरह बिछाअें के पहले लिफ़ाफ़ा या'नी बडी यादर उस पर तहबन्द और उस के ठीपर कड़नी रभें, अब मय्यित को इस पर लिटाअें और कड़नी पहनाअें, अब दाढी (न छो तो ठोडी पर) और तमाम जिस्म पर पुशबू मलें, वोह आ'जा जिन पर सजदा किया जाता है या'नी पेशानी, नाक, हाथों, घुटनों और कदमों पर काफ़ूर लगाअें. फिर तहबन्द उलटी ज़निब से फिर सीधी ज़निब से लपेटें. अब आभिर में लिफ़ाफ़ा ली इसी तरह पहले उलटी ज़निब से फिर सीधी ज़निब से लपेटें ताके सीधा ठीपर रहे. सर और पाँउ की तरफ़ बांध दें.

औरत को कड़न पहनाने का तरीका

कड़नी पहना कर उस के बालों के दोट हिससे कर के कड़नी के ठीपर सीने पर डाल दें और ओढनी को आधी पीठ के नीचे बिछा कर सर पर ला कर मुँह पर निकाब की तरह डाल दें, के सीने पर रहे. इस का तूल आधी पुशत से नीचे तक और अर्ज़ एक कान की लौ से दूसरे कान की लौ तक हो. बा'ज लोग ओढनी इस तरह उढाते हैं जिस तरह औरतें जिन्दगी में सर पर ओढती हैं येह बिलाई सुन्नत है. फिर ब दस्तूर तहबन्द व लिफ़ाफ़ा या'नी यादर लपेटें. फिर आभिर में सीनाबन्द

करमाने मुस्तहब। حسب الله تعالى عليه وآله وسلم : जिस के पास मेरा जिक्र हुआ और उस ने मुझ पर दुरुदे पाक न पढ़ा। तहकीक वोह बह भूत हो गया। (उंन)

पिस्तान के ठीपर वाले छिस्से से रान तक ला कर किसी ठोरी से बांधें।¹

बा'द नमाजे जनाजा तहझीन²

﴿1﴾ जनाजा कब्र से किब्ले की जानिब रफना मुस्तहब है ताके मय्यित किब्ले की तरफ से कब्र में उतारी जाये. कब्र की पाईती (या'नी पाउं की जानिब वाली जगह) रफ कर सर की तरफ से न लायें³ ﴿2﴾ हस्बे ज़रत हो या तीन (बेहतर येह है के कवी और नेक) आदमी कब्र में उतरें. औरत की मय्यित मछारिम उतारें येह न हों तो दीगर रिशतेदार येह भी न हों तो परहेज गारों से उतरवायें⁴ ﴿3﴾ औरत की मय्यित को उतारने से ले कर तप्ते लगाने तक किसी कपडे से छुपाये रफें ﴿4﴾ कब्र में उतारते वक्त येह हुआ पढ़ें : **بِسْمِ اللَّهِ وَبِاللَّهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ** : ⁵ ﴿5﴾ मय्यित को सीधी करवट पर लिटायें और उस का मुंह किब्ले की तरफ कर दें और कफ़न की बन्दिश भोल दें के अब ज़रत नही, न भोली तो भी हरज नही⁶ ﴿6﴾ कब्र कय्यी ईंटों⁷ से बन्द कर दें अगर जमीन नर्म हो तो (लकड़ी के) तप्ते लगाना भी जाईज है⁸ ﴿7﴾ अब मिट्टी दी जाये, मुस्तहब येह है के सिरछाने की तरफ से ढोनों² हाथों से

1 : आज कल औरतों के कफ़न में भी लिफ़ाफ़ा ही आभिर में रफा जाता है तो अगर कफ़न के बा'द सीनाबन्द रफा जाये तो भी कोई मुजायका नही मगर अज़जल है के सीनाबन्द सब से आभिर में हो. 2 : जनाजा उठाने और ईस की नमाज का तरीका "नमाजे जनाजा का तरीका के अहकाम" में मुला-हजा फरमाईये. 3 : बहारे शरीअत, जि. 1, स. 844. 4 : عالمگیری 15/116. 5 : تنوير الابصار 3/116. 6 : جوه 140. 7 : कब्र के अन्दरनी छिस्से में आग की पक्की हुई ईंटें लगाना मन्अ है मगर अकसर अब सिमेन्ट की दीवारों और स्लेब का रवाज है लिहाजा सिमेन्ट की दीवारों और सिमेन्ट के तप्तों का वोह छिस्सा जो अन्दर की तरफ रफना है कय्यी मिट्टी के गारे से लीप दें. **أدّوا له عَزَّوَجَلَّ** मुसल्मानों को आग के असर से महकूज रफे. 8 : बहारे शरीअत, जि. 1, स. 844.

करमाने मुस्तफ़ा عَلَى اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : जिस ने मुज़ पर दस भरतबा सुबह और दस भरतबा शाम दुइते पाक पढा (उसे क़ियामत के दिन मेरी शफ़ाअत मिलेगी. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ)

तीन बार मिट्टी डालें. पहली बार कहें ¹ **مِنْهَا حَاتِّكُمُ** दूसरी बार ² **وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ** तीसरी बार ³ **وَمِنْهَا تُخْرَجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى** कहें. अब बाकी मिट्टी फ़ावरे वगैरा से डाल दें ⁴ **﴿8﴾** जितनी मिट्टी क़ब्र से निकली है उस से ज़ियादा डालना मक़रूह है ⁵ **﴿9﴾** क़ब्र ग़िंट के कोखान की तरफ़ ढाल वाली बनाअें थौपुंटी (या'नी यार कोनों वाली जैसा के आज कल तदफ़ीन के कुछ रोज़ आ'द अकसर छंटों वगैरा से बनाते हैं) न बनाअें ⁶ **﴿10﴾** क़ब्र अेक बादिशत ग़िंथी छो या छस से मा'भूली ज़ियादा ⁷ **﴿11﴾** आ'दे दफ़न क़ब्र पर पानी छिउकना मस्नून है ⁸ **﴿12﴾** छस के छलावा आ'द में पौंटे वगैरा को पानी देने की गरज़ से छिउकें तो ज़ाछ है **﴿13﴾** आ'ज लोग अपने अज़ीज़ की क़ब्र पर बिला मक़सदे सखीह मडूज़ रस्मी तौर पर पानी छिउकते हैं येह छसराफ़ व ना ज़ाछ है, फ़तावा र-अविथ्या शरीफ़ जिल्द 9 सफ़हा 373 पर है : बे लाजत (क़ब्र पर) पानी का डालना ज़ाअेअ करना है और पानी ज़ाअेअ करना ज़ाछ नही **﴿14﴾** दफ़न के आ'द सिरछाने **رَأْسُ الرَّسُولِ** से अत्म सूरह तक पढना मुस्तहब है ⁹ **﴿15﴾** तल्कीन कीजिये. (तरीका सफ़हा 327 के हाशिये पर मुला-हज़ा फ़रमाछये) **﴿16﴾** क़ब्र पर फूल डालना बेहतर है के ज़ब तक तर रहेंगे तस्बीह करेंगे और मथ्यित का दिल् बहलेगा ¹⁰ **﴿17﴾** क़ब्र के सिरछाने क़िबला रू अउे छो कर अज़ान दीजिये. ¹¹

مدینة

1 : हम ने ज़मीन छी से तुम्हें बनाया. 2 : और छसी में तुम्हें फ़िर ले जाअेंगे. 3 : और छसी से तुम्हें दोबारा निकालेंगे. 4 : ۱۴۱/۱ ص ۵ 5 : ۱۶۶ ص ۱ 6 : عالمگیری ج ۱ ص ۱۶۹ 7 : ۱۶۸ ص ۱ 8 : फ़तावा र-अविथ्या मुअर्रज़ा, जि. 9, स. 373. 9 : ۱۴۱/۱ ص ۵, अछारे शरीअत, जि. 1, स. 846 10 : رَدُّ الْمُحْتَرَجِ ۳ ص ۱۸۴ 11 : मा'भूज़ अज़ फ़तावा र-अविथ्या मुअर्रज़ा, जि. 5, स. 370

قُلْ
الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ
ق

حَاضِرَاتِ اَیْمَانِ

سَوَابِ اِیْمَانِ

ایس ریسالے مے....

مکمل ۷۸ کا سواب

مغیرت کی فہمیت

اگرچہ نیکیاں کمانے کا آسان نوسما

سورمے ایضاس کا سواب

ایسالے سواب کا तरीکا

مآر پر اامیری کا तरीکا

वरक उलटिये....

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ
 آمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ज्ञातिहा और षसाले सवाब का तरीका

शैतान लाभ रोके मगर येड रिसाला (27 सफ़हात) मुकम्मल पढ
 कर अपनी आभिरत का भला कीजिये.

महूम रिशतेदार को प्वाब में देभने का तरीका

हजरते अल्लामा अबू अब्दुल्लाह मुहम्मद बिन अहमद
 मालिकी कुरतुबी عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْقَوِي नकल करते हैं : हजरते सय्यिहुना
 हसन बसरी عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْقَوِي की भिदमते बा ब-र-कत में हाजिर हो
 कर ओक औरत ने अर्ज की : मेरी जवान बेटी झैत हो गई है, कोई
 तरीका षशाद हो के मैं उसे प्वाब में देभ लूं. आप رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ ने
 उसे अमल बताया. उस ने अपनी महूम बेटी को प्वाब में तो
 देभा, मगर षस डाल में देभा के उस के बदन पर तारकोल (या'नी
 डामर) का लिबास, गरदन में जञ्जर और पाँउ में बेडियां हैं ! येड
 डैबत नाक मञ्जर देभ कर वोड औरत कांप उठी ! उस ने दूसरे दिन
 हजरते सय्यिहुना हसन बसरी عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْقَوِي को प्वाब सुनाया,
 सुन कर आप رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ बहुत मगमूम हुअे. कुछ अर्से बा'द
 हजरते सय्यिहुना हसन बसरी عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْقَوِي ने प्वाब में ओक लडकी

करमाने मुस्तफ़ा صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : मुज़ पर दुरदे पाक की कसरत करो बेशक येह तुम्हारे लिये तदारत है.

(अबुसैयि)

को देभा, जो जन्नत में ओक तप्त पर अपने सर पर ताज सजाये बैठी है. आप رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ को देभ कर वोह कडने लगी : “में उसी भातून की बेटी हूं, जिस ने आप को मेरी डालत बताई थी.” आप رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ ने इरमाया : उस के बकौल तो तू अजाब में थी, आभिर येह ईन्किलाब किस तरह आया ? मईमा बोली : कब्रिस्तान के करीब से ओक शप्स गुजरा और उस ने मुस्तफ़ा जाने रहमत, शम्मे बजमे छिदायत, नोशमे बजमे जन्नत, मम्बमे जूदो सभावत, सरापा इजलो रहमत صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ पर दुरद भेजा, उस के दुरद शरीफ़ पढने की ब-र-कत से अद्लाह عَزَّ وَجَلَّ ने हम 560 कभ्र वालों से अजाब उठा लिया. (التذكرة في احوال الموتى وأمور الآخرة ج ١ ص ٧٤ ماخوذاً). अद्लाह की उन पर रहमत हो और उन के सदके हमारी बे डिसाब मग़्दिरत हो.

أَمِينِ بِجَاهِ النَّبِيِّ الْأَمِينِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

भीठे भीठे ईस्लामी भाईयो ! इस छिकायत से मा'लूम हुवा के पहले के मुसल्मानों का बुजुर्गाने दीन رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ की तरफ़ पूब रुजूअ था, उन की ब-र-कतों से लोगों के काम भी बन जाया करते थे, येह भी मा'लूम हुवा के मईम अजीजों को प्वाब में देभने का मुता-लबा करने में सप्त ईम्तिहान भी है के अगर मईम को अजाब में देभ लिया तो परेशानी का सामना होगा. इस छिकायत से ईसावे सवाब की जबर दस्त ब-र-कत भी जानने को मिली और येह भी पता चलता है के सिर्फ़ ओक

करमाने मुस्तफ़ा صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : تُمَّ جَدًا لَمِي لَدُو مُؤَلَّ عَلَى دُرْدَدِ دُؤَدِ كَعِ تُوْمَحَارَا دُرْدَدِ مُؤَلَّ تَكِ
 पछोयता है. (طرائق)

भार दुर्दुद शरीफ़ पढ कर भी ईसावे सवाब किया जा सकता है. अल्लाह
 عَزَّوَجَلَّ की बे पायां रहमतों के भी क्या कहने ! के अगर वोह अेक दुर्दुद
 शरीफ़ ही को कबूल इरमा ले तो उस के ईसावे सवाब की न-र-कत से
 सारे के सारे कब्रिस्तान वालों पर भी अगर अजाब हो तो उठा ले और
 उन सब को ईन्आमो ईकराम से मालामाल इरमा दे.

लाज रभ ले गुनाहगारों की नाम रहमान है तेरा या रभ !

बे सबब बपश दे न पूछ अमल नाम गफ़्फ़ार है तेरा या रभ !

तू करीम और करीम भी अैसा

के नहीं जिस का दूसरा या रभ

भीठे भीठे ईस्वामी भाईयो ! जिन के वालिदैन या उन में कोई
 अेक झैत हो गया हो तो उन को याहिये के उन की तरफ़ से गफ़लत न
 करें, उन की कब्रों पर लाजिरी भी देते रहें और ईसावे सवाब भी करते
 रहें. इस जिम्न में 5 इराभीने मुस्तफ़ा صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ मुला-उजा
 इरमाईये :

❦ 1 ❦ मकबूल हज का सवाब

जो न निय्यते सवाब अपने वालिदैन दोनों या अेक की कब्र की
 जियारत करे, उज्जे मकबूल के नराबर सवाब पाये और जो न कसरत
 इन की कब्र की जियारत करता हो, फिरिश्ते उस की कब्र की (या'नी जब येह
 झैत होगी) जियारत को आअें. (नَوَاوِرُ الْأَصُولِ لِلْحَكِيمِ التَّرْمِذِيِّ ج ١ ص ٧٣ حَدِيث ٩٨)

صَلُّوْا عَلَيَّ الْحَبِيْبِ ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيَّ مُحَمَّدٍ

करमाने मुस्तफ़। صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : जिस ने मुज पर दस भरतभा दुइदे पाक पढा अल्लाह उंस पर सो रइमते नाज़िल करमाता है. (طبرانی)

﴿2﴾ दस हज का सवाब

जो अपनी मां या बाप की तरफ़ से उज करे उन (या'नी मां या बाप) की तरफ़ से उज अदा हो जाये, एसे (या'नी उज करने वाले को) मजीद दस उज का सवाब मिले. (दारुफ़्ती ज २ व ३२९ حدिथ २०८७)

سُبْحَانَ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ ! जब कभी नईली उज की सआदत हासिल हो तो झैत शुदा मां या बाप की निथ्यत कर लीजिये ताके उन को भी उज का सवाब मिले, आप का भी उज हो जाये बल्के मजीद दस उज का सवाब हाथ आये. अगर मां बाप में से कोई एस हाल में झैत हो गया के उन पर उज फ़र्ज हो युक्ने के बा वुजूद वोह न कर पाये थे तो अब औलाद को उजजे बढल का शरफ़ हासिल करना याहिये. “उजजे बढल” के तइसीली अहकाम के लिये दा'वते ईस्लामी के ईशाअती एदारे मक-त-भतुल मदीना की मत्बूआ किताब “रईकुल उ-रमैन” का सइहा 208 ता 214 का मुता-लआ इरमाईये.

﴿3﴾ वालिदैन की तरफ़ से भैरात

जब तुम में से कोई कुछ नइल भैरात करे तो याहिये के उसे अपने मां बाप की तरफ़ से करे के एस का सवाब उन्हे मिलेगा और एस के (या'नी भैरात करने वाले के) सवाब में कोई कभी भी नहीं आयेगी.

(شُعَبُ الْإِيمَانِ ج ६ व २०० حدिथ ७११)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

﴿4﴾ रोज़ी में बे न-र-कती की वजह

बन्दा जब मां बाप के लिये दुआ तर्क कर देता है उस का रिज़क कत्म हो जाता है. (جَمْعُ الْجَوَابِ ج १ व २९२ حدिथ २१३८)

करमाने मुस्तक़। عَلَى اللَّهِ تَعَالَى غَنِيًّا وَهُوَ اللَّهُ وَسَلَّمَ : जिस के पास मेरा जिक्र हो और वोह मुज पर दुदुद शरीफ़ न पढे तो वोह लोगों में से कन्जूस तरीन शप्स है. (ज़िउरिबा)

﴿5﴾ जुमुआ को जियारते कब्र की इज़ीलत

जो शप्स जुमुआ के रोज़ अपने वालिदैन या र्शन में से किसी अेक की कब्र की जियारत करे और उस के पास सूरअे यासीन पढे बप्श दिया जाअे.

(الْكَوَالِ لِابْنِ عَدَى ج ٦ ص ٢٦٠)

लाज रभ ले गुनाहगारों की नाम रहमान हें तेरा या रभ

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

कइन इट गअे !

भीठे भीठे र्शस्लामी त्मा र्शयो ! अल्लाह र्शुजल्ल की रहमत बहुत बडी है, जो मुसल्मान दुन्या से रुप्सत हो जाते हें उन के लिये त्मी उस ने अपने इजलो करम के दरवाजे खुले ही रभे हें. अल्लाह र्शुजल्ल की रहमते बे पायां से मु-तअद्लिक अेक र्शमान अइरोज खिकायत पढिये और जूमिये ! युनान्चे अल्लाह र्शुजल्ल के नबी हजरते सय्यिदुना अरमिया عَلَى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام कुछ अैसी कब्रों के पास से गुजर जिन में अजाब हो रहा था. अेक साल बा'द जब इर वही से गुजर हुवा तो अजाब अत्म हो युका था. आप عَلَى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام ने बारगाहे खुदा वन्दी र्शुजल्ल में अर्ज की : या अल्लाह र्शुजल्ल ! क्या वजह है के पडले र्शन को अजाब हो रहा था अब अत्म हो गया ? आवाज आ र्श : "अै अरमिया ! र्शन के कइन इट गअे, बाल बिपर गअे और कब्रें मिट ग र्श तो मैं ने र्शन पर रहम किया और अैसे लोगों पर मैं रहम किया ही करता हूं." (شَرْحُ الصُّدُورِ لِلسُّيُوطِيِّ ص ٣١٣)

फ़रमाने मुस्तक़ा: صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: उस शप्स की नाक पाक आवुद हो जिस के पास मेरा जिक्र हो और वोड मुज पर दुइडे पाक न पडे. (१६)

अद्लाड की रडमत से तो जन्नत ही मिलेगी

औ काश ! मडल्ले में जगड उन के मिली हो

(वसाधले बफ़िशश, स. 193)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

**“फ़रम” के तीन दुइडे की निरबत से
ईसाले सवाब के 3 ईमान अहुरोअ ह्जाधल**

(1) दुआओं की ब-र-कत

मदीने के सुल्तान صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ का फ़रमाने मग़ि़रत निशान है : मेरी उम्मत गुनाड सभेत कअ्र में द्वाधिल होगी और जब निकलेगी तो बे गुनाड होगी क्यूंके वोड मुअभिनीन की दुआओं से बफ़श दी जाती है.

(الْمُعْجَمُ الْأَوْسَطُ ج ١ ص ٥٠٩ حديث ١٨٧٩)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

(2) ईसाले सवाब का धन्तिआर !

सरकारे नामदार صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ का ईशादि मुशकबार है :

मुर्दे का डाल कअ्र में डूबते हुअे ईन्सान की मानिन्ध है के वोड शिदत से धन्तिआर करता है के बाप या मां या त्वाई या किसी दोस्त की दुआ ईस को पडोंये और जब किसी की दुआ उसे पडोंयती है तो उस के नजदीक वोड दुन्या व मा डीडा (या'नी दुन्या और ईस में ज़े कुछ है) से बेडतर डोती है. अद्लाड عَزَّ وَجَلَّ कअ्र वालों को उन के जिन्दा मु-तअद्लिकीन की तरफ़ से डदिय्या डिया हुवा सवाब पडडों की मानिन्ध अता फ़रमाता है, जिन्दों का डदिय्या (या'नी तोडफ़ा) मुर्दों के डिये दुआअे मग़ि़रत करना है.

(شُعَبُ الْإِيمَانِ ج ٦ ص ٢٠٣ حديث ٧٩٠٥)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

करमाने मुस्तक। صلى الله تعالى عليه و آله وسلم : जिस ने मुज पर रोजे जुमुआ दो सो बार दुइटे पाक पढा उस के दो सो साल के गुनाह मुआफ़ होंगे. (अहमद)

इहें घरों पर आ कर ईसाले सवाब का मुता-लबा करती हैं

मीठे मीठे ईस्लामी भाईयो ! मा'लूम हुवा मरने वाले अपनी कब्रों पर आने जाने वालों को पढयानते हैं और उन्हें जिन्दों की दुआओं से झांकेटा पड़ोयता है, जब जिन्दा लोगों की तरफ से ईसाले सवाब के तोड़के आना बन्द होते हैं, तो उन को आगाही डासिल हो जाती है और अद्लाह عَزَّوَجَلَّ उन्हें ईजाजत देता है तो घरों पर जा कर ईसाले सवाब का मुता-लबा ली करते हैं. मेरे आका आ'ला हजरत ईमामे अहले सुन्नत मुजदिदे दीनो मिल्लत मौलाना शाह ईमाम अहमद रजा पान عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰن इतावा र-जविय्या (मुभर्रजा) जिल्द 9 सफ़हा 650 पर नकल करते हैं : “गराईब” और “अजाना” में मन्कूल है के मुअमिनीन की इहें हर शबे जुमुआ (या'नी जुमा'रात और जुमुआ की दरमियानी रात) रोजे ईद, रोजे आशूरा और शबे बराअत को अपने घर आ कर बाहर पडी रहती हैं और हर इह गमनाक बुलन्द आवाज से निदा करती (या'नी पुकार कर कइती) है के अै मेरे घर वालो ! अै मेरी औलाद ! अै मेरे कराबत दारो ! (हमारे ईसाले सवाब की निय्यत से) स-दका (भैरात) कर के हम पर मेहरबानी करो.

हे कौन के गिर्या करे या ज्ञातिहा को आअे

बेकस के उदाअे तेरी रहमत के भरन हूल

(हदाईके बफ्शिाश शरीफ़)

صَلُّوْا عَلَيَّ الْحَبِيْبِ ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيَّ مُحَمَّدٍ

इरमाने मुस्तफ़ा : صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : मुज पर दुइद शरीक पढे अल्लाह एउजुल तुम पर रहमत भेजेगा. (अबुसरी)

(3) दूसरों के लिये हुआअे मग़ि़रत करने की इ़मलीत

इरमाने मुस्तफ़ा : صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : जो कोई तमाम मोमिन मर्दों और औरतों के लिये हुआअे मग़ि़रत करता है, अल्लाह एउजुल उस के लिये हर मोमिन मर्द व औरत के ईवज अेक नेकी लिख देता है.

(مسند الشاميين للطبرانی ج ۳ ص ۲۳۴ حدیث ۲۱۰۰)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

अरबों नेकियां इमाने का आसान नुस्खा मिल गया !

भीठे भीठे ईस्लामी भाईयो ! ज़ूम जाईये ! अरबों, अरबों नेकियां इमाने का आसान नुस्खा हाथ आ गया ! जाहिर है ईस वक्त इअे जमीन पर करोड़ों मुसल्मान मौजूद हैं और करोड़ों बलके अरबों दुन्या से यल बसे हैं. अगर हम सारी उम्मत की मग़ि़रत के लिये हुआ करेंगे तो إِنَّ شَاءَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ हमें अरबों, अरबों नेकियों का पजाना मिल जाअेगा. मैं अपने लिये और तमाम मुअमिनीन व मुअमिनात के लिये हुआ तहरीर कर देता हूं. (अव्वल आभिर दुइद शरीक पढ लीजिये) إِنَّ شَاءَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ ढेरों नेकियां हाथ आअेंगी.

يا'नी अै अल्लाह ! मेरी और हर मोमिन व मोमिना की मग़ि़रत इरमा.

أَمِينٍ بِجَاهِ النَّبِيِّ الْأَمِينِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

आप भी ठीपर दी हुई हुआ को अ-रबी या उई या दोनों जभानों में अबी और हो सके तो रोजाना पांयों नमाजों के आ'द भी पढने की आदत बना लीजिये.

करमाने मुस्तक़ा: صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: मुज़ पर कसरत से दुर्रदे पाक पढे बेशक तुम्हारा मुज़ पर दुर्रदे पाक पढना तुम्हारे गुनाहों के लिये मज़्किरत है. (भास्फ़)

बे सबब बफ़श दे न पूछ अमल

नाम गफ़्फ़ार है तेरा या रब !

(ज़ोके ना'त)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

नूरानी लिबास

एक बुज़ुर्ग ने अपने मर्दूम त्वाई को प्वाब में देप कर पूछा : क्या जिन्दा लोगों की हुआ तुम लोगों को पढोंयती है ? मर्दूम ने ज्वाब दिया : “हां अल्वाह डज़्ज़ल की कसम ! वोह नूरानी लिबास की सूरत में आती है उसे डम पढन लेते हैं.”

(شَرْحُ الصُّنُورِص ३००)

जस्वओ यार से हो कफ़ आबाह वड़्शते कफ़ से बया या रब !

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

नूरानी तबाक

मन्कूल है : जब कोई शफ़्स मय्यित को र्शाले सवाल करता है तो डज़रते जिब्रईल عَلَيْهِ السَّلَام उसे नूरानी तबाक में रप कर कफ़ के कनारे पडे हो जाते हैं और कडते हैं : “ओ कफ़ वाले ! येह डदिय्या (या'नी तोहफ़ा) तेरे घर वालों ने त्मेजा है कबूल कर.” येह सुन कर वोह फ़ुश होता है और उस के पडोसी अपनी मड़्ज़मी पर गमगीन होते हैं.

(أَيْضاًص ३०८)

कफ़ में आह ! धुप अंधेरा है

फ़ज़ल से कर दे यांढना या रब !

(वसाईले बफ़िशश, स. 88)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

ફરમાને मुस्तफ़ा صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : જો મુજ પર એક દુરુદ શરીફ પઢતા હૈ અલ્લાહ غَزْوَجَلَّ (उस के लिये) એક કીરાત અજા લિખતા હૈ ઓર કીરાત ઉદુદ પહાડ જિતના હૈ. (મુબારક)

मुर्दों की ता'दाद के बराबर अज

ફરમાને મુસ્તફા صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : જો કબ્રિસ્તાન મેં ગ્યારહ બાર સૂ-રતુલ ઈખ્લાસ પઢ કર મુર્દો કો ઈસ કા ઈસાલે સવાબ કરે તો મુર્દો કી તા'દાદ કે બરાબર ઈસાલે સવાબ કરને વાલે કો ઈસ કા અજા મિલેગા.

(جَمْعُ الْجَوَامِعِ لِلْسُّنُوطِيِّ ج ٧ ص ٢٨٥ حديث ٢٣١٠٢)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

सब कब्र वालों को सिफारिशी बनाने का उमल

सुस्ताने दो जडान, शईअे मुजरिमान صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ का फरमाने शफ़ाअत निशान है : “जो शप्स कब्रिस्तान में दाखिल हुवा फिर उस ने सू-रतुल झातिहा, सू-रतुल इख्लास और सू-रतुतकासुर पढी फिर येड हुआ मांगी : या अल्लाह غَزْوَجَلَّ ! मैं ने जो कुछ कुरआन पढा उस का सवाब इस कब्रिस्तान के भोमिन मर्दों और भोमिन औरतों को पड़ोया. तो वोड सब के सब डियामत के रोज इस (या'नी इसाले सवाब करने वाले) के सिफारिशी होंगे.”

(شَرْحُ الصُّدُورِ ص ٣١١)

હર ભલે કી ભલાઈ કા સદકા

ઈસ બુરે કો ભી કર ભલા યા રબ

(ઝોકે ના'ત)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

सूरअे इख्लास के ईसाते सवाब की हिकायत

હઝરતે સય્યિદુના હમ્માદ મક્કી عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْقَوِی ફરમાતે હેં : મેં એક રાત મક્કએ મુકર્મા زَادَهَا اللّٰهُ شَرَفًا وَتَعْظِيمًا કે કબ્રિસ્તાન મેં સો

करमाने मुस्तक़। صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : जिस ने किताब में मुज पर दुबूदे पाक लिखा तो जब तक मेरा नाम उस में रहेगा फिरिश्ते उस के लिये ईस्तिफ़कार करते रहेंगे. (طبرانی)

गया. क्या देभता हूँ के कब्र वाले हलका दर हलका षडे हें, मैं ने उन से ईस्तिफ़सार किया (या'नी पूछा) : क्या कियामत का'ईम हो ग'ई ? उनहों ने कहा : नहीं, भात दर अस्ल येह है के अक मुसल्मान भा'ई ने सू-रतुल ईज्वास पढ कर हम को ईसाले सवाब किया तो वोह सवाब हम अक साल से तकसीम कर रहे हें. (شَرْحُ الصُّدُورِ ص ३१२)

سَبَقْتُ رَحْمَتِي عَلَى غَضَبِي تूने जब से सुना दिया या रब !

आसरा हम गुनाहगारों का और मजभूत हो गया या रब !

(जौके ना'त)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

उम्मे सा'द रज़ी लल्लु तल्लु ऐन्हुमा के लिये कुंआं

हजरते सय्यिदुना सा'द बिन उबादा रज़ी लल्लु तल्लु ऐन्हु ने अर्ज की : या रसूलल्लाह صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ! मेरी मां ईन्तिकाल कर ग'ई हें (मैं उन की तरफ़ से स-दका (या'नी भौरात) करना याहता हूँ) कौन सा स-दका अफ़जल रहेगा ? सरकार रज़ी लल्लु तल्लु ऐन्हु ने फ़रमाया : “पानी.” युनान्ये उनहों ने अक कुंआं पुढवाया और कहा : هذه لِأُمَّ سَعْدٍ يَا'नी “येह उम्मे सा'द रज़ी लल्लु तल्लु ऐन्हुमा के लिये है.”

(أَبُو تَأَوْدٍ ج २ ص १८० حَدِيث १६८१)

गौस पाक का बकरा कहना कैसा ?

भीठे भीठे ईस्लामी भा'ईयो ! सय्यिदुना सा'द रज़ी लल्लु तल्लु ऐन्हु के ईस ईशा'द : “येह उम्मे सा'द (رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا) के लिये है” के मा'ना येह हें के येह कुंआं सा'द रज़ी लल्लु तल्लु ऐन्हु की मां के ईसाले

करमाने मुस्तक। حَسْبِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالهِ وَسَلَّمَ : जिस ने मुझ पर अक बार दुइदे पाक पढा अल्लाह उंस पर दस रहमतें बेजता है. (स्ल)

सवाब के लिये है. ईस से येह भी मा'लूम हुवा के मुसल्मानों का गाय या बकरे वगैरा को बुजुर्गों की तरफ मन्सूब करना म-सलन येह कलना के “येह सय्यिदुना गौसे पाक رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ का बकरा है” ईस में कोई हरज नहीं के ईस से मुराद भी येही है के येह बकरा गौसे पाक رَحْمَةُ الرَّزَّاقِ عَلَيْهِ के ईसाले सवाब के लिये है. कुरबानी के जानवर को भी तो लोग अक दूसरे ही की तरफ मन्सूब करते हैं, म-सलन कोई अपनी कुरबानी का बकरा लिये यवा आ रहा हो और अगर आप उस से पूछें के किस का बकरा है? तो उस ने कुछ ईस तरह जवाब देना है, “मेरा बकरा है” या “मेरे मामूं का बकरा है.” जब येह कलने वाले पर अे'तिराज नहीं तो “गौसे पाक का बकरा” कलने वाले पर भी कोई अे'तिराज नहीं हो सकता. लकीकत में हर शै का मालिक अल्लाह عَزَّوَجَلَّ ही है और कुरबानी का बकरा हो या गौसे पाक का बकरा, जब के वक्त हर जभीहा पर अल्लाह عَزَّوَجَلَّ का ही नाम लिया जाता है. अल्लाह اٰمِيْنَ بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِيْنَ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ से नजात बपशे.

صَلُّوْا عَلَيَّ الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيَّ مُحَمَّدٌ

“अल्लाह की रहमत के क्या कलने!” के उन्नीस दुइइ की निरबत से फसावे सवाब के 19 म-दनी झूल

❶ ईसाले सवाब के लफ्जी मा'ना हैं : “सवाब पड़ोयाना” ईस को “सवाब बपशना” भी कलते हैं मगर बुजुर्गों के लिये “सवाब बपशना” कलना मुनासिब नहीं, “सवाब नज़र करना” कलना अदब के जियादा करीब है. ईमाम अहमद रजा पान عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰنُ फरमाते हैं : हुजुरे

करमाने मुस्तनद। حَسْبُكَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : जिस के पास मेरा जिक्र हुआ और उस ने मुझ पर दुर्रदे पाक न पढा। तहकीक वोह बह भन्त हो गया. (उंन)

ईजाजत भी दें अगर ओक भी वारिस ना बालिग है तो सभ्त डराम है. हां बालिग अपने हिससे से कर सकता है.

(मुलम्भस अज बहारे शरीअत, जि. 1, हिस्सा : 4, स. 822)

«5» तीजे का खाना यूंके उमूमन दा'वत की सूरत में होता है ईस लिये अग्निया के लिये जाईज नही सिर्फ गु-रबा व मसाकीन खाएं, तीन दिन के बा'द भी मय्यित के खाने से अग्निया (या'नी जो इकीर न हां उन) को बयना याहिये. इतावा र-जविख्या जिल्द 9 सईहा 667 से मय्यित के खाने से मु-तअद्लिक ओक मुईद सुवाल जवाब मुला-हजा हां, सुवाल : مَكْرُوهٌ أَنْ يَأْكُلَ الْمُؤْمِنُ مِنْ طَعَامِ الْمَيِّتِ يَمِئْتُ الْقَلْبُ (मय्यित का खाना दिल को मुर्दा कर देता है.) मुस्तनद कौल है, अगर मुस्तनद है तो ईस के क्या मा'ना हैं ? जवाब : येह तजरिबे की बात है और ईस के मा'ना येह हैं के जो तआमे मय्यित के मु-तमन्नी रहते हैं उन का दिल भर जाता है, जिक्र व ताअते ईलाही के लिये हयात व युस्ती उस में नही के वोह अपने पेट के लुकमे के लिये मौते मुस्लिमीन के मुन्तजिर रहते हैं और खाना खाते वक्त मौत से गाइल और उस की लज्जत में शागिल. وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ

(इतावा र-जविख्या मुअर्रज, जि. 9, स. 667)

«6» मय्यित के घर वाले अगर तीजे का खाना पकाएं तो (मालदार न खाएं) सिर्फ इ-करा को बिलाएं जैसा के मक-त-अतुल मदीना की मत्बूआ बहारे शरीअत जिल्द अक्वल सईहा 853 पर है : मय्यित के घर वाले तीजे वगैरा के दिन दा'वत करें तो ना जाईज व बिद्अते कभीहा है, के दा'वत तो ખुशी के वक्त मशूरअ (या'नी शर-अ के मुवाफिक) है न के गम

करमाने मुस्तक़ा: حَسْبُكَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللَّهُ رَئِيمٌ : जिस ने मुज़ पर अक बार दुइदे पाक पढा अल्लाह उस पर दस रहमतें बेजता है. (س)

के वक्त और अगर हु-करा को भिलाअें तो बेहतर है. (अज़न, स. 853)

﴿7﴾ आ'ला हज़रत ईमाम अहमद रज़ा भान عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰن فرमाते हैं :

“यूँही येहलुम या बरसी या शश्माही पर भाना बे निय्यते ईसावे सवाब महुज़ अक रस्मी तौर पर पकाते और “शादियों की भाज्” की तरह बरादरी में बांटते हैं, वोह भी बे अस्ल है, जिस से अहतिराज़ (या'नी अहतियात करनी) याहिये.” (इतावा र-अविथ्या मुपर्ज़ा, जि. 9, स. 671) बल्के येह भाना ईसावे सवाब और दीगर अथ्ठी अथ्ठी निय्यतों के साथ होना याहिये और अगर कोई ईसावे सवाब के लिये भाने का अहतिमाम न भी करे तब भी कोई हर्ज़ नहीं.

﴿8﴾ अक दिन के बय्ये को भी ईसावे सवाब कर सकते हैं, उस का तीजा वगैरा भी करने में हर्ज़ नहीं. और जो जिन्दा हैं उन को भी ईसावे सवाब किया जा सकता है.

﴿9﴾ अम्बिया व मुर-सलीन عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ और किरिशतों और मुसल्मान जिन्नात को भी ईसावे सवाब कर सकते हैं.

﴿10﴾ ग्यारहवीं शरीफ़ और र-जबी शरीफ़ (या'नी 22 र-जबुल मुरज्जब को सय्यिहुना ईमाम ज़'फ़रे सादिक عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى के कूडे करना) वगैरा ज़ाहज़ है. कूडे ही में भीर भिलाना ज़रूरी नहीं दूसरे बरतन में भी भिला सकते हैं, इस को घर से बाहर भी ले जा सकते हैं, इस मौकअ पर जो “कहानी” पढी जाती है वोह बे अस्ल है, यासीन शरीफ़ पढ कर 10 कुरआने करीम भत्म करने का सवाब कमाईये और कूडों के साथ साथ इस का भी ईसावे सवाब कर दीजिये.

करमाने मुस्तक़ा: عَلَى اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: जो शप्स मुज पर दुरेदे पाक पढना भूल गया वोह जन्त का रास्ता भूल गया. (طرائق)

«11» दास्ताने अज्जब, शहजादे का सर, दस भीबियों की कहानी और जनाबे सय्यिदह की कहानी वगैरा सब मन घउत किस्से हैं, एन्हें हरगिज न पढा करें. इसी तरह अेक पेम्फ्लेट बनाम “वसियत नामा” लोग तकसीम करते हैं जिस में किसी “शैख अहमद” का ज्वाब दर्ज है येह भी ज़ादी (या’नी नक्ली) है इस के नीचे मजसूस ता’दाद में छपवा कर बांटने की झीलत और न तकसीम करने के नुकसानात वगैरा लिखे हैं उन का भी अे’तिबार मत कीजिये.

«12» औलियाअे किराम رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ की झातिहा के खाने को ता’जीमन “नज़रो नियाज” कहते हैं और येह तभरुक है, इसे अमीर व गरीब सब खा सकते हैं.

«13» नियाज और ईसावे सवाब के खाने पर झातिहा पढाने के लिये किसी को बुलवाना या बाहर के मेहमान को खिलाना शर्त नहीं, घर के अज़राद अगर खुद ही झातिहा पढ कर खा लें जब भी कोई हरज नहीं.

«14» रोजाना जितनी बार भी खाना हस्बे हाल अख़ी अख़ी निय्यतों के साथ खाअें, उस में अगर किसी न किसी बुजुर्ग के ईसावे सवाब की निय्यत कर लें तो पूज है. म-सलन नाशते में निय्यत कीजिये : आज के नाशते का सवाब सरकारे मदीना صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ और आप के जरीअे तमाम अम्बियाअे किराम عَلَيْهِمُ السَّلَام को पढोये. दो पहर को निय्यत कीजिये : अभी जो खाना खाअेंगे (या खाया) उस का सवाब सरकारे गौसे आ’जम और तमाम औलियाअे किराम رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ को पढोये, रात को निय्यत कीजिये : अभी जो खाअेंगे उस का सवाब एमामे अहले सुन्नत

करमाने मुस्तकी على الله تعالى عليه و آله وسلم: जिस के पास मेरा जिक्र हुआ और उस ने मुझ पर दुर्इद शरीक न पढा उस ने जका की. (عبدالرزاق)

ईमाम अहमद रजा भान عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰن और हर मुसल्मान मर्द व औरत को पढोंये या हर बार सत्नी को ईसाले सवाब किया जाये और येही अन्सभ (या'नी जियादा मुनासिब) है. याद रहे ! ईसाले सवाब सिर्फ उसी सूरत में हो सकेगा जब के वोह भाना किसी अख्शी निय्यत से भाया जाये म-सलन ईबादत पर कुव्वत हासिल करने की निय्यत से भाया तो येह भाना भाना कारे सवाब हुआ और उस का ईसाले सवाब हो सकता है. अगर अेक त्नी अख्शी निय्यत न हो तो भाना भाना मुबाह, के ईस पर न सवाब न गुनाह, तो जब सवाब ही न भिला तो ईसाले सवाब कैसा ! अलबत्ता दूसरों को न निय्यते सवाब भिलाया हो तो उस भिलाने का सवाब ईसाल हो सकता है.

«15» अख्शी अख्शी निय्यतों के साथ भाये जाने वाले भाने से पडले ईसाले सवाब करें या भाने के भा'द, दोनों तरह दुरुस्त है.

«16» हो सके तो हर रोज (नफ़अ पर नहीं बल्के) अपनी बिकरी (Sale) का यौथाई फ़ीसद (या'नी चार सो रुपै पर अेक रुपिया) और मुला-उमत करने वाले तन-ज्वाह का माहाना कम अज कम अेक फ़ीसद सरकारे गौसे आ'जम عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْأَكْرَم की नियाज के लिये निकाल लिया करें, ईसाले सवाब की निय्यत से ईस रकम से दीनी किताबें तकसीम करें या किसी त्नी नेक काम में भर्च करें إِنَّ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ ईस की न-र-कतें भुद ही देभ लेंगे.

«17» भस्जिद या मद्रसे का कियाम स-द-कमे जारिय्या और ईसाले सवाब का बेहतरीन जरीआ है.

करमाने मुस्तफ़ा عَلَى اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : जो मुज पर रोजे जुमुआ दुरुद शरीफ़ पढेगा में कियामत के दिन उस की शफ़ाअत करेगा. (क़ुरआन)

«18» जितनों को भी ईसाले सवाब करें अद्लाह عَزَّ وَجَلَّ की रहमत से उम्मीद है के सब को पूरा मिलेगा, येह नहीं के सवाब तकसीम हो कर टुकडे टुकडे मिले. ईसाले सवाब करने वाले के सवाब में कोई कमी वाकेअ नहीं होती बल्के येह उम्मीद है के उस ने जितनों को ईसाले सवाब किया उन सब के मजमूअे के बराबर इस (ईसाले सवाब करने वाले) को सवाब मिले. म-सलन कोई नेक काम किया जिस पर इस को दस नेकियां मिलीं अब इस ने दस मुर्दों को ईसाले सवाब किया तो हर अेक को दस दस नेकियां पढोंयेंगी जब के ईसाले सवाब करने वाले को अेक सो दस और अगर अेक हज़ार को ईसाले सवाब किया तो इस को दस हज़ार दस. وَعَلَىٰ هَذَا الْقِيَاسُ. (और इसी कियास पर)

(बहारे शरीअत, जि. 1, हिस्सा : 4, स. 850)

«19» ईसाले सवाब सिर्फ़ मुसल्मान को कर सकते हैं. काफ़िर या मुरतद को ईसाले सवाब करना या उस को “मईम”, जन्नती, जुल्द आशियां, बेंकठ बासी, स्वर्ग बासी कहना कुफ़्र है.

ईसाले सवाब का तरीका

ईसाले सवाब (या'नी सवाब पढोंयाने) के लिये हिल में निख्यत कर लेना काफ़ी है, म-सलन आप ने किसी को अेक रुपिया भैरात दिया या अेक बार दुरुद शरीफ़ पढा या किसी को अेक सुन्नत बताई या किसी पर ईन्फ़िरादी कोशिश करते हुअे नेकी की दा'वत दी या सुन्नतों बरा बयान किया. अल गरज कोई भी नेक काम किया आप हिल ही हिल में इस तरह निख्यत कर लीजिये म-सलन :

करमाने मुस्तफ़ा : صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : मुज पर दुइडे पाक की कसरत करो बेशक येह तुम्हारे लिये तदारत है. (अहकाम)

“अन्बी में ने जो सुन्नत बताई ईस का सवाब सरकारे मदीना
 صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ को पड़ोये.” अन सवाब पड़ोये
 जाओगा. मजीद जिन जिन की नियत करेंगे उन को भी पड़ोयेगा.
 दिल में नियत होने के साथ साथ ज़बान से कह लेना भी अच्छा है
 के येह सहाबी رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ से साबित है जैसा के हदीसे सा’द
 هذه لَمْ يَسْعُدْ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ إِلَّا مَنْ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ
 या’नी “येह उम्मे सा’द के लिये है.”

ईसावे सवाब का मुख्य तरीका

आज कल मुसलमानों में जुसूसन जाने पर जो इतिहा का तरीका
 राईज है वोह भी बहुत अच्छा है. जिन जानों का ईसावे सवाब करना
 है वोह सारे या सब में से थोडा थोडा जाना नीज अक गिलास में पानी
 भर कर सब कुछ सामने रख लीजिये.

अब :

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ۝

पढ कर अक बार :

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ۝ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ۝ وَلَا
 أَنْتُمْ عِبُدُونَ مَا أَعْبُدُ ۝ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُمْ ۝
 وَلَا أَنْتُمْ عِبُدُونَ مَا أَعْبُدُ ۝ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ۝

करमाने मुस्तफा صلى الله تعالى عليه و اله وسلم : तुम जहां भी हो मुज पर दुइद पढो के तुम्हारा दुइद मुज तक पछोयता है . (طرائق)

तीन बार :

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝
 قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۝۱ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ۝۲ لَمْ يَلِدْ ۝۳ وَلَمْ
 یُؤَلَدْ ۝۴ وَلَمْ یَكُنْ لَهٗ کُفُوًا اَحَدٌ ۝۵

अक बार :

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝
 قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلٰقِ ۝۱ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ۝۲ وَمِنْ شَرِّ
 غَاسِقِ اِذَا وَقَبَ ۝۳ وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِی الْعُقَدِ ۝۴ وَمِنْ
 شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ ۝۵

अक बार :

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝
 قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۝۱ مَلِکِ النَّاسِ ۝۲ اِلٰهِ النَّاسِ ۝۳
 مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ۝۴ الَّذِیْ یُوسَسُ فِی
 صُدُوْرِ النَّاسِ ۝۵ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ۝

करमाने मुस्तक। على الله تعالى عليه و الله وسلم : जिस ने मुज पर दस भरतभा दुइदे पाक पढा अल्लाह उर सो ररभते नाजिल करमाता है. (भुरान)

अक बार :

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ०

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝۱ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝۲ مَلِكِ
يَوْمِ الدِّينِ ۝۳ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ۝۴ اهْدِنَا
الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ۝۵ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۝۶
غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ۝۷

अक बार :

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ०

الَّذِينَ هَدَىٰ لِلتَّقْوَىٰ ۝۱ ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ فِيْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ ۝۲
الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ
يُنْفِقُوْنَ ۝۳ وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَا اُنزِلَ اِلَيْكَ وَمَا اُنزِلَ
مِنْ قَبْلِكَ ۝۴ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُوْنَ ۝۵ اُولٰٓئِكَ عَلٰى هُدًى
مِّنْ رَّبِّهِمْ ۝۶ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۝۷

करमाने मुस्तक: صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: जिस के पास मेरा जिक्र हो और वोह मुज पर दुरुद शरीफ न पढे तो वोह लोगों में से क्यूस तरीन शप्स है. (ज़िब त्रीब)

पढने के बा'द येह पांच आयात पढिये :

﴿1﴾ وَاللَّهُمَّ إِلَهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ﴿١٣﴾

(प ०२, البقرة: १६३)

﴿2﴾ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

(प ०८, الاعراف: ०६)

﴿3﴾ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿١٠٤﴾ (प १७, الانبياء: १०४)

﴿4﴾ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ

اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٢٠﴾

(प ०२२, الاحزاب: ०४)

﴿5﴾ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ۗ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ

آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴿٥٦﴾ (प ०२२, الاحزاب: ०६)

अब दुरुद शरीफ पढिये :

صَلَّى اللهُ عَلَى النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَالْإِلَهِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

صَلَاةً وَسَلَامًا عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ

करमाने मुस्तक। على الله تعالى عليه و الله وسلم : उस शप्स की नाक पाक आवुद छो जिस के पास मेरा जिक छो और वोड मुज पर दुइडे पाक न पडे. (१६)

ईस के बा'द येह आयात पढिये :

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿١٨٠﴾ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ﴿١٨١﴾ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٨٢﴾

(प २३, अल्वफ्त: १८०-१८२)

अब इतिहा पढाने वाला हाथ उठा कर बुलन्द आवाज से "अल इतिहा" कहे. सब लोग आहिस्ता से या'नी धतनी आवाज से के सिई भुद सुनें सू-रतुल इतिहा पढें. अब इतिहा पढाने वाला ईस तरह अ'लान करे : "भीठे भीठे ईस्लामी भाईयो ! आप ने जो कुछ पढा है उस का सवाब मुजे दे दीजिये." तमाम हाजिरीन कल हें : "आप को दिया." अब इतिहा पढाने वाला ईसावे सवाब कर दे.

आ'ला हजरत का इतिहा का तरीका

ईसावे सवाब के अहकाम लिखने से कबल धमामे अहले सुन्नत आ'ला हजरत मौलाना शाह अहमद रजा खान रَحْمَةُ الرَّحْمَنِ عَلَيْهِ इतिहा से कबल जो सूरतें वगैरा पढते थे वोड भी तहरीर की जाती हें :

अेक बार :

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١﴾ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿٢﴾ لَمَلِكِ
يَوْمِ الدِّينِ ﴿٣﴾ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴿٤﴾ اهْدِنَا
الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿٥﴾ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ﴿٦﴾
غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ﴿٧﴾

करमाने मुस्तक़ा: على الله تعالى عليه و الله وسلم: जिस ने मुज़ पर रोजे जुमुआ दो सो बार दुइटे पाक पढा उस के दो सो साल के गुनाह मुआक होंगे. (अलमाल)

अेक बार :

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ۚ لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ ۚ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۚ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ ۚ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ۝ (۲۵۵)

(३प, ॲबक़रे: ॲ००)

तीन बार :

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ (१) اللَّهُ الصَّمَدُ ۝ (ॲ) لَمْ يَلِدْ ۝ (ॳ) وَلَمْ يُولَدْ ۝ (ॲ) وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ۝ (ॴ)

ईसाते सवाब के लिये दुआ का तरीका

या अल्लाह एउंजल ! जो कुछ पढा गया (अगर जाना वगैरा है तो ईस तरह से भी कहिये) और जो कुछ जाना वगैरा पेश किया गया है उस का सवाब हमारे नाकिस अमल के लाईक नहीं बढे

करमाने मुस्तका: صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: मुज पर दुइद शरीक पढो अल्लाह एउजल तुम पर रकमत भेजेगा. (अनमर)

अपने करम के शायाने शान मर्हमत इरमा. और एसे हमारी जानिब से अपने प्यारे मलबूब, दानाअे गुयूब صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ की बारगाह में नज़र पड़ोया. सरकारे मदीना صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ के तवस्सुत से तमाम अम्बियाअे किराम عَلَيْهِمُ السَّلَام तमाम सहाबअे किराम عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان तमाम औलियाअे एजाम رَجَعَهُمُ اللهُ السَّلَام की जनाब में नज़र पड़ोया. सरकारे मदीना صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآलِهِ وَسَلَّمَ के तवस्सुत से सय्यिदुना आदम सफ़ियुल्लाह عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام से ले कर अब तक जितने इन्सान व जिन्नात मुसल्मान हुअे या कियामत तक होंगे सब को पड़ोया. इस दौरान बेहतर येह है के जिन जिन बुजुर्गों को फुसूसन इसावे सवाब करना है उन का नाम भी लेते जाँये. अपने मां बाप और दीगर रिश्तेदारों और अपने पीरो मुर्शिद को भी नाम ब नाम इसावे सवाब कीजिये. (क़ौत शु-दगान में से जिन जिन का नाम लेते हैं उन को फुशी हासिल होती है अगर किसी का भी नाम न लें सिर्फ़ इतना ही कह लें, के या अल्लाह ! इस का सवाब आज तक जितने भी अहले इमान हुअे उन सब को पड़ोया तब भी हर अेक को पड़ोय जाअेगा. (अन شاء الله عزوجل)

अब हस्बे मा'भूल दुआ अत्म कर दीजिये. (अगर थोडा थोडा पाना और पानी निकाला था तो वोह दूसरे पानों और पानी में डाल दीजिये)

करमाने मुस्तक। على الله تعالى عليه و الله وسلم : मुज पर कसरत से दुरदं पाक पढो बेशक तुम्हारा मुज पर दुरदं पाक पढना तुम्हारे गुनाहों के लिये मक्किरत है. (भास्त्र)

जाने की दा'वत की अहम अहतियात

जब भी आप के यहां नियाज या किसी किस्म की तकरीब हो, जमाअत का वक्त होते ही कोई मानेअे शर-ई न हो तो ईन्डिरादी कोशिश के जरीअे तमाम मेहमानों समेत नमाजे बा जमाअत के लिये मस्जिद का रुब कीजिये. बल्के अैसे अवकात में दा'वत ही मत रभिये के बीय में नमाज आअे और सुस्ती के बाईस عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْ जमाअत फौत हो जअे. दो पहर के जाने के लिये बा'द नमाजे जोहर और शाम के जाने के लिये बा'द नमाजे ईशा मेहमानों को बुलाने में गालिबन बा जमाअत नमाजों के लिये आसानी है. मेजबान, भावर्या, जाना तकसीम करने वाले वगैरा सभी को याहिये के जूं ही नमाज का वक्त हो, सारा काम छोड कर बा जमाअत नमाज का अेडतिमाम करें. बुजुर्गों की "नियाज की दा'वत" की मसइकियत में अद्लाह عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْ की "नमाजे बा जमाअत" में कोताही बहुत बडी मा'सियत है.

मजार पर हाजिरी का तरीका

बुजुर्गों की जाहिरि जिन्दगी में भी कदमों की तरफ से या'नी येहरे के सामने से हाजिर होना याहिये, पीछे से आने की सूरत में उन्हें मुड कर देबने की जहमत होती है. लिहाजा बुजुर्गाने दीन के मजारात पर भी पाईती (या'नी कदमों) की तरफ से हाजिर हो कर इरि डिब्ले को

करमाने मुस्तफ़। صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : श्री मुज़ पर अेक दुइद शरीफ़ पढता है अदवाले उस के लिये अेक कीरात अज्ज लिफ्तता है और कीरात उहुद पहाड जितना है. (सुन्नान)

पीठ और साहिबे मज़ार के येहरे की तरफ़ रुफ़ कर के कम अज़ कम यार हाथ (या'नी तकरीबन दो गज़) दूर षडा हो और ईस तरह सलाम अर्ज़ करे :

السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ.

अेक बार सू-रतुल इतिहा और 11 बार सू-रतुल ईश्लास (अव्वल आभिर अेक या तीन बार दुइद शरीफ़) पढ कर हाथ उठा कर उीपर दिये हुअे तरीके के मुताबिक (साहिबे मज़ार का नाम ले कर बी) ईसाले सवाब करे और हुआ मांगे. “अइसनुल वियाअ” में है : वली के मज़ार के पास हुआ कबूल होती है.

(मापूज़ अज़ अइसनुल वियाअ, स. 140)

ईलाही वासिता कुल औलिया का मेरा हर अेक पूरा मुद्दा हो

صَلُّوْا عَلَيَّ الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيَّ مُحَمَّدٍ



गमे मदीना, बकीअ,
मकिरत और बे
हिसाब जन्नतुल
किरदौस में आका
के पडोस का तालिब



28 रबीउल आभिर 1434 सि.हि.

11-3-2013

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ أَتَأْبَدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِمِثْرِ اللَّهِ الرَّخِيمِ

सुन्नत की बहारें

तबलीगे कुरआनो सुन्नत की आलमगीर गैर सियासी तलरीक दा'वते ईस्लामी के मलके मलके म-दनी माहोल में ब कसरत सुन्नतें सीधी और सिपाई जाती हैं, हर जुमा'रात ईशा की नमाज के बाद आप के शहर में होने वाले दा'वते ईस्लामी के हफ्तावार सुन्नतों परे ईजतिमाअ में रिजाअे ईलाही के विये अथी अथी निखतों के साथ सारी रात गुजारने की म-दनी ईस्तिजा है. आशिकाने रसूल के म-दनी काइलों में ब निखते सवाब सुन्नतों की तरबिखत के विये सफर और रोजाना किंके मदीना के जरीअे म-दनी ई-आमात का रिसाला पुर कर के हर म-दनी माह के ईब्तिदाई दस दिन के अन्दर अन्दर अपने यहाँ के जिम्मेदार को जम्अ करवाने का मा'मूल बना लीजिये, **إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ**, ईस की ब-र-कत से पाबन्दे सुन्नत बनने, गुनाहों से नफरत करने और ईमान की डिफाजत के विये कुढने का जेहन बनेगा.

हर ईस्लामी भाई अपना येह जेहन बनाओ के **“मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की ईस्वाह की कोशिश करनी है. **إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ**.”** अपनी ईस्वाह की कोशिश के विये **“म-दनी ई-आमात”** पर अमल और सारी दुनिया के लोगों की ईस्वाह की कोशिश के विये **“म-दनी काइलों”** में सफर करना है. **إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ**



مكتبة المدينة
(مكتبة إسلامية)
SC1286

ISBN 978-969-579-559-0



—: ناشر :—

भक्तबतुल मदीना, डैजाने मदीना, तीकोनी बागीचे के सामने, मिरजापूर,
अहमदाबाद, गुजरात-1, फोन : 9327168200

maktabaahmedabad@gmail.com